

Published by  
DALSUKH MALVANIA  
Secretary,  
PRAKRIT TEXT SOCIETY  
AHMEDABAD-9


Price Rs 30/-

RANJANBEN DALAL  
Vasant P Press  
Ghelabhai's Wadi, Gheekanta,  
AHMEDABAD-1.

Printed by :-

Contents ( forms 5-6 )  
RAMANAND PRESS  
Kankaria Road,  
AHMEDABAD,

आचार्यश्रीशान्तिस्वरिवरचितं  
पुह्लुचंद्रचरियं



सम्पादक :

पं. मुनिश्रीरमणिकविजयः

[ शान्तमूर्तिमुनिपुङ्गवश्रीहंसविजयप्रधानशिष्यपंथ्यासप्रवरश्रीमत्सम्पद्दिजयानां शिष्यः ]

प्रस्तावना-विषयानुक्रम-परिशिष्टादिनिर्माता

पं. अमृतलाल मोहनलाल भोजक

रिसर्च ऑफिसर, भागमप्रकाशन विभाग,

महावीर जैन विद्यालय, बंबई-३६

प्रकाशिका

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्,

अहमदाबाद-९ धाराणसी-५

प्रकाशक :-

दत्तसुख मालवणिया  
सेक्रेटरी, प्राकृत टेकस्ट सोसायटी,  
वाराणसी-५ अहमदाबाद-९

मूल्य रु० ३०/-



मुद्रक :

रंजनधेन दलाल  
बसंत प्रिन्टिंग प्रेस  
पीकंडा, घेलाभाईकी वाडी  
अहमदाबाद-१

विषयावली ( फॉर्म ५-६ )  
रामानन्द प्रेस  
अहमदाबाद

## General Editor's Foreword

Śāntisūri's *Puhaicāmdacariya* (spelled variously as *Puhat*<sup>o</sup>, *Puhai*<sup>o</sup>, *Puhavi*<sup>o</sup>), that is being published here, is a Prakrit *Carita* work composed in 1105 A D The story of Pṛthvīcandra extending over numerous births seems to have been current among the Jainas since about the seventh century Its continuous popularity becomes evident from several Sanskrit, Prakrit and Gujarati works on the same subject (see the Hindi Introduction, pp 7-8) The late\* Panniyās Shri Ramnikvijay Muni, a close associate of the late Āgamaprabhākara Muni Punyavijayaji, has done a great service to the students of Prakrit literature, by editing Śāntisūri's work This edition of the text is based on four manuscripts, three of which are palm leaf MSS of the twelfth century A D

The *Puhaicāmdacariya* is significant from several points of view As a Dharmakathā it occupies an important place in the history of Prakrit narrative literature Several of its embossed illustrative tales present early instances of somewhat-known tale-types and tale-motifs The tale of Viṅgāda and Sumitra (pp 90-97) presents a Jaina version of the so-called Magic Bird-Heart<sup>1</sup> which is some twenty years earlier than that found in the *Doghajī* Commentary of Ratnaprabha, dated 1182 A D Moreover it is considerably inflated and differs from the latter in significant details Śāntisūri has interlaced it with several other well-known motifs The magic kohl changing human beings into animals (here princesses into female camels) and back, found on the seventh floor of a deserted city is familiar to us from the medieval Gujarati versions of the tales of the *Simhāsana-dvātrīṃśikā* The story of the captive princesses offers us the earliest known version of the medieval tale 'Narmadā-tīr-ro Jogi' known in numerous versions from Rajasthan and Gujarat

The tale of Dhana and Dharana (pp 111-113) too embodies an interesting version of The Two Travelers<sup>2</sup> (type 613) The tale of settling the dispute of the four sons of a merchant by an illiterate cowherd (pp 18-20) recurs in several later Jain works in Prakrit and Old Gujarati

The motif of a proverbial expression unexpectedly serving to avert danger at some critical moment (it being further elaborated as the basic line being made up into a full verse with successive complementation from other characters of the story who also pass through a similar situation) is illustrated in the story of Siddhadatta and Kapila (pp 114-117) It has several variations e g in the tale of Āṣāḍhabhūti in the *Pañcalantra*, in the medieval Rajasthani-Gujarati tales of Tīḍā Jōṣī and in several other popular tales

The tale of the foolish son of the village head-man (p 134) is still current in Gujarat and it has been the source of a Gujarati proverbial expression '*puchḍā pakaḍvū*' The tale of the Brahmin boy Keśava (pp 209-211) too is met with elsewhere as one of the quite popular tales of idiots

\* We sorrowfully record here the sad demise of Muni Ramnikvijayji on 15-1-1969-

1 See my paper, 'The Magic Bird-Heart', *Bharatiya Vidya*, 23, 1-4, 1963, pp 99-104, (Gujarati version in 'Śodh ane Svādhyāy', 1965, pp-43-74), also 'Kāṣṭha śeṭh-nī Dṛṣṭānta-kathā', *Lok-Gurjari*, 5, 1968, pp 1-2

2. See S. Thompson, *The folktale*, pp 80-81.



Linguistically *Puhaicandacariya* is noteworthy because of its liberal use of Deśya words. Some of these words were known to us exclusively from Hemacandra's *Deśināmamālā* (or similar collections). Their occurrence in a literary work about fifty years prior to the latter has several interesting implications. It authenticates some of the items of the *Deśināmamālā* which were unknown otherwise. It suggests a source, probably one or more earlier Deśi lexicons, which was commonly available to Śāntisūri and Hemacandra. It also helps to clarify doubts about the precise form and meaning of certain words, उच्छाह उज्जला, उम्मल्ल, किकिय, कीला, कुडिच्छ, कुषर, खोट्टिया, गज्ज, गहर, चवखुरकसणो, जपेच्छय, जोय, क्षामर, तवटकारि, दुक्कहदोस, नल्लय, नासुक्कसिय, पिउली, पीड, पुयाह, रायवुय, रेणी, वणसवाह, वित्त, साउल्ल, हाविर, द्विक्कास and हिला are some of 'the words which illustrate this aspect of the *Puhaicandacariya*. Further a number of words reveal the influence of the then contemporary popular dialects and indicate the emergent trends in the literary diction. उपपरवट्ट, उच्चत्ता, कत्तोच्चय, जाउर, टका, टमालिय, नाणावट्ट, पत्तलि, षडिया can be cited as instances:

In this connection I cannot hold back the temptation of commenting on a few interesting words. At 63,8 occurs पायमूल which is explained by the Tippana as नर्तकजातिविशेष. Now onwards from the eighth century<sup>3</sup> we find in several Prakrit or Old Gujarati works a word पायमूल, पाल, पाभुल in the sense of 'a dancing girl performing at a darbar or a festive occasion'. पायमूल seems to be the earlier form of पाउल, but the etymology remains obscure. The root of पल्लुसण (86,9) 'slipping' is preserved with metathesis in Gujarati लपसवु 'to slip'. In वल्लरे कल्लरे (83,9), कल्लरे seems to be a jingling reduplication of वल्लरे, comparable to Gujarati formations वासण-कूसण, आचर-कूचर etc. In that case the rise of this reduplicative pattern of jingling word-formation can be dated prior to the eleventh century. We have already evidence of early occurrence of another reduplicative type from a poem inscribed on a stone slab from Dhar in Malwa, which offers two instances of the jungle-formation. one with v-(i e b-), कल्लडा-वल्लडा and another with S- (मडण-संडण)<sup>4</sup> Compare also आरपार occurring at p 172, St 596 of the *Doghatti*

At 128, 16 कोज्जर is perhaps a corruption of कोट्टर 'a cavern, a hollow,' as can be seen from the following Apabhramśa version of the Gāthā at 6, 67, occurring at *Siddhahema* 8, 4, 422

जिवँ सुपुरिस तिवँ घघलई, जिवँ नइ तिवँ वलणाई । जिवँ डुगर तिवँ कोट्टरई, हिया विसूरहि काई ॥

Incidentally the context in which the Gāthā referred to above occurs fully bears out my contention that घघल means सकट and not झकट 'quarrel,' which is but a corruption.<sup>5</sup> The Gāthā is meant to corroborate the remark that it is the distinguished persons who are specially subject to calamities ( गरुयाण चिय विषयाओ हुति )

विहूम at 84,30 and वेडुय in the compound सुत्तवेडुय<sup>6</sup> at 116 20 seem to mean 'simulation' ( कपटचेष्टा ).

<sup>3</sup> Cf पविसेतपाउल्लणो (7, 23, p 25) and पविसेति पाउलाइ (26, 1) (p 231) (in a description of celebrations at the birth of prince) in the आख्यानकमणिकोशवृत्ति of Āmradevasūri (1133 A. D.) For Old Gujarati see *Svādhyāya* 5, 1, 1967 p 30. *Pārasaddamahannava* has recorded several occurrences from the *Samarāscakahā*

<sup>4</sup> See *Bharaliya Vidyā*, 17, 3-4, 1907, p. 135, v 47, p 136, v 52.

<sup>5</sup> *Svādhyāya*, 5, 1, 1967, p 32-33,

<sup>6</sup> The same expression occurs in Ratnaprabha's *Doghatti* Commentary on the *Upadeśamālā* (composed in 1182) on p 165, l 11.

For a discussion of उच्चिष्ट 'felt distasteful or disgusting' (underlying उच्चिष्टी, the correct form for उच्चिष्टी at 49, 13) and the interpretation of the relevant Apabhramśa verse see my article in the Journal of Oriental Institute, Baroda, 13, 1, 1963, pp. 17-20.

Lastly the literary style of the *Puṣṭācamācārī* is such that it cannot fail to invite our attention. In numerous descriptive passages it is highly ornate and full of Ślesas and various other figures of speech. Śāntisūri convinces us about his ability to handle the Kāvya diction. He has secured a place among the later Jaina narrative writers and the Campūkāras who kept alive the stylistic traditions of the Sanskrit and Prakrit prose-Kāvya with diminishing esthetic value.

The *Samketa* gloss of Ratnaprabhasūri, given at the foot of the printed text is of great value as it explains most of the difficult words and passages.

We are grateful to Pandit Amratlal Bhojak for writing a learned and informative introduction which touches upon many of the important aspects of the text. A detailed, descriptive Table of Contents and numerous appendices too prepared by him certainly add to the usefulness of the present edition. Even in the editing of the text he had assisted Muni Ramnikvijayaji substantially.

Almost at the last moment when the book was ready for publication, it was decided to add a glossary of Desya and rare words of the text. We thank Prof. Dr. R. N. Shriyan, Head of the Department of Sanskrit and Prakrit, B. M. S. College for Women, Bangalore, for complying with our request and taking special trouble to prepare the Index at a very short notice. The Index incorporates much of the useful material from the *Samketa*. The readers may generously overlook the slight disorder in placing the Index after the Errata.

It is earnestly hoped that this edition of a significant work of Śāntisūri, a worthy contribution of the Late Muni Ramnikvijayaji to the Prakrit scholarship, will receive the attention it deserves.


November 1, 1972  
Ahmedabad.

H C Bhayani

## ग्रन्थानुक्रमः

	पृष्ठांक
General Editor's Foreword	5-7
ग्रन्थानुक्रम.	८
प्रस्तावना	१-३०
सूचना—विशेषशुद्धिपत्रकविषया	३१
विषयानुक्रम	३२-४५
पुहड़चंदचरियं	१-२२२
प्रथमं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानुक्रमः	२२५-३०
द्वितीयं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमः	२३१-३४
तृतीयं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतापभ्रशभाषानिवद्धपद्यानां सविषयस्थलनिर्देशः	२३५
चतुर्थं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतस्तुति-वन्दनानां स्थलनिर्देशः	२३५
पञ्चमं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां वर्णकानामकारादिक्रमेणानुक्रमः	२३५
षष्ठं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतसुभाषितपद्यानामकारादिक्रमेणानुक्रमः	२३६-४१
सप्तमं परिशिष्टम्— पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां सूक्तिरूपाणां गद्य-पद्यांशानामनुक्रमः	२४२-२५०
शुद्धिपत्रकम्—	
अनुपूर्ति—	२५५-
'पुहड़चंदचरिय' अन्तर्गतविशिष्टशब्दानां सूचिः	

## प्रस्तावना



## प्रतिपरिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में कुल चार हस्तलिखित प्रतियों का पूर्णरूप से उपयोग किया है। इन प्रतियों का परिचय इस प्रकार है—

### ‘जे’ संज्ञक प्रति

जेसलमेर के किले में स्थित श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथ मन्दिर के तहखाने में खरतरगच्छीययुगप्रधानाचार्य श्री जिनमद्रसूरि [वि. की १५वीं सदी] द्वारा सस्थापित ‘बडा ज्ञान भण्डार’ के नाम से प्रसिद्ध, जैनज्ञानभण्डार की ताडपत्रीय प्रति है। ‘जेसलमेरस्थ-जैनग्रन्थभण्डार-सूचिपत्र’ [प्रकाशक—जैन वे कौन्फरन्स बम्बई] की सूची में इसका क्रमाङ्क २७१ है। इस प्रति के लेखक या वाचक ने कई स्थानों पर मूलग्रन्थ के कतिपय कठिन शब्दों पर अर्थदर्शक टिप्पणियाँ भी लिखी है। इसके कुल २६० पन्ने हैं। इसकी लम्बाई चौड़ाई  $२७\frac{3}{4} \times २\frac{1}{4}$  इंच है। लिपी सुन्दर और सुवाच्य है। प्रति की स्थिति अच्छी है। अन्तिम २६० वें पत्र के प्रान्त भाग में लेखक को अपूर्ण पुष्पिका भी है। जिससे लगता है कि इस प्रति का २६१ वाँ पत्र भी रहा होगा, जो आज अप्राप्य है। लेखक को अपूर्ण पुष्पिका इस प्रकार है—

“सवत् १२२५ वर्षे पौष शुदि ५ शनौ अघेह श्रीमद्गणहिलपाटके समस्तराजावलीविराजितमहाराजाधिराजपरमेश्वर-परमभट्टारिक उमापतिवरलब्धप्रसाद प्रौढप्रतापनिजभुजविक्रमरणागणविनिर्जितशाकंभरीभौपाल श्रामत् कुमारपालदेवकन्याणविजयि-राज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महामात्य श्रीकुमरसीह श्रीश्रीकरणादौ समस्तमुद्राव्यापारान् परिपंथयति सति ”

इस अपूर्ण पुष्पिका से इतना जाना जा सकता है कि गुर्जरेश्वर महाराजाधिराज श्री कुमारपालदेव के शासनकाल में उनके अनेक महामात्यों में से एक कुमरसीह नाम के महामात्य के शासित प्रदेश में स १२२५ की पौष शुक्ला पचमी शनिवार के दिन यह प्रति लिखाई गई है।

जेसलमेर के ज्ञानभण्डारों को सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का, तथा वहाँ के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की माईक्रोफिल्म लेने का एव अनेक ग्रन्थों की पाण्डुलिपि, पाठमेद आदि तैयार करने कराने का सारा श्रेय पूज्यपाद आगम-प्रभाकर मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी को ही है। क्यों कि इन्हीं की सत्प्रेरणा से तथा पाटननिवासी सेठ श्री केशवलाल किलाचन्दमाई के अथक परिश्रम से जैन श्वेताम्बर कौन्फरन्स ने इस कार्य के लिए करीब पचास हजार रुपयों के खर्च का प्रबन्ध किया था।

इस ज्ञानयज्ञ में पूज्यपाद आगमप्रभाकरजी के साथ प्रस्तुत ‘पुहचदचरिय’ के सशोधक एवं सम्पादक विद्वान् स्व पंन्यासजी श्री रमणिकविजयजी (जो आगमप्रभाकरजी के आजीवन साथी रहे थे) भी थे। इस लम्बी अवधि में पंन्यासजी महाराज ने जो जो साहित्यिक कार्य किये थे उनमें ‘पुहचदचरिय’ की प्रस्तुत प्रति की प्रेसकॉपी भी की थी।

## ‘खं१’ प्रति

यह प्रति खम्भात के श्री शान्तिनाथजी ताडपत्रीय जैनभण्डार में सुरक्षित है। प्राच्यविद्यामन्दिर बडौदा से प्रकाशित इस भण्डार की सूची में इसका क्रमांक २१४ है। ताडपत्र पर लिखी हुई इस प्रति के कुल १८३ पत्र हैं। समग्र प्रति के मध्यभाग के नीचे का भाग तथा एक तरफ की किनारी का भाग चूहे ने काट डाला है। अन्त के कतिपय पत्र जीर्ण अवस्थावाले हैं। १७८ वें पत्र का अर्द्धभाग नष्ट हो गया है। प्रति की स्थिति जीर्ण है। इसकी लिपि सुन्दर एवं सुवाच्य है। इसकी लम्बाई चौड़ाई २८ ७×२५ इंच की है। १८२ वें पत्र के प्रथम पृष्ठ की अन्तिमपंक्ति में ‘पुहइचद-चरिय’ समाप्त होने के बाद प्रस्तुत प्रति को लिखानेवाले की प्रशस्ति का प्रारम्भ होता है। और १८३ वें पत्र के सम्पूर्ण प्रथम पृष्ठ में प्रशस्ति की समाप्ति होती है। इस प्रति के लेखक ने जिस प्रति के उपर से नकल की है उस प्रति के लेखक की भी प्रशस्ति इस प्रति में लिखी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रति के लेखक ने जिस प्रति पर से इसकी नकल की है वह आ० श्री शान्तिसूरिजी ने जिनकी प्रार्थना से पुहइचदचरिय की रचना की थी उन मुनिचन्द्रमुनि के द्वारा लिखी हुई प्रति पर से इसकी नकल की है अर्थात् ग्रन्थकार के शिष्य मुनिचन्द्रमुनि द्वारा लिखी गई प्रति की परम्परावाली प्रति पर से की है। उपरोक्त दो प्रशस्तियों में से ग्रन्थकार के शिष्य श्री मुनिचन्द्रमुनि द्वारा लिखी गई दो पद्योंवाली प्रशस्ति इस प्रकार है—

भग्याम्भोरुड्भानुभिर्भवमहोभृच्छेददम्भोलिभिर्मोहानोकहमातरिश्चभिरलं जालामृताम्भोधिमि ।

विश्वे विश्वकवोन्द्रचक्रतिठकैर्तो केवलं नाम्ना(नामभि)वि(र्वि)भ्राणैर्मनसा च - - (आन्ति)मतुला चारित्रिणा नायकैः ॥ १ ॥

पूत्रैर्निजैर्दलितदर्पककार्मुक्यैर्योऽचीकरत् कृतनतिश्चरणारविन्दे । पृथ्वीविधोश्चरितमुत्तममेतदादौ तेनैव चारुमुनिचन्द्रममा व्यलेखि ॥ २ ॥

अर्थात् भग्यजनरूपी कमल के लिए (विकसित करने में) सूर्य के समान, भवरूपी पर्वत के लिए (तोड़ने में) वज्र के समान, मोहरूपी वृक्ष के लिए (छेदने में) कुहाड़ी के समान, शीलरूपी अमृत के सागर, जगत् के श्रेष्ठ कवियों के समूह में तिलक समान, मुनियों के नायक, कामविजेता, पूज्य और केवल नाम मात्र से ही नहीं किन्तु मन से भी शान्ति धारण करनेवाले ऐसे आचार्य शान्तिसूरि के चरणारविन्द में वन्दन कर जिसने यह सुन्दर ‘पृथ्वीचन्द्रचरित्र’ रचाया उन मुनिचन्द्र मुनि ने यह [प्रति] लिखी है।

ग्रन्थकार आचार्य शान्तिसूरिजी ने ‘पुहइचंदचरिय’ के अन्त में (पृ० २२२ गा० २८९) यह बताया है कि “शिष्य मुनिचन्द्र के वचन से मैंने इस ग्रन्थ की रचना की है।” इसी बात का निर्देश ‘ख०’ १ प्रति के लेखक के द्वारा लिखी गई मुनिचन्द्रमुनि की प्रशस्ति में मिलता है।

‘ख १’ प्रति के लेखक की अपनी खुद की प्रशस्ति इस प्रकार है—

“वन्नड्ढो वरपत्तपत्तसहिओ साहाभिरामो सया, सच्छाओ गुरुपव्वसंनडजुओ आबद्धमूलो भुवि ।

उत्तुंगो फलसाउणेगकलिओ पक्खी-(ण) संवासओ, विअ्झाओ सिरिभिल्लमालत्तणओ वंसोऽत्थि वसोवमो ॥ १ ॥

वंसे तम्मि पवित्तवित्तकलिओ मुत्ताह्ल वाऽमलो, उप्पन्नो वरसेयकित्तिनिल्लओ लोयाण सतोसओ ।

दाणाणंदियसाहु-सावयजणो दीणेसु कंपावरो, सिद्धू णेगमवल्लहो य पवरो सिट्ठी पसिद्धो जणे ॥ २ ॥”

गुज्जरवि-(ल)याहरणे घण-कणयसमिद्धिसपयाकलिए । गामे समीभिहाणे जेणाअम्मम्मि संवसियं ॥ ३ ॥

तस्सासी वररूवभूसियतणू सीएव सीलव्वया, लज्जा-दाण-दया-विवेयमवण सम्मत्तत्ते रया ।

निच्चं देवगुरूण पूयणपरा भत्ता सया भत्तुणो, भज्जा संपइसन्निया य सुहया लच्छि व्व —(सा)रगिणो ॥ ४ ॥

दक्खो सूरुो चाई विणयजुओ नाण-रूवसंपन्नो । रवल्लिगनामा सिट्ठी अंगरुहो तेसि सजाओ ॥ ५ ॥

भज्जा तेण सुधम्मधम्मकलिया लायन्नपुन्नोदही, दक्खिन्नस्स गिहं दयाय भवणं दीणेसु कपालया ।

सीलालंक्रियविग्गहा सुचरिया चित्तेण तुंगासया, उव्वूढा इह छद्दु—(इ) त्ति पवरा खाड गया मज्जणे ॥ ६ ॥

तीए जाया पुत्ता सञ्जाय-ञ्जाण-दाणकयचित्ता । देव-गुरुपूयणरया साहम्मियवच्छला सुहया ॥ ७ ॥

पढमो ताण पसिद्धो पासडनामो य नाहडो वीओ । तइओ सिद्धू सच्छो तुरिओ उण आमिगो दक्खो ॥ ८ ॥

पंचमओ पुण सोढु विक्खाओ सज्जणाण मज्झग्ग्मि । भयणीओ दोन्नि तेसि सजाया वंधुयणपुज्जा ॥ ९ ॥

चानणनामा पढमा बीया तह पाहुय त्ति विक्खाया । सीलालंक्रियदेहा जिणधम्मरया सया काल ॥ १० ॥

भत्तारभत्ता जिणधम्मजुत्ता जाऊभिहाणा अह नाहडस्स । जाया सुजाया वरसीलवता सिद्धूयभज्जा तह वालयक्खा ॥ ११ ॥

जा—(या)—(पु)णो मोहिणिनामधेया भज्जा विणीया इह आमिगस्स । लच्छीहरस्सेव जहेव लच्छी सोढुयभज्जा लखमी पसिद्धा ॥ १२ ॥

विन्नाण-नाणकुसला विक्खाया नाहडस्स दो तणया । पाजय-चाइडनामा सपत्ता रूव-गुणकलिया ॥ १३ ॥

चदो इव जुन्हाए धवलितो निययमदिर सहसा । चंदम्पहु त्ति तणओ संजाओ सोढुदेवस्स ॥ १४ ॥

अन्नया सोढुएणें चितिय हियए सुह । “ कायव्वा विउसा धम्मो सो य नाणाओ जायए ॥ १५ ॥

.. . वत्थुसाहणपर नाण सुहाणं निही, नाण सिद्धिपुरधिसगमकर नाण विवेयावह ।

नाण दाणपहाणमग्गिमगुण नाण नयासावह, नाण कम्मविओगकारणमहो ! नाणं च दीवोवम ॥ १६ ॥

नाण विणा नो परमत्थि अन्नं मुत्तस्स ससाहगमेव वत्थू । लेहावणे तस्स समुज्जमो ता जुत्तो सया भव्वजणाण छोए ॥ १७ ॥”

इइ सोऊण(सोइऊण) एय पुहइ(ई)चदस्स राइणो चरिय । बहुविहकज्ञानिवद्ध जिहाविय सोढुदेवण ॥ १८ ॥

कीलो सेसोत्तिमग तदुवरि धरणीचक्कम तस्स मेरू थासो उंडोवमो सो हिमगिग्विलय कप्पर खीरसिद्धू(धू) ।

एव विस्स कुलालोवगरणतुलणा धारए जाव रम्म तावेय पोत्थयं भो ! जणियजणमणाणदण नदउ त्ति ॥ १९ ॥

सन्वत् १२१२ वर्षे ज्येष्ठ शुदि १४ गुरावधेइ श्रीमदणसिंह(डिल)नयरसमावासे समधिगतपंचमहाशब्दवाधमान चौदक्यकुलकमलकलिकाविकास कर्नाटरायमानमर्दनकर सपादलक्षवनदहनदावानल मालवे राष्ट्रे निजाजाया सस्थापनकर मूलराजपट्टोदहनधुराधौरैय पार्वतीप्रियवरलब्धप्रसादं इत्यादि समस्तराजावलीमालालंकारविराजमानश्रीकुमरपालदेवविजयराज्ये तत्पादावाप्तप्रसादमहाप्रचंडडनायकश्रीवोसरिलाटदेशमडके मही-दमुनयोरतगळे समस्तव्यापारानु(न्) परिपथयतीत्येतस्मिन् काले अणेरग्रामे नियमसयमस्वाध्यायध्यानानुरतपरमभट्टारकवाचार्यश्रीमदजितसिंहसूरिकृते श्रावकसोढुकेन परमश्रद्धायुक्तेन पृथ्वीचन्द्रचित्रपुस्तक विशुद्धबुद्धिना लिखापितं । लिखितं च पठितमदनसिंहेनेति ॥ .. ॥ मगलं महाश्री ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥”

इस प्रशस्ति के अन्त में आये हुए गद्यसदर्भ से पता लगता है कि गुर्जेश्वर कुमारपालदेव के शासनकाल में उनके वीसरि नामके दण्डनायक के अधिकारवाले प्रदेश में, मही और दमुना नदी (दमनगगा) के बीच बसे हुए अणेर ग्राम के निवासी श्रेष्ठो सोढुक श्रावक ने आ० श्री अजितसिंहसूरि के लिए यह पृथ्वीचन्द्रचित्र लिखाया है और प मदनसिंह ने उसे लिखा है ।

इस प्रशस्ति के १९ पद्यों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

भिल्लमालवश १ । सिद्धू नामके श्रेष्ठी ने अपना समस्त जीवन समी नामके गांव में बिताया २-३ । सिद्धू श्रेष्ठी की संपर्द=संप्रति नामकी पत्नी ४ । सिद्धू और संप्रति का रवलिग नाम का पुत्र ५ । रवलिग की छहुई नामकी पत्नी ६ । इस दम्पति के (रवलिग-छहुई के) पासड, नाहड, सिद्धू, आमिग और सोह नाम के पांच पुत्र तथा चानण और पाहुया नाम की दो पुत्रियाँ थी ७-१० । नाहड की जाऊ नामकी, सिद्धू की वाहया नामकी, आमिग की मोहिनी नामकी और सोह की लखमी नाम की भार्या थी ११-१२ । नाहड के पाजय और चाहड नाम के दो पुत्र थे १३ । सोहदेव (सोह) का चन्द्रप्रम नामक पुत्र था १४ । ज्ञान की महिमा का विचार करके सोह (सोहदेव) ने पृथ्वीचंद्रचरित्र की यह प्रति श्री अजितसिंहसूरि के लिए लिखाई १५-१८ । यह प्रति यावच्चन्द्रदिवाकरौ आवाद रहे १९ ।

इस प्रति को लिखानेवाले सोह (सोहदेव) के चार सहोदर भाई थे । उनमें एक का नाम सिद्धू भी है और उसके पितामह का नाम भी सिद्धू है इस परसे जो आज भी कुछ खानदान में पितृमह और पौत्र का नाम एक सरीखा रखने में आता है उसकी परम्परा प्राचीन है यह समझा जा सकता है ।

इस प्रति में भी ग्रन्थगत क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को समझने के लिए टिप्पणियाँ लिखी हैं ।

### ‘खं२’ प्रति

यह भी उपरोक्त भण्डार की ताडपत्रीय प्रति है । भण्डार की सूची में इस प्रति का क्रमाङ्क २१५ है । इसकी लम्बाई चौड़ाई २७ ७ × २ २ इंच प्रमाण है । इसकी स्थिति जीर्ण है और उसके बाध चार पत्र तथा अन्तिम पत्र (२१६ वाँ) अप्राप्य है । इससे इसका निश्चित लेखन सवत् नहीं जाना जा सका । किन्तु लिपि के आकार-प्रकार से अनुमान किया जा सकता है कि यह प्रति विक्रम की १२ वीं सदी के अन्त में या तेरहवीं सदी के प्रारम्भ के वर्षों में लिखी हुई होनी चाहिए । पृथ्वीचन्द्रचरित्र में आनेवाले प्रत्येक भव की समाप्ति पर इस प्रति में सुन्दर सुशोभन बनाये हैं । इस प्रति में भी अनेक स्थलों पर ग्रन्थगत क्लिष्ट शब्दों का अर्थ बतानेवाली टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं ।

### ‘आ०’ प्रति

यह प्रति अहमदाबाद-शामला की पोळ के श्री पार्श्वचन्द्रगच्छीय उपाश्रय में स्थित प० पू० आ० श्री भ्रातृचन्द्रसूरि जैन ज्ञानभण्डार में सुरक्षित है । कागद पर लिखी गई इस प्रति के ९९ पत्र हैं । इसकी लिपि सुन्दर और सुवाच्य है । स्थिति अच्छी है । इसकी लम्बाई चौड़ाई १३ ३/४ × ५ १/४ इंच प्रमाण है । प्रत्येक पृष्ठ में दोनों तरफ पीली लकीर और उस पीली लकीर के दोनों तरफ लाल तथा काली श्याही की लकीरें (बोर्डर) अङ्कित हैं । तथा प्रत्येक पृष्ठ के उपर नीचे की सात सात पंक्तियों को छोड़कर मध्य की पाच पंक्तियों के भीतर के मध्य भाग में सुशोभित रूप से अलिखित-कोरा भाग रखा है । उसमें भी लाल पीले रंग के शोभन किये हैं । तथा प्रत्येक पत्र के द्वितीय पृष्ठ के दोनों तरफ के हासियों के मध्यभाग में भी लाल पीले शोभन किये हैं । प्रत्येक पत्र के प्रत्येक पृष्ठ में १९ पङ्क्तियाँ हैं । प्रत्येक पंक्ति में कम से कम ६३ और अधिक से अधिक ७६ अक्षर हैं । ९४ वें पत्र के दूसरे पृष्ठ की १६ वीं पंक्ति में पृथ्वीचन्द्रचरित्र के पूर्ण होने के बाद प्रति लिखानेवाले आचार्य की पुष्पिका इस प्रकार है—

“ गथसिलोपमाणं सत्त सहस्साइ पंच य सयाइं । इय पुहइचंदचरिए विणिच्छियं पायसो गणिउ ॥

अंकतोऽपि ७५०० ॥ श्री० ॥ सवत् १५१२ वर्षे ।

पक्षेन्द्रिन्द्रियचन्द्रवत्सरमिते श्रीचित्रकूटाचले, पुण्ये भाद्रपदे कुजस्य दिवसे शुद्धे नवम्यां तिथौ ।

पृथ्वीचन्द्रचरित्रमेतदखिल पूर्णं यथार्थं मुदा, हर्षाद् हेमसमुद्रसूरिगुरुणा सलेखयामास च ॥ १ ॥

भद्रं श्री नागपुरीयमुनीश्वराणां । कल्याणमस्तु श्री पार्श्वप्रसादात् ॥

अर्थात् वि० सं० १५१२ के भाद्रपद शुक्ला ९ मंगलवार के दिन पृथ्वीचन्द्रचरित्र की यह प्रति आ० श्री हेम-समुद्रसूरि ने चित्तौड़ दुर्गमें लिखाई है ।

उपर की प्रशस्ति के बाद इस प्रति में श्रीरत्नप्रभसूरिविरचित ‘पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत’ लिखा है । प्रति के ९४ वें पत्र के दूसरे पृष्ठ की १८ वीं पंक्ति से ‘सकेत’ का प्रारंभ होता है और ९९ वें पत्र के दूसरे पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में पूर्ण होता है । ‘सकेत’ पूर्ण होने के बाद प्रति के लेखक ने इस प्रकार लिखा है—

“ सर्वांकप्रमाण ॥ ८००० [ख]खेंद्रियाव्विसह्यश्लोकैः ॥ छ ॥ श्री ॥ अष्टौ सङ्खांकमिते समस्ते ग्रन्थेऽत्र पृथ्वी-शशिनश्चरित्रे ॥ ”

स्व-स्व-इन्द्रिय अव्वि अर्थात् पृथ्वीचन्द्रचरित्र मूलग्रन्थ के ७५०० श्लोक के साथ ‘सकेत’ के श्लोकों को मिलाने पर उसकी सख्या ८००० होती है । इससे पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत का श्लोकप्रमाण ५०० है । यह स्पष्ट होता है ।

आ० श्री रत्नप्रभसूरिकृत पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत की प्रति अद्यावधि अनुपलब्ध थी । हा, बृहत्टिप्पनिका में इसका निर्देश हुआ है ।

पृथ्वीचन्द्रचरित्र के पाठकों को एव प्राकृतभाषा के अभ्यासियों को अच्छी तरह से उपयोगी हो सके ऐसी यह छोटी सी कृति प्राप्त हुई है यह आनन्द का विषय है । इसीसे ही ‘भ्रा०’ सज्ञक प्रति का विशेष प्राधान्य है । इस प्रति में भी अनेक स्थलों में मूत्रग्रन्थ के विलग शब्दों पर अर्थदर्शक टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं ।

\*

### संशोधन

इस ग्रन्थ के सम्पादकजी ने उपर्युक्त चार प्रतियों में से ‘जे०’ सज्ञक प्रति के उपर से ‘पुहइचंदचरिय’ की मुद्रणार्ह कापी की थी । अतः प्राकृत शब्दों में आने वाले ह-भ, क-ग-य और त-द-य-अ आदि वर्णों को ‘जे०’ सज्ञक प्रति के ही स्वीकृत कीये है । जहाँ जहाँ ‘जे०’ प्रति के पाठ की अपेक्षा प्रत्यन्तर के पाठ अधिक उपयोगी लगे हैं वहाँ वहाँ ‘जे०’ प्रति के पाठको नीचे टिप्पणी में रखकर प्रत्यन्तर के पाठ को मूल में स्वीकृत किये हैं । ऐसे मूल में स्वीकृत प्रत्यन्तर के पाठ प्रायः ‘खं १’ प्रति के हैं ।

उपरोक्त चारों प्रतियों में कठिन शब्द के अर्थ को बताने वाली जो टिप्पणियाँ हैं उनमें जो जो टिप्पणियाँ उपयोगी लगी हैं उन्हें यथास्थान पर उन उन प्रतियों की सज्ञा के साथ नीचे लीख दी है । जिन टिप्पणियों का अर्थ ‘सकेत’ में ही स्पष्ट हो जाता है उन टिप्पणियों को छोड़ दिया गया है । क्यों कि अर्थहीन दृष्टि से इसका कोई महत्त्व नहीं था । ‘जे०’ सज्ञक प्रति की टिप्पणियों में कहीं २ ग्रन्थान्तर के अवतरण देकर मूल के वक्तव्य को अधिक स्पष्ट किया है इस कारण से इस प्रति की टिप्पणियों का प्राधान्य और भी बढ़ जाता है ।



पृथ्वीचन्द्रचरित्र में स्थान स्थान पर आने वाले कठिन शब्दों का 'संकेत' में अर्थ दिया गया है। 'आ०' संज्ञक प्रति में एकसाथ लिखे हुए 'सकेत' में से मूल के जिन जिन पाठों पर 'सकेत' के अर्थ हैं उन उन पाठों पर टिप्पणियों के अंक देकर नीचे 'संकेत' का अर्थ " " ऐसे दो अवतरण चिह्नों के मध्य में दिया है और उसके पहले यह अर्थ 'सकेत' का है वह जानने के लिए 'सङ्केत' ऐसा सम्पादकजी ने स्वत लिखा है। साथ ही सम्पादकजी ने 'सकेत' की मात्र एक ही प्रति मिलने के कारण और वह भी प्रमाण में शुद्ध न होने से जिन पर 'संकेत' के अर्थ हैं उन मूलग्रन्थ के स्थल खोजने में धीरज और सावधानी रखकर यथास्थान पर 'सकेत' के पाठ नीचे टिप्पणी में दिये हैं।

मूलग्रन्थ में और टिप्पणियों में ( ) ऐसे, [ ] ऐसे और—( ) ऐसे चिह्नों में जो पाठ दिये हैं उनकी और अन्य भी संशोधन सम्बन्धी जानकारी के लिए 'प्राकृत ग्रन्थ परिषद्' के तीसरे ग्रन्थाङ्क रूप से प्रसिद्ध 'चउपन-महापुरिसचरियं' ग्रन्थ की प्रस्तावना के ३७ वें पृष्ठ को देखने का सूचन पाठकों से करता हूँ।

जिन टिप्पणियों के आगे या पछे किसी भी प्रति की सज्ञा न हो वें टिप्पणियाँ सम्पादकजी की ही लिखी हुई हैं—सा समझा जाय ( देखो पृ० २ टि० ५, पृ० ३ टि० ५, पृ० १५ टि० १, पृ० २०२ टि० २ )।

\*

### परिशिष्ट परिचय

इस ग्रन्थ के अन्त में सात परिशिष्ट दिये गये हैं। जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

प्रथम परिशिष्ट [ पृ० २२५ से २३० ]

इस ग्रन्थ में आये हुए नग, नगरी, उद्यान, नृप, श्रेष्ठी आदि समग्र विशेष नामों को प्रत्येक के परिचय और स्थान-सूचक पृष्ठांक के साथ अकारादि क्रम से इसमें दिये हैं।

द्वितीय परिशिष्ट ( २३१ से २३४ )

इसमें प्रथम परिशिष्ट में आये हुए विशेषनामों को कुल ४६ विभागों में विभक्त कर उन विभागों को अकारादि क्रम से बताये हैं और उसके बाद प्रत्येक विभाग में आनेवाले विशेषनामों को उस उस विभाग के नीचे दिये हैं।

तृतीय परिशिष्ट ( २३४ वाँ पृष्ठ )

इस ग्रन्थ में अपभ्रंशभाषानिवद्ध कुल २३ पद्य हैं। इनका, विषय और स्थानदर्शक पृष्ठांक के साथ इस परिशिष्ट में निर्देश किया है।

चतुर्थ परिशिष्ट ( पृ० २३५ वाँ )

इस ग्रन्थ में जहाँ जहाँ श्रुत, सरस्वती, जिन और मुनि आदि की स्तुति-वदना आती है उनका उनके पृष्ठांक के साथ इस परिशिष्ट में निर्देश किया है।

पंचम परिशिष्ट ( पृ० २३५ वाँ )

इस ग्रन्थ में ऋतु, प्रमदवन, अटवी, उद्यान, कान्तार, स्वयंवरमण्डप, जन्मोत्सव, पाणिग्रहण, नृप, राज्ञी, जिनमन्दिर, देश, नगर, नगरी, और सूर्योदय आदि के हृदयंगम वर्णन है। ऐसे कुल ६७ वर्णकों का उनके पृष्ठांक के साथ इस परिशिष्ट में निर्देश किया गया है।

## षष्ठ परिशिष्ट (पृ० २३६ से २४१)

इस ग्रन्थ में आई हुई विविधविषयक कुल ४२१ सुभाषित गाथाओं के आद्यचरण, उसके विषय और स्थानदर्शक पृष्ठांक के साथ, अकारादिवर्णक्रम से इस परिशिष्ट में दिये हैं।

## सप्तम परिशिष्ट (पृ० २४२ से २५०)

प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध उक्तिरूप से आये हुए गद्य-पद्यांश, उनके विषय और स्थाननिर्देश के साथ, अकारादि-वर्णक्रम से अक्षरशः इस परिशिष्ट में दिये हैं।

\*

## विविध पृथ्वीचन्द्रचरित्र

मेरे स्वल्प अन्वेषण में अन्योन्य भिन्न कथावस्तुवाले दो परम्परा के पृथ्वीचन्द्रचरित्र ज्ञात हुए हैं। एक आ० श्री शान्तिसूरि रचित प्राकृतभाषानिवद्ध पृथ्वीचन्द्रचरित्र जो पाठकों के हाथ में है। इसकी कथावस्तु का अनुसरण करके अनेक जैन विद्वानों ने संस्कृत और गुजराती भाषा में पृथ्वीचन्द्रचरित्र की रचना की है। दूसरी परम्परा का पृथ्वीचन्द्रचरित्र है—माणिक्यसुन्दरसूरिकृत गुजराती भाषानिवद्ध। इस चरित्र की कथावस्तु का अनुसरण करके अन्य जैन विद्वानों ने गुजराती और संस्कृत में पृथ्वीचन्द्रचरित्र की रचना की है।

प्रथम परम्परावाले पृथ्वीचन्द्रचरित्र की सूची इस प्रकार है—

१. पृथ्वीचन्द्रचरित्र, कर्ता—आचार्य शान्तिसूरि, भाषा प्राकृत, रचनाकाल—वि सं. ११६१। यह चरित्र पाठकों के हाथ में है।
२. पृथ्वीचन्द्रचरित्र, कर्ता—खरतरगच्छीय जयसागरगणि, भाषा संस्कृत, रचनाकाल—वि० सं० १५०३, यह २६५४ श्लोक प्रमाणवाला ग्रन्थ है और अप्रकाशित है।
३. पृथ्वीचन्द्रचरित्र, इसकी रचना वि सं १५३७ में पूर्णतल्लगच्छीय श्री रत्नसागरगणि ने संस्कृत में की। इस ग्रन्थ का श्लोक प्रमाण १८४६ है। इसे यशोविजय जैन ग्रन्थमात्र (भावनगर) ने वि सं १९७६ में प्रकाशित किया है। इसके सम्पादक न्या न्या प्रवर्तकजी श्री मंगलविजयजी हैं।
४. पृथ्वीचन्द्रचरित्र, वि. सं १८८२ में संस्कृत भाषा में प रूपविजयगणि ने इसकी रचना की। ५९०१ श्लोक-प्रमाणवाले इस ग्रन्थ का प्रकाशन ए एम एण्ड सन्स पालीताणा की तरफ से हुआ है।
५. पृथ्वीचन्द्रचरित्र, वि सं १८०७ में कडवागच्छीय श्री लावाशाह ने पृथ्वीचन्द्र[गुण]सागरचरित्रवालावबोध के नाम से इसकी गद्य में रचना की है। इसकी भाषा गुजराती है। इस कृति विषयक जानकारी 'जैनगुर्जरकविओ' भाग ३ खण्ड २ पृष्ठ १६६८ में से ली है।

१-श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर (पाटन) में स्थित श्री सद्य जैन ज्ञानभण्डार में इस ग्रन्थ की प्रति है; इसमें श्लोकप्रमाण २७७४ है, इस प्रति का क्रमांक १६८० है।

२-पृथ्वीचन्द्र और गुणसागर ये दो कथानायक होने से यह चरित्र पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरचरित्र के नाम से भी प्रसिद्ध है।

उपरोक्त पृथ्वीचन्द्रचरित्रों के अलावा एक पुरानी गुजराती भाषा में रचा हुआ पृथ्वीचन्द्रचरित्रवालावबोध है। इसकी विक्रम की १६ वीं सदी में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण प्रति कई वर्ष पूर्व मैंने पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी के पास जयपुर में देखी थी। समभव है कि यह बालावबोध आ० शान्तिसूरिरचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र के आधार से ही तैयार किया हो। क्योंकि यह पोथी लगभग सौ पन्ने की थी।

यहाँ जिन पृथ्वीचन्द्रचरित्रों का परिचय दिया है वे ग्यारह भवात्मक हैं। अन्तिम ग्यारहवें पृथ्वीचन्द्र-गुणसागर के भव को बतानेवाली पुरानी गुजराती में रची हुई कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं —

१ वि. स. १६९६ में तपागच्छीय प. श्री भानुचन्द्रवाचक ने पृथ्वीचन्द्ररास की रचना की। इसकी प्रति श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर (अहमदाबाद) के हस्तलिखित भण्डार में भी सुरक्षित है।

२ वि. स. १५५६ से पूर्व रचा हुआ अज्ञात कर्तृक पृथ्वीचन्द्र-गुणसागररास। इस छोटी सी कृति की जानकारी 'जैन गुर्जरकविओ' भाग ३ खं. १ के ४३७ पृष्ठ में से ली है। इसकी विक्रमीय १७ वीं सदी में लिखी हुई एक प्रति ला. द. विद्यामन्दिर के भण्डार में है।

३ जीवविजयकृत पृथ्वीचन्द्रसञ्ज्ञाय। यह रचना छोटे रास जैसी है। यह कृति श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञान-मण्डार (पाटन) में सुरक्षित श्री शुभवीर जैन ज्ञानमण्डार के सिवाय अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। इस प्रति के पत्र पाच है। अनुमानत इसका लेखनसमय वि० की १९ वीं सदी का हो ऐसा लगता है। पाटण भण्डार की सूची में इसका क्रमांक ५५८२ है।

यदि विशेष अन्वेषण किया जाय तो उपरोक्त रचनाओं के सिवाय पृथ्वीचन्द्र चरित्र की अन्य रचनाएं भी अन्यान्य ज्ञान भण्डारों से उपलब्ध होना असम्भव नहीं है।

दूसरी परम्परावाले अर्थात् माणिक्यसुन्दर कृत पृथ्वीचन्द्रचरित्र की कथावस्तुवाड़े अन्यान्य विद्वानों द्वारा रचे गये पृथ्वीचन्द्रचरित्र की सूची इस प्रकार है —

१ वि. स. १४७८ में गद्यगुजरातीभाषानिवद्ध श्री माणिक्यसुन्दररचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र। इस कृति का अपरनाम 'वाग्बिलास' है। और वह डॉ० भूपेन्द्र त्रिवेदी और डा० अनसूया भूपेन्द्र त्रिवेदी द्वारा ई० स० १९६६ में सुसम्पादित होकर मुद्रित हुआ है।

२ वि. स. १५४५ में पद्यगुजरातीभाषानिवद्ध श्री सोमदेव अथवा श्री महेन्द्रसूरिरचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र। इस कृति का अन्यत्र भी कहीं उल्लेख हुआ है यह मेरी जानकारी में नहीं है। इसकी एक मात्र प्रति श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर (अहमदाबाद) में स्थित अनेक हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रहों में से श्री ला० द० विद्यामन्दिर के तरफ से खरीदे हुए ग्रन्थसंग्रह में है। इसका क्रमांक ४३४९ है। इस क्रमांकवाले गुटके में पृथ्वीचन्द्रचरित्र के सिवाय दूसरी अनेक कृतियाँ भी हैं। अन्त में लेखन संवत् नहीं है किन्तु अनुमान से कहा जा सकता है कि यह प्रति विक्रम की १७ वीं सदी में लिखी हुई होगी। इस अपरिचित कृति का परिचय इस प्रकार है — यह लघु ग्रन्थ चार अधिकारों में रचा हुआ है। ग्रन्थ के अन्त में कर्ता के नाम को बतानेवाला पद्य पाठ और गद्यसंस्कृत में लिखी हुई पुष्पिका का पाठ इस प्रकार है —

“पुण्यप्रबन्ध ए सामली, जे नित धर्म कर्तते। सोमदेव कहड तिहा(१) हे) धरि, ऋद्धि वृद्धि निगुहंति ॥

-पनरपयालइ सवड(छ)गइ, मेडतापुरी रगि। पृथ्वीचन्द्रचरित्र रचिउ, आणीय ऊळटि अगि ॥

चउपई—

सोमदेव सहगुरु पभणंति, इणिपरि वंछित पुण्य फलंति । भवीयण भावि सुणउ सुविचार, ए चउथउ हूअउ अधिकार ॥

इत्याचार्यश्रीमहेन्द्रसूरिविरचिताया प्राकृतपद्यमयश्रीपृथ्वीचन्द्रकथायां ज्ञानोत्पत्ति-सिद्धिसाम्राज्यप्रापणो नाम चतुर्थ[.] अधिकार[.] समाप्त[.] ॥ ”

उपर की सक्षित प्रशस्ति के पद्यभाग में कर्ता का नाम सोमदेव है जब कि गद्य भाग में कर्ता का नाम महेन्द्रसूरि है । आष तीन अधिकारों के अन्त में भी उपर बताये गये चौथे अधिकार जैसा ही कर्ता का नाम सूचित करनेवाला पद्य और गद्य संदर्भ है । अर्थात् चारों अधिकारों के अन्त में कर्ता का नाम पद्यविभाग में सोमदेव और गद्यविभाग में महेन्द्रसूरि है । इसके अतिरिक्त प्रारंभ की “पुण्यकथा सवायण भली नव-नवरसिंहि रसाल । सोमदेव शासत्रा (१ शाखो) थकी, पभणइ गुणिहि रसाल ॥ ” इस छठी कड़ी में भी कर्तानि अपना नाम सोमदेव बताया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस समय यह ग्रन्थ रचा गया था उस समय कर्ता का नाम सोमदेव था ही किन्तु आचार्यपद प्राप्त करने के बाद उनका नाम महेन्द्रसूरि होना चाहिए । इस कारण से सोमदेव के आचार्यपद प्राप्त करने के बाद इस रचना की जो नकलें हुई होंगी उनकी गद्यपुष्पिका में सोमदेव और महेन्द्रसूरि की अभिन्नता बताने के लिए, कर्ता का नाम महेन्द्रसूरि लिखाया होगा । इस प्रकार के एक ही ग्रन्थकार के दो नाम के उदाहरण जैनग्रन्थों में प्राप्त होते हैं<sup>१</sup> । इस ग्रन्थ की रचना मेड़ता(राजस्थान) में हुई है ।

३ वि० सं० १५५७ में रचा हुआ सस्कृतभाषानिवद्ध तपगच्छीय मुनि श्री लब्धिसागरकृत पृथ्वीचन्द्रचरित्र । यह चरित्र भी श्री माणिक्यसुन्दररचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र की कथावस्तु पर से रचा हुआ है, और वह वि० सं० १९७५ में पण्डित श्रावक श्री हीरालाल हंसराज द्वारा मुद्रित हुआ है ।

\*

### श्री शान्तिस्वरिकृत पुद्गलचंद्रचरिय

गद्य-पद्यात्मक प्राकृतभाषानिवद्ध यह पृथ्वीचन्द्रचरित्र वीर स १६३१ (वि सं ११६१<sup>१</sup>) में रचा हुआ है । इसकी रचनागैली प्रासादिक और प्रौढ है । तत्कालीन अनरुचि का अनुसरण करके भिन्न भिन्न रुचिवाले वाचक और श्रोताओं के रस को सुरक्षित रखनेवाले ग्रन्थगत प्रसंगनिरूपण और विविध वर्णनों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समग्र प्राकृत कथा-चरित्रों में इस रचना का अपना विशेष प्राधान्य है । इस चरित्र की रचना के बाद वाचन-अभ्यास-व्याख्यान आदि की दृष्टि से इसका प्रचार-प्रसार भी विद्वानों और श्रोताओं में खूब हुआ । इस ग्रन्थ की रचना के बाद विक्रम की १९ वीं सदी की अवधि में बीच बीच में जैन विद्वानों ने प्रस्तुत ग्रन्थ की कथावस्तु को मुख्य रखकर सस्कृत और गुजराती भाषा में अन्यान्य चरित्रों की रचना की है । इसीसे ही एतद् विषय के

१-इसके उदाहरण इस प्रकार हैं—श्री पार्श्वदेवगणि और श्री श्रीचन्द्रसूरि के ऐक्य के लिए देखिये प्राकृतग्रन्थपरिषद् के १० वें ग्रन्थरूप से प्रकाशित ‘नन्दिसूत्रम्-हरिभद्रसूरिकृतद्विसिद्धित’ की प्रस्तावना पृ० ५, तथा श्री देवेन्द्र(मुनि) और श्री नेमिचन्द्र-सूरि के ऐक्य के लिए देखिये प्राकृतग्रन्थपरिषद् के पाचवें ग्रन्थाङ्क रूप से प्रकाशित ‘आख्यानकमणिकोश’ की प्रस्तावना पृ० ७, तथा श्री गुणचन्द्रगणि और श्री देवभद्रसूरि के ऐक्य के लिए देखिये श्री आत्मानन्द जैन ग्रन्थमाला(भावनगर) के ९१ वें ग्रन्थाङ्क रूप से प्रकाशित ‘कहारयणकोश’ की प्रस्तावना का पत्र ६ से ८ ।

अभ्यासी और श्रोताओं की अभिरुचि जानी जा सकती है। श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर (पाटन) में सुरक्षित श्री सागरगच्छ जैन ज्ञानभण्डार में विक्रम की १५ वीं सदी के अन्त में या १६ वीं सदी के प्रारम्भ में लिखाई हुई पृथ्वीचन्द्रचरित्र की एक प्रति है। उसमें आदि का मंगलाचरण और अन्त की ग्रन्थकार की प्रशस्ति तो अक्षरशः श्री शान्तिसूरिरचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र की है किन्तु उसके सिवाय का प्रायः समग्र ग्रन्थ संस्कृत में है। उसमें भी जो स्थान-स्थान पर प्राकृत सुभाषित आते हैं वे भी शान्तिसूरिरचित पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ही हैं। इससे समझा जा सकता है कि तथाप्रकार के अधिकारी वर्ग की प्रस्तुत चरित्र विषयक अभिरुचि को लक्ष्य में रखकर प्राकृत के अनभ्यासी अथवा अल्प अभ्यासी वर्ग के लिए किसी विद्वानने समग्र कथा को संस्कृत में बना डाला। ऐसा होने पर भी वह मूलग्रन्थ के वक्तव्य से निर्विशेष होने के कारण उसमें, आदि और अन्त का भाग मूल ग्रन्थकार का रखकर, ग्रन्थकार का गौरव ही किया है। इससे भी प्रस्तुत चरित्र की रोचकता स्पष्ट होती है।

देश-नग-नगर-ऋतु-उद्यान-विरह-नायक-नायिका आदि के सम्बन्ध में आनेवाले वर्णनों, अनेक स्थलों पर आनेवाले सभंग श्लेष, उपमा, उपमेक्षा, विरोधाभास, गृहीतमुक्तपद आदि विविध अलंकारों, नायक-नायिका और सखा-सखियों के वाग्विनोदों, प्रहेलिकाओं एवं पद्यशैली में रचे हुए अनेक गद्यसंदर्भों की रचना इतनी प्रौढ़ है कि जिन्हें समझने के लिए कईवार प्राकृत भाषा के अच्छे अभ्यासियों को भी बुद्धि कसनी पड़ती है। इस के अतिरिक्त शेष कथाविभाग प्राकृत भाषा के अभ्यासियों के लिए सुगम है। अतः प्राकृतभाषा के अभ्यासियों के लिए विविधता की दृष्टि से इसकी अधिक उपयोगिता है।

इस ग्रन्थ की जिन हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया है उन समग्र प्रतियों में अनेक स्थलों पर मूलपाठ के अर्थ को बताने वाली टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं जिससे मादम होता है कि इस ग्रन्थ का अध्ययन की दृष्टि से अच्छा प्रचार हुआ होगा।

ग्रन्थगत पाण्डित्यपूर्ण संदर्भों को, तथा अपरिचित अथवा अल्पपरिचित देश्य शब्दों का अर्थ समझने के लिये इस चरित्र पर प्रमाण में छोटि किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दो व्याख्याओं की रचना हुई है। वह इस प्रकार है—

१ वि० सं० १२२६ में श्री कनकचन्द्र नामके जैन विद्वान मुनि द्वारा रचा हुआ ११०० श्लोकप्रमाण पृथ्वीचन्द्रचरित्रटिप्पण ।

२ आ० श्री रत्नप्रभसूरिकृत पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत ।

इन दो कृतियों का बृहत्टिप्पणिका में उल्लेख हुआ है किन्तु इन दोनों में से एक की प्रति किसी भी स्थान पर नहीं मिलती है। हा, हमारे सद्भाग्य से श्री रत्नप्रभसूरिकृत पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत की एक प्रति सम्पादकजी को मिल गई है। जिसे प्रस्तुत सम्पादन में सम्पूर्ण रूप से ली है। यह 'सकेत' और उपर बताई प्रतियों में लिखी हुई शब्दार्थदर्शक टिप्पणियों से प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र के प्रायः सभी क्लिष्ट स्थानों को समझने में अनुकूलता हो गई है।

इतनी जानकारी से वाचकों को ग्रन्थ की पाण्डित्यपूर्ण गम्भीर शैली का सामान्य खयाल आजायगा।

यह चरित्र, एक जैन पौराणिक कथा है। इसमें कुल ग्यारह भव हैं। ११ वें भव में पृथ्वीचन्द्र और गुणसागर नाम के दो कथानायक हैं उसमें पृथ्वीचन्द्र मुख्य है। ग्यारह वें भव में पृथ्वीचन्द्र गुणसागर का मोक्ष गमन होने से वह उनका अन्तिम भव है। पृथ्वीचन्द्र-गुणसागर की कथा ११ वें भव में (पृ० २०६ से २२१) ही है। किन्तु १ से १० भव

(पृ० १ से २०५) की कथावस्तु पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरके ही पूर्व-पूर्वतर भवों की कथारूप होने से ग्रन्थकारने मुख्यनायक पृथ्वीचन्द्र को प्रापान्य देकर ग्रन्थ का पुहइचंदचरिय—पृथ्वीचन्द्रचरित्र ऐसा यथार्थ नाम दिया है। इस ग्रन्थ के बाद अन्य विद्वानोंने रचे हुए पृथ्वीचन्द्रचरित्रों में से किसी को पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरचरित्र अथवा पृथ्वीचन्द्र-गुणसागररास ऐसा नाम दिया है। ११ वें भव के कथानायक पृथ्वीचन्द्र और गुणसागरके उस उस पूर्वभव के नाम से पहिचाने जाते कुछ भव इस प्रकार है—

१. प्रथम भव—शश्वराजा—कलावती रानी
२. द्वितीय भव—कमलसेन राजा—गुणसेना रानी
३. तृतीय भव—देवसिंह राजा—कनकसुन्दरी रानी
४. चतुर्थ भव—देवरथ राजा—रत्नावली रानी
५. पंचम भव—पूर्णचन्द्र राजा—पुष्पसुन्दरी रानी
६. षष्ठ भव—सूरसेन राजा—मुक्तावली रानी
७. सप्तम भव—पद्मोत्तर राजा—हरिवेग राजा
८. अष्टम भव—गिरिसुन्दर राजा—रत्नसार युवराज
९. नवम भव—कनकध्वज राजा—जयसुन्दर युवराज
१०. दशम भव—कुसुमायुध राजा—कुसुमकेतु राजपुत्र ( पिता-पुत्र )
- ११. एकादश भव—पृथ्वीचन्द्र राजपुत्र—गुणसागर श्रेष्ठिपुत्र

उपर्युक्त ११ भवों के नामोल्लेख पूर्वक, प्रत्येक भव के नगर-नगरी के नाम के साथ तथा प्रत्येक भव के बाद की गति को बता कर किसी विद्वान ने दस गाथाएँ बनाई है वे इस प्रकार है—

संस्वपुरे संस्वनिवो, कलावई तस्स अत्थि वरभज्जा । सोहम्मे उववाओ, दोण्ह वि मेलो समक्खाओ ॥१॥  
 पोयणपुरम्मि नयरे, राया नामेण कमलसेणो त्ति । गुणसेणा तस्स पिया, वंमे कप्पे समुप्पन्ना ॥२॥  
 महुराए देवसीहो,—धरोहे ( ? तगेहे ) कणयसुदरी भज्जा । सावयधम्म परिवालिक्कण सुक्के समणुपत्ता ॥३॥  
 आयासुही य नयरी, देवरहो अत्थि नामओ राया । रयणावली य भज्जा, पाणयकप्पे समुप्पन्ना ॥४॥  
 नव(य)रे सुसील( ? म)नामे राया नामेण पुन्नचदो त्ति । भज्जा य पुप्फसुदरि, उववन्ना आरणे कप्पे ॥५॥  
 महिल्लाए नयरीए राया नामेण सूरसेणो त्ति । मुक्तावली य भज्जा, हिट्ठिमगेवेज्जगे दो वि ॥६॥  
 गज्जणगे नयरम्भी पउम(मु)त्तरनामओ य वेयड्ढे । हरिवेगो विज्जाहर, मञ्जिमगेविज्जगे जाया ॥७॥  
 पुंडरिगिणी य नयरी, गिरिसुदर रयणसार तु वि भाया । उवरिमगेविज्जम्मि य सुहसपत्तम्मि सजाया ॥८॥  
 तामलित्ती कणगस(अ)ओ य जयसुदर वरविमाणविजयम्मि । चंपाए कुसुमाउह सव्वट्ठे कुसुमकेउ त्ति ॥९॥  
 अवज्ञाउरिम्मि नयरे राया नामेण पुइहचदो त्ति । हत्थिणउ[र]म्मि गुणसायरो त्ति ते सिद्धिसपत्ता ॥१०॥

उपरकी गाथाओं को पृथ्वीचन्द्रचरित्र की सर्प्रेणीगाथा कह सकते हैं। श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर(पाटण) में स्थित श्री सागरगच्छ जैन ज्ञानभण्डार की पृथ्वीचन्द्रचरित्र की संस्कृतभाषावहुल प्रति, जिसका मैं पहले निर्देश कर चुका हूँ

उसके अन्त में उपरोक्त गाथाएँ लिखी हुई हैं। ज्ञानमन्दिर में इस प्रति का क्रमाङ्क १५०५ है। ये गाथाएँ किसी प्राचीनग्रन्थ की है अथवा पृथ्वीचन्द्रचरित्र के आधार से किसी ने सग्रहणीगाथा के रूप में बनाई हैं यह एक शोध का विषय है।

प्रसिद्ध विद्याविभूति आ० श्री हरिभद्रसूरि ने अपने उपदेशपद में पृथ्वीचन्द्र के भवों का उल्लेख तो किया है, किन्तु उसमें केवल गल-कलावतीभव के सिवाय २ से ११ भव में शंकराजा के ही भव बताये हैं, और वे भी उस उस भव के मुख्य नाम के सिवाय। उपदेशपद के सम्बन्ध में विशेष हकीकत आगे 'पूर्वस्रोत' में कहनेवाला हूँ अतः यहाँ विशेष नहीं लिखता। स्वयं ग्रन्थकार ने प्रस्तुत चरित्र का अतिसंक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है—

“ यह चरित्र एक धर्मकथा है (पृ० ५ गा० १२)। मुख्यतः यह धर्मकथा होने पर भी यहाँ उस उस प्रसंग के अनुरूप काम और अर्थ विषयक निरूपण भी तत्तदधिकारी के वचनरूप से अनिवार्य बने हैं (पृ० २ गा० २१)। कईयों को गद्य रचना प्रिय होती है तो कईयों को पद्यरचना, तथा कईयों को सभंगश्लेषालंकारवाली रचना, ऐसे, और अन्य भी भिन्नभिन्न रुचिवाले व्यक्तिओं को लक्ष्य में रखकर कुछ स्थानों में सक्षेप से तो कुछ स्थानों में विस्तार से विविध रसवाला यह चरित्र रचा है (पृ० २२१ गा २८४)। यहाँ मर्यादित प्रमाण में ही कविधर्म बताया है। विविध वर्णन भी प्रमाण में अल्प है फिर भी कथाग-कथावस्तु अधिक होने के कारण कहीं २ विस्तार करना भी अनिवार्य होगया है (पृ० २२१ गा० २८२)। सवेगरूपी दिव्यरस से भरा हुआ और मन्दबुद्धिवाले जीवों को हितकर ऐसा यह चरित्र सक्षेप से किन्तु स्पष्ट कहा है (पृ० २२१ गा० २८१)। विविध उपकथाओं से—अन्तरकथाओं से रम्य और जिस में गुरुबहुमान का बोधक यतिधर्म का निरूपण हुआ है वैसा यह चरित्र मनुष्यभव को प्राप्त कर अच्छी तरह से सुनना चाहिए (पृ० २२१ गा० २८३)। [ग्रन्थकार के] शिष्य श्री मुनिचन्द्रमुनि की प्रार्थना से सवेगरूपी पानीके निपान-होज के समान इस श्रेष्ठ चरित्र की रचना की है (पृ० २२२ गा० २८९)।”

ग्रन्थकार ने अपनी कृति के लिए आत्मश्लाघा न हो जाय इस बात की सावधानी रखते हुए जो उपर की बातें बताई हैं उसपर से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार को अपनी रचना के लिए ठीक ठीक प्रमाण में आत्मसन्तोष होना चाहिए।

जैन कथा—चरित्रों में ससार की असारता, अयुष्य की क्षणभंगुरता, वैराग्य, व्रत, नियम आदि धार्मिक उपदेशों तथा जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्तों और मान्यताओं का वे वे ग्रन्थकार अपनी अपनी क्षमता और शैली के अनुसार मुख्यतया निरूपण करते रहे हैं। इस मुख्य प्रतिपाद्य विषय को सूचित करने के लिए, कथाप्रसंगों में वाचक—श्रोताओं का रस सुरक्षित रखने के लिए, निःस्पृह त्यागी जैन विद्वानों को विविध रसों का एव पार्थिव वैभवों का वर्णन भी अपनी अपनी कक्षा के अनुसार करना पडा है। ऐसे चरित्रग्रन्थों में श्री पादलिप्तसूरिरचित तरंगवतीकथा मुख्य कही जा सकती है। यह कथा अनुपलब्ध है और इसका गौरवपूर्ण उल्लेख अनेक लघुप्रतिष्ठ जैन चरित्रकार विद्वानोंने किया है। आज उपलब्ध जैन कथासाहित्य में भी आ० उद्द्योतनसूरिकृत 'कुवलयमाला कथा' जैसे कतिपय ग्रन्थ हैं, जिस में वाचक—श्रोताओं को भव-वैराग्य का बोध करवाने के मुख्य उद्देश्य के प्रभावपूर्ण ढंगसे किन्तु ठीक ठीक प्रमाण में गृंगार आदि रसों का भी गुंफन हुआ है।

प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र में भी अनेक स्थानों पर भववैराग्य के लिए संसार की—पौद्गलिक सुखों की असारता खूब ही अस्तरकारक ढंगसे निरूपित की है। इसके साथ साथ सासारिक भावों और रस वर्णनोंका निरूपण भी प्रभाव उत्पन्न

करें वैसा किया है। इस कारण से ऐसे रस वर्णनों की रचना में ग्रन्थकार ने एक कवि की भूमिका को ही निभाने का प्रयत्न किया है।

आत्मकल्याण के लिए मौलिक उपदेशों के अतिरिक्त गृहस्थजीवन के व्यवहार में अनेकविध सुसंस्कारों की प्रेरणा दे सके जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अथवा मर्यादित परिग्रह आदि व्रतों का उपदेश और व्यावहारिक नीतियों के सम्बन्ध में प्रसंग प्रसंग पर आनेवाले सुभाषितों और उक्तियों से प्रस्तुत ग्रन्थ की उपयोगिता और मधुरता में वृद्धि हुई है। और भी अपभ्रंश पद्यों देश्य शब्दों तथा मुद्रित प्राकृत शब्दकोष में अभावधि नहीं आये हुए शब्दों का चयन भी ठीक ठीक प्रमाण में हुआ है, जो विद्वानों और भाषाविदों को अन्यास की दृष्टि से अधिक उपयोगी है।

इस ग्रन्थ में अन्तरकथाएँ, अवान्तर कथाएँ तथा पूर्वभव कथाएँ भी अनेक हैं। उनका, एव समग्रग्रन्थ के, परिचय के लिए ग्रन्थ की विस्तृत विषयानुक्रमणिका को देखने का मैं पाठकों को सूचन करता हूँ।

ग्रन्थगत अनेक हृदयंगम और पाण्डित्यपूर्ण आलंकारिक सदर्भों को वताने के लिए तो एक छोटा सा निबन्ध लिखा जा सकता है। ये सभी सदर्भ विविध दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होने पर भी समयाभाव के कारण मैं यहाँ बता नहीं सकता फिर भी प्रत्येक कथा प्रसंग के निरूपण के साथ साथ ग्रन्थकार के द्वारा साधित तादात्म्य की सामान्य कल्पना पाठकों को आजाय उस दृष्टि से उदाहरणरूप एक प्रसंग यहाँ देता हूँ।

श्रीकेतु नामका राजा अपनी सगर्भा वैजयन्ती रानी को राज्यगद्दी सौंप कर प्रव्रजित हुआ। रानी ने पुत्री को जन्म दिया। मतिवर्द्धन नाम के अमात्य ने राज्य की सुरक्षा का विचार करके पुत्री के जन्म को पुत्र के जन्म के रूप में प्रकट करके उसका जन्मोत्सव किया। उसका नाम गुणसेन रखा। राजकुमारों को राजकुमार (गुणसेन) के वेष में ही रखा और राजकुमार जैसा ही उसके साथ व्यवहार रखा। पुरुषवेश में राजकुमारी युवा हुई। नारी देह की गुप्तता को पुरुषवेष में लम्बे समयतक छिपा रखना मुश्किल था, अतः अमात्य तथा रानी को राजकुमारी के लिए योग्य पति की चिन्ता हुई। और नगर के यक्ष की सहायता से राजकुमार के वेष में सिंहासन पर बैठी हुई राजकुमारी के सन्मुख कमलसेन नामके एक राजकुमार को सन्मानपूर्वक उपस्थित किया गया। राजकुमार के वेष में बैठी हुई राजकुमारी (गुणसेन) को यह पता था कि आगन्तुक राजकुमार कमलसेन मेरा भावी पति है। जब कि राजकुमार कमलसेन, गुणसेन को राजा मानकर उसका सन्मान, प्रणाम और शिष्टाचार करने के लिए तत्पर होता है। यह प्रसंग ग्रन्थकार के शब्दों में देखिए—

“पणमंतो य निवारिभो राहणा दिट्टिसन्नाए । तओ ‘किमेय’ ति सवियक्को, दोलंतकन्नकुंडलेण सेयविंदुमुत्ताहळ-  
जालालंकियभालवट्टेण मंतिवयणनिवद्धदिट्ठिणा खलतक्खरमालत्तो य—

सु.. सु सुयण ! पु पुच्छामो क . क . कत्तो एसि ? कि . कि किमेगागी ? ।

कु .. कु . कुसलं तु तु तुब्भ ? स . स सा सा सागय सुट्टु ॥ ”

अर्थात् गुणसेनकुमार ( राजकुमारी ) आंख का इशारा करके प्रणाम करते हुए कमलसेन को रोकता है। इस कारण से ‘ऐसा क्यों ?’ ऐसे वितर्क में पड़े हुए कमलसेन कुमार को [ ‘औचित्य के खातिर कुछ कहना चाहिए’ इस कर्तव्य से प्रेरित होकर ] गुणसेनकुमार ( राजकुमारी ) उपरोक्त गाथा कहता है। इस गाथा में स्पष्ट तो इतना ही कहना था कि ‘सुयण ! पुच्छामो कत्तो एसि ? किमेगागी ? कुसलं तुब्भ ? सागयं सुट्टु ।’ इतना कहने में गुणसेनकुमार ( राजकुमारी )



कें कुण्डल हिलने लगे, कपोल पर मोती जैसे प्रस्वेद के बून्द हो गये और उसे [ लज्जाजन्य सकोच का प्रसंग अधिक लम्बा न हो जाय उसके लिए ] मतिवर्द्धन अमात्य की तरफ सूचक नजर से देखना पडा। यहा गुणसेनकुमार(राजकुमारी) को कमलसेन कुमार के प्रति तो इतना ही कहना था कि ' हे सुजन ! हम आप से पूछते हैं कि—आप कहां से आये हो ? अकेले कैसे हो ? कुशल तो हो न ? आपका अच्छी तरह से स्वागत हो ' । इतना कहने में मूल बात से अनभिज्ञ नायक के प्रथम मिलन में स्त्रीस्वभावजन्य व्याकुलता से परेशान नायिका की तुतलाती वाणी को 'सुयण ! पुच्छामो' आदि शब्द के बदले 'सु .सु सुयण ! पु .. पुच्छामो' आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया है ।

उपर के एक उदाहरण परसे प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना वैशिष्ट्य और उसकी उपयोगिता का वाचको को किंचित् आभास हो जायगा ।

आ० श्री श्रीचन्द्रसूरि ने वि० स० १२१४ में रचे हुए प्राकृतभाषानिवद्ध 'सनत्कुमार चरित्र'<sup>१</sup> के प्रारम्भ में आई हुई पूर्वकविप्रशंसा में जिन लब्धप्रतिष्ठ जैन कवियों के नाम बताये हैं उनमें प्रस्तुत ग्रन्थकार आ० श्री शान्तिसूरि का उल्लेख करती गाथा में इस चरित्र की सुन्दर पहचान दी है । वह इस प्रकार है—

सिरिसंत्तिसूरिवाणी विलासिणी विविहभगभावेहि । पुहईचंदसुरगे रजइ हिययाइ नच्चंती ॥१॥

अर्थात्—विविध भंग तथा भावों से विलसित होने से हृदय को नचाने वाली ऐसी श्री शान्तिसूरि की वाणी पृथ्वीचन्द्र- (चरित्र) रूपी सुन्दर रगमें (हरकिसी को) रग देती है ।

तदुपरान्त यहाँ आगे निर्देशित गुरुस्तुति के तीसरे पद्य में भी प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र का उल्लेख मिलता है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के एक स्थल पर कथा का प्रसंग टूटता है । वह इस प्रकार है—

दण्डपाल नामक चोर, लोगों की धन-दौलत के उपरान्त सौ कुमारिकाओं का अपहरण करके उन्हें पर्वत में सुरक्षित मढ़ी के तलघर मे रखता है । यह चोर किसी से भी नहीं पकडाता । अन्त में गिरिसुन्दर नामक राजकुमार उसे उसी के स्थान पर मारकर उन कुमारिकाओं का स्वामी बन जाता है । एक महिने तक यह राजकुमार वहीं रहकर उन कुमारिकाओं के साथ सुख भोगता है । उसके बाद भाई का स्नेह याद आने पर अपनी सौ पत्नियों को मढ़ी में रखकर वह अपने नगर चला जाता है । वस, उसके बाद मढ़ी में रखी हुई अपनी पत्नियों का एवं धन-दौलत का क्या होता है ? इस घटना का सम्पूर्ण कथा पूर्ण होने तक कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता । संभव है कि शीघ्रता से एक के बाद एक बदलते हुए कथा प्रसंगों के कारण कदाचित् ग्रन्थकार का अनुसन्धान छूट भी गया हो । प्रस्तुत टूटते प्रसंग का अनुसंधान १६४ वें पृष्ठ की प्रथम पक्ति के बाद होना चाहिये था, यह बात 'संकेत' कार श्री रत्नप्रभसूरि के ध्यान में आई और उन्होंने ग्रन्थकार के प्रति असाधारण सन्मान प्रकट करते हुए उक्त टूटते प्रसंग का निम्न गाथा से अनुसंधान कर दिया —

१—श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर (पाटन) में स्थित श्री संघ जैन ज्ञानमण्डार की 'सनत्कुमार चरित्र' की कागद पर लिखी हुई प्रति में से यह गाथा ली है । ख्यातनाम विद्वद्गुरु श्रद्धेय प० श्री लालचन्दभाई गान्धी ने उनके 'ऐतिहासिक लेख संग्रह' नामके ग्रन्थ के ११५ वें पृष्ठ में सनत्कुमारचरित्र की कागद पर लिखी हुई प्रति को ताडपत्र पर लिखी हुई प्रति के रूप में बताई है । किन्तु पाटन के मण्डारों में इसकी ताडपत्रीय प्रति नहीं है । और प्राच्यविद्यामन्दिर (वडोदरा) के तरफ से प्रकाशित 'पाटनस्थ जैन मण्डागारीयग्रन्थसूचि' में भी ऐसी कोई ताडपत्रीय प्रति का उल्लेख नहीं हुआ है ।

“वज्रह तो कुमारो (पृ० १६४ प. १) इति गाथान्ते दण्डपालचौरमोषार्पणानुसन्धानं श्रोतृभिरपेक्षितमपि कविना केनाप्यभिप्रायेण न कृतम्, तच्च तस्यातिगम्भीरमभिप्रायमजानद्विरितो गाथातोऽवसेयम्—

कुमरेण तञ्चो कणयाइ अप्पियं सञ्चमेव जं जस्स । रमणीओ वि हु अतेउरम्मि गुरुवयणओ खित्ता ॥”

अर्थात्—१६४ वें पृष्ठ की प्रथम पंक्ति में आई हुई १२३ वीं गाथा के बाद दण्डपाल नामक चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तुओं का क्या हुआ ? इस घटना को जानने की श्रोताओं को अपेक्षा होते हुए भी कवि ने—ग्रन्थकार ने किसी कारणवशात् उसका अनुसन्धान नहीं किया । वह अनुसन्धान उस कवि के अति गम्भीर अभिप्राय को नहीं जाननेवाले व्यक्ति इस गाथा से जान लें—‘चोरने जिन जिन व्यक्तियों की धनसम्पत्ति छटी थी या चुराई थी वह धनसम्पत्ति उन उन व्यक्तियों को गिरिसुन्दर कुमार ने वापस कर दी । और बड़ों की आज्ञा प्राप्त कर उन सौ कुमारिकाओं को अपने अन्तःपुर में रखदी’ ।

यहाँ संकेतकार ने ग्रन्थकार के प्रति बहुमान पूर्वक औचित्य रखकर उनकी क्षति की ओर जो सामान्य इशारा किया है उसमें संकेतकार की महानुभावता ही प्रतिबिम्बित होती है । ऐसे प्रसंगों में यह घटना हमारे लिए प्रेरणीय है । इस हेतु से ही मैंने प्रस्तुत स्थान का उल्लेख किया है ।

\*

### पर्वस्रोत

प्रस्तुत चरित्र के ग्यारह भवों में से प्रथम शंख-कलावती के भव की सक्षिप्त किन्तु सम्पूर्ण कथा आ० श्री हरिभद्र-सूरिरचित उपदेशपद में है (देखिये उपदेशपद भा० २, गा० ७३६ से ७६८, पत्र ३४०—४१) । उसीतरह दूसरे भव से ग्यारह भवों तक के शंखराजा के समग्र भवों का सूचन भी उपदेशपद में है (देखिये वही गा० ७८८ से ७९६) । यहाँ शंखराजा के जीव के दूसरे से ग्यारहवें भव तक के भवों के नाम यानी कमलसेन से पृथ्वीचन्द्र तक के भवों के नाम, नहीं बताये हैं, किन्तु प्रत्येक भव के नगर-नगरी और मृत्यु के बाद के देवलोक के नाम बताये हैं । उसी के अनुसार ही प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र में नगर-नगरी और देवलोक के नाम हैं । उपदेशपद में कलावती का नाम प्रथम भव में है । उसके बाद दूसरे से ग्यारहवें भव तक की सक्षिप्त सूचना करने वाली गाथाओं में कलावती के जीव का उल्लेख नहीं किया । इसी वजह से उपदेशपद में सूत्ररूप से बताई गई एवं उत्तरोत्तर मौखिक या ग्रन्थस्थ (यद्यपि ऐसा कोई ग्रन्थ मेरे देखने में नहीं आया फिर भी ऐसे ग्रन्थ की धसभावना नहीं कही जा सकती) रूप में विकसित पृथ्वीचन्द्रचरित्र की कथावस्तु पर से ही प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र की रचना हुई है, ऐसा कह सकते हैं ।

प्रस्तुत चरित्रमें आनेवाली अन्तरकथाओं एवं पूर्वभव की कथाओं में से कतिपय कथाओं की सक्षिप्त कथावस्तु भी उपदेशपद में मिलती है । वह इस प्रकार है—

१. प्रस्तुत ग्रन्थ के २१ वें पृष्ठ की १३ वीं पंक्ति से २३ वें पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति तक में आया हुआ ‘कविलसो-त्तियकहाणय—कपिलश्रोत्रियकथानक’ उपदेशपद भाग २, गाथा ७४८ से ७५६ (पत्र ३४०—४१) तक में है ।

२. प्रस्तुतग्रन्थ के ३४ वें पृष्ठ की १९ वीं पंक्ति से ५३वें पृष्ठ तक में विनयंघर श्रेष्ठी की कथा है । उसमें विनयंघर श्रेष्ठी की तारा, श्री, विनया और देवी नामकी चार पत्नियों के क्रमशः पूर्वभव रतिसुन्दरी, बुद्धिसुन्दरी ऋद्धिसुन्दरी और

गुणसुन्दरी की कथाएँ भी है। इस समग्र कथा की कथावस्तु उपदेशपद में भी है ( देखिये उपदेशपद भा० २, गा० ७२८, पत्र ३१९ से ३२० ) ।

३. प्रस्तुत ग्रन्थ के ६४ वें पृष्ठ की २४ वीं पंक्ति से प्रारम्भ होकर ७८ वें पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति में पूर्ण होनेवाले 'सुयमिहुणकहाणय—शुकमियुनकथानक' की कथावस्तु सक्षिप्त रूप से उपदेशपद में है ( देखिये उप० प० भा० २, गा० ९७२ से ९८६, पत्र ३९७-९८ ) ।

४. प्रस्तुत ग्रन्थ के १३३ से १३६ वें पृष्ठ तक में ईश्वरमुनिद्वारा कही हुई अपनी पूर्वभव सहित आत्मकथा है। उस में १३४ वें पृष्ठ की २० वीं पंक्ति से प्रारम्भ होकर १३६ वें पृष्ठ की पाँचवीं पंक्ति में पूर्ण होनेवाला 'आरोग्यद्विज-कथानक' की कथावस्तु उपदेशपद में है ( देखिये उपदेशपद भा० २, गा० ५३६ से ५४०, पत्र २६६ ) ।

५. प्रस्तुत ग्रन्थ के ८९ वें पृष्ठ की १६ वीं पंक्ति से प्रारम्भ होकर पृ० १०२ की १० वीं पंक्ति में पूर्ण होनेवाला 'रयणसिंहकहाणय—रत्नशिखकथानक' का उपदेशपद में केवल उदाहरण के रूप में ही उल्लेख हुआ है ( देखिये उपदेशपद भा० २, गा० १०३१, पत्र ४२० ) । इस कथानक की कथावस्तु अन्यान्य ग्रन्थों में से या मौखिक परम्परा के आधारे से पृथ्वीचन्द्रचरित्रकार को मिली होगी ऐसा केवल अनुमान कर सकते हैं ।

उपर बताये अनुसार प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र की मूलकथा और कतिपय अन्तर कथाओं की कथावस्तु जिस प्रकार उपदेशपद में प्राप्त होती है उसी प्रकार अन्यान्य प्राचीनतम ग्रन्थों का अन्वेषण किया जाय तो जिसे प्रस्तुत चरित्र का पूर्वस्रोत कहा जाय वैसी सामग्री का प्राप्त होना असंभव नहीं है ।

\*

### प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रभाव

प्रस्तुत ग्रन्थ की कथावस्तु का पूर्वस्रोत चाहे जितना भी उपलब्ध हो तो भी यहाँ जैसा कि हमने पहले कहा है वैसा, इस ग्रन्थ की रचनाशैली ही ऐसी है जो अनेकविध दृष्टि से अपनी विशेषता रखती है। इसी वजह से ही आ० श्री मुनिचन्द्रसूरिजी ने अपनी उपदेशपद की टीका में प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र की कथाओं को अक्षरशः स्वीकृत की है। अलवत्ता, उन्होंने अपनी टीका के उन उन स्थानों में या टीका के आदि अन्त में श्री शान्तिसूरिजी का अथवा उनके पृथ्वीचन्द्रचरित्र का किञ्चित् भी इंगारा नहीं किया। वि० स० ११६१ में रचे हुए पृथ्वीचन्द्रचरित्र के तेरह वर्ष के बाद यानी कि वि० सं० ११७४ में आ० श्री मुनिचन्द्रसूरिजी ने उपदेशपदटीका की रचना की है। उससे यह सहज स्पष्ट हो जाता है कि उपदेशपदटीका में आनेवाली कतिपय कथाएँ पृथ्वीचन्द्रचरित्र में से ही अक्षरशः ली गई हैं। वें स्थान निम्न हैं—

१. उपदेशपदटीका भा० २ के ३४१ वें पत्र की दूसरी पृष्ठिका से प्रारम्भ होकर ३५६ वें पत्र की प्रथम पृष्ठिका में पूर्ण होनेवाले 'शंख-कलावतीनिदर्शन' में आया हुआ समग्र पद्यविभाग प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र का ही है। अलवत्ता, यहाँ उपदेशपदटीका में जो कोई नई गाथाएँ हैं वें पृथ्वीचन्द्रचरित्र का विस्तृतवर्णनात्मक गद्यपद्य वक्तव्य को सक्षिप्त करने के लिए बनाई गई हैं। उसी प्रकार पृथ्वीचन्द्रचरित्रगत कतिपय आलंकारिक गद्यसदृश उपदेशपदटीका में छोड़ दिये गये हैं। उपदेशपदमूलग्रन्थ का अनुसरण कर रची गई इस टीका में पृथ्वीचन्द्रचरित्रगत शंख-कलावती के भव में आनेवाला

‘पुमरायकहाणय’ (पृ० १७ से २१) को नहीं दिया गया किन्तु ‘कपिलश्रोत्रियकथानक’ उपदेशपदमूल में होने से वह दिया है। और वह भी पृथ्वीचन्द्रचरित्र में जैसा है वैसा ही यथावत् लिया है।

२. प्रस्तुत ग्रन्थ के ३४ वें पृष्ठ की ११ वीं पंक्ति से ५३ वे पृष्ठ की २५ वीं पंक्ति तक का ग्रन्थसंदर्भ, उपदेश-पदमूल का अनुसरण करने के कारण उपदेशपदटीका में आगे-पीछे रखकर इस प्रकार अक्षरशः लेने में आया है—

पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ३७ वें पृष्ठ की १९ वीं पंक्ति से ५३ वें पृष्ठ की २५ वीं पंक्ति तक का अक्षरशः ग्रन्थसंदर्भ उपदेश-पदटीका भा० २ के ३२१ वें पत्र से ३३५ वे पत्र की पहली पृष्ठिका की १३ वीं पंक्ति तक में है। पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ३६ वें पृष्ठ की २६ वीं पंक्ति से ३७ वें पृष्ठ की १७ वीं पंक्ति तक का अक्षरशः ग्रन्थसंदर्भ उपदेशपदटीका भा० २ के ३३५ वें पत्रकी पहली पृष्ठिका की १३ वीं पंक्ति से ३३६ वें पत्रकी पहली पृष्ठिका की तीसरी पंक्ति तक में है। यहाँ केवल पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ३६ वें पृष्ठ की २६ वीं गाथा को उसके वक्तव्य को अबाधित रखकर उपदेशपदटीका में अपने कथन की सगति को साधने के लिए बदला है। पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ३४ वें पृष्ठ की ११ वीं पंक्ति से ३६ वें पृष्ठ की २५ वीं पंक्ति तक का अक्षरशः ग्रन्थसंदर्भ उपदेशपदटीका भा० २ के ३३६ वें पत्र की प्रथम पृष्ठिका की ४ थी पंक्ति से ३३८ वें पत्रकी प्रथम पृष्ठिका की नौवीं पंक्ति तक में है। इसमें इतनी विशेषता है कि पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ३४ वें पृष्ठ की ११ वीं पंक्ति में आई हुई ५४ वीं गाथा के स्थान पर उपदेशपदटीका में नई गाथा बनाकर रखी है। प्रस्तुत स्थान में पृथ्वीचन्द्रचरित्रकारने राजा का नाम सिरिकेतु—श्रीकेतु बताया है जबकि उपदेशपदटीकाकार ने नई बनाई हुई गाथा में धम्मबुद्धि—धर्मबुद्धि नाम बताया है। उपर बताये गये संदर्भों में से पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ४६ वें पृष्ठ में आई हुई ४०२, ४०३, और ४०४ गाथाएँ उपदेशपदटीका की मुद्रित आवृत्ति में नहीं हैं। यदि ये तीन गाथाएँ न हों तो कथा का सम्बन्ध टूटता है, इसलिए वें उपदेशपदटीका की प्राचीन प्रतियों में होनी ही चाहिए। मुद्रित उपदेशपदटीका भा० २ के ३२९ वें पत्रकी प्रथम पृष्ठिका की चौथी पंक्ति में आई हुई ४६ वीं गाथा के बाद यहाँ बताई गई पृथ्वीचन्द्रचरित्र की तीन गाथाएँ होनी चाहिए।

३ पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ८९ वें पृष्ठ की १६ वीं पंक्ति से प्रारंभ होकर पृ० १०२ की १० वीं पंक्ति में पूर्ण होनेवाला रयणसिंहकहाणय—रत्नशिल्पकथानक को उपदेशपदटीका में अक्षरशः लिया गया है, ( देखिये उपदेशपदटीका भा० २, पत्र ४२१ से ४३२ )।

प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र के बाद रचे गये एतद्विषयक समस्त ग्रन्थों का इसतरह से अवलोकन किया जाय तो किसी न किसी ग्रन्थ में पृथ्वीचन्द्रचरित्र का असर होना असंभव नहीं है।

\*

१. जैनकथासाहित्य के अभ्यासियों की जानकारी के लिये पृथ्वीचन्द्रचरित्र और उपदेशपदटीका का एक स्थान यहाँ देता हूँ—  
“पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ६४ वे पृष्ठ की २४ वीं पंक्ति से प्रारंभ होकर ७८ वें पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति में पूर्ण होनेवाला गद्यपद्यारमक, ‘सुयमिहणकहाणय’ शुक्रमिथुनकथानक उपदेशपदटीका में स्वतंत्र रचनारूप पद्य में रचा गया है ( देखिये उपदेशपदटीका भा० २, ३९८ से ४११ वें पत्र की प्रथम पृष्ठिका )। उपदेशपदमूल की ९७२ से ९८६ तक की गाथाओं में बताई गई संक्षिप्त कथावस्तु पर से पृथ्वीचन्द्रचरित्रकार और उपदेशपदटीकाकार ने रचे हुए प्रस्तुत कथानक में आए हुए नायक नायिकाओं के नाम के अतिरिक्त माता-पिता, नगर-नगरी, उद्यान और मुनि आदि के नाम एक दूसरे से भिन्न २ मिलते हैं।

## ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त में आई हुई प्रशस्ति में (पृ० २२१-२२ गा० २८५ से २९१) ग्रन्थकार का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

ग्रन्थकार आ० श्री शान्तिसूरिजी, चन्द्रकुलीन आ० श्री सर्वदेवसूरि के शिष्य आ० श्री नेमिचन्द्रसूरि के शिष्य थे (प्रशस्ति गा० २८५-८७)। आ० श्री शान्तिसूरिजी का पक्ष लेकर उनको आ० श्री सर्वदेवसूरि (ग्रन्थकार के प्रगुरु) के शिष्य आ० श्री श्रीचन्द्रसूरि ने आचार्यपद प्रदान किया था (प्रशस्ति गा० २८८)।

यहाँ “ग्रन्थकार का पक्ष लेकर श्री श्रीचन्द्रसूरि ने उनको आचार्यपद दिया,” ऐसे ग्रन्थकार के ही वक्तव्य से यह सहज स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार के गुरु श्री नेमिचन्द्रसूरि को ग्रन्थकार को आचार्यपद देना अभीष्ट न था। फिर भी ग्रन्थकार ने अपने गुरु श्री नेमिचन्द्रसूरि को “श्रुतज्ञान के सागर, क्षान्त, दान्त, प्रशान्त, समर्थ, उज्ज्वलगुणवान्, मुनीन्द्र, उपविहारी और सूर्य-चन्द्र से भी अधिक तेजस्वी (प्रशस्ति गा० २८६) षाडि यथार्थ विशेषणों से सम्मानितकर अपने गुरुपारतंत्र्य, सुशिष्यत्व, गुणज्ञत्व, सुसाधुत्व एवं महानुभावता का परिचय दिया है। साथ ही साथ यहाँ निर्ग्रन्थ समुदायों में बढ़ते हुए न्यूनाधिक विमनस्कता के प्रसर्गों में आत्मकल्याणसाधक सर्वत्यागी निर्ग्रन्थों के व्यवहार और प्रभाव का भी अच्छा परिचय मिलता है।

ग्रन्थकार के प्रगुरु आ० श्री सर्वदेवसूरि से अनेक शिष्य अथवा आचार्यों की प्रशाखावाला गच्छ बना था (प्रशस्ति गा० २८५)।

ग्रन्थकार को आ० श्री धनेश्वरसूरिजी से विषाम्यासविषयक विविध मार्गदर्शन मिला था। इस बात का उल्लेख स्वयं ग्रन्थकारने ही किया है (देखिये पृ० २, गा० १०)। ग्रन्थकार के प्रगुरु श्री सर्वदेवसूरिजी के पट्टशिष्य रूप में आठ समर्थ आचार्य थे। उनका उल्लेख करके आ० श्री भुनिसुन्दरसूरिरचित पद्यावली में इन आठ आचार्यों में से दो पट्टशिष्यों के—आ० श्री यशोभद्रसूरि और आ० श्री नेमिचन्द्रसूरि के—नाम बताये हैं (देखिये श्री यशोविजय जैन ग्रन्थ-माला से प्रकाशित उक्त पद्यावली का पृ० १६ वाँ)। शेष छ पट्टधराचार्यों के नामों में से एक श्री श्रीचन्द्रसूरि थे (प्रशस्ति गा० २८८) और दूसरे आ० श्री धनेश्वरसूरिजी थे, जिन्होंने चैत्रपुर में श्री वीरजिन की प्रतिष्ठा की थी। एवं उन्हीं से चत्रगच्छ का प्रारम्भ हुआ था। यह वृत्तान्त आ० क्षेमकीर्तिसूरिकृत बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति की प्रशस्ति में एवं नयसुन्दरकृत सटीक गुरुपरिपाटी में उल्लिखित है, विशेष में उक्त गुरुपरिपाटी में यह बताया है कि आ० धनेश्वरसूरि ने सातसौ क्षपणकों को अपने हाथ से दीक्षा दी थी। आ० धनेश्वरसूरि के पट्टशिष्य श्री भुवनचन्द्रसूरि की पट्टपरम्परा में

१. श्री जैनशासनमस्तलविगमरदिम., श्रीसद्यचान्द्रकुलपदाविकासकारी । स्वज्योतिराधृतदिगम्बरदम्बरोऽभूत्, श्रीमान् धनेश्वरगुरुप्रथितः पृथिव्याम् ॥७॥ श्रीमच्छैत्रपुरैकमण्डनमहावीरप्रतिष्ठाकृतस्तस्माच्छैत्रपुरप्रबोधतरणे श्रीचैत्रगच्छोऽजनि । तत्र श्रीभुवनेन्दुसूरिसुगुरुभूमृषण मासुरज्योति सद्गुणरत्नरोहणगिरि कालक्रमेणामवद ॥८॥ (पृ० पा० मुनिवर्य श्रीश्वेतुरविजयजी तथा पृ० पा० विद्वद्वरेण्य मुनि श्रीपुण्यविजयजी (आगमप्रभाकरजी) सम्पादित निरुक्ति-भाष्य-वृत्त्युपेतं बृहत्कल्पसूत्रम् भा० ६ पृ० १७१०)।

२-३. ‘पुणो वि सिरिसम्बदेवमुणी [गा०] १० ॥’ पुणो वि ‘सिरिसम्बदेवमुणि’ति श्रीदेवसूरिपट्टे पुनरपि श्रीसर्वदेवमुनिः, सूरिरित्यर्थ ॥१०॥ जेण य अट्टायरिया [ ? स ] समयसुत्तत्थदायगा ठविया । तत्थ धनेसरसूरी पभावगो वीरत्तित्थस्स ॥११॥ खवणाणं सत्त सया पग्गुच्चिय दिम्भिया सहत्थेणं । चित्तपुरे निणवीरो पट्टिओ चित्तगच्छो सि ॥१२॥ तत्थ सिरिचित्तगच्छे तव्यो गुरु भुवणचंद तप्पट्टे । नावज्जीवं अंबिलतवकरणाभिग्गहा उग्गा ॥१३॥ (श्री सिंधी जैन ग्रन्थमाला तरफ से प्रकाशित ‘द्विविधगच्छपद्यावलीसंग्रह’ गत श्री नयसुन्दरसूरिकृत ‘सटीक गुरुपरिपाटी’ पृ० १९-२०) यह गुरुपरिपाटी बृहत्सालिकपद्यावली अथवा बृहत्तपोगणपुत्रावली के नामसे भी प्रसिद्ध है ।

बृहत्तपागच्छीय आ० श्री देवेन्द्रसूरि आ० श्री जगच्चन्द्रसूरि आ० श्री क्षेमकीर्तिसूरि जैसे सुप्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं।

यद्यपि राजगच्छपट्टावली में सम्मतिप्रकरणटीकाकार श्री अभयदेवसूरि के पट्टधर शिष्य श्री धनेश्वरसूरि को चैत्रगच्छीय भी बताया है किन्तु प्रभाचन्द्रसूरिकृत 'प्रभावकचरित्र' की प्रशस्ति में एव श्री माणिक्यचन्द्रसूरिकृत पार्श्वनाथचरित्र की प्रशस्ति में इस बात का समर्थन नहीं मिलता। राजगच्छपट्टावली का रचनासमय विक्रम की १५ वीं सदी के पूर्वका नहीं है अतः उपरोक्त बात की प्रामाणिकता के लिए अन्य आधारभूत प्रमाणों की अपेक्षा रचना चाहिए या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। वि. स. १५२२ के एक धातुप्रतिमाकेस में तो श्री धनेश्वरसूरि (अभयदेवसूरिशिष्य) को चैत्रगच्छीय मानने के साथ साथ उन्हें 'शत्रुञ्जयमाहात्म्य' का कर्ता भी बताया है। किन्तु यह बात सन्देहास्पद लगती है। यहाँ यह कथन भी उपयोगी होगा कि 'शत्रुञ्जयमाहात्म्य' में कुमारपाल आदि का वृत्तान्त तो आता ही है। तदुपरान्त उसमें उसके कर्तानि अपना गच्छ राजगच्छ बताया हुआ होने से, एवं प्रस्तुत धनेश्वरसूरि (श्री अभयदेवसूरिशिष्य) की नज़दीक की पूर्वापर श्रमणपरम्परा में कहीं भी राजगच्छ का उल्लेख नहीं मिलने से शत्रुञ्जयमाहात्म्य के कर्ता विक्रम की तेरहवीं सदी के अन्त में या उससे भी बाद के समय में हुए हो ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

श्री धनेश्वरसूरि (अभयदेवसूरिशिष्य) के बाद उनकी परम्परा में हुए ग्रन्थकारों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं के उल्लेख में धनेश्वरसूरि को कहीं भी शत्रुञ्जयमाहात्म्य का कर्ता नहीं बताया है। अतः उपरोक्त धातुप्रतिमा के उल्लेख को श्रद्धास्पद नहीं कहा जा सकता। सम्मतिप्रकरण के टीकाकार अभयदेवसूरि और उनके पूर्वपट्टधर आचार्यों को भी राजगच्छपट्टावली में और माणिक्यचन्द्रसूरिकृत पार्श्वनाथचरित्र (रचना सं० १२७६) में चन्द्रगच्छीय के साथ साथ राजगच्छीय भी बताया है। जबकि वि स १२४८ में रची गई सिद्धसेनसूरिकृत प्रवचनसारोद्धारकी टीका में टीकाकार ने प्रस्तुत अभयदेवसूरि से अनुक्रम से अपनी पूर्वपट्टधरपरम्परा दी है किन्तु उसमें चन्द्रगच्छ के सिवाय अन्य किसी गच्छ का उल्लेख नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रभावकचरित्रकार प्रभाचन्द्रसूरि ने धनेश्वरसूरि (अभयदेवसूरिशिष्य) पूर्वावस्था

१. तत्पट्टार्णवकौस्तुभ समुदितः प्रद्युम्ननामा हि य. . . । तच्छिष्योऽभयदेवसूरिरसमो मिथ्यात्ववादित्रजमादोन्मायकर. प्रसिद्ध-महिम स्याद्वादमुद्राङ्कित ॥६८॥ श्रीचैत्रगच्छे प्रकटप्रभावी धनेश्वर[ ] सूरिरभूच्च तस्मात् । आशीद्विनेयोऽजितसिंहसूरिः सिहोपमो वादिमतज्ञेषु ॥६९॥ (श्री सिंघी जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 'विधिगच्छपट्टावलीसंग्रह' गत राजगच्छपट्टावली पृ० ६८)।

२. प्रस्तुत पार्श्वनाथचरित्र की खंभातभण्डारस्थ ताडपत्रीय प्रति में ग्रन्थकार की प्रशस्ति में सम्मतिटीकाकार अभयदेवसूरि के पट्टधर शिष्य धनेश्वरसूरि के बदले जिनेश्वरसूरि बताया है, देखिये पू० पा० आगमप्रभाकर मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी और डॉ श्री भोगीलाल ज चाडेसरा द्वारा संपादित Catalogue of Palm-leaf manuscripts in the Santinatha Jain Bhandar, Cambay (Part two) Page 344 । तथा पूज्यपाद प्रज्ञाचक्षु ज्ञानज्योति प श्री सुखलालजी एष व श्री वेचरदासजी दोशी ने भी प्रस्तुत पार्श्वनाथचरित्र की प्रशस्ति के उल्लेख में जिनेश्वरसूरि को ही बताया है, देखिये पुंजाभाई जैन ग्रन्थमाला का छट्टा ग्रन्थाङ्क रूप से प्रकाशित सम्मतिप्रकरण (गुजराती भाषा का) पृ० ८५ । मेरा नम्र मत यह है कि इस पार्श्वनाथचरित्र की प्रशस्ति में लिपिकार की असावधानी के कारण धनेश्वर के स्थान पर जिनेश्वर लिखा गया होगा। मेरा यह अनुमान प्रस्तुत प्रशस्ति के पाठ से ही अध्येता को सुसंगत लगेगा इसलिए यह पाठ देता हूँ—“विद्वन्मण्डलमौलिमण्डनमणि प्रेक्षसपोऽ-हर्मणिर्निर्ग्रन्थोऽपि जिनेश्वर समजनि श्रौमास्तत सद्गुरु । य स्फूर्जद्गुणपुञ्जमुज्जगतीनिष्णो पुर प्राज्ञान् वादे वादिवरान् विजित्य विजयश्रीसंग्रह सव्यधात् ॥” यहाँ 'निर्ग्रन्थोऽपि जिनेश्वर', इस वाक्य में 'निर्ग्रन्थ' शब्द के साथ 'जिनेश्वर' शब्द असंगत लगता है। यदि जिनेश्वर के स्थान पर 'धनेश्वर' शब्द लगाया जाय तो 'निर्ग्रन्थोऽपि धनेश्वर' यह सुसंगत लगेगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 'जो आचार्य अकिञ्चन होने पर भी धनेश्वर है' इस विराधाभासालकार में 'अकिञ्चन होने पर भी जिनेश्वर है' यह किसी भी रीति से मेल नहीं खाता है। अतः इसमें लिपिकार की ही क्षति मालूम होती है।

में कर्दमराज के अत इन्हीं से राजगच्छ का प्रारंभ हुआ है ऐसा कहा है। राजगच्छपट्टावली<sup>१</sup> तथा उपर बताये गये धातु-प्रतिमादेखें में धनेश्वरसूरिको कर्दमराज का पुत्र बताया है। सक्षिप्त में उपर बताई गई परस्पर विसवादी बातों से यह अनुमान किया जा सकता है कि विक्रम की तेरहवीं सदी के अन्त के और उसके बाद के आचार्यों में बताई गई राजगच्छ चैत्रगच्छ आदि की परम्पराओं की कतिपय घटनाएँ निःसदिग्ध नहीं है। अस्तु

पृथ्वीचन्द्रचरित्रकार ने जिन धनेश्वरसूरि का उल्लेख किया है वे उनके प्रगुरु के शिष्य और चैत्रगच्छ के स्थापक थे वह हकीकत भी उनके अति समीप के समय के ग्रन्थों में मिलती है या नहीं यह अन्वेषण समयाभाव के कारण मैं नहीं कर सका।

ग्रन्थकार के गुरु आ० श्री नेमिचन्द्रसूरिने अपने गुरुभाई श्री त्रिनयचन्द्रोपाध्याय के शिष्य श्री मुनिचन्द्रमुनि को पट्टघर बनाया था। इस वजह से उन्होंने अपने सुयोग्य विद्वान शिष्य की अपेक्षा गुरुभाई के शिष्य की पट्टघर विषयक अधिकतर क्षमता को देखकर अपनी निर्ग्रन्थसमुदायपरम्परागत गच्छनायकत्व की पूरीपूरी जवाबदारी का आदर्श उदाहरण उपस्थित किया था, ऐसा कह सकता हूँ। इस प्रकार की घटना का ओर एक उदाहरण मेरे द्वारा लिखी गई 'आख्यानक्रमणिकोश' की प्रस्तावना में जिज्ञासु वर्ग देख सकते हैं ( देखिये प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित और पू० पा० आगमप्रभाकरजी मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित मटीक आख्यानक्रमणिकोश की प्रस्तावना पृ० १३ )। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में श्रीसंघ और श्रमणसमुदाय की सम्पूर्ण जवाबदारी को ध्यान में रखकर गच्छाधिपति आचार्य अपने पट्टघर आचार्य की नियुक्ति करते थे।

ग्रन्थकार आ० श्री शान्तिसूरिजी की गुरुपरम्परा के जिज्ञासुओं के लिए श्री मुनिसुन्दरसूरिकृत गुर्वावली तथा अन्य पट्टावलियों एवं एतद्विषयक अन्यान्य ग्रन्थों को देखने का सूचन करता हूँ।

१ त्रिभुवनगिरिस्वामी श्रीमान् स कर्दमभूपतिस्तदुपसगभूत् शिष्य श्रीमद्घनेश्वरसंज्ञया (प्रभावकचरित्रप्रशस्ति)।

२ तदनु पट्टत्रिगल्लक्षकन्यकुञ्जदेशाधिपते कर्दमराजस्य पुत्रो धनेश्वरकुमार (राजगच्छपट्टावली पृ० ६६)।

३ बहुत वर्षों के पहले पू० पा० आगमप्रभाकर मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी महाराजजीने पाटन (गुजरात) के शान्तिनाथनी पोल (पुराना नाम अदुवसीनो पाडो) के जैन मन्दिर के मूलनायक श्री शान्तिनाथजी की धातुप्रतिमा परसे यह लेख उतारा था, उस समय मैं भी उनके साथ था इसलिए उन्होंने प्रतिमालेख की नकल मुझे दी थी। यह लेख प्रायः अप्रकाशित होने से पाठकों की जानकारी के लिए अक्षरशः यहाँ देता हूँ—

प्रतिमा का दाया भाग—

[पक्ति-१] ॥ अहं नमः ॥ ततोऽभवत् कर्दमराजसुन्दरेश्वर सूरिवर सुवाची । श्रीचैत्रगच्छातुनि[५० २]वे. प्रणेता । दुर्वादिभेदस्विपदस्य जेता ॥१ श्रीगनुजयमाहात्म्यकर्ता । प्रयाति नाम[३]ग्रहणेन येषा केषा न दूरे दुरितानि तानि । तप प्रधाना प्रथचतु ते नो भद्राणि भद्रेष्व[४]रसूरिपादा ॥२ श्रीमन्नेमेरुजयताद्विशुणे प्रासाद ये वीक्ष्य जीर्णं विस्तीर्णं । दडाधीश [५] स्वजन बोधयित्वा नव्यं दिव्यं कारयामासुराशु ॥३ नष्ट वस्तु समस्तमप्रतिजवाद्यज्ञाम [६] सप्रापयेत् । स्फूर्ध्वचौरजलानलादिविपदं शाम्यति यन्नामत । श्रीमद्राणि महेश्वरात्सुगुर[७]वो यन्नामत सस्तुता श्रीभद्रेश्वरसूरयस्तनुभृता ते सतु सतुष्टिदा ॥४ श्री श्री श्री ॥ प्रतिमा का दाहिना भाग—

[५० १] श्रीधर्मदेव सुगुरुर्धभूव । भूवल्लभश्रेणिनताह्विपद्य । अकारि येनात्र विचारहेतु[२]र्मनीषिणां श्रीकुलकुण्डकाख्य ॥५ सवत् १५२२ वर्षे वैशाख शुदि ६ बुधे श्रीमद्गणहस्तपुरप[३]त्तने श्रीचैत्रगच्छे श्रीभद्रेश्वरसूरिसतान श्रीपद्मदेवसूरि तत्पट्टे श्रीमानदेवसरि तत्पट्टे [४] श्रीरामदेवसूरि तत्पट्टालकारगुणनिधान श्रीगुणदेवसूरि तत्पट्टे श्रीविजयदेवसूरि त[५]त्पट्टे श्रीपुण्यदेवसूरि तत्पट्टे श्रीजिनदेवसरि तत्पट्टालकारश्रीरत्नदेवसूरिणा पूर्वं [६] श्रीरैवतकाचलमहातीर्थ श्रीकल्याणत्रयमहाभद्रप्रासादे सप्तधातुमय श्रीनेमिनाथ[७]विव सपरिकरं कारित अधुना स्वपुण्यार्थं श्रीशान्तिनाथविव कारित प्रतिष्ठित । कल्याणमस्तु ॥ [८] सर्वपूर्वजश्रेयसे ॥

ग्रन्थकार आ० शान्तिसूरिरचित स्वोपज्ञवृत्तिसहित धर्मरत्नप्रकरण भी मिलता है। यह ग्रन्थ वि० स० १९७० में श्री आत्मानन्द जैनसभा (भावनगर) द्वारा सर्वप्रथम प्रसिद्ध हुआ है। उसका सम्पादन पूज्यपाद प्रवर्तकजी श्रीमत् कान्तिविजयजी म० सा० के शिष्य, आगमप्रभाकर विद्वद्वरेण्य मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी के गुरु तथा मेरे सशोधन-सम्पादन शिक्षा के आद्यगुरु पूज्यपाद मुनीन्द्र श्री चतुरविजयजी महाराजने किया है। इस ग्रन्थ की प्रस्तावनामें धर्मरत्नप्रकरण की ३६ वीं गाथा की टीका के अन्त में आया हुआ “सखेवधो भणियमारोग्गदियचरिय। विशेषतः पृथ्वीचन्द्रचरितादवसेयम्।” यह अवतरण देकर पृथ्वीचन्द्रचरित्रकार और स्वोपज्ञवृत्तिसहित धर्मरत्नप्रकरणकार का ऐक्य बताया है। यहाँ बताया गया आरोग्य-द्विजचरित्र पृथ्वीचन्द्रचरित के पृ० १३३ से १३६ में है। इस प्रस्तावना में आ० श्री शान्तिसूरिजी ने संक्षिप्त और विस्तृत ऐसे दो पृथ्वीचन्द्रचरित बनाये हैं, ऐसा अलग अलग दो अवतरणों को देकर कहा है किन्तु वे दोनों अवतरण प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र के ही होने से आ० श्री शान्तिसूरि ने एक ही पृथ्वीचन्द्रचरित्र बनाया है यह स्पष्ट होता है। संभव है कि पू० पा० गुरुजी (मुनिवर्य श्री चतुरविजयजी) ने मैने यहाँ पहले कहा है वैसा किसी विद्वान ने प्राकृत भाषा की दुर्गमता टालने के लिए मगलाचरण सुभाषितों और प्रशस्ति के प्राकृत पाठ को यथावत् रखकर संस्कृत में तैयार किये हुए पृथ्वीचन्द्रचरित्र की प्रति को देखकर ऐसा विधान किया हो। तथा इस प्रस्तावना में पू० पा० गुरुजी ने ग्रन्थकार आ० श्री शान्तिसूरिजी, आ० श्री नेमिचन्द्रसूरि के ही शिष्य थे ऐसा प्रामाणिक गीति से कहकर मुनिसुन्दररचित पद्यावली में आ० श्री नेमिचन्द्रसूरि के पदघर उनके गुरुभाई के शिष्य आ० श्री मुनिचन्द्रसूरि बताये हुए होने से “पर याथातथ्यप्रमाणोपलम्भाभावेन न सम्यग् निर्णयं कर्तुं शक्यते।” ऐसा कहा है। इस सम्बन्ध में “ग्रन्थकार के प्रगुरु आ० श्री सर्वदेवसूरि के शिष्य श्री श्रीचन्द्रसूरिजी ने ग्रन्थकार का पक्ष लेकर उनको आचार्यपद दिया था (पृथ्वीचन्द्रचरित पृ० २२२ गा० २८८)” ग्रन्थकार के द्वारा लिखी हुई यह हकीकत ही, श्री मुनिसुन्दरसूरिकृत गुर्वावली में बताई गई हकीकत का समर्थन करती है। इस कारण से मेरा नम्र मत है कि श्री मुनिचन्द्रसूरि के पूर्वपदघर और पृथ्वीचन्द्रचरितकार श्री शान्तिसूरि के गुरुवर एक ही (श्री नेमिचन्द्रसूरि) थे।

इन दो ग्रन्थों के सिवाय ग्रन्थकाररचित अन्य ग्रन्थ मेरे जानने में नहीं आया।

ग्रन्थकार आ० श्री शान्तिसूरि ने सिद्धनाम के श्रेष्ठी द्वारा बधाए हुए नेमिनाथ भगवान के मन्दिर में अपने आठ प्रधान शिष्यों को आचार्यपद दिया था। इस कारण से उनके शिष्यसमुदाय में उपाध्याय आदि विशिष्ट पदवीधरों एवं मुनियों की सख्या विशाल होगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है। उक्त आठ आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं—  
१ महेंद्रसूरि २ विजयसिंहसूरि ३ देवेन्द्रचन्द्र(देवेन्द्र)सूरि ४ पद्मदेवसूरि ५ पूर्णचन्द्रसूरि ६ जयदेवसूरि ७ हेमप्रभसूरि और ८ जिनेश्वरसूरि।


प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित की रचना करने के लिए विज्ञप्ति करनेवाले मुनिचन्द्रमुनिद्वारा लिखी हुई पृथ्वीचन्द्रचरित्र की प्रति की प्रशस्ति की रचना को देखने से पता लगता है कि ग्रन्थकार के प्रधान पदवीधर शिष्यों के सिवाय अन्य शिष्य-वर्ग भी व्युत्पन्न और विद्यासाधक था। ग्रन्थकारन अपने आठ शिष्यों को आचार्यपद देकर उन्हें पिप्पलगच्छ के नायक बनाये थे। अर्थात् स्वयं शान्तिसूरि ने पिप्पलगच्छ की स्थापना की थी। यह बात ग्रन्थकार के द्वितीय शिष्य विजयसिंहसूरि की परम्परा के १० वें पदघर श्री धर्मप्रभसूरि के किसी शिष्य के द्वारा रची गई गुरुस्तुति में कही है। यह सम्पूर्ण गुरुस्तुति पिटर्सन के पांचवें रिपोर्ट के पृ० १२५ से १२७ में प्रसिद्ध हो चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार से, प्रसिद्ध जैन विद्वान प श्री लालचन्द्र भ० गाधी ने उनके, प्राच्यविधामन्दिर बडोदरा से प्रकाशित ‘ऐतिहासिक लेख सग्रह’ ग्रन्थ के पृ० ८२ में इस गुरुस्तुति के रचयिता श्री धर्मप्रभसूरि को माना है। किन्तु प्रस्तुत गुरुस्तुति के उपान्त्य पद्य में धर्मप्रभसूरि का



बहुमानयुक्त परिचय आया है, इस प्रशंसात्मक परिचय को देखते हुए यह निश्चित होजाता है कि इस गुरुस्तुति के कर्ता धर्मप्रभसूरि तो हो ही नहीं सकते। इस स्तुति के कर्ता का नाम तो स्पष्ट माह्य नहीं होता है किन्तु जबतक अन्य प्रामाणिक आधार नहीं मिलता है तब तक तो स्तुति के अन्त में आये हुए ' लक्ष्मीविशाला ' इस श्लेषरूप शब्द से लक्ष्मीविशाल नाम के मुनि की यह रचना है ऐसी सदिग्ध, कल्पना की जा सकती है।

ग्रन्थकार के आठ प्रधान शिष्यों में से द्वितीय शिष्य विजयसिंहसूरि ने वि. स. ११८३ में श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र पर चूर्ण की रचना की है। इस चूर्ण की प्रगति में कर्ताने चन्द्रगच्छ, श्री सर्वदेवसूरि, श्री नेमिचन्द्रसूरि और श्री शान्तिसूरि के नाम बताकर प्रस्तुत चूर्णकार के रूप में अपना नाम दिया है। यहाँ अपने आपको पिप्पलगच्छीय नहीं बताया है। इस कारण से उपर बताई गई इनके दसवें पङ्क्ति धर्मप्रभसूरि के किसी शिष्य ने रची हुई गुरुस्तुति में श्री शान्तिसूरि ने पिप्पलगच्छ की स्थापना की थी यह बात विचारणीय बन जाती है।

उक्त गुरुस्तुति के आधार से शान्तिसूरि के दूसरे पङ्क्ति ( विजयसिंहसूरि ) की शिष्यपरम्परा इस प्रकार है—



उपर बताई गई हकीकत से ग्रन्थकार के आठ पट्टशिष्यों में से दूसरे पट्टशिष्य श्री विजयसिंहसूरिजी की और उनके उत्तरोत्तर दस पट्टशिष्यों की पृथक् पृथक् शिष्यसन्तति का सख्याप्रमाण विपुल होगा, यह कल्पना की जा सकती है। उसी तरह ग्रन्थकार के शेष सात पट्टशिष्यों और उनके शिष्यों एवं उनके उत्तरोत्तर पट्टशिष्यादिकों की परम्परा की कुल शिष्यसन्तति भी विपुल होगी, यह समझा जा सकता है।

यहाँ बताये गये अवतरणों वाले ग्रन्थों को देखने से सुज्ञ वाचक यह जान सकते हैं कि ग्रन्थकारके पूर्वापर श्रमणकुलमें ज्ञान, तप एवं सयम के धाराधक अनेकानेक श्रमण महर्षि हो गये हैं।

उपर जिस गुरुस्तुति का उल्लेख किया है वह डॉ. पीटर्सन की रिपोर्ट के सिवाय अन्यत्र प्रसिद्ध नहीं हुई। पीटर्सन की आवृत्ति पुरानी जीर्ण एवं प्रायः दुर्लभ होने से और एतद्विषय के अम्यासियों को उपयोगी होने से यह गुरुस्तुति यहाँ उसमें से यथावत् देता हूँ—

जज्ञे वीरजिनात् सुधर्मगणभृत् तस्माच्च जम्बूस्तत सख्यातेषु गतेषु सूरिषु भुवि श्री वज्रशास्त्राऽभवत् ।  
तस्या चन्द्रकुलं मुनीन्द्रविपुलं तस्मिन् बृहद्गच्छता, तत्राभूद् यशसा प्रसादिनकु(क)कुम् श्रीसर्वदेवप्रभु ॥१॥

श्रीनेमिचन्द्राभिधसूरिरस्माद् जज्ञे जगनेत्रचकोरचन्द्र । चारित्रलक्ष्मीललिताङ्गहार पौरोपचारोरुशुभानुकार ॥२॥

चादोन्द्र कविपुङ्गवैकतिलक साक्षात्रिलोकीसर क्रोडक्रीडदशेषसज्जनमहो ! चारित्रचूडामणि ।

नन्दादद्भुतभाजन स भगवान् श्रीशान्तिसूरिप्रभु पृथ्वीचन्द्रचरित्रसत्रमकरोद्यो विश्वदत्तोत्सव ॥३॥

श्रीमन्महेन्द्रो विजयाख्यसिंहो देवेन्द्रचन्द्र. शुचिपद्मदेव । श्रीपूर्णचन्द्रो जयदेवसूरिर्हेमप्रभो नाम जिनेश्वरश्च ॥४॥

सिद्धश्रावककारिते निरुपमे श्रीनेमिचैत्ये पुरा, पूज्यैरष्ट गणेश्वरा निजपदे सस्थापयाचक्रिरे ।

श्रीमत्पिप्पलाच्छनायकतया विजाय होरावल, विख्याता भुवि शान्तिसूरिगुरव कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥५॥

चक्रेश्वरी यस्य पुषोष पूजा, सिद्धोऽभवद् यस्य गिरा नमस्य । श्रीवृक्षगच्छाम्बरसप्तसति, श्रीशान्तिसूरिः सुगुरुर्बभूव ॥६॥

तदनु मदनहन्ता शासनोद्योतकारी, जयति विजयसिंह सूरिमूरिप्रतिष्ठ ।

सबलकलिविघातं सयमासिप्रहारैरकृत सुकृतपात्रं भव्यको(२ लो)कैकभानुः ॥७॥

तत्पट्टपङ्केरुहराजहस, श्रीदेवभद्रो गु(ग)णभृद् रराज । उवास यः सज्जनमानसेषु, निर्दूषण खेलितशुद्धपक्ष ॥८॥

तदन्तर निर्जितमोहमल, श्रीधर्मबोध सुगुरुर्गरीयान् । ससारपूरेण तु नीयमान, ररक्ष यो धार्मिकलोकमेकम् ॥९॥

सच्चन्द्र-सूर्याविव तस्य पट्टे, बभूवतुर्द्वौ जयिनौ गणेशौ । श्रीसी(शी)लभद्र प्रथम प्रवीण, सूरिस्तत श्रीपरिपूर्णदेव ॥१०॥

विजयसेनगुरुस्तदनन्तर, विजयते वसुधातलमण्डन । निविडकर्मरिपून् स(श)मसायकैरपजहार विकारविरागवान् ॥११॥

भवत्रयं यो कलयाचकार, ज्ञानोदधिर्गौतमवञ्जिस्य । नरेन्द्रसामन्तसहस्रबन्ध, श्रीधर्मदेवो जयताद् गणेश ॥१२॥

... . वृत्तस्य पक्ष, चतुर्दशीपक्षविचारदक्ष । समप्रसिद्धान्तविलासवेदी, श्रीधर्मचन्द्रो जयताद् गणेश ॥१३॥

तत्पट्टशैलेन्द्रमृगेन्द्रतुल्य, श्रीधर्मरत्न सुगुरुश्चक्रास्ति । महाव्रतै पञ्चभिरेव योऽसौ, पञ्चाननन्तं विभरां बभूवे ॥१४॥

तत्पट्टपूर्वगिरिराजपद(थ)प्रकाशी, ज्ञानोदधिर्भविकस(प)अशिरोविकाशी ।

पापान्वकारतरणिर्मददर्पहन्ता, श्रीधर्मयुक्तिलकसूरिगुरुर्बभूव ॥१५॥

तत्पट्टे श्री(१) धर्मसिंह कविकरटमदारम्भसम्मेददक्षो, मुख्यो मोक्षार्थिनां हृच्छमदमकरुणारागिरासीत् स नूनम् ।

भूरिज्ञाने निवासी बुधजनमनसि प्राप्तवास सदा य, सर्वज्ञार्हव्रणामप्रणत[ ]हृदयः सदगुरुपातिसस्थ ॥१६॥

धर्मप्रधान स च विश्वलोके, धर्मप्रभः सूरिरित्तोदय स्यात् । चिकित्सया यो क्रिययापि रोगान्, बाह्यान्तरज्ञान् बहुशो निहन्ति ॥१७॥

स्तुतिं गुरुणा सुगुणैर्गुरुणा, दिनोदये य पठति प्रमोदात् । तस्यानिग भक्तिरङ्गभाजो, लक्ष्मीर्विशाला परिरम्भिणी स्यात् ॥१८॥

उपर बताई गई गुरुस्तुति के तीसरे पद्य में प्रस्तुत ग्रन्थकार का और उनके द्वारा रचे हुए पृथ्वीचन्द्रचरित्र का गौरव किया है । पाचवें पद्य में यहाँ पहले बताये गये पिप्पलगच्छ की स्थापना का उल्लेख है । और छठे पद्य में श्री शान्तिसूरि का मान्दिव्य चक्रेश्वरी देवी करती थी वह एव शान्तिसूरि के अनुग्रह से सिद्धनाम का श्रेष्ठी वंदनीय—आदरणीय—समृद्ध बना था ऐसा वर्णन किया है । यहाँ छंद की मात्रा का मेल विठाने के कारण पिप्पलगच्छ का श्रीवृक्षगच्छ नाम भी बताया है । शेष पद्यों में अनुक्रम से पद्यपरम्परा दी है ।

ग्रन्थकार श्री शान्तिसूरिजी, प्रथम के उदाहरणरूप, दाक्षिण्यरूपी जलसमूह के सागरसमान, काव्यरूपी रत्नों के रोहण-गिरि ( काव्यरत्नों की खान ) क्षमाशील और अमृतसमान वाणी वाले थे । ये विवेचन उनके शिष्य श्री विनयसिंहसूरिजी ने वि स. ११८३ में रची हुई श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्ण की प्रशस्ति में दिये हैं ।

\*

### पृथ्वीचन्द्रचरित्रसकेत और उसके कर्ता

प्रस्तुत पृथ्वीचन्द्रचरित्र में आनेवाले अनेक दुर्गम शब्दों एवं उनके सदर्थों के अर्थों को जानने के लिए अति मर्यादित प्रमाण में यह 'सकेत' रचा गया है । प्राकृत भाषा के अभ्यासियों के लिए पृथ्वीचन्द्रचरित्रगत प्रायः सभी क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को समझने के लिए यह लघुकृति पर्याप्त है । इस सकेत की मात्र एक ही प्रति मिली है । जिसका परिचय आगे दिया है ।

प्रस्तुत सम्पादन में उपयुक्त प्रतियाँ मे से तीन प्रतियाँ प्राचीनतम हैं । उसमें 'ख१' प्रति तो ग्रन्थकार शान्तिसूरि के शिष्य श्री मुनिचन्द्रमुनि की लिखी हुई प्रति की परम्परा की है । इस कारण से कभी कभी यहाँ मूलग्रन्थ में 'सकेत' कार द्वारा किये हुए अर्थ के अनुसार के मूलशब्द को प्राधान्य नहीं दिया । साथ ही साथ 'सकेत' कार सम्मत मूलपाठ के बदले यहाँ मूलवाचना में स्वीकृत प्राचीनतम प्रतियों का पाठ सम्पूर्ण सगत और मौलिक है यह भी एक हकीकत है । ऐसे चार स्थान नीचे देता हूँ—

१ पृ० १ गा० १ में 'कुवलयभूषणमणुनसाओदय' के स्थान पर 'सकेत' में 'कुवलयभूषणमणुनसाओदय' पाठ के अनुसार अर्थ किया है । यहाँ 'सकेत' जैसा मूलपाठ किसी प्रति ने नहीं दिया है । 'जे०' प्रति की टिप्पणी में मूल में स्वीकृत, प्रतियों के पाठ का अनुसरण करके अर्थ बताया है ।

२ पृ० ३ प० १० 'विथरियसरत्नसहस्रिगोहा' के स्थान पर 'सकेत' में 'विथरियसकलवसहरिसोहा' पाठ के अनुसार अर्थ किया है । यहाँ 'सकेत' जैसा मूलपाठ किसी भी प्रति ने नहीं दिया है । यहाँ मूल में स्वीकृत, प्रतियों के पाठ की सगति विद्वज्जल असदिग्ध है ।

३. पृ० १७२ प० ८ में 'रेहन्तसुरागारा' पाठ के बदले 'सकेत' में 'रेहन्तसुहागाग' पाठ के अनुसार अर्थ है। यहाँ भी सकेत जैसा मूलपाठ किसी भी प्रति ने नहीं दिया है, प्रतिओं का पाठ सम्पूर्ण सगत और मौलिक है।

४. पृ० १०३ पं. ११ में आया हुआ 'पुरुसेणो' पाठ के स्थान पर 'सकेत' में 'पुरिसेणो' पाठ के अनुसार अर्थ किया है। यहाँ सकेत का यह मूलपाठ मात्र 'भा०' सज्ञक प्रति ही देती है जो उपयुक्त प्रार्चनतम प्रतियों से लगभग तीनसौ वर्ष बाद में लिखी गई है। यहाँ भी मूल में स्वीकृत प्राचीनतम प्रतियों का पाठ सगत और मौलिक है।

उपर के अवतरणों से अनुमान किया जा सकता है कि लम्बे समय तक उत्तरोत्तर हुई नकलों में किसी स्थान में प्रतिलिपिकार द्वारा लिखी हुई अमौलिक पाठ वाली पृथ्वीचन्द्रचरित्र की प्रति के आधार से 'संकेत' के अर्थ लिखे गये हों। यानी कि 'सकेत' कार के समक्ष यहाँ उपयोग में ली गई ताडपत्रीय प्रतियों की अपेक्षा अर्वाचीन प्रति होनी चाहिए।

कहीं मूल शब्द का अर्थ जहाँ सहज रूप से स्पष्ट होता हो उसे छोड़कर 'सकेत' में मानो बहुवैकल्पिक प्राकृतभाषा का परिचय देना हो ऐसा अलग ही सगत अर्थ लिख कर प्राकृत भाषा के अभ्यासियों को चमत्कृत करने का प्रयत्न किया गया हो ऐसा लगता है। ऐसे दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ —

१ " हा हा न जए जुत्तो आसाबधो जणस्स तणुभो वि । पहंवंते बलवते दड्ढकयंते दयावते ॥ " (पृ० १८५ गा १७२) यहाँ सकेतकारने " दयया वान्त-त्यक्त " अर्थ किया है। इस अर्थ को सुसगत बनाने के लिए मूळ में सपादकजीने 'दयावंते' ही पाठ दिया है। किन्तु आगे यदि 's' अवग्रह लगा दिया जाय अर्थात् sदयावते पाठ के अनुसार अर्थ किया जाय तो इसकी अर्थसंगति ज्यादा सरल बन जाती है। 'संकेत' की रचना का उद्देश्य केवल शब्दार्थ का इशारा करना ही होने से यहाँ और अन्यत्र भी अनेक स्थानों में मूलशब्द के विभक्ति सहित अर्थ न बताकर केवल शब्द के ही अर्थ को बताने का प्रयत्न किया है।

२. "अह सो अत्थाणत्थो अत्थाणत्थो कयाइ नरसीहो । भणिओ पणामपुव्व दुवारपाळेण सहस त्ति ॥ " (पृ० २१३ गा० ११७) यहाँ राजा के विशेषण में दो बार 'अत्थाणत्थो' शब्द आया है। इस में प्रथम शब्द का अर्थ तो 'आस्थानस्थ' सुगम है किन्तु दूसरीबार आया हुआ 'अत्थाणत्थो' शब्द का अर्थ 'सकेत' में 'अर्थिभुवनेषु न विद्यते आस्था यस्य सोऽर्था(र्थ्य)नास्थ' ऐसा किया है। संकेत के इस अर्थ के बदले 'अस्तानर्थ' ऐसा अर्थ करने से अर्थ-संगति की वास्तविकता अधिक सरल बन सकती है। और 'खं २' सज्ञक प्रति के टिप्पण में यह अर्थ मिलता भी है।

सकेत में सकेतकारने एक स्थान पर (पृ० ६१ टि १) श्लेषालंकार में मूलपाठ के अनुरूप अर्थ करने के बाद अपनी औरसे जो एक विशिष्ट अर्थ दिया है उस में 'सकेत' कार की साहित्यिक शृंगाररसिकता का परिचय होता है, देखिये पृ० ६१ टि० १।

'सकेत' के कर्ता श्री रत्नप्रभसूरि है। सकेत के प्रारम्भ में (पृ० १ टि० १) और अन्त में (पृ० २२२ टि० १) 'संकेत' कारने अपने नाम के सिवाय अन्य कोई भी परिचय नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में जिन प्राचीनतम प्रतियों के मौलिक पाठ की अपेक्षा सकेतकार को मिले हुए भिन्न पाठ को बताने वाले चार उदाहरण मैंने उपर बताये हैं उसके आधार से कह सकते हैं कि सकेतकारने जिस मूलप्रति के पाठ के आधार से सकेत की रचना की है वह प्रति मूल-ग्रन्थकार के समय से कमसे कम सौ वर्ष के पूर्व की तो नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं शायद इससे भी ठीक ठीक प्रमाण में बाद के समय की होनी चाहिए। इस कारण से विक्रम की तेरहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में रचे गये नेमिनाथचरित्र (प्राकृत), उपदेशमालावृत्ति (दोषट्टी), रत्नाकरावतारिका आदि ग्रन्थों के प्रणेता बृहद्गच्छीय वादिदेवसूरि के शिष्य प्रसिद्ध विद्वान श्री रत्नप्रभसूरि, प्रस्तुत सकेतकार श्री रत्नप्रभसूरि से भिन्न प्रमाणित होते हैं।

श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर की ग्रन्थमाला के २४ वें ग्रन्थाङ्क रूप से प्रकाशित रत्नाकराव-  
तारिका भा० ३ की प्रस्तावना में भारतीय दर्शनों के गहरे चिंतक एवं अभ्यासी पं० श्री दलसुखभाई मालवणिया ने अलग  
अलग रत्नप्रभसूरियों के उल्लेख किये हैं। इन समस्त रत्नप्रभसूरियों में से अग्रगण्य भाषानिबद्ध 'अंतरगसंधि' के रचयिता  
रत्नप्रभसूरि ने प्रस्तुत 'सकेत' रचा हो ऐसा अनुमान होता है। 'अंतरगसंधि' की वि सं १३९२ में लिखी प्रति  
पाटण—मंघवी पाडा के जैन ज्ञान भण्डार में है। उसके अंत में "श्री धर्मप्रभसूरिरत्नप्रभकृतिरियं" ऐसा लिखा है। यहाँ  
बताई गई गुरुस्तुति के अन्त में उल्लिखित धर्मप्रभसूरि के शिष्य रत्नप्रभसूरि यही होने चाहिये। ये धर्मप्रभसूरि, पृथ्वीचन्द्र-  
चरित्रकार शान्तिसूरि के ग्यारहवें पट्टघर हुए हैं इस से उनके शिष्य रत्नप्रभसूरि का समय अनुमानतः विक्रम की १४ वीं  
शताब्दी होना चाहिए।

अपनी गुरुपरम्परा के अग्रिम आचार्य की प्रासादिक रचना पर 'सकेत' रचनेवाले अन्तरगसंधि के कर्ता रत्नप्रभसूरि  
होने चाहिए। यह अनुमान, जब तक अन्य कोई वाधक प्रमाण न मिले तब तक मानना योग्य लगता है।

\*

### ग्रन्थगत सांस्कृतिक सामग्री

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में यंत्रप्रयोग से क्रिया करने वाले नर नारियों के पुतले, एवं यांत्रिक पशु पक्षियों के उल्लेख  
अनेक स्थलों पर मिलते हैं। उसी तरह प्रस्तुत ग्रन्थ के पृ० ८४ की ४४ वीं गाथा में नृत्य करती यांत्रिक पुतलिका  
एवं आपस में लड़ाई करते यांत्रिक पक्षियों के उल्लेख मिलते हैं। तथा पृ. ८५ गा. ५२-५३-५५ और ५६ में मण्डप  
में प्रवेश करने वाले को मना करने वाले यंत्रचालित द्वारपाल, मण्डप में प्रवेश करने वाले की पगड़ी उठाने वाले तोरण  
पर बैठे हुए यांत्रिक वन्दर, हाथ में पुष्पमाला लेकर मण्डप में धुमती हुई यंत्रचल पुतलिका एवं आकाश में उड़ते हुए  
यंत्रचल पक्षियों के तथा १९१ वें पृष्ठ की ५-६ पक्ति में पुष्पांजलि करती हुई, स्नान कराती हुई, चन्दन रस छांटती हुई  
यंत्रचल पुतलिकाओं के उल्लेख मिलते हैं। तथा यंत्रप्रयोग से खाली होनेवाली और पुनः भर जानेवाली वापिका का भी  
उल्लेख यहाँ मिलता है।

उपरोक्त घटना, मात्र प्राचीन कथाग्रन्थों की प्रणालिका का अनुसरण करके ही लिखी गई है ऐसा तो नहीं कहा  
जा सकता क्योंकि विक्रम की ११, १२ वीं सदी में ऐसी यांत्रिक चीजें बनाने के प्रमाण मिलते हैं। इस कारण से हमारे  
ग्रन्थों में लिखी हुई इस प्रकारकी समग्र हकीकत के मूल में वास्तविकता रही हुई है। अतः हमें इसका अनुसंधान करना  
चाहिए। महाराजाधिराज धाराधिपति भोजदेव (समय वि० ११-१२ वीं सदी) ने अपनी रचना 'शृंगारमंजरी' में अपना  
यंत्रगृह का वर्णन किया है। उस में मृदंग वजाता हृषा यंत्रपुत्रक, हयेलियों से जल उछालती हुई यंत्रपुतलिका, नृत्य करती  
हुई यंत्रपुत्रिका, गुजारव करते हुए यंत्र के मकरमिथुन, यंत्रवृक्ष, कृत्रिम बककुटुम्ब, यंत्रचल जलकच्छप मगर आदि के उल्लेख  
किये हैं। ठमी प्रकार यत्रमानव से भोजदेव अपना परिचय बुलवाता है। इस प्रकार के विविध यंत्र प्रयोगों के ज्ञानसुओं  
के लिए श्री सिंघी जैन ग्रन्थमाला के ३० वें ग्रन्थाङ्करूप से प्रकाशित शृंगारमंजरीकथा पृ. ५ से ७ तक के भागको देखनेका  
सूचन करता हूँ।

भोजदेव द्वारा लिखे हुए उपरोक्त वर्णन से हमें यंत्रप्रयोगों की वास्तविकता माननी चाहिए। तथा जिसमें पुतलिका  
चलती है ऐसी बत्तीम पुतलिका की चार्ता आदि के मूल में यंत्रप्रयोग था ऐसा कह सकते हैं।

प्राचीनकाल में भारत के विविध प्रदेशों में तापसों के आश्रम थे। उन आश्रमों में त्यागी और सयमी तापस रहते थे। धर्मानुष्ठान, तपस्या और ध्यान आदि उनकी दिनचर्या थी। तदुपरान्त ये आश्रम, प्रवासियोंको अनेक प्रकारसे सहायक हो सके वैसी उच्च कक्षाकी सामाजिक संस्था जैसे थे। यह इकीकत प्रस्तुत ग्रन्थ के तीन स्थानों पर उल्लिखित तापसाश्रमों के वर्णन से जानी जा सकती है। प्रस्तुत ग्रन्थ के अनेक स्थानों पर जैन परम्परा के अनुसार व्रतनियमों का एवं उनके शुभ फलोंका निरूपण किया है। यह एक वास्तविक होने पर भी तथा ग्रन्थकार के स्वयं एक जैनाचार्य होने पर भी उन्होंने प्रस्तुत तापसाश्रमों एवं तापस-तापसियों का गौरवशाली निरूपण करके अपनी वास्तवदर्शी उदात्तता का परिचय दिया है, ऐसा कह सकते हैं। इस ग्रन्थ में तापसाश्रमों के उल्लेख १४१, १६७, और १९२ वें पृष्ठोंमें आते हैं। उनमें १४१ वें पृष्ठ में तापसों का संक्षिप्त परिचय भी मिलता है। वह इस प्रकार है— “ इस आश्रम में करुणाव्रतवाले, ब्रह्मचारी देश-पुर-गाम-घर-नारी-स्वजन-घन-धान्य और स्नेह से सर्वथामुक्त, महानुभाव, निरारभी, असि, मषी, कृषि और वाणिज्य के त्यागी, फलाहारी, मानापमान में समान ऐसे मुनि रहते हैं और लोक में ये मुनि ही सुखपूर्वक रहते हैं। ” १६७ और १९२ वें पृष्ठ में जिन तापसाश्रमों को बताया है उनमें सात्विक, सच्चरित्र तापस-तापसियाँ रहती थीं, ऐसा निर्देश है। दीन दुखी और विविध कारणों से परितप्त जनों को ये आश्रम सहायक होते थे। तथा तापसाश्रमों में प्रवासियों को जीवन को सस्कारित करने की शिक्षा भी मिलती थी।

भारतीय प्राचीन-प्राचीनतम समग्र ग्रन्थों में से तापसाश्रम सम्बन्धित लभ्य सामग्री को संप्राप्त कर यदि एक ग्रन्थ तैयार किया जाय तो वह हमारे सामाजिक और पारमार्थिक प्राचीन पक्ष का एक उल्लेखनीय इतिहास गिना जायगा।

किसी भी संप्रदाय के विद्यासिद्ध धर्मगुरुका जीवन और उनकी सिद्धि परोपकार के लिये ही होती है। यह बात भूततंत्र नामके विद्यासिद्ध (देखो पृ० ९५ पं० १६) एवं मंत्रसिद्ध (देखो पृ० १२२ पं० १-१३) तथा सिद्धपुत्र (दे० पृ १६६) के कथाप्रसंग से जानी जा सकती है। साथ ही साथ जैसे आज धूर्त व्यक्ति सज्जन या साधु के वेग में तरह तरह के स्वांग रचते हैं उसी तरह प्राचीनकाल में भी खतरनाक चालबाज व्यक्ति अपनी धूर्तता को छिपाने के लिए साधुवेष का आश्रय लेता था। यह घटना प्रस्तुत ग्रन्थ के कथा प्रसंगों से जानी जा सकती है (देखो पृ० ६८ पं० १३, पृ० ९३ पं० १५, पृ० ११८ पं० २ और ७, पृ० १२१ पं० २५, पृ० १२६-२७ और पृ० १५८)।

इस ग्रन्थ में दिव्य विद्याओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं— वेदविद्यविज्ञा-वैक्रियविद्या (पृ० ८४ पं० १६), अवराइया विज्ञा-अपराजिता विद्या (पृ० १०० पं० १४ तथा पृ० १६७ प १), महावेयालिणी विज्ञा-महावेतालिनी विद्या (पृ० १४४ पं० २६), रूवपरावत्तिणी विज्ञा-रूपपरावर्तिनी विद्या (पृ० १५७ पं० ३), पहविज्ञा—पटविद्या (पृ० १६७ पं० १४) और अवसोयणी विज्ञा-भवस्वापिनी विद्या (पृ० ५० पं० ४)।

यहाँ इन्द्रजाल प्रयोग के दो उदाहरण मिलते हैं। जैसे १. इन्द्रजाल के प्रयोग से नागकन्या को राजसभा में उपस्थित किया गया (देखो पृ० १२६ पं० ६)। २. इन्द्रजालविद्या से सुन्दर तरुणी बनाई गई (पृ० २१० पं० ४)।

स्वरक्षण का ज्ञाता, गायक व्यक्ति का स्वर सुन करके ही उसको पहचान जाता था। इसका उल्लेखमात्र इस ग्रन्थ में हुआ है (पृ० १२८ पं० ७)।

इस ग्रन्थ में पलाश वृक्ष को लक्ष्य करके भूमिगत खजाना जानने, का उपाय भी लिखा है। वह इस प्रकार है— यदि पलाश वृक्ष की शाखा में से निकल कर कोई शाखा जमीन में चली गई हो तो उस जमीन के नीचे गई हुई शाखा

के मूलभाग के पास निधि होती है। शास्त्रा का छेद करने पर यदि लाल रस निकले तो उस स्थान में रत्न होंगे, पीला रस निकले तो सोना होगा और श्वेत रस निकले तो चादी होगी ( देखिये पृ० ११९ पं २४-३१ )।

लाल दूध वाली थूहर की आग में तथाविध मन्त्रप्रयोग से जीवित पुरुष का होम करके सुवर्ण पुरुष बनाने का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में हुआ है ( पृ० २२१ पं २२ से २७ )।

मणि रत्नों का प्रभाव भी इस ग्रन्थ में उल्लिखित है — जैसे मणिरत्नों के प्रभाव से विष का आवेग नाश हो जाता है ( दे० पृ० ८३ पं० १७ )। मणियों के प्रभाव से राज्यवैभव एवं इच्छित सामग्री मिलती है ( दे० पृ० ९१ पं० ६-८ )।

सुख समृद्धि देनेवाली दिव्य औषधि का उल्लेख भी यहाँ मिलता है ( देखो पृ० १२१ पं० ११ से १६ )। तथा देवी योगाञ्जन से स्त्री की उंटनी और उंटनी की स्त्री बन जाती है। यह घटना ९३ वें पृष्ठ की ६ से ८ पक्ति में, ९६ वें पृष्ठ की १५ वीं पक्ति में, एवं ९७ वें पृष्ठ की ४-५ वीं पक्ति में मिलती है।

इस में यक्ष पूजा का उल्लेख भी आया है ( देखो पृ० १६५ पं० १३ ) तथा योग्य जमाई प्राप्त करने के लिए यक्ष की आराधना का प्रसंग भी इस में आया है ( देखो पृ० ५४ गा० ६३६ )।

सर्वत्याग करने की वृत्तिवाला सूरसेन राजा अपने पुत्र चन्द्रसेनकुमार को इस प्रकार की शिक्षा देता है — “ वत्स ! यह राज्य विना रस्सी की जेठ है, विना दोरी का बन्धन है, विना मालिक की पराधीनता है, विना मद्य का नशा है, विना आंख का अन्धत्व है, अतः राज्य ही सब कुछ है यह नहीं मान लेना चाहिए। धर्म में अनुराग रखना, कुलाचार का उल्लंघन मत करना, नीतिमार्ग को मत छोड़ना, शिष्ट लोगों को पीडित मत करना, प्रजावर्ग का अपमान मत करना, वफादार नोकरों का अनुवर्तन करना—उनके कथन पर ध्यान देना, बड़ों की बात मानना, अमात्यों के वचन के अनुसार चलना तथा जिस में यश मिलता हो वैसा काम करना। ” इस उद्धरण में सत्ता या अधिकार में रही हुई जवाबदारी और दूषणों का अति-संक्षेप में वर्णन दिया है। शासक या अधिकारी वर्ग को कैसा बरतना चाहिए ? उस सम्बन्ध में यह अवतरण प्रेरणाप्रद है। शासकों के कर्तव्य को बताने वाली ऐसी और इससे भी विस्तृत सामग्री प्राचीन ग्रन्थों में मिल सकती है।

२२० वें पृष्ठ में आई हुई २३९ वीं गाथा में यह कहा है कि जिसके पास जितना क्रोध चलनी द्रव्य हो वह अपने मकान पर उतनी ही ध्वजाएँ रख कर अपना गौरव मानता और मनवाता था। ‘ अपनी बाह्य विशिष्ट पहचान होनी चाहिए ’ इस प्रकार की धनवानों की अभिलाषा इस में व्यक्त होती है।

इस ग्रन्थ के एक स्थल में स्त्रियों के १४ आभरणों का उल्लेख आया है “ दिनं तिलयचउदसमाभरणं सुवहुं च महाम्भवंरं सुदगीण ” ( पृ० ११८ पं० ३ )।

चन्म के पूर्व ही मगाई करने की प्रथा आज प्रायः लुप्त है। प्राचीन समय में शिष्ट समाज में भी यह प्रथा कहीं कहीं प्रचलित थी। इस ग्रन्थ के पृ० १२९ गा० ८६ में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है।

योग्य पति की पसन्दगी के लिए युवकों के चित्र नायिकाओं को बताये जाते थे। इस प्रथा का वर्णन अन्य कथा-ग्रन्थों की तरह इस ग्रन्थ में भी आया है, ( देखिये पृ० ६२ गा० २५ तथा पृ० ६६ पं० २७ )।

इस ग्रन्थ के एक कथाप्रसंग में यह भी आया है कि एक राजकुमारी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति चार विधाओं में से कम से कम एक विद्या में भी निपुण होगा उसी के साथ विवाह करूंगी। वे चार विद्याएँ ये थीं — १ ज्योतिष,

२ आकाशगामी विमान बनाने का विज्ञान, ३ राधावेध कर सके ऐसा धनुर्वेद का ज्ञान, ४ एवं विषनाशक गारुड शास्त्र का ज्ञान (दे० पृ० ७० पं० ६-७)।

आज भी स्त्री की प्रथम प्रसूति पिता के घर होती है। इस प्रथा का उल्लेख इस ग्रन्थ में इस प्रकार है — “पदमं किर नारी पिङ्गरो पसवह त्ति (पृ० १२ पं० १९)। इससे हमारे समाज की प्राचीन परम्परा जानी जा सकती है।

नव परिणीत वधू को प्रारम्भ में अशुरघर में आनेका आनन्द तो होता है साथ ही साथ पितृगृह छोड़ने का दुःख भी। ऐसे दुःख को भुलाने के लिये यहाँ एक स्थान पर नायक अपनी पत्नी के साथ उद्यानक्रीडा करता है, आश्चर्यकारक स्थानों को बताता है, पत्रछेद्यादि कलाकृतियाँ बनाता है, तथाविध नृत्य आदि से आनन्द लेता है और प्रहेलिकाओं द्वारा विनोद करता है (देखिये पृ० १३० पं० ८ से पृ० १३१ पं० ६)।

आज प्राचीन परम्परा के अनुसार जो शाही बनाई जाती है उस में काजल और हीराबोळ समप्रमाणमें लिया जाता है। यह पद्धति ग्रन्थकारके समय में भी होगी यह ग्रन्थगत एक प्रहेलिका से ध्वनित होती है। (दे० पृ० १३० गा० १०३)।

इस ग्रन्थ के पृ० १३५ गा० २१३ के पूर्वार्द्ध में एक उक्ति आई है — “को जजरेइ कुमे जउविणिओयत्थमेत्थ जाणंतो ?” अर्थात् लाखका प्रयोग करने के लिए कौन घड़े को जर्जरित करेगा ? इस उक्ति से यह जाना जाता है कि प्राचीन समय में फूटे हुए घड़े या बर्तन को सांघने के लिए लाख का उपयोग किया जाता था।

काष्ठनिर्मित देवमूर्ति का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में हुआ है (दे० पृ० १५७ पं० २८-२९)।

विशिष्ट कथक — कथा कहने वाले को कथा सुनने के रसिक राजाओं की ओर से राग्याश्रय भी मिलता था (देखो पृ० ९० पं० १०)।

स्वर्णभूमि में मजदूरों को वेतन में स्वर्ण मिलता था। यह उल्लेख भी इस में आया है (पृ० २१० पं० २-३)।

स्वर्णसिद्धि के रस प्रयोगका भी इसमें उल्लेख है (पृ० १८३ पं० १९-२०)।

वमन करने के लिए मदनफल का उपयोग किया जाता था (पृ० ४२ गा० २६३)।

आस्र के समस्त रोगों को नाश करनेवाली गुटिका का उल्लेख पृ० ११२ पं० २० में है।

समुद्र में जहाज टूट जाने के बाद काष्ठ आदि की सहायता से जो प्रवासी समीप के टापू में पहुंच जाता था वह प्रवासी, आने जाने वाले सागरयात्रियों की जानकारी के लिये सागर के तट पर एक चिह्न करता था। ताकि उस चिह्न को देखकर आने जाने वाले सागरयात्री यह जान जाय की इस टापू में कोई यात्री फसा पडा है। प्रवासी उसके बचाव के लिए वहाँ पहुंचते थे और उसकी सहायता करते थे। यह वृत्तांत इसी ग्रन्थ के पृ० ४६ की गा० ३९० में आये हुए ‘मिन्नवाहणियचिर्घं — मिन्नवाहनचिह्नम्’ पद से जाना जा सकता है।

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में सुरग-मूर्गमार्ग का उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थ के पृ० ७२ की छठी पंक्ति में भी यह उल्लेख आया है।

कपड़े की टुकान के आगे वस्त्र का परदा रखने की प्रथा प्राचीन समय में भी थी। इस प्रथा का वर्णन इसी ग्रन्थ के पृ० ८१ की ११ वीं पंक्ति में आया है।

इस ग्रन्थ के पृष्ठ १३२ पं० १३ में आये हुए तुरुक, वाल्हीक और सिन्धुवार देश के घोड़े के व्यापारियों के उल्लेख से यह जाना जाता है कि इन तीन देशों के घोड़े उंची जाति के होने चाहिये।



पृ० १३४ की पं० ७ से १४ में गधे का पूछ पकडनेवाले का दृष्टान्त आया है। इस से जाना जाता है कि आज के लौकिक व्यवहार में आनेवाले अनेक दृष्टान्त प्राचीन परम्परा से आये हुए हैं।

पृ० १८४ पं० २० में चीन देश का चीनदीव के नाम से उल्लेख हुआ। पृ० १८४ पं० १३ में कडाहदीव का भी उल्लेख मिलता है।

\*

### ऋणस्वीकार

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में उपयुक्त प्रतिभो का उपयोग करने के लिये जिन-जिन ज्ञान भण्डारों के अधिकारी — व्यवस्थापक महानुभावों ने स्व० सम्पादकजी को सम्पूर्ण अनुकूलता करवा करके ज्ञानप्रकाशन कार्य में सहयोग प्रदान किया है उस के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी यह ज्ञानभक्ति प्रशस्य एव अनुमोदनीय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन-संशोधन कार्य में मैं स्व० सम्पादकजी का सहायक था। प्रस्तुत ग्रन्थ के सातों परिशिष्टों एवं विषयानुक्रम को मैंने ही तैयार किया है। इस बात को ध्यान में रखकर प्राकृत ग्रन्थ परिषद् के मानद मंत्री प० श्री दलसुखभाई मालवणियाजी ने मुझे इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने की अनुमति दी। एतदर्थ मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रस्तुत सम्पादन कार्य में जहाँ जहाँ अंकास्थल थे उनका निराकरण प० पा० आगमप्रभाकरजी विद्वद्वरेण्य मुनिवर्ध श्री पुण्यविजयजी ने किया है। इस महती कृपा से स्व० सम्पादकजी एवं मेरे पर आपने अपनी उपकारपरंपरा सुदीर्घ बना दी है। इस उपकार से स्व० सम्पादकजी धन्यता का अनुभव करते थे तथा मैं कर रहा हूँ।

गुजराती में लिखी हुई इस प्रस्तावना को साधन्त पढ़कर योग्य परामर्श करने के लिए मेरे सम्मान्य स्नेही श्री रतिलालभाई दी देमाई के प्रति मेरा विनम्र भाव व्यक्त करता हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का विषयानुक्रम पढ़ कर योग्य सूचन करने के लिए पं० श्री हरिशंकरभाई अंबाराम पंड्या के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

गुजराती में लिखी हुई इस प्रस्तावना का हिन्दी भाषान्तर श्री रूपेन्द्रकुमार पगारिया ने किया है एतदर्थ मैं उनका ऋणी हूँ।

वसन्त प्रिन्टिंग प्रेस के मुख्य नियामक भाई श्री जयन्तीशाल दलाल (दिवंगत) और मेनेजर श्री शान्तिशालभाई तथा अन्य प्रेस कर्मचारियों का मुद्रण कार्य में सद्भावपूर्ण सहयोग मिला अतः उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का सर्व प्रथम प्रकाशन करने के लिए प्राकृत ग्रन्थ परिषद् के मर्मज्ञ नियामकों के प्रति भी सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इनके नेतृत्व में ऐसे अनेकानेक अप्रकाशित प्राकृत ग्रन्थ प्रकाशित हो करके यह ग्रन्थमाला समृद्ध होगी ऐसी शुभ कामना व्यक्त करता हूँ।

श्री महावीर जैन विद्यालय संचालित  
आगम प्रकाशन विभाग जैन उपाश्रय  
लुनसावाडा, अहमदाबाद १  
१ अप्रिल १९७०

विद्वज्जनविनेय —

अमृतलाल मोहनलाल भोजक

## सूचना

इस ग्रन्थ के शुद्धिपत्रक (पृ० २५१ से २५३) में निदर्शित पाठशुद्धि से अतिरिक्त और भी अशुद्ध स्थानों की पाठ-शुद्धि इस प्रकार पढ़ें —

पृ०	पं०	अशुद्ध	शोधनीयम्
१	१२	शा ला°	शां (सां) — [शोभां] ला°
”	”	विशालं	विसालं
७	३०	मध्यदेहश्च	मध्यदेह(श)श्च
८९	१	°दुर्दहा°	°दुर्दहा°
”	३०	दुर्दया° जे० विना	दुर्दहा° जे०
९१	१७	पत्थिआ	पत्थिओ
१३९	३०	शुक्क सुश्रु ता°	शुक्क(सुश्रु)ता°
”	३१	वसुघा°	व(च) सुघा°
१५९	८	साँमिनि°	माँमिनि°
”	३१	सामिनि°	मामिनि°
१६८	१३	दलव°	दल व°
२०९	११	मोहाओ	मोहओ
२२१	२९	भग-सि°	भंगसि°
२२२	१९	इति	इति
”	२७	पक्षेन्दी	पक्षेन्द्र

## प्रस्तावना

१९	२०	श्री°	श्री°
२०	१०	सकता	सकते
”	२७	नष्ट	नष्टं
२३	२०	°को(१ लो)कै°	°कोकै°

\*

ग्रन्थ के मुखपृष्ठ में ग्रन्थ का नाम 'पुहइचंदचरियं' दिया गया है जब कि ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ में ग्रन्थ का नाम 'पुहवीचंदचरियं' और समअंकवाले पृष्ठों के शीर्षक में 'पुहवीचंदचरिए' दिया गया है। उन सभी स्थानों में अनुक्रम से 'पुहइचंदचरियं' और 'पुहइचंदचरिए' ऐसा सुधार लेने की प्रार्थना है, क्योंकि स्वयं ग्रन्थकार ने एवं अन्य ग्रन्थकारों ने इसका, मुखपृष्ठ में मुद्रित 'पुहइचंदचरियं' नाम से ही उल्लेख किया है।

अ. मो. भोजक

## विषयानुक्रमः

विषय	पृष्ठाङ्कः
मङ्गलमभिधेयकथनं च ।	१-२ .
१. प्रथमः शङ्खनृप-कलावतीभवः ।	२-२९.
जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र-श्रीमङ्गलदेश-शङ्खपुरनगर-शङ्खनृपादीनां वर्णनम् ।	२-४
आस्थानस्थशङ्खनृपाग्रे देशान्तरागतस्वनगरवास्तव्यदत्ताभिधानवणिक्पुत्रस्याऽऽगमनम्, तत्सका- शात् नृपकृतं देवशालनगराधिपविजयराजकन्याकलावतीचित्रफलकदर्शनं च ।	४-५
शङ्खनृपाग्रे दत्तकृतं प्रवासवर्णनम् ।	५-७
[ दत्तकृतप्रवासवर्णने -- दत्तस्य देशदर्शनयात्राप्रस्थानम्, अरण्ये तुरगाहरणश्रममूर्च्छितस्य देव- शालाधिपविजयराजपुत्रस्य दत्तकारितं समीकरणम्, द्वयोर्देवशालनगर प्रति प्रयाणं च (पृ० ५-६) । जयसेनकुमारगवेषणार्थं विनिर्गतस्य सस्कन्वावारस्य विजयराजस्य मार्गं जयसेन-दत्तयोर्मिलनम् । विजयराजस्थग्रे जयसेनकृतो दत्तपरिचयः । सर्वेषां देवशालनगरागमनम् । निजपुत्र्या कलावत्या योग्य- वरगवेषणाविषये विजयराजस्य दत्तं प्रति विजृम्भितः, कलावतीचित्रफलकं गृहीत्वा दत्तस्य स्वनगरागमनं च (पृ० ६-७) । ]	
शङ्खनृपसमासम्यकृत कलावतीलामप्रत्ययः वाग्विनोद ।	७-८
निजभगिनीकलावतीपरिणायनार्थं कलावतीसहितस्य जयसेनकुमारस्य शङ्खपुरागमनम् ।	८-९
जयसेनकुमार-तदमात्य-शङ्खनृपाणां मिथः औचित्यनिवेदको वार्तालापः ।	९-११
शङ्खनृप-कलावत्योर्विवाहः, जयसेनस्य स्वनगरगमनं च ।	११
निजभ्रातृजयसेनकुमारप्रेषिताद्दयुगलाद्यवलीकनसञ्जातहर्षोल्लासाया कलावत्या सखीभिः समं भ्रातृस्नेहप्रकटनात्मको वार्तालापः । कलावती-तत्सखीवार्तालापापरमार्थज्ञेन प्रच्छन्नस्थितेन शङ्खनृपेण कलावतीशीलकुशङ्कितेन कृतं गुर्विण्या अजापितपरमार्थाया कलावत्या अरण्यनिष्काशनम् ।	१२-१३
शङ्खनृपादिष्टचाण्डालनारीकृतभुजायुगलायाः कलावत्या अरण्ये विलापः, पुत्रप्रसवः, कलावती शीलप्रभावप्रसन्नसिन्धुदेवीप्रसादेन कलावत्या नूतनभुजायुगलप्राप्तिः, ऋषिकुमारेण सहाऽऽश्रमगमनम्, कुलपत्याजयाऽऽश्रमावस्थानं च ।	१३-१५
ज्ञातसद्भावस्य शङ्खनृपस्य पश्चात्तापपुरस्सरं परिदेवनम्, तदनु ज्वलनप्रवेशननिश्चयप्रकटनं च । कृताग्निप्रवेशनिश्चयं शङ्खनृपं प्रति अमितगत्याचार्यस्याऽऽन्मघातनिषेधको ग्रामीणबुद्धिप्रभावदर्शकधन्य- श्रेष्ठिपुत्रचतुष्कान्तरकथासमन्वितपद्मराजकथानक-दुःखमुक्त्याभाससमर्थककपिलश्रोत्रियकथानकपुरःसर धर्मोपदेशः, कलावतीसयोगकथनं च ।	१५-२३.
[अमितगत्याचार्यधर्मोपदेशगतं पद्मराजकथानकम् । कमलानाम्बरुणश्रेष्ठिपुत्रीदर्शनमात्रोत्पन्नरागस्य पृथ्वीपुराधिपस्य पद्मराजस्य वरुणश्रेष्ठचतुर्मत्या कमलया सह विवाहः, विवाहानन्तरमेव कमलाविस्मरणं च । कालान्तरे पुनर्दृष्ट्यां कमलायाः परिचयार्थं सानुरागस्य पद्मराजस्य मित्रं प्रति पृच्छा । राजानं प्रति मित्रस्मारितो वृत्तवृत्तान्तः । कमलायाः राजभवनगमनम् । सच्चरित्रायाः कमलायाः रतिवैदग्ध्येन	

कमलाशीलकुशङ्कितस्य प्रवराजस्य प्रच्छन्नं कमलामारणार्थं प्रभाते मन्त्रिणं प्रति आदेशः । दीर्घ-  
दर्शिमन्त्रिकृतं प्रच्छन्नस्थाने कमलासन्धारणम् (पृ० १९-२०) । शून्यमनस्कविमलनृपमनोविनो-  
दाय विद्वुवृण्ठकथितं प्राप्तमरणावसरपितृकथितनिजनिजकर्तव्यविभाजनसङ्केतापरमार्थज्ञपरस्परकल-  
हरतधन-धनद-धर्म-सोमाभिधानधन्यश्रेष्ठिपुत्रचतुष्कग्रामीणवृद्धकृतदायविभाजनकलहनिरसनात्मकमा-  
ख्यानकम् (पृ० २०-२१) ।

अमितगत्याचार्यधर्मोपदेशगत कपिलश्रोत्रियकथानकम् । अन्त्यजादिस्पृष्टधूलीस्पर्शादिकारण-  
समुत्पन्नशुचिधर्मपालनविकल्पस्य गङ्गातीरनामकसन्निवेशवास्तव्यकपिलाभिधानश्रोत्रियस्य द्वीपान्त-  
रागतनाविकपृच्छानन्तरज्ञातमनुष्य-तिर्यगादिरहितेक्षुद्वीपस्येक्षुद्वीपगमनम् । इक्षुचर्वणजातजिह्वाक्षत-  
स्यापि शुचिधर्मपालनविषयात्मसन्तोषवतस्तस्येक्षुद्वीपे भ्रममाणस्य शुष्कविष्ठागुलिकाया इक्षुफल-  
कल्पनया भक्षणम् । इक्षुद्वीपागतभग्नपोतवणिजो समक्ष कपिलकृतमिक्षुफलप्रतिपादनम् । वणिक्कृत  
इक्षुफलनिरासः शुष्कविष्ठागुलिकाप्रत्ययश्च । तदनन्तरं परिदेवमानस्य कपिलस्य वणिक्कृत  
सान्त्वनम्, स्वसन्निवेशनयन च । कपिलस्य प्रायश्चित्तद्वारेण शुद्धिश्च (पृ० २१-२३) ।]

शङ्खनृप-कलावत्यो पुनर्मिलनम् ।

२४-२५

शील-देव-गुरुस्वरूपप्ररूपिका अमितगत्याचार्यधर्मदेशना ।

२५-२६

कलावतीसहितस्य गङ्गराजस्य स्वनगरप्रवेशः ।

२७

अमितगत्याचार्यधर्मदेशनाभावितस्य प्रदत्तनिजपुत्रपुण्यकलशराज्यस्य कलावतीसहितस्य  
गङ्गराजस्य धर्माचरणम्, क्रमशः प्रव्रज्याग्रहण देवलोकगमनं च ।

२८-२९

\*

## २. द्वितीयः कमलसेन-गुणसेनाभवः ।

३०-५१

देवलोकान्युतस्य शङ्खनृपजीवदेवस्य पोतनपुराधिपगञ्जुञ्जयनृप वसन्तसेनाराज्यो. कमल-  
सेनाभिधानपुत्रत्वेन जन्म, यौवनप्राप्तिश्च । वसन्तवर्णनम् ।

३०-३१

उद्यानगतस्य कमलसेनस्य देवकुलिकाप्रविष्टकृतनारीरूपयक्षरुदनश्रवणानुसारसाहाय्यार्थं  
देवकुलिकाप्रवेशः । देवकुलिकासहितस्य कमलसेनस्य यश्रकृतं हरणम् । अरण्ये देवकुलिका-  
स्थाने यक्षविकुर्वितप्रासादे कृतनारीरूपयक्षस्य कमलसेनं प्रति विषयभोगयाचना, कमलसेनकृत-  
स्तन्निषेधश्च । प्रासादनिर्गतस्य कमलसेनस्य कृतपुरुषरूपयक्षकृत सत्त्वपरीक्षणम् ।

३१-३२

सर स्नानानन्तर वह्निर्निर्गतं कमलसेन प्रति राजपुरुषकृत निमन्त्रणम् । वृक्षाधस्थिताया  
अमात्यादिपरिवृताया घृतराजकुमारनेपथ्यायाश्चम्पानगरीराजकुमार्या पुरत कमलसेनस्य राजपुरु-  
षेण सहागमनम् ।

कमलसेनस्य चम्पानगरीप्रवेशः । कमलसेन प्रत्यमात्यकृता चम्पानगरीराज्यपालनात्मिका  
प्रार्थना । चम्पानगर्यास्तरुगराजास्तित्वेऽपि राज्यश्रीस्वीकरणप्रार्थनाकारणजिज्ञासु कमलसेन प्रत्य-

मात्यस्य कृतराजपुत्रवेशच्छन्नगुणसेनाभिधानराजपुत्रीप्रव्रजितपितृश्रीकेतुवृत्तान्तगतविनयन्धरश्रेष्ठि-  
भार्याचतुष्टयापहरण-शीलप्रभावावर्जितप्रवचनदेवीकृतवीभत्सरूपविनयन्धरश्रेष्ठिभार्याचतुष्टयावलोकन-  
श्रीकेतुनृपपश्चात्ताप-सूरसेनाचार्यदेशनागतविनयन्धरश्रेष्ठिभार्याचतुष्टयपूर्वभवकथासमन्वितशीलरक्षोपदे-  
जश्रवणप्रभावितश्रीकेतुनृपचारित्रप्रहणनिश्चयकरण गुर्विणीविजयन्तीराज्ञीराज्याभिषेक-श्रीकेतुनृपप्रव्रज्या-  
प्रहण-विजयन्तीराज्ञीप्रसवितपुत्रीजन्मगोपन-पुत्रजन्मोद्घोषण-कृतगजकुमारवेशप्राप्तारण्यप्रच्छन्नरा-  
जपुत्रीन्वरूपकथनात्मकमारार्धितयक्षसूचितकमलसेन-गुणसेनाविवाहाद्यात्मक च सस्तिरं वक्तव्यम् । ३४-५४

[अमात्यवक्तव्यगतसूरसेनमुनिदेशनाया विनयन्धरजोवस्य विचारधवलनृपात्यपूर्वभवधर्मा-  
घनापूर्वकदेवलोकगमन-च्यवनानन्तरं विनयन्धरत्वेनोत्पत्तिकथनम् (पृ० ३६-३७) ।

अमात्यवक्तव्यगतसूरसेनमुनिदेशनान्तर्गतविनयन्धरभार्याचतुष्टयपूर्वभवकथानकम् । साकेतपु-  
राधिपनरकेशरीनृप-कमलसुन्दरीराज्ञीपुत्र्या रतिसुन्दर्याः, श्रीदत्तामात्य-लक्षणापुत्र्या बुद्धिसुन्दर्या,  
सुमित्रश्रेष्ठि-लक्ष्मीश्रेष्ठिनीपुत्र्या ऋद्धिसुन्दर्या, सुघोषपुरोहित-सुघोषपुरोहितपत्नीपुत्र्या गुणसुन्द-  
र्याश्च परस्पर सख्यम् । गुणश्रीनिर्ग्रन्थिनीप्ररूपितशीलोपदेशप्रभाविताना चतसणामपि तासा  
परपुरुषविरमणव्रतप्रहणम् (पृ० ३७-३९) ।

चन्द्रराजेन सह रतिसुन्दर्या विवाहः । रतिसुन्दरीरूपवर्णनविमोहितमहेन्द्रसिंहनृपप्रेषितदू-  
तस्य चन्द्रराजसमक्षं रतिसुन्दरीप्रेषणार्थं वक्तव्यम् । चन्द्रनृपापमानितदूतकथनसञ्जातकोपस्य  
महेन्द्रसिंहस्य चन्द्रराजेन सह युद्धम्, चन्द्रराजस्य पराजयश्च । महेन्द्रसिंहस्य रतिसुन्दरीप्रहण-  
निजनगरानयने, रतिसुन्दरीयाचितमासचतुष्टयकालावधिप्रहणव्रतपालनानुज्ञा, मासचतुष्टयतपःशोपि-  
तरतिसुन्दरीविरूपदेहदर्शनचिन्ता, रतिसुन्दरीचक्षु प्रवासन च । निजशीलरक्षार्थस्फोटितनयनरति-  
सुन्दरीशीलप्रभावावर्जितगासनदेवीसमर्पितनूतनचक्षुर्युगलाया रतिसुन्दर्यामुत्पन्नभगिनीभावप्रतिबुद्ध-  
महेन्द्रसिंहस्य बहुमानपूर्वक चन्द्रराजाय रतिसुन्दरीसहितराज्यसमर्पणम् (पृ० ३९-४३) ।

सुकीर्तिनामकसुसीमनगरामात्यगृहिणीभूताया बुद्धिसुन्दर्या निजरूपविमोहितनृपप्रतिबोध-  
निमित्ताशुचिभरितसिक्थपुत्तलिकास्फोटनप्रयोगतो निजशीलरक्षाकरणम् (पृ० ४३-४४) ।

साकेतनगरागतताम्रलिप्तीवास्तव्यधर्माभिधानश्रेष्ठिपुत्रपरिणीताया ऋद्धिसुन्दर्या धर्मेण सह  
ताम्रलिप्तीगमनम् । द्रव्योपार्जननिमित्तं सपत्नीकस्य धर्मस्य सिंहलद्वीपगमनम्, उपार्जित-  
बहुधनस्य स्वनगरागमार्थप्रस्थितस्य समुद्रमध्ये पोतभङ्गश्च । भग्नपोतस्यावाप्तफलकस्य ऋद्धिसुन्द-  
रीसहितस्य धर्मस्यकस्मिन् द्वीपे आगमनम्, सागरतीरे भग्नपोतजनावस्थानचिह्नकरण च ।  
भग्नपोतचिह्नदर्शनानुसारेण लोचनवणिक्कारापितं धर्म-ऋद्धिसुन्दर्या स्वपोतारोहणम् । ऋद्धिसुन्द-  
रीरूपमुग्धलोचनवणिक्कृतो मय्यरात्रे धर्मस्य समुद्रक्षेप । दुश्चरितलोचनप्रकुपितदेवताकृत लोच-  
नपोतभङ्ग । आसादितफलकाया ऋद्धिसुन्दर्या थाणेसरनामस्थानप्राप्तधर्मेण मह पुनर्मिलनम् ।  
ग्रामाधिपतिदत्तावासे तयोर्द्वयोवस्थानम् । धर्म-ऋद्धिसुन्दर्या थाणेसरागतदुस्थितलोचनवणिगाश्वा-  
सनादिपूर्वकमुपदेश, लोचनस्य परदारविरमणव्रतप्रहण च (पृ० ४४-४९) ।

साकेतनगरागनश्रावस्तीवास्तव्यपुण्यगर्मपरिणीताया गुणसुन्दर्याः पुण्यगर्मणा सह श्राव-  
स्तीगमनम् । गुणसुन्दर्यनुरक्तसाकेतवास्तव्यवेदरुचेर्गुणसुन्दरीप्राप्त्यर्थं प्रस्थानम्, पल्लीपत्यव-  
लगनम्, पुण्यगर्मगृहघाटीपातनव्यतिकरेण गुणसुन्दरीहरणम्, गुणसुन्दर्या सह पल्लवस्थान  
च । शीलगुणशालिगुणसुन्दर्युपदेशजातपश्चात्तापस्य वेदरुचेः पुण्यगर्मणे गुणसुन्दरीसमर्पणम् ।  
गुणसुन्दरीशोलप्रभावतो विषघरदष्टवेदरुचिविधोत्तरणम् । वेदरुचेः परदाराविरमणव्रतग्रहणम्  
(पृ० ४९-५३) ।]

देवलोकच्युतकलावतीजीवस्य गुणसेनात्वेनोत्पत्तिपरिचयः, गुणसेना-कमलसेनयोर्विवाहश्च । ५५

युद्धोपस्थितस्य प्रद्विष्टवत्साधिपति समरसिंहस्य कमलसेनकृतः पराजयः, विरक्तस्य समरसिं-  
हस्य कमलसेनाय कन्याश्लकसहित राज्य समर्प्य प्रव्रजन च । ५५-५६

निजपितृशत्रुञ्जयप्रेषितदूतकथनश्रवणानन्तरं कमलसेनस्य पोतनपुरगमनम्, जनक-जननी-  
मिलनं च । ५७

शत्रुञ्जयनृपस्य प्रव्रज्याग्रहण मोक्षगमन च । ५८

वर्षावर्णनं नदीपूरवर्णनं च । नदीपूरप्रघटनदर्शनसञ्जातवैराग्यस्य निजपुत्रसुसेनकुमारदत्तरा-  
ज्यस्य गुणसेनासमन्वितस्य कमलसेनस्य प्रव्रज्याग्रहणम्, क्रमेण गुणसेना-कमलसेनयोर्देवलोक-  
गमनम् । ५८-५९

\*

### ३. तृतीयो देवसिंह-कनकसुन्दरीभवः

अपुत्रत्वचिन्ताप्रस्तमुक्तावलीराज्ञीप्रेरणानन्तरश्मशानगतमेघनृपसत्त्वावर्जितप्रेतकथितपुत्रप्राप्ति-  
कथनानन्तर देवलोकच्युतस्य कमलसेनजीवदेवस्य मेघनृप-मुक्तावलीराज्योर्देवसिंहाभिधानपुत्रत्वेन  
जन्म, यौवनप्राप्तिश्च । ६०-८०

देवलोकच्युतगुणसेनाजीवस्य विजयशत्रुनृप-कनकमञ्जरीराज्यो कनकसुन्दरीनामपुत्रीत्वेन  
जन्म, यौवनप्राप्तिश्च । ६०-६१

विषयपराङ्मुल्या कनकसुन्दर्या पुरतः परिणयनार्थं विविधराजकुमारचित्रप्रतिच्छन्दान-  
यनम् । देवसिंहप्रतिच्छन्ददर्शनानुरक्ताया कनकसुन्दर्या देवसिंहेन सह परिणयनम् । ६१

सुरगुरुमुने सर्व-देशधर्मोपदेशात्मिकायां धर्मदेशनायां तथाविधोदयासमर्थजीवान् प्रति  
भावस्तवमूलकद्रव्यस्तवमाहात्म्यप्ररूपणा, विद्याधरकृतजिनमूजावलोकनकृतानुकरणस्य जिनपूजो-  
पार्जितसुकृतपरम्पराक्रमप्राप्तमोक्षस्य शुक्रमिथुनस्य पञ्चभवात्मिका सविस्तरा कथानिका ।

कनकसुन्दरीसहितस्य देवसिंहकुमारस्य स्वनगरागमनम्, राज्याभिषेकः द्रव्यस्तवप्रवृत्तिश्च । ६३-७८

श्राद्धधर्मरतयो ममर्षितनिजपुत्रनरसिंहकुमारराज्ययोर्देवसिंह-कनकसुन्दर्योः क्रमेण देव-  
लोकगमनम् । ७८-७९

\*

## ४. चतुर्थो देवरथ-रत्नावलीभवः

८१-१०२

देवसिंहजीवस्य देवलोकाच्चयवनानन्तरं आयामुहीनगर्यधिपविमलकीर्तिनृप-प्रियमतीराभ्यो.  
पुत्रत्वेन जन्म, कृतदेवरथनाम्न यौवनप्राप्तिश्च ।

८१-८२

देवलोकाच्चयुतकनकसुन्दरीजीवस्य सुप्रतिष्ठपुराधिपरवितेजोऽनृप-वसन्तदेवीराभ्यो पुत्रीत्वेन  
जन्म, रत्नावलीनामकरणं च । तारुण्यप्राप्ताया अपि पुरुषद्वेषिण्या रत्नावल्या स्वयवरप्रसङ्गे देवरथ-  
कुमारप्रेषणार्थं रवितेजोऽनृपतेर्विमलकीर्तिनृप प्रति मन्त्रिपुत्रनन्दनप्रेषणेन विज्ञप्ति ।

८२

जनक्रादेगानुसारं देवरथस्य सुप्रतिष्ठपुर प्रति प्रस्थानम् । मार्गे प्रणष्टविद्यापदस्यापहृत-  
कलत्रस्य चन्द्रगतिनामविद्याधरकुमारस्य देवरथकृत प्रणष्टविद्यापदस्मारणम्, चन्द्रगतिसकाशाद्  
वैक्रियलब्धिविद्याग्रहणं च । देवरथस्य सुप्रतिष्ठपुरागमनम् ।

८२-८४

स्वयवरमण्डपवर्णनम् । स्वयवरमण्डपस्थयन्त्रप्रतिहार-यन्त्रप्लवगादियन्त्रजन्यराजकुमारोपहा-  
सवर्णनम् । कृतगान्धर्विकरूपस्य देवरथस्य कण्ठे रत्नावलीकृत स्वयवरमालारोपणम् ।

८४-८५

गान्धर्विकवरणक्षुब्धैर्युद्धायोपस्थितै राजपुत्रै सह देवरथस्य युद्धम्, विजयश्च । देवरथ-  
मित्रकृतो गान्धर्विकरूपपरावर्तनमेदात्मको देवरथपरिचय । रत्नावलीसमन्वितस्य देवरथस्य  
स्वनगरागमनम् ।

८६-८७

नमस्कारमन्त्रमाहात्म्यविषयाया धर्मवस्त्राचार्यदेशनायाम् अन्तर्गतदेशाटन-साहसविषय-  
कवीराङ्गद-सुमित्रमित्रयुगलावान्तरकथानकसहित नमस्कारमन्त्रमाहात्म्यप्रख्यापक रत्नशिखकथा-  
नकम् ।

८८-१०२

धर्मवस्त्राचार्यदेशनाप्रतिबुद्धस्य देवरथपितुर्विमलकीर्ते प्रव्रज्याग्रहणम् । कालान्तरे पुत्रस-  
मर्षितराज्यदुरस्य देशविरतिधर्मपालनरतस्य रत्नावलीसहितस्य देवरथस्य देवलोकगमनम् ।

१०२

\*

## ५. पञ्चमः पूर्णचन्द्र-पुष्पसुन्दरीभवः ।

१०३-१२४

देवलोकच्चयवनानन्तरं देवरथजीवस्य शिवीनगर्यधिपसिंहसेननृप-प्रियङ्गुमञ्जरीराभ्योः  
पुत्रत्वेन जन्म, कृतपूर्णचन्द्रनाम्न यौवनप्राप्तिश्च ।

१०३-४

देवलोकच्युतस्य रत्नावलीजीवस्य पूर्णचन्द्रमातुलपुत्रीत्वेन जन्म, पुष्पसुन्दरीनामकरण  
च । पुष्पसुन्दर्या यौवनप्राप्ति । जननी-जनक्रादिष्टाया पुष्पसुन्दर्या सखीभि सममुद्यानगमनम्,  
वसन्तवर्णनम्, मिथुनप्रगंसात्मक सखीकृतो विनोदश्च ।

१०४

उद्यानवर्तिमाधवीलतामण्डपस्थिताया पूर्णचन्द्रकुमारदर्शनानन्तर जातानुरागाया. पुष्पसुन्दर्या  
पुरत सखीजनकृतो नायकविषयको विनोद, सखीजनविज्ञप्तस्य पूर्णचन्द्रस्य माधवीमण्डपे आग-  
मनम्, पुष्पसुन्दरी-पूर्णचन्द्रयोर्मिलनम्, पूर्णचन्द्रानुचर-पुष्पसुन्दरीसखीकृत अवसरोचितविनोदश्च ।

१०४-६

पूर्णचन्द्र-पुष्पसुन्दर्योर्विवाह । लग्नोत्सववर्णनम् ।

१०७

धर्माचरणोपदेशात्मिका सुरसुन्दरमुनिदेशना ।

१०८

वैराग्यकारणजिज्ञासुपूर्णचन्द्रविज्ञप्तसुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथा ।

१०९-२३

[सुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथायामर्हिंसाव्रतग्रहणोपदेश, हिंसादोषप्रख्यापक शत्रुञ्जय-सूर कथानक च (पृ० ११०-११) ।

सुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथाया सत्यव्रतग्रहणोपदेश, सत्यासत्यगुणदोषप्रख्यापकं धन-धनदकथानक च (पृ० १११-१३) ।

सुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथायामदत्तादाननिषेधोपदेश, परधनहरणविरत्यविरतिगुणदोष-प्रख्यापकम् अचौर्यगुण-चौर्यदोषावेदकदेव-यज्ञोवणिग्युगलदृष्टान्तसमन्वितं सिद्धदत्त-कपिलक-थानक च (पृ० ११४-१७) ।

सुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथाया शीलोपदेश, शीलमाहात्म्यप्रख्यापकं शीलसुन्दरीकथानकं च (पृ० ११७-१८) ।

सुरसुन्दरमुनिकथितात्मकथाया परिग्रहविरमणव्रतोपदेश, परिग्रहविरत्यविरतिगुण-दोषप्र-ख्यापकं गुणाकर-गुणधरकथानक च (पृ० ११९-२२) ।]

सुरसुन्दरमुनिदेशनाप्रतिबुद्धस्य पूर्णचन्द्रपितु सिंहसेननृपस्य प्रव्रज्याग्रहणम् ।

१२३

पुत्रदत्तराज्यस्य चारित्रग्रहणपरिणामस्य पूर्णचन्द्रस्यातिसाररोगोद्भवः, मरणम्, देवलोकग-मन च । पुष्पसुन्दर्या अपि आराधितधर्माया देवलोकगमनम् ।

१२४

\*

६. षष्ठः सूरसेन-मुक्तावलीभवः ।

१२५-१३७

मिथिलाधिपनरसिंहनृपस्यापुत्रत्वनिरासार्थं मन्त्रिभिर्मन्त्रणा । राजनिमन्त्रितचोज्जडवराभि-धानयोगिनो राजसभागमनम्, इन्द्रजालप्रयोगप्रदर्शनं च । पुत्रप्राप्त्यर्थं नरसिंहनृपकृतं चोज्ज-डवरयोग्युत्तरसाधकत्वम् । 'त्वन्मारणोद्यतोऽयं चोज्जडवर' इति चोज्जडवरप्रेरणाऽऽनीयमानमृत-कवचनसावधानेन नरसिंहनृपेण कृतमात्मरक्षणम् । नरसिंहनृपोपदेशलज्जितचोज्जडवरयोगिन-पश्चात्तापः, नरसिंहनृपाय प्रहरणव्रणसरोधकमणिरत्नदानम्, गमनं च ।

१२५-२७

पूर्णचन्द्रजीवस्य देवलोकच्यवनानन्तरं नरसिंहनृपराज्ञ्या गुणमालाया गर्भे समवतरणम् ।

१२७-२८

गुणमालाया कटकसहितविहरणदोहदपूरणार्थं ससैन्यस्य नरसिंहनृपस्य सीमान्तेषु विह-रणम् । सीमारण्ये शत्रुप्रहारपीडितविधाधरनृपजयवेगपत्न्या रुदनस्वरानुसारं नरसिंह-गुणमा-लयोस्तत्र गमनम्, नरसिंहकृतं प्रहरणव्रणसमीकरणं च । नृप-विधाधरयो राज्ञी-विधाधर्यो परस्पर-स्नेहसम्बन्धः ।

१२८

गुणमालागर्भावतरितदेवलोकच्युतपूर्णचन्द्रजीवस्य जन्म, सूरसेननामकरणं च । देवलोक-च्युतपुष्पसुन्दरीजीवस्य जयवेग-रविकान्ताभिधानविधाधरराज-राज्ञीपुत्रीत्वेन जन्म, मुक्तावलीना-मकरणं च । प्रातृतारुण्ययोर्मुक्तावली-सूरसेनयोर्विवाहः ।

१२९



सूरसेन-मुक्तावन्योः प्रहेलिकाविनोदः ।

१३०-१३१

तुङ्गावन्ध्याजन्यदेहायथयविपर्यामर्जननिर्वेदवशोऽभिमत्तुभपणिगामस्य नर्गामहन्वृषस्य प्रत्ये  
कवृद्धश्रमणत्वम्, सूरसेनस्य राश्याभिपेक्षम् ।

१३१

सूरसेन-मुक्तावन्योश्चन्द्रमेननामरुपुत्रस्य जन्म । शरदूर्णनम् । जज्ञविप्रेतवणिगार्जानाभ-  
परीक्षणार्थमक्षपरिवाहनगतस्य सूरसेनवृषस्योचान कायोत्सर्गोस्त्वनेश्वरगभिभानमुनिदर्शनम् । सूरसे-  
नवृषवन्दितस्तुतस्य मुक्तध्यानयोगस्थेश्वरमुनेर्विषयोपयोगनिषेधविगया धनेदेशना, सूरसेनवृषस्य  
स्वनगरागमन च ।

१३२-३३

उत्पन्नकेवलज्ञानेधरमुनिवन्दनार्थं स्वपरिवारस्य सूरसेनवृषस्य गमनम् ।

१३३

वन्दनागतदिव्यदेवपुरुषपरिचयजिज्ञासोः सूरसेनस्यापि ईश्वरमुक्तिरहितं सम्भपुण्ड्रपत्न्या-  
मोचनदृष्टान्तसहितं दिव्यदेवपुरुषपूर्वभवसम्बन्धमन्वितं रात्रीभोजनजन्यवृषपम्परा रात्रीभोजन-  
विरमणमुखप्राप्तिप्रत्यापकं रात्रीभोजनविरमणोपदेशमयं धनेऽश्वणि कचगिन्नसन्तितं आत्मचरित्रम् ।

१३३-३६

ईश्वरमुनिदेशनाप्रभावविरक्तस्य मुक्तावलीमर्जितस्य मर्मापिनपुत्रराश्वस्य सूरसेनवृषस्य प्रव-  
ज्याग्रहणम्, सूरसेन मुक्तावन्योर्देवलोकागमनं च ।

१३६-३७

+

### ७. सप्तमः पद्मोत्तर-हरिवेगभवः ।

१३८-१५४

देवलोकाच्युतस्य सूरसेनजीवस्य गर्जनरुपुराधिपसुरपतिवृष-अर्चीराश्वो पद्मोत्तराभिधपुत्र-  
त्वेन जन्म, यौवनप्राप्तिश्च ।

१३८-४०

देवलोकाच्युतस्य मुक्तावलीजीवस्य सुभौमनगराधिपविद्याधरवृषतारवेग-कनकमालाराश्वोर्ह-  
रिवेगाभिधानपुत्रत्वेन जन्म, यौवनप्राप्तिश्च ।

१४०

शशिलेखा-सूरलेखाभिधाननिजेद्रुहितृपुगलस्वयवर्गार्थमथुराधिपचन्द्र-वज्रवृषप्रेपिन हूतवचनश्रव-  
णान्तरनिजजनकाजप्तस्य पद्मोत्तरस्य मथुरागमनप्रस्थानम् ।

१४०

मथुरा गच्छत पद्मोत्तरस्य मार्गे महोदयाभिधतापसाश्रमावस्थानम् । स्वीकृतमहोदय-  
तापसाश्रमकुलपतिप्रार्थनेन पद्मोत्तरेण सह कुलपतिदौहित्र्या वनमालाया विवाहः ।

१४१-४४

[महोदयतापसाश्रमवर्णनम् । मृगयाव्यसनासक्तिजनितस्वजामातृमरणनिमित्तस्वविरक्तिकार-  
णनिवेदनात्मको महोदयाश्रमकुलपतिपूर्वावस्थापरिचयः, मृगयाव्यसनविरमणोपदेशश्च ।]

मथुरागतस्य पद्मोत्तरकुमारस्य शशिलेखा-सूरलेखाभ्यां स्वयवर्मण्डपे स्वयंवरणम् ।  
कन्यायुगलकृतपद्मोत्तरकुमारस्वयवर्णाज्जातामर्पैरेककन्याप्रदानप्रार्थनाऽस्वीकारप्रदीप्तक्रोधैश्च राज-  
भि सह पद्मोत्तरस्य युद्धम्, महोदयतापसाश्रमकुलपतिदत्तमहावेतालिनीविद्याप्रभावतो विजयः,  
शशिलेखा-सूरलेखाभ्यां सह स्वनगरागमनं च ।

१४४-४६

गगनवल्लभनगराधिपविद्याधरराजकनककेतुदुहितोः कनकावली-रत्नावल्योः स्वयवरमण्डपे स्वयवरणम् । नैमित्तिककथितकनकावली-रत्नावलीपतिभाविचक्रवर्तित्वं ज्ञात्वा हरिवेगपितुः तार-वेगस्य हरिवेगपूर्वभवमुकृतश्रवणजिज्ञासा । श्रुतेज केवल्यागमनम् । सपरिवारस्य तारवेगस्य केव-लिवेन्दनार्थं गमनम् । क्रशान्तरे तारवेगकृता हरिवेगप्रथयिकी पृच्छा । केवलिकृतं शङ्ख-कलाव-तीभवादारभ्य यावद् हरिवेगभवपर्यन्तं हरिवेगपूर्वभवकथनम् । ज्ञातपूर्वभवहरिवेगकृता सूरसेनो-त्पत्तिविषया पृच्छा, केवलिकृतमजातार्हद्धर्मस्य पद्मोत्तरस्य निमित्तवर्गाहद्धर्मप्राप्तिसूचकं प्रमोत्तर-परिचयात्मकं समाधानं च ।

१४७

कृतमार्जारक्रायकरूपस्य महाकायमार्जारसमन्वितस्य हरिवेगस्य पद्मोत्तरप्रतिबोधार्थं गर्ज-नकपुरे आगमनम् । प्रच्छन्नरूपहरिवेगकृतं सुरपतिनृप-पद्मोत्तरादिसमक्षं जल-ज्वलनदेवत्वनिरासपूर्वकं शुद्धधर्म-देव-गुरुप्रतिपादनं, देवलोकसुखवर्णनं च ।

१४७-५०

देवलोकसुखश्रवणजातजानिस्मरणस्य 'त्वमुक्तावलीजीव एव विद्याधरोऽत रूपपरावर्तनं मुक्त्वा यथास्थितं कथय' इति निवेदयत् पद्मोत्तरस्याग्रे हरिवेगकृतं सद्भावस्वरूपप्रकटनम् ।

१५०

गुणसागरकेवल्यागमनम् । वन्दनार्थं गतानां सपरिवाराणां सुरपतिनृप-पद्मोत्तर-हरिवेगाणां पुरतो गुणसागरकेवलिनो मनुष्यभवसाफल्यविषयिका विविधधर्मस्वरूपतुलनात्मिका धर्मदेशना । प्रतिबुद्धस्य सुरपतिनृपस्य प्रव्रज्याग्रहणम् । पद्मोत्तरस्य राज्याभिषेकः ।

१५०-५१

पद्मोत्तर-हरिवेगयोर्गृहस्थोचितधर्मकृत्यवर्णना, अन्योन्यराज्ययोः सहावस्थानं च ।

१५२

उत्तमर्णधूतकारताडयमानस्य धूतव्यसनासक्तश्रेष्ठिपुत्रस्य हरिवेगसहवर्तिपद्मोत्तरकृतमृण-मोचनम्, हरिवेग-पद्मोत्तरयोर्धूतासक्तश्रेष्ठिपुत्रावस्थावलोकनजन्यो निर्वेदश्च ।

१५२-५३

रत्नाकरमुने समागमनम्, धर्मदेशना च । धर्मदेशनानन्तरं विरक्तयोः पद्मोत्तर-हरिवेगयोः स्वस्वपुत्रराज्यार्पणपूर्वकं प्रव्रज्याग्रहणम्, क्रमेण देवलोकगमनं च ।

१५३-५४

१

\*

## ८. अष्टमो गिरिसुन्दर-रत्नसारभवः ।

१५५-७१

देवलोकच्युतस्य पद्मोत्तरजीवस्य पुण्ड्रपुरनगराधिपश्रीवलनृप-सुलक्षणाराज्योर्गिरिसुन्दरनाम-पुत्रत्वेन जन्म, यौवनप्राप्तिश्च ।

१५५

हरिवेगजीवस्यापि देवलोकच्यवनानन्तरं पुण्ड्रपुरनगराधिपश्रीवलनृपसहोदरगतवल-लक्षणाभिध-राज्योः युवराज-युवराज्यो रत्नसारनामपुत्रत्वेन जन्म, यौवनप्राप्तिश्च ।

१५५-५६

अज्ञातस्वरूपतत्स्करवस्तनागरिकत्राणाममर्थस्य श्रीवलराजस्य चिन्ता, गिरिसुन्दरकुमारस्य तत्स्करनिग्रहणार्थं प्रयासश्च ।

१५६

गिरिकन्दरविनिर्गतधूमदर्शनानुगतगिरिसुन्दरकुमारसाहाय्याद् विद्यासाधकस्य क्षेत्रपालसा-धनम्, गिरिसुन्दरकुमाराय विद्यासिद्धकृतं रूपपरावर्तिनीनामपठितसिद्धविद्याप्रदानं च ।

१५६-५७

पर्वतोपरिह्रियमाणयुवतीरुदनगन्धश्रवणसम्भाविततस्करगवस्थानस्य गिरिसुन्दरकुमारस्य पर्व-  
तगवेषणम्, तस्करस्य नारीलम्पटत्व निश्चित्य रूपपरावर्तिन्या विद्यया स्वस्य तरुणीरूपकरणम्,  
कापालिकरूपधारितस्करदर्शनानन्तरं रोदन च । रूपवती तरुणी प्रेक्ष्य कापालिकरूपधारितस्कर-  
स्य सम्मोहः, रोदनकारणपृच्छा च । तरुणीरूपधारकगिरिसुन्दरकुमाराख्यातकपटकथाकथितपति-  
वियोगश्रवणानन्तरं पतिप्रापणाश्वासनं दत्त्वा तरुणीरूपधारिगिरिसुन्दरकुमारस्य कापालिकरूपधा-  
रितस्करकृत स्वमदिकानयनम् । अपहनयुवतीगतकमध्ये तरुणीरूपधारिगिरिसुन्दरकुमारं मुक्त्वा  
कापालिकरूपधारितस्करस्य वहिर्गमनम् । तरुणीरूपधारिगिरिसुन्दरकुमाराग्रेऽपहतश्रेष्ठिपुत्रिसुभ-  
द्राकृत चन्द्रहासखङ्गप्रभावात् कापालिकरूपधारितस्करस्याजेयत्वनिरूपणम् । गृहीतचन्द्रहासख-  
ङ्गस्वरूपावस्थितगिरिसुन्दरकुमारकृतो कापालिकरूपधारिणो दण्डपालनाम्नस्तस्करस्य वचः । लोका-  
पवादभयमरणोधतयुवतीगतकप्रार्थनानन्तरं गिरिसुन्दरकुमारकृत ' कन्यागतस्वीकारः, मदिकाया-  
मेव ताभिः सममवस्थानं च ।

१५७-५९

परावर्तितरूपस्य गिरिसुन्दरकुमारस्य स्वनगरागमनम् । गिरिसुन्दरकुमारान्वेषणोधतरत्न-  
सारकुमारदेवान्तरगमनवृत्तान्तं केनापि ज्ञात्वा भ्रातृस्नेहवशार्तमनसो गिरिसुन्दरकुमारस्य रत्न-  
सारकुमारान्वेषणार्थं विविधस्थानपरिभ्रमणम् । कस्यचिद् ग्रामस्य देवकुलिकाया रात्रिनिर्गमनार्थमव-  
स्थितस्य गिरिसुन्दरकुमारस्य तत्रस्थितान्यान्यपथिकवार्तालापान्तर्गतमहासेनाभिधानपान्थात्मचरि-  
तात्मकवृत्तान्तश्रवणम्, तद्यथा—कथयितृपथिकस्य=महासेनस्य स्वभ्रातृगवेषणनिमित्तं पर्यटता  
राजपुत्रेण=रत्नसारेण सह सहचार, उद्घसितदेशभ्रमणम्, शून्यप्रासादरात्रीनिर्गमनम्, रात्रावपि  
जाग्रद्राजकुमाराग्रे=रत्नसाराग्रे व्याघ्ररूपधारिदेवागमनम्, राजकुमाररत्नसारकृतदेशोद्वसनपृच्छायां  
व्याघ्ररूपधारिदेवकथितं राज्यलोलुपलघुभ्रातृकृतवधानन्तरोपलब्धदेवत्वकृतलघुभ्रातृविनाश-देशोद्वस-  
नादिवृत्तान्तमयं स्वपूर्वभ्रवर्णनम्, राजकुमार(रत्नसार)चरितप्रसन्नव्याघ्ररूपधारिदेवकृत देशप्र-  
कृतौना पुनर्वासनम्, राजकुमारस्य=रत्नसारस्य नगराधिपत्वं देवप्रसादनाम्ना प्रसिद्धिश्च, गुरु-  
भ्रातृ(गिरिसुन्दरकुमार)मिलनसमयावधिं कथयित्वा व्याघ्ररूपधारिदेवस्य स्वस्थानगमनम्, निजमि-  
त्रदेवप्रसाद(रत्नसार)गुरुभ्रातृ(गिरिसुन्दर)गवेषणार्थं निजपरिभ्रमणकारणनिवेदनं च ।

१५९-६१

देवकथितसमयावधयनन्तरं निजभ्रातृगिरिसुन्दरादर्शने कृतमरणनिश्चयं देवप्रसादं रत्नसार-  
मेवावगम्य परावर्तितरूपस्य गिरिसुन्दरकुमारस्य महासेनेन सार्धं देवप्रसाद(रत्नसार)वृत्तान्तिके  
गमनम् । परावर्तितरूपमपि गिरिसुन्दरकुमार इष्ट्वा देवप्रसादस्य-रत्नसारस्य मन शान्तिः,  
द्वयो सहावस्थानं च । देवकथितसमयावधावतिक्रान्तेऽपि गिरिसुन्दरकुमारादर्शने स्वप्रतिज्ञापूर्णा-  
मरण(आत्मघात)प्रवृत्तं देवप्रसाद=रत्नसारं विनिवार्य गिरिसुन्दरकुमारस्य स्वरूपावस्थानेन  
प्रकटनम् । महासेनाय राज्यं समर्प्य गिरिसुन्दर-रत्नसारयोः स्वनगरागमनम् ।

१६२-६४

पित्रादिसमक्षं गिरिसुन्दरस्य दण्डपालतस्करवृत्तान्तकथनम् । जयनन्दनमुनेरागमनम् ।  
लघुभ्रातृगतवल-पुत्रगिरिसुन्दर-भ्रातृव्यरत्नसारादिसमन्वितस्य श्रीवलराजस्य जयनन्दनमुनिवन्दनार्थं  
गमनम् । शुभाशुभकर्मोदयफलगर्भिता जयनन्दनमुनेर्धर्मदेशना ।

१६४

“वृत्तिगवेषणार्थं काञ्चनपुरप्रस्थितयोर्विन्ध्य-शवराभिधानयोर्मार्गे किञ्चिन्नगरोधाने मासोपवासिसुनिभिक्षादानम्, यक्षपूजार्थं तत्रागतयोः ऋद्धि-वृद्धिनामधेयराजकन्ययोर्मुनिदानानु-  
मोदना । विन्ध्य-शवरयोः काञ्चनपुरगमनम्, उन्मत्तहस्तिवशीकरणेन काञ्चनपुरनृपतिवृत्तिप्रापणं  
च । यथाकाल प्राप्तमरणयोर्विन्ध्य-शवरयोः ऋद्धि-वृद्धिराजकन्ययोश्चोत्तरकुराक्षेत्रे मिथुन-मिथुनि-  
कात्वेन जन्म, चिरसुखोपभोगानन्तरं पुनर्यथाकाल प्राप्तमरणयोश्चतुर्णामपि सौधर्मदेवलोकगमनम्,  
सौधर्मदेवलोकच्यवनानन्तरं श्रीवल-गतवल-सुलक्षणा-लक्षणात्वेन जन्म, श्रीगुप्तसिद्धपुत्रोत्तरसाधकस्य  
श्रीवलकुमारस्य विद्याधरापहृतारण्यस्थितसुलक्षणारक्षापुरस्सर सुलक्षणया सह पाणिग्रहणम्, लक्ष-  
णाहर्तृकुञ्जरनामराजकुमारपराभवानन्तरं शतवलकुमारस्य लक्षणया सह पाणिग्रहणं च ।” इत्यादि-  
प्रसङ्गमयी सकलत्रयोः श्रीवल-गतवलयोः पूर्वभवनिरूपणपूर्विका जयनन्दनमुनिकथिता कथा ।

१६५-६

सुलक्षणापहारकविद्याधरस्य प्रव्रज्याग्रहणं निर्वाणगमनं च ।

१६

गिरिसुन्दर-रत्नसारौ राज-युवराजपदे नियोज्य श्रीवल-गतवलयोः प्रव्रज्याग्रहणम् ।

१६

कल्पवृक्षदर्शनस्वभावलोकनप्रतिबुद्धस्य गिरिसुन्दरस्य जिनपूजाकरणानन्तरं जिनस्तुतिकरण  
चैत्यगृहसमीपस्थमुनिवन्दनं च ।

१६

ससारसुखक्षणभङ्गुरत्वोपदेशात्मिका मुनेर्धर्मदेशना, गिरिसुन्दरस्य वैराग्योल्लासश्च । जय-  
नन्दनमुन्यागमनं प्रतीक्षमाणयोर्विरक्तयोर्गिरिसुन्दर-रत्नसारयोः प्रव्रज्याग्रहणं सयमाराधनाक्रमेण  
देवलोकगमनं च ।

१७०-७

\*

## ९. नवमः कनकध्वज-जयसुन्दरभवः ।

१७२-८

गिरिसुन्दरजीवदेवस्य रत्नसारजीवदेवस्य च देवलोकच्यवनानन्तरं क्रमेण तामलिप्तिनगर्य-  
धिपसुमङ्गलनृपतेः प्रथम-द्वितीयराज्योः श्रीप्रभा-स्वयम्प्रभाभिधानयोः पुत्रत्वेन जन्म, अनुक्रमेण कनक-  
ध्वज-जयसुन्दराभिधानयोस्तयोः तारुण्यप्राप्तिश्च ।

१७२-७

कनकध्वज-जयसुन्दरकृतराधावेधविज्ञानप्रकर्षपरितुष्टाभ्यां सुरवेग-सूरवेगविद्याधरनृपाभ्यां कुसु-  
मवृष्टिकरणम् ।

१७

सुरवेग-सूरवेगविद्याधरनृपयोः स्वस्वकन्याशतकपरिणयनार्थं साडम्बरं तामलिप्यागमनम् ।

१७

कनकध्वजकुमारस्य सुरवेगकन्याशतेन, जयसुन्दरकुमारस्य च सूरवेगकन्याशतेन सह  
महोत्सवपूर्वकं विवाहः ।

१७

निजपुत्रयुगलपुण्यप्रभावप्रभावितस्य सुमङ्गलनृपस्य धर्माचरणार्थं धर्मपरीक्षाप्रत्ययिकं परामर्शं ।

१७

तामलिप्त्युदाने कायोत्सर्गस्थितमुने. केवलज्ञानोत्पत्तिः । सुमङ्गलनृपादिपर्षदि शुद्ध-  
मार्गधर्मप्ररूपणविषया केवलिनो धर्मदेशना च ।

१७

कनकध्वजकुमारस्य राज्याभिषेकः, सुमङ्गलनृपस्य प्रव्रज्याग्रहणं च ।

१७

देशयात्रा-तर्थायात्रार्थं सभ्रातृ-परिवारस्य कनकध्वजराजस्यान्यान्यराज्यपरिभ्रमणम् ।

१७६-७

साकेतपुराधिपपुरुषोत्तमनृपामन्त्रितस्य कनकध्वजराजस्य साकेतपुरोधानस्थजिनमन्दिरे दर्शन-  
वन्दन-पूजाकरण जिनेश्वरस्तवन च ।

१७७

कनकध्वजराजस्य पुरुषोत्तमनृप तत्पुरोहितकपिञ्जलाभ्यां सह जिनमन्दिरवहिरुधानस्थिता-  
चार्यान्तिके धर्मोपदेशश्रवणम् । जीवास्तित्वनिरासप्रतिपादकं कपिञ्जल प्रत्याचार्यप्ररूपिता जीवा-  
स्तित्वसिद्धिः ।

१७७-७८

कपिञ्जलपुरोहिताज्ञानकारणमुद्दिश्याचार्यस्य पुरुषोत्तमनृप-कपिञ्जलादिपूर्वभवकथाप्ररूपणम् ।

१७८-८६

[मृगयासक्तवसन्तपुराधिपवीराङ्गदत्तनृपस्यारण्ये वराहपोतवधार्थमुक्तवाणानुधावतो ध्यानस्थ-  
मुनिचरणान्तिकवाणपतनदर्शनात् क्षोभ । सविनयमनेकविधपश्चात्तापपूर्वक वीराङ्गदत्तनृपकृता  
क्षमापना । समापितध्यानस्य मुनेर्वीराङ्गदत्तनृप प्रति जीवदयाप्रधानो धर्मोपदेशः (पृ० १७८-७९) ।  
प्रतिपन्नाणुव्रतस्य वीराङ्गदत्तनृपस्य जिनप्रियश्राद्धोपरि बहुमानभाव विज्ञाय मोहनामिघाऽऽजीवक-  
श्राद्धस्य जिनप्रियश्राद्ध प्रति वीराङ्गदत्तनृपान्तिके धर्मकरणसहायकनियोजनरूपा प्रार्थना, तदनन्तरं  
जिनप्रियश्राद्धप्रेरणानुसारेण मोहनस्य वीराङ्गदत्तनृपधर्माचरणसहायकत्वेनावस्थान च (पृ० १७९) ।  
प्रव्रज्याग्रहणपरिणामवीराङ्गदत्तनृपाग्रे स्वसुखलालसासक्तमोहनकृतं साध्याचारपालनाभावमूलक गृहस्थ-  
भावधर्मासेवनप्राधान्यप्ररूपणम् (पृ० १७९-८०) । जिनप्रियश्राद्धस्याग्रे वीराङ्गदत्तनृपस्य-मोहना-  
भिप्रायसहित स्वप्रव्रज्याग्रहणाभिप्रायवृत्तान्तनिवेदनम् । मोहनमुद्दिश्य जिनप्रियश्राद्धकृत प्रव्रज्या-  
ग्रहणनिषेधकविचारप्रत्युत्तररूप उपदेश (पृ० १८०) । प्रदत्तवीरसेनकुमारराज्यस्य जिनप्रियश्राद्धा-  
दिसमन्वितस्य वीराङ्गदत्तनृपस्य प्रव्रज्याग्रहणम्, क्रमेण वीराङ्गद-जिनप्रिययोर्देवलोकगमन च ।  
निर्धन्यच्छिद्रान्वेषकस्य मोहनस्य मरणानन्तरं हस्तिभव, आसन्नस्थितसाधुस्वाध्यायशब्दश्रवण-  
प्रकुपितस्य मोहनजीवहस्तिन साधुमारणाय धावतो गर्तापतनम्, मरणम्, रत्नप्रभायां नारकत्वेनो-  
त्पत्तिश्च । नरकाद्दुद्वृत्य मोहनजीवस्य श्येनपक्षित्वेनोत्पत्तिः, ततो बालुकाप्रभाया नारकत्वेनोत्पत्तिः,  
तत सिंहभव, तत पङ्कप्रभाया नारकत्वेनोत्पत्तिश्च । पङ्कप्रभानरकाद्दुद्वृत्य मोहनजीवस्य  
श्रीधननगरे कामदत्त-वसुदत्तानामवणिग्दम्पत्योः सुमित्राभिधेयपुत्रत्वेन जन्म, तारुण्यप्राप्तिश्च  
(पृ० १८१) । जिनप्रियश्राद्धजीवस्य देवलोकच्यवनानन्तरं श्रीधननगरे विनयन्धरश्रेष्ठि-गुणवती-  
श्रेष्ठिन्योर्गुणन्धरनामपुत्रत्वेन जन्म तारुण्यप्राप्तिश्च । क्रमशः सद्भाव-कैतवयुतयोर्गुणन्धर-सुमित्रयो-  
र्वयस्यभाव (पृ० १८१) । जनक-जननीमरणानन्तरं दारिद्र्योपहतसुमित्रोपकारार्थं गुणन्धरस्य सुमि-  
त्रेण सह धनोपार्जनार्थं देशान्तरप्रयाणम् । अरण्य-वीरपुर-समुद्रादिषु घनलिप्साभिभूतस्य गुणन्धर-  
मारणव्यवसितस्य सुमित्रस्य सर्वप्रयासनैष्कल्यम्, अन्ते गुणन्धरमारणच्छिद्रान्वेषकस्य सुमित्रस्य  
स्वप्रमादवशात् समुद्रपतन मरण च । ममुपार्जितबहुधनस्य गुणन्धरस्य स्वनगरागमनम्, सुमित्र-  
वियोगपरिताप, अवधिज्ञानिसुनिकथनात् सुमित्रकृटिलस्वभावतामवगम्य ससारविरक्तिः, प्रव्रज्याग्रहणं  
च (पृ० १८१-८६) । कनकध्वज-पुरुषोत्तमादिसमक्षं कपिञ्जलपूर्वभवकथां कथयतो मुनेर्गुण-  
न्धरश्रमणत्वेन स्वपरिचयनिरूपणम् । देवलोकच्युतस्य वीराङ्गदत्तनृपजीवस्य पुरुषोत्तमनृपत्वेन मुनि-  
कृत परिचय, मोहनाजीवकश्राद्धविमोहितशिवदेवश्राद्धजीवस्य कपिञ्जलत्वेन परिचयश्च  
(पृ० १८६) ।]

प्रदत्तपुरुषचन्द्रकुमारराज्यस्य पुरुपोत्तमनृपस्य प्रव्रज्याग्रहणम् । प्रदत्तस्वपुत्रकनककेतुकुमाराज्यस्य जयसुन्दरसमन्वितस्य कनकध्वजराजस्य प्रव्रज्याग्रहणं सयमाराधनाक्रमेण देवलोकगमनं च । १८७-८८

\*

१०. दशमः कुसुमायुध-कुसुमकेतुभवः

१८९-२०५

देवलोकच्युतस्य कनकध्वजजीवस्य चम्पाधिपजयनृपराज्ञीप्रियमतीकुक्षिगर्भावतरणम् ।

पूर्यमाणचैत्य-यतिपूजादोहदया प्रियमत्या सह जयनृपस्य ग्रीष्मे प्रमदवनगमनम् ।

१८९-९१

प्रमदवनस्थितनृपरूपाकर्षितव्यन्तरीकृतं गुर्विण्याः प्रियमतीराब्द्या अपहरणं दक्षिणापथारण्यमोचनं च ।

१९१

कृतप्रियमतीराज्ञीस्वरूपव्यन्तरीहावभावकलनानन्तरं जयनृपकृतो मुष्टिताडनादिना व्यन्तरीनिसारः, ब्रह्मचर्यव्रतस्वीकारश्च ।

१९१

जयनृपस्य प्रियमतीविरहपरिदेवनम् ।

१९२

अरण्यमुक्ताया विलपन्त्या प्रियमतेस्तापसीभिराश्रमनयनम्, कुलपतिना वृद्धतापसैः सह श्रीपुरनगरप्रेषणं च ।

१९२-९३

श्रीपुरनगरोद्यानस्थजिनमन्दिरवन्दनानन्तरं जिनसुन्दरोनामश्रेष्ठिपुत्र्या आश्वासनपूर्वकं प्रियमतेः स्वगृहानयनम्, जिनसुन्दरीपितृघनञ्जयकृतमाश्वासनं च । प्रियमतेर्घनञ्जयश्रेष्ठिगृहावस्थानम्, पुत्रप्रसूतिः, पुत्रस्य कुसुमायुधनामकरणं च ।

१९३

चम्पापुरीं गच्छता वासवदत्तसार्थवाहेन समं धनञ्जयकृतं प्रियमतिसम्प्रेषणम् । सिन्धुवर्द्धननगरोद्यानावसितसार्थस्थप्रियमतिसहावस्थिततत्पुत्रकुसुमायुधकुमारस्य राज्यार्हपुरुषनिर्णयनियुक्तदिव्यैर्नृपप्रतिपत्तिकरणम् । प्रव्रज्याग्रहणलिप्सयोरपुत्रयोः सिन्धुवर्द्धनपुराधिपसुन्दरनृप-तद्भातपुरन्दरयोरग्रे प्रियमतिसहितस्य कुसुमायुधकुमारस्यानायनम् । वासवदत्तसार्थवाहकथितवृत्तान्तात् प्रियमतिं निजमातुलपुत्रीं विज्ञाय आश्वास्य च प्रदत्तकुसुमायुधकुमारराज्ययोः सुन्दर-पुरन्दरयोः प्रव्रज्याग्रहणम् ।

१९४

बालराजराज्यं विज्ञाय तद् ग्रहीतुमनसाऽवन्तीपतिराजशेखरेण निजाज्ञावहनार्थं कुसुमायुधं प्रति दूतप्रेषणम् । कुसुमायुधापमानितदूतवृत्तान्तश्रवणानन्तरं राजशेखरकृतं सिन्धुवर्द्धनपुरं प्रति युद्धप्रयाणम् ।

१९४-९५

चम्पाऽऽगतस्य वासवदत्तसार्थवाहस्य जयनृपस्याग्रे प्रियमतिवृत्तान्तकथनम् । कृतवासवदत्तसार्थवाहप्रसादस्य जयनृपस्य सिन्धुवर्द्धननगराऽऽगमनं प्रियमति-कुसुमायुधाभ्यां सप्रमोदं मेलनं च । ज्ञातोदन्तस्य प्रियमतिजनकस्यापि मानतुङ्गराजस्य सिन्धुवर्द्धननगराऽऽगमनम् ।

१९५

परिज्ञातवृत्तान्तस्यावन्तीपतिराजशेखरस्य पश्चात्तापपुरस्सरं जयनृपस्याग्रे क्षमायाचनम् ।

कुसुमायुधकुमारस्य राजशेखरप्रदत्तद्वान्निशद्राजकुमारीभिर्विवाहः ।

१९५

सहस्राश्रवणस्थितं केवलज्ञानिनमवगम्य जयनृपादीनां वन्दनार्थं गमनम् । केवल्लिदेशनायाम्-भवस्थितिरूपकं सविस्तरं कर्मपरिणामनामरूपकम् ।

१९५-९६

- धर्मदेशनाश्रवणविरक्ताना राजशेखर-मानतुङ्ग-जयनृपाणां कुसुमायुधाय राज्य समर्प्य प्रव्र-  
ज्याग्रहणम् । १९९
- देवलोकच्युतस्य जयसुन्दरजीवस्य कुसुमायुधराज्ञ्याः कुसुमकेतुनामपुत्रत्वेन जन्म, तारुण्यप्राप्तिश्च । १९९
- मथुराधिपमहाक्रीर्ति-साकेताधिपरविषेण-वत्माधिपजयतुङ्गनृपत्रयप्रेषितस्वस्वदूतप्रार्थनातः कु-  
सुमायुधराजसम्मत्यनन्तरमनुक्रमेण नृपत्रितयस्याष्टा-सष्ट-पोडगराजकुमारीभिः सह कुसुमकेतुकुमार-  
स्य विवाहः । २००-१
- उद्यानसमागतसुरसुन्दराचार्यधर्मदेशनाश्रवणोत्पन्नवैराग्यस्य कुसुमायुधराजस्य पितृस्नेह-  
वशराज्यत्याग-प्रव्रज्याग्रहणदृढसङ्कल्पेन द्वात्रिंशद्भार्यासहितेन कुसुमकेतुकुमारेण निजद्वात्रिंशद्भार्याभिः  
पञ्चगतपुरुषैश्च सह प्रव्रज्याग्रहणम् । २०२
- कुसुमायुध-कुसुमकेतुनिर्ग्रन्थयोर्गुरुसकाशाद् निजपूर्वभववृत्तान्तश्रवणम्, स्नेहगैथिल्यकरणार्थं  
पृथग्विहरणं च । २०३
- एकाकिविहरतः कुसुमायुधमुनेः सुभौमग्रामस्थशून्यगृहेऽवस्थानम्, ग्रामदाहे समुत्पन्ने  
ध्यानस्थकुसुमायुधमुने. प्रज्वलतोऽपि निश्चलस्य शुभ-शुभतरपरिणामावस्थितस्य मरण देवलोकगमनं च । २०३-४
- उत्पन्नकेवलज्ञानसुन्दराचार्यसकाशात् कुसुमायुधमुनिवृत्तान्तावगमानन्तरं कुसुमकेतुमुनेः  
सलेखनाकरणं देवलोकगमनं च । २०४-५

\*

११. एकादशः पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरभवः । २०६-२२
- देवलोकच्युतस्य कुसुमायुधजीवदेवस्यायोध्याधिपहरिसिंहनृप-पद्मावतीराज्ञ्योः पृथ्वीचन्द्रनाम-  
धेयपुत्रत्वेन जन्म, तारुण्यप्राप्ति, ससारपराङ्मुखत्व च । २०६-८
- पृथ्वीचन्द्रकुमारविरक्तिनिरासार्थं निर्णीततत्परिणायनोपायेन हरिसिंहनृपेण जयपुरनगराधिप-  
विजयदेवराजस्य ललितसुन्दरीप्रमुखराजकुमार्यष्टक राजपुरनगराधिपस्य कनकवतीप्रमुखराजकुमार्य-  
ष्टक चानायितम्, आनायितषोडशराजकुमारीणां पित्रनुरोधात् पृथ्वीचन्द्रकृतं समहोत्सव  
परिणयनं च । २०८
- पृथ्वीचन्द्रस्य वैराग्यभावना । वासभवने षोडशभार्याभिः सार्द्धं निर्विकारभावस्थ पृथ्वीचन्द्रं  
समुद्दिश्य ललितसुन्दरीचेष्टया उचितप्रस्तावकरणम् । चेटीवचनानुमोदना कुर्वन्त विट्टदुवटुक प्रति  
पृथ्वीचन्द्रकथितो निजपत्नीप्रेरणावगद्व्योपार्जनार्थदेशान्तरगतमूर्खत्वकारणेन्द्रजालिकविप्रतारणा-  
नन्तरगृहागतस्वमानुसारनिजगृहैकप्रदेशखननोद्यतमहामूर्खकेशववटुकदृष्टान्त । २०८-११
- पृथ्वीचन्द्रकृतं केशववटुकमौर्ख्येण समं सर्वससारिजीवानामुपनयनम्, ससारासारताप्ररूपणम्,  
षोडशभार्याविरक्तभावकरणं च । २११-१२
- परिज्ञातपृथ्वीचन्द्रोपदिष्टषोडशभार्याविरक्तभावेन धर्मवार्ताविस्मरणार्थं हरिसिंहनृपकृतं पृथ्वी-  
चन्द्रराज्याभिषेकः । पृथ्वीचन्द्रनृपसभाया गजपुरागतसुधननामवणिगागमनम् । २१२-१३

पृथ्वीचन्द्रपुरतः सुधनवणिककथितो गजपुरनगरनिवासिरत्नसञ्चयश्रेष्ठि-सुमङ्गलाश्रेष्ठिनीपुत्रस्य (देवलोक्तच्युतकुसुमकेतुजीवस्य) गुणसागराभिधानस्याश्वर्यकारी वृत्तान्तः ।

२१४-१८

[गुणसागरस्य जन्म, तारुण्यप्राप्तिश्च । गुणसुन्दरीप्रमुखाणां श्रेष्ठ्यष्टकप्रत्येकाष्टाष्टसख्यास-  
म्मिलितचतुःषष्टिश्रेष्ठिपुत्रीणां दर्शनमात्रेणैव गुणसागरेऽनुरागः परिणयनप्रतिज्ञाकरणं च (पृ०  
२१४) । श्रेष्ठ्यष्टकप्रार्थितस्य गुणसागरपितुः रत्नसञ्चयस्य गुणसागरार्थं चतुःषष्टिकन्यास्वीकारप्र-  
तिपत्तिः (पृ० २१४-१५) । वातायनस्थगुणसागरस्य राजमार्गगच्छत्पस्विमुनिदर्शनोत्पन्नजातिस्म-  
रणस्य मूर्च्छा । लब्धचेतनस्य विरक्तस्य गुणसागरस्य जननी-जनकयोः समक्ष स्वजातिस्मरणज्ञा-  
नकथनपूर्वकं संसारत्यागानुमतिदानार्थं प्रार्थना (पृ० २१५) । विरक्तगुणसागर-तज्जननीजन-  
कानां संसारत्यागा-ऽत्यागसम्बन्धीनि प्रश्नोत्तराणि (पृ० २१५-१६) । संसारत्यागदृढसङ्कल्पं  
गुणसागरं प्रति विवाहानन्तरत्यागकरणानुमतिदानविषया तज्जनन्या विज्ञप्तिः, गुणसागरस्य तत्प्रति-  
पत्तिश्च । गुणसागरससारोदासीनताजाननीनामपि गुणसुन्दरीप्रमुखाणां चतुःषष्टिश्रेष्ठिपुत्रीणां  
निजनिजजननी-जनकयोरग्रे गुणसागरे एवानुरागप्रकटनम् (पृ० २१७) । समहोत्सवानन्द गुण-  
सागरकृतं चतुःषष्टिश्रेष्ठिपुत्रीपाणिग्रहणम् (पृ० २१७-१८) । परिणयनानन्तरं गृहागतस्य  
निजजननी-जनकपार्थनिषण्णस्य क्रियमाणसङ्गीत-नृत्यप्रक्रमे शुभभावनाध्यवसायवतो गुणसागरस्य  
केवलज्ञानोत्पत्तिः, गुणसागरनिश्चलतामनुमोदयन्तीना स्वधन्यतां मन्यमानानां शुभ-शुभतरभावम-  
माना चतुःषष्टेरपि गुणसागरोद्वाहितश्रेष्ठिपुत्रीणां केवलज्ञानोत्पत्तिश्च । देवताप्रदत्तनिर्ग्रन्थद्रव्यलिङ्ग-  
निजपुत्र-पुत्रवधूदर्शनसञ्जातसवेगातिशययोः रत्नसञ्चय-सुमङ्गलयोरपि केवलज्ञानोत्पत्तिः (पृ० २१८) ।]  
सुधनवणिककथितगुणसागरवृत्तान्तश्रवणानन्तरं ध्यानमग्नस्य प्रवर्द्धमानोच्च-उच्चतरचारित्रपरिणामस्य  
पृथ्वीचन्द्रनृपस्य केवलज्ञानप्राप्तिः ।

२१८-१९

सौधर्मेन्द्रप्रदत्तद्रव्यलिङ्गस्य पृथ्वीचन्द्रकेवलिनः सौधर्मेन्द्रकृता स्तुतिः । हरिसिंह-पद्मावत्यो  
पृथ्वीचन्द्रकेवलिनं प्रति मिथ्यादुष्कृतपूर्वकं क्षमापना । ललितसुन्दरी-कनकवतीप्रमुखाणां पृथ्वी-  
चन्द्रभार्याणां केवलज्ञानप्राप्तिः ।

२१९

पृथ्वीचन्द्रकेवलधर्मदेशनाया विशुद्धसयमग्रहण-संसारस्वरूपकथन-मनुष्यभवदुर्लभत्वनिरूप-  
णम्, अल्पमूल्यविक्रीतमहामूल्यरत्नानां वणिकपुत्राणां पुनर्महामूल्यरत्नावाप्तिदुर्लभताविषयको  
मनुष्यभवदुर्लभतानिदर्शको दृष्टान्तश्च ।

२१९-२०

‘युष्माकमुपर्यावयोरेवविधः स्नेहः कथम् ?’ इति हरिवेग-पद्मावतीप्रश्ने पृथ्वीचन्द्रकेवलि-  
कथितपूर्वभवसम्बन्धश्रवणानन्तरं हरिवेग-पद्मावत्यो केवलज्ञानप्राप्तिः । सुधनवणिजं प्रति पृथ्वी-  
चन्द्रकेवलिकृतं शङ्ख-कलावतीभवादारभ्य पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरभवपर्यन्तं समानगुणकारणप्ररूपणम्,  
पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरभार्याणां सम्बन्धनिरूपणं च । हरिसिंहपुत्रस्य हरिषेणस्य राज्याभिषेकः ।  
पृथ्वीचन्द्र-गुणसागरकेवलिनोर्मोक्षगमनम् ।

२२१

\*

ग्रन्थकारस्य कविधर्मनिरूपणम् ।

२२१

ग्रन्थकारस्य प्रशस्तिः

२२१-२२





सिरिसंतिसूरिविरइयं  
पु ह इ चं द च रि यं



॥ णमो त्थु णं पढमाणुओगधराणं ॥

सिरिसंतिस्सरिविरइयं

# पु ह वी चं द च रियं

[ पढमो संख-कलावईभवो ]

॥ ॐ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥

वंदे कुवलयभूषणमैणुभ्रसाओदयं विसालच्छं । विवभैमरहियं माणससरं व पढम जिणं पढमं ॥ १ ॥

विदुमवणसोणयलं फुरंतकरि-मयर-मीण-संखंकं । पणमामि सायर सायरं व वीरस्स कमकमलं ॥ २ ॥

हैयमोहघणतमोहा निम्मलमोहा विराइपउमोहा । सेसा वि हुंतुं जडणो जिणवडणो दिवसवडणो व्व ॥ ३ ॥ 5

सिवपयसरवरहंसे पहीणनीसेसपुन्न-पावंसे । केवलकरनियरिद्धे पणमह सिद्धे सुहसमिद्धे ॥ ४ ॥

मुणिमहुयरेहिं जेसिं पिज्जइ मुहकमलवयणमयरंदो । सुयनाणनीरभरिए ते सूरिमहहहे वंदे ॥ ५ ॥

कंठट्टियपुव्वंगे पाढयकप्पहुमे जियाणंगे । झाँएमि उवज्जाए अज्झीणज्जप्पसज्जाए ॥ ६ ॥

१ सङ्केतः—“श्रीमन्नेमिनमानम्य श्रीरत्नप्रभसूरिभि । श्रीपृथ्वीचन्द्रचरिते सङ्केत किञ्चिदुच्यते ॥ १ ॥ वंदे० इति अत्रोपमानपक्षे कुवलयानि भूषण यस्य तत्, उपमेयपक्षे तु को-पृथिव्या वलयस्य भूषणम् । [ उपमानपक्षे ] अनन्यसामान्यस्वादमुदक यत्र, [ उपमेयपक्षे ] अनन्यसामान्य सातोदय च । [ मानससर पक्षे ] विस्तीर्णत्वाद्, विविधवृक्षत्वाद्, विसै-प्रसन्नकन्दैर्युक्तत्वात्, विषै-जलैर्वहुलत्वात्, विशिष्टा शा लाति-आदत्ते, इति व्युत्पत्तेर्वा [ विसाल विपाल ] विशाल वा तच्च तदच्छ च । जिनपक्षे विशाले अक्षिणी यस्य, विशेषेण त्रिपयप्रवृत्तिनिरोधलक्षणेन शालन्ते-शोभन्ते यानि तानि तादृशानि अक्षाणि-इन्द्रियाणि यस्य, विपाल-आसातनादिभाव-विषयन्तं त्रि(१ छि)नत्ति नरकपालावि(२ दि)ना (३) य, विशेषेण शालते-शोभते विशाल, धर्मवत्त्वात् चिह्नभूतवृषभत्वाद् वृपाल, विशिष्टाया साया-चारित्रादिश्रिय सत्त्वाद् विसाल, स चासौ अन्छ-शुक्लध्यानवत्त्वादकलुपस्तम् । ये पुनरर्था [ ] कैश्चित्=[ जिनपक्षे ] विशिष्टा सा-पूजाश्रियम्, वृष वा-धर्मं समवसरणे आलक्षयति-दर्शयति इति वृषा(विसा)लक्षो विशा(वृषा)लक्षो वा । [ मानससर पक्षे ] वय-हसा, गाला-वृक्षा, तेषाम् अक्षा-सद्भाता यत्र, विशिष्टा शाला-शाखा येषु ते, विशाला अक्षा-विमीतका यत्र तद् विशाला-क्षम्, विषय-जलस्य अल-प्रयासि' 'अल भूषणेत्यादि' [ पाणिनिघातु०५१५ ] घातो विपाल तेन अन्छ-दैर्घ्यम् 'आच्छि आयासे' [ पाणिनिघातु०२०९ ] इति घातोर्विपालाच्छ च-इत्यादय अन्येऽपि प्रोक्ता सन्ति न ते युक्ता, छत्रस्यानुस्वारलोपस्य चालाक्षणिकत्वात् । 'छोऽस्यादौ' [ सि० ८-२-१७ ] इति प्राकृतसूत्रेण हि लक्ष्य छत्रे क्रियमाणे अक्ष्यादिगणस्यैव नियतस्य क्रियते । न चात्र लक्षिरक्षिर्वा घातु अक्षशब्दो वाऽस्ति 'क्ष ख क्वित्तु छ-ज्ञौ' [ सि० ८-२-३ ] इत्यनेनापि लक्ष्यानुरोधात् क्वचिदेव छीण क्षीण इत्यादौ छत्व भवति । लक्ष्य च खत्वगोचरमेव दृश्यते लक्ष्यण 'अक्के रक्खो, वडे जक्खो' [ ] इत्यादि । इति” ॥

२ “कुवलयभूषणमनोज्ञसातोदयम्, कुवलयभूषण अणुज-अप्रेरित सातोदयो यस्य तम्' जेटि० । 'मणन्नसाओदयं' इति सङ्केतकारसम्मत पाठः ॥ ३ सङ्केतः—“[ मानससर पक्षे ] वीना-भ्रमराणा [ भ्रम-अस्तित्वसशयस्तेन ] व(र)हितम्, [ जिनपक्षे ] विभ्रमेण-भ्रान्त्या रहित च” ॥

४ सङ्केतः—“विदुमवणेत्यत्र [ सागरपक्षे विद्रुमवनै, वीरजिनपक्षे ] विद्रुमवनवत् शोण व(त)ल यस्य । स्फुरन्त करि-मकर-मीन-शङ्खा, [ सागरपक्षे ] अद्धे-उत्सङ्गे, [ वीरजिनपक्षे ] अद्धा-लाञ्छनानि च यस्य” ॥ ५ सङ्केतः—“हैयमोह० इत्यत्र [ दिवसपतिपक्षे ] हतो मोहहेतुत्वाद् मोहस्य घनस्य च-निविडस्य तमस-अन्धकारस्य ओषो यै, [ जिनपतिपक्षे ] घनतम ऊहो येषा ते तथा, हतमोहाश्च ते घनतमोहाश्च । निर्मलमयूखा, मोहशब्दो मयूख-शब्दभव, 'नवा मयूख-लवण०' [ सिद्ध० ८-१-१७१ ] इत्यादिना सिद्धत्वात् । विराजी पद्मोष-पद्मसमूहो [ दिवसपतिपक्षे ] येषु [ जिनपतिपक्षे ] येषा च पादयोरघस्तात्, यद्वा विराजिनौ पद्मा-लक्ष्मी. स(ऊ)हश्च-विचारो येभ्य सकाशात्” ॥ ६ हौतु ख१ ॥ ७ ह्यायेमि भ्रा० ॥

पंचमहव्ययवयणे तवदाहादलियकम्ममयजूहे । सज्जायनायपूरियदियंतरे नमह सुणिसीहे ॥ ७ ॥  
 पेणमह सुवन्न-रयणा-उलंकारविचित्तरुवयसणाहं । सयलसुहसिद्धिजणयं सिद्धंतमहानिहिं सययं ॥ ८ ॥  
 जयइ सरइंदुधवला गंग व्व सरस्सई सया जत्थ । पिज्जंतं पि न झिज्जई सुयसलिलं चिउसहंसेहिं ॥ ९ ॥  
 जैन्नाणधणलवेण वि ववहरमाणा वयं मइदरिद्धा । करिमो परोवयारं तेसि नमो गुरुघणेसाणं ॥ १० ॥  
 5 सोऊण जउत्तीओ वोत्तुं अम्हे वि किं पि जाणामो । भइं सुहुममईणं पुव्वकईणं हवउ तेसिं ॥ ११ ॥  
 नमिउं नमंसणिज्जे अन्ने वि महायसे महासत्ते । वोच्छामि पत्थभूयं धम्मकहं भव्वजंतूणं ॥ १२ ॥  
 पुरिसत्थपायवाणं सव्वेसिमवंबलवीयभूओ त्ति । धम्मो चेव पसत्थो पुरिसत्थो एत्थ विन्नेओ ॥ १३ ॥

भणियं च—

धम्मेण धणमणंतं धम्मेण नरा-उमरिंदवरकामा । मोक्खो वि धुवं धम्मा लब्भइ, ता उत्तमो धम्मो ॥ १४ ॥  
 10 चदो गहाण, मेरु धराण, चिंतामणी मणिगणाणं । जह, तह जिणवरधम्मो सिरोमणी सव्वधम्माणं ॥ १५ ॥  
 दुरियं हरेइ, वियरेइ सुहसए तुरियमेव भव्वाणं । सुव्वंतो कीरंतो साहिपंतो य धुवमेसो ॥ १६ ॥  
 ता जुत्ता एयरुहा ससत्तिओ हन्त ! बुद्धिमंताणं । एसवणं च निचं, न किच्चमेत्तोऽवरं जेण ॥ १७ ॥  
 नवनवसंवेगामयरसवसवियलंतविसयविससंगो । मुत्तिमुहं पिव पत्तो परमाणंदं लहई सोया ॥ १८ ॥  
 धम्मकह च्चिय एसा पाहन्नेणं, पसंगओ नवरं । काम-उत्थगोरं पि हु भणियव्वं किं पि परवयणा ॥ १९ ॥  
 15 अलमेत्थ वित्तरेणं, भो भो सुयणा ! सुणेह धम्मंगं । चरियं सुचरियरम्मं महरिसिणो पुहइचंदस्स ॥ २० ॥  
 जह दूसमकालम्मि वि एसो सव्भावसारतुलगाए । भावचरित्ताराहणवीएण सैभारिओ कमसो ॥ २१ ॥  
 सुर-नरजम्मपरंपरपरिभुत्तमुहो सुहेण सिवसोक्खं । संपत्तो पयडत्थं तह चेव समासओ भणिमो ॥ २२ ॥

अत्थि गयणंगणुल्लणलीलाविलोलकल्लोलमालालोयणऽक्खित्तखेयरीविसरवियडकडक्खच्छडाधवैलिउन्नय-  
 सिहेण कलहोयपायारेण विय लवणसायरेण परिवेदिओ, पसाहियसयलतिरियलोयमज्झभाओ, महासूरनरिंदो व्व  
 20 पंसिद्धवहुविजयो, पहाणमुणिगणो व्व मंदरागकलिओ, नेव्वाणपएसो व्व विदेहसमद्धासिओ, समिद्धदोसियावणो  
 व्व कुसलगंधियहट्टो व्व संमुवल्लभमाणविचित्तवासो, जरापरिगयमणुस्सो व्व गेयदंतसोहिओ, उत्तमपुरिसो व्व विसो-  
 लुन्नयकुलपव्वयजाओ, पडिपुन्नमोत्तियहारो व्व रेहंतैसप्पासंगपउरसरिओ, मज्झभायपज्जलंतनाणामणिरयणकिरण-

१ सङ्केतः—“पणमह० इत्यत्र [महानिधिपक्षे] सुवर्णेन रत्नैः अलङ्कारैः—कटकादिभि विचित्ररूपकैश्च—दीनारादिभि सनाथम्, [सिद्धान्तमहानिधिपक्षे] शोभनवर्णरचनया अलङ्कारैश्च—उपमादिभि विचित्राणि यानि रूपकाणि—पद्यानि तै सनाथम् । [महानिधिपक्षे] सकलाना शुभसिद्धीना जनकम्, [सिद्धान्त०पक्षे] परिपूर्णसुखाया सिद्धेश्च जनकम्” ॥ २ सिद्धइ भ्रा० ॥ ३ सङ्केतः—“जन्नाण० इत्यत्र गुरुघणेसाण ति धनेश्वराचार्याणा स्वगुरुणाम् गुरुधनस्येश्वराणा च” ॥ ४ लहउ भ्रा० ॥ ५ भार्यया सहित ॥ ६ वलियुन्नयं भ्रा० ॥ ७ सङ्केतः—“पसिद्धवहुविजयो ति [नरेन्द्रपक्षे] प्रसिद्धा—प्रतीता बहवो विजया—जयश्रियो यस्य, प्रकर्षेण सिद्धा—आयतीभूताश्चकर्तनाम्, [जम्बूद्वीपपक्षे] बहव—द्वात्रिंशद् विजया—महाविदेहखण्डरूपा यस्य” ॥ ८ सङ्केत—“[मुनिगणपक्षे] मन्दरागकलिओ ति मन्देनैव रागेण, [जम्बू०] मन्दराद्रिणा च कलित” ॥ ९ सङ्केतः—“विदेहसमद्धासिओ ति [निर्वाणप्रदेशपक्षे] विदेहा—विगतदेहा सिद्धा, [जम्बू०] विदेहश्च—महाविदेह” ॥ १० संकेत—“समुवल्लभमाणविचित्तवासो ति [दौर्भ्यकापणपक्षे] वासासि—वस्त्राणि, [गान्धिकापणपक्षे] वासा—सुरभिद्रव्यचूर्णरूपा, [जम्बू०] वर्षाश्च—क्षेत्राणि” ॥ ११ संकेतः—“गयदंतसोहिओ ति [वृद्धपक्षे] गत(त्त)दन्त शोभित यस्य, [जम्बू०] पर्वतविशेषैश्च गजदन्तैर्भूषित” ॥ १२ संकेतः—“विसालुन्नयकुलपव्वयजाओ ति [उत्तमपुरुषपक्षे] विशालोन्नतकुले पर्वच(ध)कम्—उत्सवकारि जात—जन्म यस्य, [जम्बू०] विशालम्—उन्नत च कुलपर्वताना जात—समूहो यत्र” ॥ १३ संकेतः—“रेहंतैसप्पासंगपउरसरिओ ति शोभमाना दीर्घा प्रचुरा [हारपक्षे] सरिका., [जम्बू०] सरितश्च यत्र” ॥

समुज्जोइयासेसदिसियक्कजम्बूपायवपईवो जम्बुदीवो नाम दीवो । तस्स य दाहिणद्धपेरंतपइड्डियं दोसेदोसेससंठियं, पुव्वा-ऽवरोदहिनिहिचोभयंतवेयड्ढगिरिदंडविहंडियं, फलिह-वेरुलियसच्छहऽच्छवारिपूराभिरामगंगा-सिंधुसरिप्पवा-हमंडियं, समद्धासियधणुगुणायमाणलवणोयहि-हिमवतधराहरंतरोगासं भारहं नाम वासं ।

तत्थ पुण कालचकं दुवालसारं सया परिब्भमइ । उस्सप्पिणि-ओसप्पिणिसरूवभेएण दुविहद्धं ॥ २३ ॥

उस्सप्पिणीए भावा माणा-ऽऽउ-सुहाइणो विवड्ढंता । हुंति जियाणं पायं, ओसप्पिणिए उ विवरीया ॥ २४ ॥ 5

जिणवयणजाणयाणं सरूवमेयासि पायडं चेव । वित्थरभया न भणिमो, भणियं पुण भरूणमेत्तं ति ॥ २५ ॥

ओसप्पिणीए कत्थइ दूसमसमयम्मि दारुणे जाए । संघयण-धिई-सद्धादुव्वलपरिविरलसाहुजणे ॥ २६ ॥

आसि किर भरहदाहिणदलमज्झिमखंडमंडणो मुडओ । देसो गुरुगामा-ऽऽगर-नगरो सिरिमंगलो नाम ॥ २७ ॥

जत्थ अंब्वोच्छिन्नमणोहरोदयाओ पयाओ निन्नयाओ य, विसट्टकमलालंकियाइं सराइं नयराइं च, वियरंत-मत्तकरिसया सन्निवेसा ऋणुदेसा य, वित्थरियसरलवंसहरिसोहा नरवरा धराधरा य । 10

नट्टपरचक-तकरसंचारे छंदचारिचउचरणे । देसम्मि तम्मि रम्मं संखउर अत्थि वरनयरं ॥ २८ ॥

तं पुण तरुणिमुहं पिव सुदीहरच्छं घणुज्जलदियं च । सइ संचरंतस्सरं ताराहरणं च गयणं व ॥ २९ ॥

रेहंतचित्तसालं बहुसाहारं सुजाइरमणीयं । पुन्नाग-नागरम्मं परमुज्जाणं व तं नयरं ॥ ३० ॥

तत्थ य रूव-लायन्न-कलाकलाव-कोसल्लावज्जियर्नाणाविहवेसाओ वेसाओ, सवणोलम्बिनयमणि-मुत्ताहल्लज्जल-वालियाओ वालियाओ, लीलाविलासाभिरामनेवत्थपंसाहियनियकुलंगणाओ कुलंगणाओ । किंच तत्थ दुहा 15  
मत्तवारणरमणीया पासाया, दुहा य बहुविहवेसा नेगमा, दुहोवलक्खिज्जमाणनागरा-ऽभयाओ वीहीओ । किं बहुणा?—

सुरघरअउम्भियंगुलि कइइ व तं तूरगहिरयोसेण । 'भणइ जणा ! जइ अन्नं नरलोए एरिसं नयरं' ॥ ३१ ॥

तत्थ य दरियरिउविसरविजयोवज्जियजोयैजुन्हापत्राहविमलजसचंदणद्वाणुलित्तसयलदिसिवहूमुहारविंदो संखाभिहाणो नरवरिंदो । जो<sup>२</sup> सूरुो वि न कमलोवयारी, दक्खो वि न महेसरपियाजणओ, चाई वि न कुवेर- 20

१ संकेतः—'दोस ति अर्घम्, दोपेश-चन्द्र' [ अर्घचन्द्र इत्यर्थे ] ॥ २ माणाइ-सु० जे० ॥ ३ "स्मरणमात्रम्" जेटि० ॥

४ संकेतः—'अंब्वोच्छिन्नेत्यादि, [ प्रजापक्षे ] उदय, [ निम्नगापक्षे ] उदक च । [ सर पक्षे ] कमलानि, [ नगरपक्षे ] कमला च । [ सन्निवेशपक्षे ] कर्पका, [ वनोद्देशपक्षे ] करिशतानि च । [ नरवरपक्षे ] विस्तृत सकलवशे-अन्वये हर्षोषो येषाम्, यदि वा विस्तृता सशोभप्रतिप्रदेशानामश्वाना शोभा येषाम्; गिरिपक्षे विस्तृता सकलवेणुर्मर्कटशोभा येषु" ॥ ५ 'सकल' सङ्केतसम्मत पाठ । "विस्तृता-कुटिलान्वयहर्षोषा नरवरा, विस्तृतसरलवृक्ष-वेणु-सिंहशोभा घराघराश्च" अयमप्यर्थोऽमङ्गतो नेति । सप्रपादकः ॥ ६ संकेतः—'तं पुणे-

त्यत्र "[ तरुणिमुखपक्षे ] सुदीर्घाक्षम्, [ नगरपक्षे ] सुदीर्घरथ्य च । [ तरुणि० ] द्विजा -दन्ता, [ नगर० ] विप्राश्च । [ गगनपक्षे ] सर -रवि, [ नगर० ] शूराश्च-वीरा । [ गगन० ] ताराभि -नक्षत्रै हरति-शोभते, [ नगर० ] प्रोज्ज्वलाभरण च' ॥ ७ संकेतः—

'रेहंतेत्यत्र [ नगरपक्षे ] शोभमानाध्वित्रशालिका, [ उद्यानपक्षे ] चित्रा वृक्षाश्च यस्मिन् । [ उद्यानपक्षे ] बहुस[ह]कारम्, [ नगर० ] बहुना साधारणं च । [ उद्यान० ] शोभनाभिर्जातिभि -मालतीभि, [ नगर० ] क्षत्रिय-वणिगादिभिश्च रमणीयम् । [ उद्यान० ] पुन्नाग-नागं -वृक्षविशेषं, [ नगर० ] प्रधानपुरुष-हस्तिभिश्च रम्यम्" ॥ ८ संकेतः—'नाणाविहवेसाओ ति नानाविभवेशा, यद्वा वैश्या -नागरविशेषा" ॥ ९ संकेतः—'वालियाउ ति कर्णाभरणम्" ॥ १० संकेतः—'पसाहियनियकुलंगणाओ ति मण्डितस्वकुला-जीरा" ॥ ११ संकेतः—'दुहा इत्यादौ मत्ता वारणा-हस्तिन, मत्तवारणानि च प्रतीतानि । बहुविभवस्येशा बहुविधवेषाश्च । नागरं-

सुण्ठी अमया-हरीतकी, नागराणामभयं च" ॥ १२ संकेतः—'जोय ति चन्द्र" ॥ १३ संकेतः—'जो सूरुो वि इत्यादौ सूर -रवि' वीरश्च कमलानामुपकारी कमलोपकारी च । दक्ष-प्रजापति विचक्षणश्च, महेश्वरस्य प्रियाया-सत्या जनक, महेश्वराणा प्रियस्य अजनकश्च । कुवेर-धनद कुतिसतवर च । भोगी-सर्पो भोगवांश्च । द्विजिह्वत्व-धर्षत्व खलत्व च । सोम-चन्द्र अनुद्वेजश्च, मओ मृगो मदश्च" ॥

चरिओ, भोई वि न दोजीहत्तवित्तिवित्तासियसत्तो, सोमो वि न मयकलंकिओ । तहा धोरिओ धणुद्धरेसु, अग्गिमो खग्ग-मुग्गरगुणविणसु, पुरिल्लो गीय-नट्टकलावियक्खणेसु, गणणिज्जो गुणाहिणसु, पुरेसरो वीररसिएसु त्ति । तस्स य रत्तो रणञ्जणन्तमणिमेहलाकिंकिणीवलयनेउरेणं अंतेउरेणं, सयलनीइनेउन्नमुव्वहंतएहिं महंतएहिं, अपडंतगहियवक्केणं सामंतक्केणं, महुरघंटारवोवणीयजणसवणमणाणंदणेहिं संदणेहिं, मलयगिरिविबभमेहिं 5 थंवेरमेहिं, पत्रणजवणुंद्धुरंगेहिं तुरंगेहिं, नाणाविहपहरणविहत्थहत्थेहिं सुहडसत्थेहिं जणियमणप्पमोयस्स संपाइयपण-इयणमणोरहस्स सयलपउरपयइहिययाणंदसुंदरं पहुत्त-पयाव-महोवमाणीकयपुरंदरं रज्जमणुपालयन्तस्स वोलिओ कोइ कालो ।

अन्नम्मि दिणे रत्तो अत्थाणगयस्स विणयसंपन्नो । गयसेट्टिसुओ दत्तो पडिहारनिवेइओ पत्तो ॥ ३२ ॥  
मोत्तूण चलणमूले रायारिहपाहुडं कयपणामो । सप्पणयमासणगओ भणिओ सो नरवरिंदेण ॥ ३३ ॥  
10 'कीस चिराओ दीससि गयनंदण !? सुट्टु देहकुसलं ते ?' । भणियं च तेण "कुसलं संपइ देवाणणे दिट्ठे ॥ ३४ ॥  
कारणमेत्थ महापहु ! कुलधम्मो एस वणियलोयस्स । कीरइ धणज्जणं जं दिसियत्ताए वि गंतूणं ॥ ३५ ॥

अन्नं च—

दुपरिच्चयघोरणि-घरो जो न नियच्छेइ महियलं मणुओ । सो कूवदहूरो इव सारा-ऽसारं न याणाइ ॥ ३६ ॥  
नज्जंति चित्तभासा तह य विचित्ताओ देसनीईओ । अच्चब्भुयाइं बहुसो दीसंति महिं भमंतेहिं ॥ ३७ ॥  
15 ता देव ! देवसालं नयरं नयराइयं जयपयासं । अहमत्थत्थी सुत्थं वणिज्जकज्जे गओ आसि" ॥ ३८ ॥

राइणा भणियं "सच्चवियं तए सुभासियं, •

'को अइमारु समत्थहं ? को परु पियगिरहं ?, को णु विणसु वियडुहहं ? को खलु नयपरहं ? ।

साहसु माणु वहंतहं दुक्ख किं कुणइ ?, ववसायसहायहं पुरिसहं किं किर दूह जइ ?" ॥ ३९ ॥

जओ कत्थ संखडरं ? कत्थ देवसाल ? ति ।

20 अह कहसु फुडं सुंदर ! जंता-ऽऽइंतेण तत्थ व गएण । किं सच्चवियमउव्वं अच्चरियं विउसमणहरणं ?" ॥ ४० ॥

दत्तेण भणियं "देव ! बहुचोज्जाउलं देवसाल । जओ तत्थ "दीसंति अपडिमाइं देवउलाइं, पुलइज्जइ भूरि-चंदलेहालंकिं सयलमम्बरं, निज्जाइज्जंति पइमंदिरमणवरयं पडंतीओ रयण-मणिवसुधाराओ; तथा वियरन्ति अकरा सुहत्थिणो, विलसइ गयवाहणो सव्वलोगो, न लक्खिज्जइ न सुव्वइ कस्सावि माया, न इच्छिज्जइ नारीणं पि रक्खा, नाणुमन्निज्जइ वेसाणं पि केसवुडिह त्ति ।

25 अवि य—

मासाहार-सुरावा सकलत्ता धीवरा य किर तत्थ । दीसति मुणिगणा वि हु कहिमो ता केत्तियं देव ! ? ॥ ४१ ॥

अन्नं पि किं पि चोज्जं दिट्ठं तं पुण न साहिउं सक्का । समयेव तं पलोयउ नीलुप्पल्लोयणो देवो" ॥ ४२ ॥

१ 'णं सुरहघटा' आ० ॥ २ 'णुद्धरगेहिं' आ० ॥ ३ 'वमुहोव' आ० । 'वसुहोव' जे० ॥ ४ विभिन्नाओ जे० ॥  
५ सञ्ज्ञेतः—'दीसंतीत्यादौ अप्रतिमानि-प्रतिमारहितानि प्रतिच्छन्दरहितानि च । चन्द्र-शशी सुवर्णं च । अम्बरम्-आकाश वस्त्रं च । रत्न-मणि-वस्त्राणां धारा जलविन्दुसन्ततिश्च, रत्न-मणीनां वसुधाराश्च-देवकृता धनवृष्टयः । अशुण्डा शोभनहस्तिन, राजदेयभागरहिता सुखार्थिनश्च । गतवाहन, गदैर्वाहन-पीडा यस्येति गदवाहनो वा, अन्यत्र तु गजवाहनो गतवाहनो वा । माता माया च । नारीणां-स्त्रीणां, न अरीणाम् । वेद्यानां केशवृद्धि, द्वेष्याणां केशवृद्धिश्च । मासमाहारयन्ति सुरां पिबन्ति कलत्रवन्तो मत्स्यबन्धकाश्च, अन्यत्र तु मासेन आहारो येषाम्, शोभनस्त्राध्यायध्वनय, सकलान् प्रायन्ते, धिया-बुद्ध्या वराश्च" ।

एवं भणंतेण पयत्तगोविया विकडिहऊण ढोइया णेण राइणो चित्तफलहिया । दिट्ठा य राइणा तत्थ समुवहसियतियसंगणारूवलायन्नविलासा मणचमुक्कारकारिणी विचित्तवन्नयनिम्माया कन्नया । तओ 'देवि' त्ति कयप्पणामेण 'अहो ! सरलसहावस्स वि अउव्वा ते कुडिलवयणकुसलय' त्ति जंपमाणेण सुइरं निव्वन्निऊण भणियं राइणा 'अहो ! विन्नाणपगरिसो चित्तयरस्स, भो ! का पुण एसा देवि?' त्ति । दत्तेण भणियं 'देव ! दिट्ठमपडि-पुन्नमालिहन्तस्स केरिसो एत्थ चित्तयरस्स विन्नाणपगरिसो ? पयावइणो चेव पगरिसो एस, जेण अविज्जमाण-पडिच्छंदा एसा विणिम्मिया' । राया भणइ "भो ! किमेत्थापडिपुन्नं ? किं न लक्खिज्जइ भंगतरंगचंगिमा चिहुर-संचए ? किं न कलिज्जइ भूभंगसुंदरा तरलपमहलया लोयणेसु ? किं न गच्छिज्जइ ईसीसिहसियपिसुणा दसणच्छयमुदा ? किं न नज्जइ चलंतंगुलिदलं करयलकमलजुयलं ? सव्वहा-

कन्नन्तपत्ततिक्खन्तलोयणा किंचि हसिरभणिरा सा । चित्तट्टिया वि देवी हरेइ चित्तं फुडं एसा" ॥ ४३ ॥

तओ हसिऊण जंपियं दत्तेण 'माणुसी वि देवित्तं पाविया एसा देवेण, अहवा माणुसीओ चेव देवीओ देवस्स' । तओ सविम्हओ पजंपिओ राया 'किमेवंविहाओ माणुसीओ हवन्ति ?' । दत्तेण भणियं-

'सा अन्न च्विय लीला, सा अन्ना अंगचंगिमा काइ । जा तीए माणुसीए, लिहणं पुण सरणकज्जेण' ॥ ४४ ॥

भणियं सविम्हएणं रन्ना 'ता भइ ! कहसु का एसा ?' । पडिभणइ तओ दत्तो 'एसा मम देव ! भइणि'त्ति ॥ ४५ ॥

'जइ तुह भइणी ता भणसि कीस दिट्ठा उ देवसालम्मि ?' । दत्तेण तओ भणियं "कहेमि देवस्स परमत्थं ॥ ४६ ॥

तायस्सेम्मल्लाए चलिओ हं देसदंसणासाए । गहियसुमहग्गभंडो सत्थेण महामहंतेण ॥ ४७ ॥

लंघियअणेगदेसो पत्तो हं देवसालविसयस्स । संधिं अरन्नरुंदं गैद्वभरसंतसहूलं ॥ ४८ ॥

सन्नद्धवद्धवरसुहडपरिवुडो तुरिय तुरयमारूढो । सोहेमि अग्गमग्गं पुलिंद-चोराइसंकाए ॥ ४९ ॥

भीमम्मि तम्मि रन्ने दिट्ठो एगत्थ पहसमासन्ने । आसन्नमयतुरंगो सहसा पुरिसो अविचलंगो ॥ ५० ॥

'सव्वंगसुंदरो किं रइविरहे एस सुच्छिओऽणंगो ?' । एमाइकयविगप्पं पलोइओ सो मए गंतुं ॥ ५१ ॥

सासावसेसजीओ नाउं सो सिसिरवारिणा सित्तो । लद्धपुणन्नवसन्नो पुणो वि संपाइओ नीरं ॥ ५२ ॥

छाओयरो त्ति स मए मोयगभोगेण पीणिओ तत्तो । पुट्ठो 'सुपुरिस ! कत्तो कह वा पत्तो सि वणगहणं ?' ॥ ५३ ॥

तेण वुत्तं-

'जं न मणोरहविसओ न कामचारेण गम्मए जत्थ । कम्मपवणेण पाणी निज्जइ उप्पाडिउं तत्थ ॥ ५४ ॥

ता देवनंदिदेसा तुरंगहरिओ अहं इहाऽऽयाओ । तुब्भे वि भणइ सुपुरिस ! कत्तो संपत्थिया कत्थ ?' ॥ ५५ ॥

तओ 'अम्हे वि तद्देसभूसणं देवसाल गमिस्सामो, ता एगो सत्थो, तुरयवाहणपरितंता य तुब्भे ता अलंकैरेह एयं सुहासणं' ति मए वुत्ते 'एवं' ति भणन्तो आरूढो सो सुहासणं । तओ हास-तोस-संकहाहिं कयपरोप्परपरि-ओसा पविट्ठा अडविमज्झं । तं पुण घुरुघुरुघुरंतघोरवग्घं, वियडदोत्तडिवहनिवहविहियपवहणविग्घं, गुरुगिरिनिगुंज-गुंजंतदित्तसीहं, पए पए दिस्समाणभुयंगकसणलीहं, दिसिदिसिसुव्वंतसवरसिंगयरवं, पज्जलंतमहन्तवणदवं, गयगल-गज्जियावज्जियपणच्चियसिहिसमूहं, परिब्भमन्ततरललोयणाणेगहरिणजूहं, पण्डुसुयसेन्नं व पयंडसरासणकलि-

१ "बलात्कारेण" जेटि० । "हठात्" भ्राटि० ॥ २ "कर्णकटु" जेटि० ॥ ३ "करेहि जे० ॥ ४ "दुष्टनदी" जेटि० ॥ ५ सङ्केतः-  
"पयंडसरासणेत्यादौ, प्रकटशरासन-कर्णं सप्रामे सज्जश्वाज्जुनो यत्र, गुरुगदो भीमश्च यत्र, प्रकटा. शर-मुञ्ज अस(श,न-बीजक) कलि-  
बिभीतक सर्ज-वृक्षविशेष अर्जुनश्च-तृणविशेषो यस्मिन्, गुरुगजभीम च । साला-वृक्षा शेषाश्च, पलाशा-किंशुका राक्षसाश्च । विलासा[ ]-  
सोगादीनां (?), पक्षिणा लास्य च, बहव करमर्दिकाभिधाना वृक्षा यत्र, बहूना करैर्मर्दितं हृदय च यासाम् । श्रावकैराश्रित श्रापदानामासितं  
च यत्र । पलायमाना बहुला आपद, बहवो लावकाश्च यस्मिन् । श्रूयमाण 'शिव शिव' इत्यारव-शब्द, अशिवश्च शिवाना फेकारो



सज्जज्जुणं गुरुगयभीमं च, लंकावणं व वानरविसरभग्गसालं घणपलासं च, वेसासरीरं व पायडविविहविलासं  
वहुकरमदियवच्छं च, जिणसासणं व विविहसावयासियं पलायमाणवहुलावयं च, कहिंचि हरदेउलं व सुव्वन्त-  
सिवासिवारवं, कहिंचि दरिहकोडुम्बियकुडीरं व कलहसदाउलं, कहिंचि रयणीमुहं व दीसंतदित्तदीवियं, कहिंचि रण-  
गणं व करीरवग्गकरवीरवारदुग्गमं ति ।

- 5 वचामो पेच्छंता घणदलपावरणसांहुलिहिलाओ । मौलूरत्थणियाओ विल्लीओ तह य भिल्लीओ ॥ ५६ ॥  
वीयदिवसम्मि सहसा तूरंततुरंगथट्ट-दोघट्टं । लल्लकहकपोकाकोलाहलभरियदिसियकं ॥ ५७ ॥  
वज्जन्तदक-डक्का-हुडुक-कंसाल-काहलरवेण । पूरियभुवणं सहसा पुरओ सेन्न पलोएमो ॥ ५८ ॥  
खुहिया य सत्थसुहडा तुरियं सन्नहिउमह समाढत्ता । 'मा भाहि' ति भणंतो ता पत्तो मह पुरो साई ॥ ५९ ॥  
'भो भो ! दिट्ठो कत्थइ ?' भणमाणेणावर्यंच्छिओ हत्थं । सयमेव तेण एसो, जाया हरिसाउला दो वि ॥ ६० ॥
- 10 ताव य त्रिन्नायवुत्तंतो समागओ विजयराया । 'जयइ जयइ विजयमहारायकुलगयणंगणहरिणलंछणो जयसेण-  
कुमारो' ति पढिया वंढिणो । कुमारेणावि पायचारेणऽऽभुट्टिऊण पणमिओ किमवि अउव्वमाणंदंसुहमणुहवन्तो  
जणओ । पुच्छिण निवेइओ निययवुत्तंतो जहा 'देव ! तेण दुव्विणीयतुरंगमेण पवेसिओऽहमेत्थ रन्ने, दूरपत्तेण  
निव्विन्नेण मुक्का मए वग्गा, ठिओ एसो, ओइण्णमेत्ते मइ 'अक्कज्जकारि' ति व मुक्को य पाणेहिं, ममावि  
गिम्हुम्ह-लुहा-तण्हा-परिस्समाइरेगाओ तक्खणा चेव अंधयारीभूयं भुवणं, तओ परं न याणामि किं पि संजायं,
- 15 नवरं जीवाविओ म्हि एएण निक्कारणवंधवेण सप्पुरिसचूडामणिणा सत्थवाहेणं' । ति जंपमाणेण दाविओ तेणाहं  
नरिंदस्स । मए वि कयप्पणामेण भणियं 'देव ! के वयं जीवियदाणे ?, देवस्स चेव पुन्नमाहप्पेण जीविओ एस' ।  
परित्तुट्टेण समाल्लिगिओ हं राइणा, पडिवन्नो पढमपुत्तो । निरुविऊण सत्थरक्खगे नीओ समगं चेव देवसालं ।

तओ—

तह कह वि तेहिं हरियं राय-कुमारेहिं देव ! मह हिययं । जह जणणि-जणय-नियनयर-देसवासस्स नो सरइ ॥ ६१ ॥

20 अवि य—

ते केइ मिळंति महीयलम्मि लोयणमहूसवा मणुया । हिययाओ खणं पि न ऊसरंति जे टंकयडिय व्व ॥ ६२ ॥  
अत्थि पुण तस्स रन्धो धूया सिरिदेविकुच्छिसंभूया । लक्खणधरी सुरुवा अणुया जयसेणकुमरस्स ॥ ६३ ॥  
तुल्लियंतिलोत्तिमतेया कलाकलावम्मि सुट्टु निर्घट्टा । जणमणहरणमुचरिया कलावई सच्चवियनामा ॥ ६४ ॥  
तीए अणुखवरो गवेसिओ सव्वओ न उण लद्धो । चिंतानलेण डज्जंति तेण पियरो य भाया य ॥ ६५ ॥

25 अवि य—

जायंतिय दीणिम जणंति जोव्वणसंपत्तिय, चिंतासायरि खिवहिं तवहिं परमंदिरि जंतिय ।  
पियपरिचत्त अहुंतपुत्त मणु तावहिं जणयहं, जम्मदिणे च्चिय नयणनीरु तिं दिज्जइ भूयहं ॥ ६६ ॥  
भणिओ तेहिं तओ हं "भइणीए लहमु कं पि वरमुचियं । जं 'वहुरयणा पुहई' तुमं पि बहुहिंडणसहावो" ॥ ६७ ॥  
'एवं' ति भणंतेणं मए वि लिहिओ इमो पडिच्छंदो । तयणुन्नाओ कमसो हिज्जो गेहम्मि पत्तो म्हि ॥ ६८ ॥

यत्र । कलह ति कलि कलभाश्च । दृश्यमाना दीप्ता दीपिका द्वीपिना -चित्रका यत्र । करीराणा-हस्तिप्रतिक्षेपकाणा खड्गकराणा च वीराणां  
वारेण-समूहेन दुर्गमम्, करीराणा-प्रसिद्धानां खड्गाना-गण्डकाना करवीराणा-तरुविशेषाणा वारेण दुर्गम च" ॥

१ सङ्केतः—“साहुलिहिलाउ ति शाखाभुजा” । १ साहुलिभुयाओ ख१ ख२ आ० ॥ २ सङ्केतः—“मालूरं ति विल्वफलम्” ।  
“कपित्थ” जेटि० ॥ ३ सङ्केतः—“साइ ति सादी-अश्ववार.” ॥ ४ सङ्केतः—“अवयच्छिओ हत्थं ति दृष्ट शीघ्रम्” ॥ ५ १ दमुव्वहंतो  
आ० ॥ ६ सङ्केतः—“अणुय ति अनुजा-लकी” ॥ ७ १ यतिलोत्तमं आ० ॥ ८ सङ्केतः—“निग्घट्ट ति अधिका” । “कुशला”  
जेटि० ख१टि० ॥ ९ सङ्केतः—“हिज्जो ति कल्पे” । “अतिक्रान्तदिने” जेटि० ख१टि० ॥

फुरइ पुण मज्झ हियए 'अज्झा देवस्स चेव उचिय त्ति । नियसामियं पमोत्तुं रयणं को मैहइ अन्नस्स ? ॥६९॥

कुलगिरिसमुम्भवाणं ठाणं रयणायरो हु सरियाणं । मोत्तूण लुद्धीरं गहतरे घडइ किं जुण्हा ? ॥ ७० ॥

एवं विभाविज्जणं अप्पडिख्वाए तीए पडिख्वं । देवस्स दंसियं मे, संपइ देवो पमाणं ति" ॥ ७१ ॥

एवं दत्तेण भणिए मयणसरधोरणीविहुरियं चित्तफलगावलयणवाउलत्तेणाऽथकमुकहुंकारं व रायाणमुवल्लभ  
भणियं धीधणमंतिणा 'भो सेट्टिपुत्त ! सुंदरं तए भणियं, जओ—

5

एसा धोयकलंकपव्वणनिसानाहोवमाणणा, पप्फुल्लुप्पलोललयणंजुया लायन्ननीरप्पवा ।

देवं देवसमाणख्वविहवं मोत्तूण कस्सोचिया ?, जाणंतो रयणावलिं कुणइ को कायस्स कंठे बुहो ? ॥७२॥

तओ भणियं मइसारेण रायमित्तेण—

'अज्झा हाविरहारिहारसरिया रायन्नियंवत्थला, नेत्तंभोयविराइयाससरसी वच्छोयतुंगायाला ।

भासंतुज्जलदेहदेसविसया सप्पासमुदंकिया, संपुन्ना पुहइ व्व अम्ह प्हुणो भोगोचिया सुंदरी' ॥ ७३ ॥ 10

ताहे मित्तवयणसवणुल्लसिएण ईसि हसिज्जण जंपियं पुहइपहुणा 'भो मइसार ! सच्चं संपुन्नपुहई एसा,  
जओ विरायंति एयाए सिणिद्धा कुंतला, सहंति ससिरीयावंगा, रेहंति अहियं वच्छमज्झदेसा, अलंकिया य एसा  
सिगारसरमणीएहिं अंगेहिं, चच्चिकिया कंचीकलावेण, सव्वहा वियासिकामख्वा, महोदयसंगया, लाडचोडा-  
लंकियरुइरविग्गहा, जणहिययहारिपुव्व-पच्छिमुत्तर-दाहिणदेसा य एस' त्ति ।

एत्थंतरे दत्तेण भणियं 'देव ! अन्नं च पयडविलासकोसला देवनंदिपसाहिया सिरिमंगलभूसणा य होही एस' 15  
त्ति । ताहे हसिज्जण जंपियं मइसारेण 'अहो ! अच्छरियं जे देसा देवेण न भंग्गा तेसिं पि भंगे कुसलो एस दत्तो,  
अहवा देवप्पयावेणं देवभिच्चा वि एरिसा चेव हवंति' । राइणा भणियं 'सच्चं कुसलो एस देसभंगे, जइ परदेसुम्भ-  
वदुल्लहरयणपाहुडेण सामियमाणंदेइ' ।

हसिज्जण तओ भणियं मइसाराईहिं सुइयासंधं । "को देव ! संसओ इह ? उत्तमपुरिसो जओ दत्तो ॥ ७४ ॥

अवि य—

20

तं सज्जण जंपंति त्रयणु पुणु पुणु परिभाविउ, सक्हि कालविहीणु जस्स सच्चप्पणु दाविउ ।

पाउसजलहरु करिवि गज्जु तक्खणि जलभरियउ, पसमइ जणहं असेसु दाहु पूरियगिरिसरियउ ॥ ७५ ॥

भणियं च देव ! इमिणा 'सिरिमंगलमंडणी इमा होही' । ता सच्चविही एयं एसो दत्तो महासत्तो" ॥ ७६ ॥

आह तओ सेट्टिसुओ 'सच्चयमाहाणयं इमं जायं । जेणुवल्लद्धा चोरा सो चिय किर पहरयं दाही' ॥ ७७ ॥

१ 'ए एसा दे' ख१ आ० ॥ २ सङ्केतः—“अज्झ त्ति एषा” ॥ ३ सहइ जे० ॥ ४ सङ्केतः—“लुद्धीरं ति चन्द्रम्” ॥  
५ सङ्केतः—“अथक्क त्ति अप्रस्ताव” ॥ ६ सङ्केतः—“अज्झेत्यादौ हाविर त्ति दीर्घं—तत् हाविरहावि(रि)हार(रा)—अल्पा [ ] सरित्तो  
यस्या पृथिव्याम्, अन्यत्र तु हाविरा हारिण्यो हारसरिका यस्या । राजन्तो नितम्वा—कटका स्थलाश्च यस्याम्, अन्यत्त(त्र तु) राजद्  
नितम्बस्थल-कटीतट यस्या । नेत्राम्मोर्जैर्विराजिता आस्यमेव सरसी यस्या । वक्षोजरूपास्तुङ्गाचला यस्या । भासमानोज्ज्वलदेहस्य देशा  
एव विषया यस्या । सग्पा काञ्ची सैव समुद्रस्तदङ्किता । भोगा(ग)—सम्मोग पालन च । कुन्तला—वेशा देशश्च । वंगा देश,  
अपाङ्गश्च—नेत्रान्त । वत्सो मध्यदेशश्च देश, चक्ष मध्यदेशश्च देहाशौ । अङ्गा—देश शरीरावयवाश्च । काञ्ची—नगरी रक्षणा च ।  
कामरूप—देश, विक्राशि काम रूप च यस्या । महोदकेन यद्वा महोदयेन, देशेन अन्येन च सङ्गत(ता) । लाट चौड देश, लाटस्य—  
वज्रविशेषस्य चोड—कञ्चुकश्च । पूर्व-पश्चिमोत्तर-दक्षिणा देशा—जनपदा शरीराशाश्च । प्रकटविलासा(स) कोशलादेशो यस्याम्, प्रकट  
विलासकौशल यस्या । हे देव ! नन्वा—समृद्धया प्रसाधिता—मण्डिता, तथा देवनन्दे—स्वजन्मदेशस्य प्रसाधिका—मण्डयित्री । श्री मङ्गल च  
विमूषण यस्या, श्रीमङ्गलस्य—भवदेशस्य विमूषणभूता वाऽनाविति” । ७ “भूषिता मेखलाकलापेन” जेटि० ॥ ८ संकेतः—“[१ भग्ग त्ति]  
लुण्ठिताः ऋषीकृताश्च” ॥

एत्थंतरे पढियं कालनिवेयएण—

‘उल्लसियतेयपसरो सूरु जणमत्थयं कमइ एसो । तेयगुणब्भहियाणं किमसज्झं जीवलोगम्मि ? ॥ ७८ ॥

सिंगारवुद्धिजणणी मणोरमा सुहमहूसवाणंदा । देवच्चणेण लब्भइ लच्छी दइया य कमलच्छी’ ॥ ७९ ॥

तओ विसज्जिऊण अत्थाणं कयसिणाणाइक्किच्चो देवाइपूयापुरस्सरं कलावईसंगमोवायमग्गणवाउलचित्तयाए

5 अणुवलद्धखार-महुराडरसवियारमब्भवहरिऊण पसुत्तो सयणीए राया, चित्तितुं चारद्धो—

‘भहं ते देव ! जेणं जियतियसवहू निम्मिया सा मयच्छी,

तं खूणं जं न सिद्धा गयणगमखमा माणवाणं पि पंवा ।

तम्हा इण्हि पि अम्हं कुणसु प्हु ! ल्हं सुंदरं पिच्छभारं,

पेच्छामो जेण हत्थं वयणजलरुहं दुल्लहं वल्लहाए ॥ ८० ॥

10 किं होही सा राई दिवसो वा अमयनिम्मिओ को वि । जत्थ रमिस्सं तीसे उरम्मि हंसो सरंके व्व ? ॥ ८१ ॥

कइया वा महुराहरदलकलिए वयणपंकए तीए । काहं महुरलीलं अवियण्हो मंथंरामोए’ ॥ ८२ ॥

इच्चाइगुरुचिंतासायरवित्रिहवियप्पकल्लोलमालावहीरमाणमाणसो दिणयरकरनियरतवियसहिणवालुयापुल्लिण-  
निवडियकंहुयालउ व्व तल्लोवेल्लिवहलं किंचि कालमच्छिय ठिओ अत्थाणमंडवे । समागया मइसाराइणो । किं  
वहुणा ? तक्कहासवणविणोयपत्तसंतोसस्स समइकंतो वासरो रयणी य ।

15 अह दुइयदिणे रन्नो नमन्तसामन्तचक्कवालेण । सेविज्जमाणचलणारविंदजुयलस्स सहस त्ति ॥ ८३ ॥

चारपुरिसेण केणइ सिद्धं गुरुसासरुद्धकंठेण । “देव ! महंतं सेधं पविसइ कत्तो वि तुह देसे ॥ ८४ ॥

रहचक्कवणवणारव-गयगज्जिय-त्तरयखुररुम्मीसो । कोलाहलो दिसाओ पूरइ वणसत्तसंतासी ॥ ८५ ॥

अत्रि य—

उदंडधरियवरपुंडरीयडिंडीरपिंडपंडुरियं । उम्मगलगाखीरोयनीरसंकं तयं कुणइ ॥ ८६ ॥

20 वट्टंति विणयपणया सव्वे देवस्स सीमसामंता । तं पुण अनज्जमाणं समागय देव्वकंडं व’ ॥ ८७ ॥

सोऊण इमं रणकेलिकोद्धिओ भिउडिभंगभीमंगो । लीलालयनिहयनिहयमहियलो आह महिवालो ॥ ८८ ॥

‘रे रे ! दिज्जउ तुरिय पयाणहक्का करेह संजैत्ति । तूरह भो सामंता ! खेळणयं आगयं किं पि’ ॥ ८९ ॥

लद्धाएसा सहसा पउणीकाउं भडा समाहत्ता । रह-गय-त्तरंग-वाहण-सन्नाहे पहरणोहं च ॥ ९० ॥

‘किं किं ?’ ति वाहरंतो सव्वत्तो भणइ नायरो लोगो । आयन्निज्जइ वडलो पए पए हँलहलारावो ॥ ९१ ॥

25 एत्थंतरम्मि दत्तो पहंसंतो नरवरंतियं पत्तो । जंपइ ‘अकंडविडुरमेयं किं देव ! पारद्धं ? ॥ ९२ ॥

नणु एयं तं रयणं सयंवरं एइ जमिह देवस्स । चित्तट्टियं पि दिट्ठं चिट्ठइ चित्तट्टियं निच्चं ॥ ९३ ॥

सो एस जयकुमारो दिसिदिसिवित्थरियकित्तिपव्वभारो । रुवविणिज्जियमारो संपत्तकलाजलहिपारो’ ॥ ९४ ॥

तव्वयणाओ राया सहसा बुडो व्व अमयकुंडम्मि । उव्वसंतं चित्तदाहो पमोयराहो दढं जाओ ॥ ९५ ॥

दाऊण कणयजीहं सयलं दत्तस्स अंगल्लमं च । पभणइ ‘कह पुण एयं सुंदर ! अइदुग्घडं घडियं’ ॥ ९६ ॥

30 दत्तो आह हंसंतो ‘अचित्तमाहप्पयाए देवस्स । घडइ अइदुग्घडं पि हु, भन्नउ अन्नं किमम्हेहिं ?’ ॥ ९७ ॥

१ “वहन्नामोद” जेटि० ख१टि० ॥ २ सद्धेतः—“कहुयालउ त्ति लघुमत्स्य” ॥ ३ संजुत्तिं भ्रा० ॥ ४ “कोलाहल” सं१टि० न२टि० ॥ ५ “तचित्तदाहो जे० ॥ ६ संकेतः—“राहो त्ति निरन्तर शोभित सनाथो वा” ॥

ताहे मइसारेण संलत्तं “देव ! महाणुभावो एस दत्तो, सुकइकव्वंधो व्व अणप्पवन्नओ, खीररसो व्व महुरालवणसोहिओ, सुपुरिसविहवो व्व नायगहिओ, सीसमतरु व्व अब्भंतरसारो ।

किंच—

रंजइ सउणे महुरप्फलेहिं वडपायवो अपुप्फो वि । न पलासतरुं कुमुमुब्भडो वि विरसं फलं दिंतो ॥ ९८ ॥

तहा—

गज्जंति मियं महुरं वरिसंति घणाघणा घणं भरिया । रिच्चा कक्खडक्खडहडरवुब्भडा तुच्छयं पिच्चं ॥ ९९ ॥

किंच—

सव्वो भणाइ महुरं पुरओ रिउणो वि छंदविच्चीए । अणुमाणमन्तरंगे परोक्खगुणवन्नणं नेहे ॥ १०० ॥

संथुणइ विणयपणओ पहुं कुभिच्चो वि विविहवयणेहिं । कज्जेहिं सच्चविज्जइ पहुम्मि भत्ती सुभिच्चाणं ॥ १०१ ॥

ता सव्वहा अक्कित्तिमनेहो एस देवम्मि, गंभीरयाए य न फुडं साहेइ, एयं पुण संभावीयइ ‘एएण नियसा- 10  
मिभत्तीए देवगुणुक्कित्तणं कयं सोऊण य तीए वालिगाए देवम्मि परोक्खाणुरागो जाओ । अओ चेव जणएहिं  
पि विसज्जिया एसा । एसो वि समं चेव तीए संचल्लो देवजाणावणनिमित्तमेव तुरिययरमागओ” त्ति । दत्तेण  
वुत्तं ‘अहो ! सच्चाभिहाणो मइसारो, कहमन्नहा परोक्खवत्तं पि सक्खमुवलद्धं पिव वज्जरेइ ?, अहवा—

दूरनिहित्तं पि निहिं तिणवेल्लिसमोत्थयाए भूमीए । नयणेहिं अपेच्छंता कुसला बुद्धीए पेच्छंति’ ॥ १०२ ॥

तओ विमलदसणकिरणनिउरुवहुंमियाहरमुल्लवियं नराहिवेण “सच्चमिणं भो मइसार ! गरुयगंभीरो दत्तो, 15  
चउरचूडामणी य तुमं, जेणाऽदिट्ठं पि वत्थुसरुव्वं वियाणसि । ता करेह जमियाणिं करणिज्जं, निवारेह कडय-  
संजत्तिं, करेह कालोचियत्तिं, वच्चउ धीधणो तस्स पच्चोणिं, सोहावेह रायमग्गखोणिं, कारेह हइसोहाओ, मोयावेह  
सव्वजीवे काराहरनिरोहाओ, धवलावेह देवउलाइं, अभिज्जुंजेह तेसु पायमूलाइं, वारेह सुंक्कगहणाओ सुंक्कसालिए,  
निरुवेह पुप्फसुंफणाऽऽणयणेसु मालिए, वाहरह तंवोलियवंगं, परिकम्मेह घरवरंडयाइ भगं, उव्वेह तोरणाइं,  
अलंकारेह सव्वधोरणाइं, सज्जेह जंघ्नावासे, पउणेह गय-तुरयाइघासे, सारवेह सालाओ, वंधावेह वंदणमालाओ, 20  
अन्नं पि जहाजुत्तं करेह सव्वं सुसुत्तं” ।

इय नरवइणाऽऽणत्ता पकया सव्वं पि ते जहाजुत्तं । राया वि पमोयरसं अउव्वमणुहविउमारद्धो ॥ १०३ ॥

अह वीधणेण धणिंयं धुणाविओ मत्थयं समत्थो वि । जयसेणकडयलोगोऽसमाणसम्माणकरणेण ॥ १०४ ॥

पत्तो य परमसामगिसंगसंजणियजणमणच्छेरो । जयसेणकुमारो वंदिविदकीरंतजयसदो ॥ १०५ ॥

आवासिओ य कोमुइविहावरीमुहम्मि व चंदोययसुंदरे घणुज्जलतारिओवसोहिए य, महाकव्वम्मि व मणो- 25

१ सङ्केतः—“अणप्पवन्नओ इत्यादौ [काव्यपक्षे] अनल्पवर्णक, [दत्तपक्षे] अनात्मवर्णकश्च । [क्षीररसपक्षे] मधुरश्चासौ लवणरहित  
एव शोभितश्च स तथा, [दत्त०] मधुरालपनशोभितश्च । [सुपुरुषवैभवपक्षे] न्यायेन गृहीत, [दत्त०] नायकहितश्च” ॥ २ सङ्केतः—“पिच्चं ति  
जलम्” ॥ ३ सङ्केतः—“दुमियाहर ति धवलताधरम्” । “पल्लविताधरम्” जेटि० ॥ ४ सङ्केतः—“पच्चोणिं ति अभिसुखागमनम्” ॥  
५ सङ्केतः—“धोरणाइं ति वाहनानि” ॥ ६ “जानीवास” जेटि० ॥ ७ सङ्केतः—“धणिंयं ति अत्यर्थम्” ॥ ८ सङ्केतः—  
“चंदोदयसुदरेत्यादौ चन्द्रस्योदय । तानि(१)तारिकाणि—) नक्षत्राणि, कास्यादिमया गन्धाभरणविशेषाश्च । [काव्यपक्षे] सुभाषितानि,  
[प्रासादपक्षे]—सुधाषितश्च । [काव्य०] वर्णका—नगरादिवर्णनानि, [प्रासाद०] रक्त-पीतादयश्च । [तरुणीवदनपक्षे] रदनमालिका, [प्रासाद०  
रत्नमालिका] च । [तरुणी०] हरिचन्दन-कुङ्कुमम्, [प्रासाद०] गोशीर्षं च । [शुक्लद्वितीयाप्रदोषपक्षे] निशाकरस्य—चन्द्रस्य रेखा, [प्रासा०]  
निशायाश्च—हरिद्राया कररेखा—मङ्गलाग्रहस्तका । [शुक्लद्वि०] अम्बरम्—आकाशम्, [प्रासाद०] वज्राणि च । [स्वर्गपक्षे] महाविमानानि—  
सुरभवानि, [प्रासाद०] महाय—उत्सवाय आ—समन्ताद् विमानानि वा—वसुगृहकविशेषा, महान्ति च तानि विमानानि चेति वा । [स्वर्ग०]  
सुरजना, [प्रासाद०] सुरतानि सुरचना वा” ॥

इरमुहासिए विचित्तवन्नयपसाहिए य, तरुणरमणिवयणम्मि व दीसंतुज्जलरयणमालिए बहलहरियंदणपंकोवलित्ते य, सियपक्खवीयापओसे व्व निसोयररेहाटिविडिक्किए अरुणंवरच्छायारंजियजणे य, सग्गे व्व महाविमाणरम्मो मुरयणाभिरामे य, कयनयण-मणप्पसाए पासाए । तत्थ य अइरित्तपडिवत्तिपमोइयमणो सम्माणियग्घदाणागय-  
 नायरजणो पणइयणपणामियमणोरहाइरित्तवित्तो वेणुवीणापहाण-तार-महुरगंधव्वसव्वणव्वग्गचित्तो पयट्टपट्टणुत्तमनट्टि-  
 5 यानिवहनट्टो पढमाणपभूयभट्ट-चट्टो दिवससेसं रयणिं चाइवाहिज्जण दुइयदियहे पहाणमंति-सामंतपरिवुडो सयल-  
 नयरनायरीनियरनयणमालोमालियसव्वंगो पत्तो रायमंदिरं । दट्टण य रायपुंगवं महग्घपाहुडोव्वणयणपुव्वं पणमंतो  
 करयलजुयलन्नामियुत्तमंगमालिं गिओ पुहइपहुणा, सागयवयणपडिवत्तिपुव्वं च निवेसिओ पवरासणे । कारिओ  
 मंतिपमुहाणं च जठोचिओ सम्माणो । निविट्ठा सव्वे सुहासणेसु ।

एत्थंतरे वरगो कुमारमंती लसंतमुहकंती । भणइ 'पहु ! अम्ह पहुणो हरियं हियं तुह गुणेहिं ॥ १०६ ॥  
 10 तह कह वि सरुवं वो सिट्ठं दत्तेण वणियपुत्तेण । जह टंकुक्किन्नं पिव ठियमयलं चित्तभित्तीए ॥ १०७ ॥  
 ता तेण तुम्ह एयं संदिट्ठं नेहनिव्वरं धीर ! । तुह गुणनिहिणो दूरट्टिया हु कं गउरवं कुणिमो ? ॥ १०८ ॥  
 का तस्स छेयया ?, का उदारया ?, को गुणेसु अणुराओ ? । वियरइ जो न गुणीणं पसत्थवत्थुं सुइट्ठं पि ॥ १०९ ॥  
 ता गुरुगुणाणुराया लायन्नकलाकलावगुणकलिया । अइवल्लहा वि वाला एसा संपेसिया तुम्ह ॥ ११० ॥  
 न य एयाए राओ जाओ अन्नेसु रायकुसरेसु । कमलायरं पमोत्तुं कत्थ व कमला रइं कुणउ ? ॥ १११ ॥  
 15 ता एयाए पाणिं पणइयणपणयपालणप्पव्वण ! । गिण्हेज्ज तुमं सुपुरिस !, करेसु मणनिव्वुइं अम्ह ॥ ११२ ॥  
 न कयाइ दिट्ठेनिसुयं एइए विप्पियं ममाओ वि । ता तह करेज्ज जह मे न सरइ करिणि व्व विज्जस्स ॥ ११३ ॥  
 किं वा कुल्लगायाणं पुरओ परिजंपिएण वहुएण ? । पडिवन्नवच्छला ते सहावओ वेव जं हुंति' ॥ ११४ ॥  
 उप्फालिज्जण एवं विरए मंतिम्मि निउणभणियम्मि । पडिभणइ रायसंखो संखो इव महुरनिग्घोसो ॥ ११५ ॥  
 "ध्वो ! किं पि अउव्वं सोजन्नं विजयनरवरिंदस्स । अम्हाणं पि गुणेहिं रंजिज्जइ जेण से हियं ॥ ११६ ॥  
 20 जइ वालया वि अम्हे जणयविओगेण निव्वपयं पत्ता । किं तेत्तिएण गुणिणो जाया उत्ताणमइणो वि ? ॥ ११७ ॥  
 व्वणगुणरसपुन्नाइं पुरिसफलाइं हवंति परिणामे । तरुणाइं निग्गुणाइं सउंणाण मणं न रंजंति ॥ ११८ ॥

अहवा—

दोसे वि गुणे च्चिय परजणस्स पेच्छंति उत्तमा लोया । छायाहरं पि न मुयइ हिमकिरणो लंछणं जेण ॥ ११९ ॥

तहा—

25 जाणंति पियं चिय वोत्तुमुत्तमा अमयमुत्तिणो नूणं । किं अमयाओ अन्नं व्वरिउं मयलंछणो मुणइ ? ॥ १२० ॥  
 ता तस्स पुहइपहुणो निक्कारणवच्छलस्स गुणनिहिणो । क्ह न करिस्सामि अहं व्वयणं नणु जणयतुल्लस्स ? ॥ १२१ ॥  
 अह जयसेणकुमारो पमणइ दत्तं सभागयं हसिरो । "अज्जऽम्ह तुम्ह व्वयणे सविसेसं पच्चओ जाओ ॥ १२२ ॥

जओ—

एरिसमणुद्धयत्तं, एसो नयसुंदरो व्वयणविहवो । दक्खिन्न-विणय-उचियन्नुयाओ देवे अउव्वाओ ॥ १२३ ॥

30 तह वि न तोसो नियगुणगणेण परगुणमुईसु अणुराओ । अहवा एरिसय च्चिय महाणुभावा, जओ भणियं ॥ १२४ ॥  
 भरियभुव्वणंतरेहिं वि गुणेहिं नियएहिं कुंदधवलेहिं । तह तूसंति न धीरा जह परगुणलेससव्वणेण ॥ १२५ ॥

१ "कर्पूरं चन्द्रश्च" जेटि० सं१टि० सं२टि० आटि० ॥ २ दिट्ठं निं जे० विना ॥ ३ सद्धेतः—"उप्फालिज्जणं ति उक्त्वा" ।  
 "कययित्वा" जेटि० ॥ ४ सद्धेतः—"ध्वो ति विस्मये" ॥ ५ सद्धेतः—"सउंणाण ति सगुणाना पक्षिणा च" ॥ ६ अइरागो जे० ॥

संव्वहा वव्वणाईयगुणरयणंभरियं निहाणमिवाऽऽणंदयारि देवस्स चरियं । अज्ज कयदेवावलोयणेहिं कयत्थीभू-  
यमम्ह लोयणेहिं, देववयणंसव्वणा सफलीभूया सव्वणा” । ताहे दत्तेण संलत्तं ‘महापसाओ अम्ह जमियाणिं पि पत्तिन्नो  
सि’ । ताव य ससिणेहमालत्तो कुमारो राइणा ‘सुंदर ! अइसज्जणो तुमं जो एत्तिण्ण वि वेप्पसि, अहवा—

वेप्पंति सुहेणं चियं सहावविमलाइं सुयणहिययाइं । पडिर्विविज्जइ अप्पा किर केण न दप्पणुच्छंमे ? ॥ १२६ ॥  
जं विजयरायतणओ तेण तए एरिसेण होयव्वं । सहयारपायवाओ न होइ कइया वि किंपायं ॥ १२७ ॥ 5

एत्थंतरे पढियमवसरपाढएण—

‘अह सो सक्करचुन्नमज्झि घयपुन्नु विलोइइ, खंडुम्मीसियसत्तुकुंडि घयवाहु पलोइइ;

चाउज्जायउं कढियदुद्धि ल्हसि हत्थह पडियउं, जं दइविं सज्जणकुडुम्बु एरिसु संघडियउं;

कहिं गुणसायरू सखपहु ? , विजयराउ कहिं संवसइ ? । दीवंतरह वि रयणु विहि, जोगि जोगु जोइवि नसइ’ ॥१२८॥

तओ ‘साहु साहु’ ति भणंतेहिं पाढगस्स सव्वेहिं वि कओ पसाओ । एवं च विउसगोट्टोए चिट्ठिऊण 10  
कयजहोच्चियपरोप्परसम्माणा अन्नोन्नासामन्नसोजन्नवन्नवाइणो गया सव्वे नियनियट्टाणेसु । किं बहुणा ? , एवं  
सुहमच्छंताणं समागओ विवाहदियहो । तओ—

वज्जंतचित्तूरं तूरवारद्वारवहुनइं । नट्टायडिहयलोयं लोयमणो-नयणकयतोसं ॥ १२९ ॥

तोसभरमिलियकामिणिमुहपंकयैरीरियंगणाभोयं । भोयणविभत्तिभावियनायरनर-नारिकयवन्नं ॥ १३० ॥

वन्नंतचित्तचारणमणोरहाईयदाणरमणीयं । रमणीयणगिज्जंतसुतारमहुरमंगलसमिद्धं ॥ १३१ ॥ 15

मंगलसमिद्धकयविहिहकोउयं जणियसयणपरिओसं । परिओसरौहवर-वहुतूरन्तमिलंतकरकमलं ॥ १३२ ॥

सयलजणहिययहरणं वडिहयपणयं अदाणसंवरणं । तेसिं पाणिग्गहणं वत्तं कुलक्खिनिव्वहणं ॥ १३३ ॥

जयसेणकुमारेण वि हय-गय-धण-कणयभूसणाईयं । दिन्नं कलावईए अइरित्तं जणयभणियाओ ॥ १३४ ॥

अह सखमहाराया तिहयणविजयं व पाविउं सहसा । लाभे कलावईए अहियं मणनिव्वुइं पत्तो ॥ १३५ ॥

जयसेणस्स वि अहियं पीई एयम्मि भइणिनेहेण । पडिवत्ति-गोरवेहिं य जाया अहिया गुणनिहिस्स ॥१३६॥ 20

गुरुहास-तोस-पडियकहाहिं सुहमच्छिऊण बहुदियहे । पिइहिययदुक्खभीरू तथा वि गमणूसुओ जाओ ॥१३७॥

भणिओ-य तेण राया ‘देव ! दुपरिच्चया तुम्ह पाया, तथा वि पियरो अद्धिइं कार्हिति ता अणुजाणह,  
वच्चामि सट्टाणं’ । राइणा वि भणियं—

“पियदंसण-धण-जस-जीवियाण सज्जणसमागमाणं च । को पज्जत्तिं पावइ एकं मोत्तूण जियरायं ? ॥ १३८ ॥

ता कुमार ! किं भणिमो ? , तथा वि अविग्घेण गच्छह, पुणो तुरियं दंसणदाणेण अम्हे आणंदेज्जह, न य 25

कायव्वो कलावईविसए चिंताइरेगो । जओ निरुवमगुणगणभूसिया एसा सव्वपरियणवल्लहा य, न रयणावली कस्सइ

चिंताए अग्घइ”त्ति । जयसेणेण भणियं—“सच्चमेयं, भणियं च भणियव्वमिह विसए ताएण ‘ता सव्वहा तुव्वेहिं

एसा चिंतणीया नासगभूया य मन्निवव्व”त्ति । एवमाइकयसंभासो विरहविहुर रुयमार्णि कलावइ बहुहा संठ-

विऊण कयाणुगमणो राइणा पयट्टो कुमारो । कमेण पत्तो देवसाल ति ।

सखराया वि संपत्तमणोरहो कलावईए सद्धिं भोए भोत्तुमारद्धो । अवि य—

30

१ “त्वगेला पत्रकैस्तुल्यैस्त्रिगुणव्य त्रिजातकम् । नागकेशरसयुक्तं चतुर्जातकमुच्यते ॥१॥” जेटि० ॥ २ सङ्केतः—“रीरियं ति भूयि-  
तम्” ॥ ३ सङ्केतः—“राह ति निरन्तरं शोभितं सनाथो वा” । ‘रोमाञ्चित’ जेटि० । ‘पुलक’ ख१टि० ॥ ४ “न दानस्य  
निषेधः” जेटि० ॥

तीए अदंसणे हिययनिबुइं न हु खणं पि पावेइ । नियजीवियं पि दिच्छइ अच्छइ सह तकहक्खणिओ ॥१३९॥  
अत्याणमंडवगओ चारयरुद्धं व गणइ अप्पाणं । तुरयाइवाहणं पि हु अभिओगं मुणइ तच्चिरहे ॥ १४० ॥

किं बहुणा ?—

कज्जाइं कुणइ अंगं, चित्तं चिट्ठइ कलावई जत्थ । अंतेउरं पि सव्वं कलावईनामयं तस्स ॥ १४१ ॥

5 तह तीए तणुईए रुद्धं रघ्नो विसालमवि हिययं । ओगासं चिय न लहइ जह अन्ना तत्थ येवं पि ॥ १४२ ॥  
गलिओ सोहग्गमओ, जाओ धम्मम्मि आयरो अहियं । तीए सोहग्गगुणं सोऊणं नयरनारीणं ॥ १४३ ॥

सा पुण—

न मुणइ अलियं वोत्तुं, न यपेसुन्नं, न यावि परदोसं । ईसावसं न गच्छइ, न वहइ गव्वं केसव्वं पि ॥१४४॥  
जाणइ पियाइं भणिउं, जाणइ सव्वस्स उचियपडिवत्तिं । जाणइ दुहिएसु दयं, जाणइ परिव्वालित्तं सील ॥१४५॥  
10 हयहिययो होउ निवो, रजिज्जउ परियणो वि किर तीए । गुणसंथवेण वग्गो सव्वत्तिवग्गो वि तं चित्तं ॥१४६॥  
सुहसायरसग्गाए तीए तणतुल्लगणियसग्गाए । सिसिरदिवसायमाणा मुणिया वासा न वयमाणा ॥ १४७ ॥

अन्नया य सुहपसुत्ता पच्छिमरयणीए सुमणोहरायारं विचित्तमणिजालसारं सुरचंदणपंकवच्चियं सियसुरहि-  
कुमुमदामच्चियं तेयपुंजविणिज्जियस्सरियं खीरोयनीरपूरियं दुवारनिहित्तवियसियकुसेसयं दट्टुण कणयकलसयं निय-  
उच्छंगसंठियं सुमिणे पडिबुद्धा एसा । पाहाउयमंगलगीयरवेण हरिसभरनिव्वभराए सिट्ठो सुमिणो राइणो । तेणावि  
15 'संपुन्नरायलच्छिभायणं ते पुत्तो भविस्सइ' त्ति भणिया । 'एवं होउ' त्ति बहुमयरायवयणा गव्वं परिव्वालित्तं  
पयत्ता । अवि य—

अव्ववहरउ न उन्हं, न य सीयं, छुह तिसा वि नो सहइ । चंक्रमइ नेयइ लियं गव्वाऽऽयासाउ वीहन्ती ॥१४८॥  
पियइ विविहोसहाइं निच्चं चिय गव्वपुट्टिजणयाइं । वंघेइ ओसहीओ, आराहइ देवयाऽणेगा ॥ १४९ ॥

एवं च पडिपुन्नप्याएसु नवसु मासेसु 'पढमं किर नारी पिइगिहे पसवइ'त्ति पेसिया से जणएहिं पडिज्जया ।  
20 तेसिं च हत्ये जयसेणकुमारेणावि 'सुंदरं'ति बहुमाणेण पेसियं नियमंगयजुयलं देवंगाइं अव्वंगदुगुल्लाणि य राइणो  
पाहुडं ति । पत्ता य, आवासिया य ते दत्तपच्चभिन्नाणाओ गयसेट्टिगेहे । भवियव्वयानियोगेण तेहिं पढममेव दिट्ठा  
देवी । निवेइयजणयसंभासेहिं साहियमागमणप्पओयणं दंसियं च रायपाहुडं ति ।

अह चिरकालासाइयजणयपउत्ती कलावई व्रत्ति । रोमंचकंचुयंचियकाया सहस त्ति संजाया ॥ १५० ॥

ईसि हसिरं पि वयणं जायं हासाउलं सुदन्तीए । आणंदोदयपुष्पं वियसियमह लोयणजुयं पि ॥ १५१ ॥

25 'सागयमिह तुम्हाणं, कुसलं तायस्स ? , नीरुया अम्वा ? । नंदइ भाया मज्झं ?' इय उच्चं पभणिया हरिसा ॥१५२॥

एमाइसिणेहसारसंभासेण उचियसम्माणेण समाणंदिएहिं भणियं तेहिं 'सामिणि ! कुसलं सव्वेसिं, उकंठियाणि  
सव्वाणि तुह दंसणस्स, एयाइं भोगंगाइं इमं च वत्थाहरणं देवेण तुम्ह पेसियं, इमं च देवंगवत्थजुयलं कोड्डका-  
रियमंगयजुयलं च कुमारेण नेहाइस[?य]ओ पेसियं महारायस्स, अइवल्लहं च एयं कुमारस्स, जओ नियपियानिमित्तं  
मग्गियमिणमलंघणीयवयणेण गयसेट्टिन्नंदणेण तस्स वि न दिन्नं' ति । तओ देवीए भाइनेहाइसएण गहिऊण कर-  
30 पल्लवेहिं 'एयाणि अहमेव राइणो समप्पिस्सामि'त्ति भणंतीए सम्माणिऊण त्रिसज्जिया ते पुरिसा गया नियावासं ।

देवी वि सहियणसमक्खमाइद्धिऊण भुजलट्यासु अंगए परिओसनिव्वभरा निज्जाइं पयत्ता । एत्थंतरे राया

१ सङ्केतः—“कसव्वं पि त्ति स्तोक्कमपि” ॥ २ सङ्केतः—“हुलियं त्ति त्वरितम्” ॥ ३ सङ्केतः—“पडिज्जय त्ति विसर्जका” ।  
“विमज्जावया” ख१टि० । “आनायकन्तरा”, जेटि० ॥ ४ “परिघाय” जेटि० ॥

देवीभवनमागच्छंतो हसियसदमायन्निय 'किमेयाओ सुविसत्थं जंपंति ?' त्ति सवियको गवक्खेणावलोइउं पयत्तो । पेच्छइ देवी भुयाअंगयाइं, ताव य सहीओ उद्दिस्स भणियं देवीए—

'अमयरसेण व सित्तं मह नयणजुयं इमेसि दंसणओ । अहवा सो चेव मए दिट्ठो एएहिं दिट्ठेहिं ॥ १५३ ॥

एएहिं परिहिएहिं ओसत्तो नेहनिव्वभरो स मए । मरिउं व जीवियं मे हिययं तन्नामगहणेण ॥ १५४ ॥

अन्नं च उयह चोज्जं गयसेट्ठिसुएण मणियं एयं । तह वि हु न तेण दिन्नं पाणपिओ सो वि जं तस्स' ॥ १५५ ॥ 5

भणियं सहीहिं 'सामिणि ! तुमम्मि जं तस्स नेहसव्वस्सं । अन्नत्थ तारिसं किं संभवइ ? किमेत्थ किर चोज्जं?' १५६ ॥

एवं अगहियनामं उल्लावं तासि बहुविहं सोउं । ईसावसेण राया गसिओ कुवियप्पसप्पेहिं ॥ १५७ ॥

'हिययस्स कयाणंदो एयाए वल्लहो वरो कोइ । अहयं विणोयमेत्तं वसीकओ कवडनेहाए ॥ १५८ ॥

किं निहणामि इमं चिय ?, किं वा घाएमि वल्लहमिमीए ? । का होज्ज एत्थ दूई ?, संजोगो केण अह घडिओ?' ॥ १५९ ॥

एवं गुरुरोसजलणजालावलीकंवलियविग्गहो अकहणीययाए कज्जस्स कं पि पुच्छिउमणिच्छंतो असंक्रणिज्जं 10  
पि संकंतो नियत्तिऊण गओ सभवणं राया । तत्थ वि असंपत्तसुहेण कह कह वि दिवससेसमइवाहिऊण अत्थंगए  
पयंगमण्डले वियंभमाणे तिमिरनिउरुम्बे पच्छन्नं वाहरिऊण भणियाओ समइवियप्पियं सोयरियवहूओ । पडि-  
ज्जिऊण य गयाओ ताओ ।

रन्ना वि समाणत्तो निक्करुणो नाम नियमडो छन्नं । 'पच्चूसे चिय देविं उज्जसु अमुगत्य रन्नम्मि' ॥ १६० ॥

अह सो पहायसमए पउणित्ता रहवरं तुरियतुरयं । पभणइ देविं 'आरुह रहम्मि एयम्मि अविलंबं ॥ १६१ ॥ 15

कुसुमुज्जाणे रमिउं राया संपत्थिओ गयारूढो । तुह आणयणे सामिणि ! आएसो अम्ह संजाओ' ॥ १६२ ॥

सरलसहावा एसा संसंभमा रहवरं समारूढा । तेणावि चोइया तक्खणेण तुरया पवणजवणा ॥ १६३ ॥

'केत्तियदूरे राया ?' 'सुंदरि ! एसेस अगओ जाइ' । एवं जंपंताइं ताइं रन्नम्मि पत्ताइं ॥ १६४ ॥

ताव पहाया रयणी विमलीभूयाइं दिसिवहुमुहाइं । रायाणमपेच्छंती देवी दढमाउला जाया ॥ १६५ ॥

भणइ य—

'हा ! निक्करुण ! किमेयं ?, न दीसई एत्थ कत्थई राया । उज्जाणं पि न दीसइ, वेलविया कीस तुमए हं? ॥ १६६ ॥

न य सुव्वइ तूररवो, न जणरवो किंतु रन्नमेयं ति । सुविणमिणं मइमोहो किमिंदयालं ?, कहसु सच्चं' ॥ १६७ ॥

इय संभमप्पलावं देविं दीणत्तमागयं दट्ठं । निक्करुणो वि सकरुणो न तरइ पडिउत्तरं दाउं ॥ १६८ ॥

ओयरिय रहा तत्तो पुरओ कयकरयलजली होउं । सोयभररुद्धकंठो रुयमाणो भणिउमारद्धो ॥ १६९ ॥

'हद्धी ! धिरत्थु पावो देवि ! अहं सच्चमेव निक्करुणो । जेणेरिसम्मि कम्मे निओइओ हयकयन्तेण ॥ १७० ॥ 25

सो देवि ! वरमजाओ पावयरो पावचेट्ठिओ दुट्ठो । सेवोवज्जियवित्ती धारइ जो जीवियं पुरिसो ॥ १७१ ॥

जुज्जइ जणएण समं, विणिवायइ भायरं सिणिद्धं पि । सेवयसुणओ वरओ पहुवयणा विसइ जलणं पि ॥ १७२ ॥

ओयरिय रहवराओ ता निविससु एत्थ साल्लयाए । एसो रायाएसो, अन्नं भणिउं न पारेमि' ॥ १७३ ॥

विज्जुनिवायव्वहियं, तव्वयणं सुणिय मुणियतत्तथा । ओयरमाणी मुच्छावसेण धरणिं गया देवी ॥ १७४ ॥

इयो वि रहं वेत्तुं रुयमाणो चेव पडिगओ नयरं । पत्ता चिरेण कह कह वि चेयणं अह पुणो देवी ॥ १७५ ॥ 30

जा चिट्ठइ रुयमाणी अहकरुणं कुलहरस्स सरिऊण । ता पुव्वनिउत्ताओ पत्ताओ पाणविलयाओ ॥ १७६ ॥

ताहिं च मंहारक्खसीहिं व कत्तियाकरालकराहिं निकारणकोवुव्वभडभिउडिभंगभीसणाहिं 'हा दुट्ठे ! अणिट्ठ-



चेटे ! न याणसि माणिउं रायलच्छि, राटणो वि पडिकूलं वट्टसि, ता सहसु संपयमेव दुच्चरियफलं' ति फरुसवय-  
णाहिं सहस ति छिन्नं से सकेऊर-कडयाइभूसणं वाहुलयाजुयलं । तओ 'हा ताय ! हा माय !' ति भणंती विह-  
लंघलात्ता निवडिया एसा भूमितले, कह कह वि पावियचेयन्ना विलविउं च पवत्ता ।

कहं—

- 5 "हा टेव्व ! कीस मज्झं एवं कुविओ सि निग्घिणो होउं । जेण अतक्कियमेवं करेसि अइदारुणं दण्डं ॥ १७७ ॥  
किं नत्थि तुज्जं गेहे मए समा का वि वालिया पाव ! ? । जेण न याणसि निट्टं ह्यविहि ! दिन्तो दुहमणिट्टं ॥ १७८ ॥  
हा अज्जउत्त ! जुत्ता असमिक्खियकारिया न ते विउणो । दहिही अहियं हियं अणुतावो धीर ! तुह वि उणो ॥ १७९ ॥  
जाणंतीए न कओ नाह ! मए तुज्जं विप्पियलवो वि । अन्नाणकए पिययम ! जुत्तो न हु एरिसो दण्डो ॥ १८० ॥  
कधेजवेण केणड सिट्टं तुह किं पि, तं न याणामि । सहसु मा हु सुमिणंतरे वि सोलस्स मालिन्नं ॥ १८१ ॥  
10 सो नेहो, सो पणओ, सा पडिवत्ती, तयं सुहालवणं । एकपए च्चिय निग्घिणं ! कह पम्हुट्टं तुहेयणिं ? ॥ १८२ ॥  
'खणरत्त-खणविरत्ता नारी, पडिवन्नपालिणो सुयणा' । एसा वि जणपसिद्धी विवरीया अज्ज संजाया ॥ १८३ ॥  
हा ताय ! माइ ! भाउय ! आसि अहं पाणवड्डहा तुम्ह । ता किं न परित्तायह मरमाणी दुक्खमरणेण ?" ॥ १८४ ॥  
एवं च पीडाउलमणाए विलवन्तीए सहस ति आउलीभूयमुदरं । तओ कलिऊण पसूइसमयं लज्जाइसएण  
गया पच्चासन्ननडतीरसंठियवणगुम्मं । पयट्टा सूलवेयणा, पसूया महाक्किच्छेण । मुच्छावसाणे नियच्छन्ती चलणंतरे  
15 देवकुमाररुवं दारयं गहिया हरिस-विसाएहिं ।

जओ—

- आवडगयं पि सुहयड, हासड गुरुसोगगहियहियं पि । मरमाणं पि जियावड, अवच्चसंजीवणी जीवं ॥ १८५ ॥  
भणड 'सुजायं पुत्तय ! होज्जसु दीहाउओ सुही सययं । वच्च ! करेमि किमन्नं वद्धावणयं तुहाऽभग्गा ?' ॥ १८६ ॥  
एत्थंतरे सो दारओ चडप्फडंतो नईए सम्मुहो लुढिउमाढत्तो । तओ ससंभमा कह कह वि चलणेहिं धरि-  
20 ऊण करुणं भणिउं पयत्ता—  
'हा हा कयंत निग्घिण ! तुट्टो सि न एत्तिएण किं पाव ! । दाऊण पुत्तयंजं पुणो वि अवहरिउमारद्धो ? ॥ १८७ ॥  
भयवट नडदेवि ! तुहं पणया पाएसु दीणवयणा हं । पणयपियंकरि ! करुणं करेहि, अवहीर मा एवं ॥ १८८ ॥  
जड जयड जए सीलं, जइ ता सीलं कलंकियं न मए । ता दिव्वनाणनयणे ! कुण वालयपालणोवायं' ॥ १८९ ॥  
इय दीणं कंटंती कारुन्नगयाए सिधुदेवीए । सोहणयरभुयलइया निरुया य कया खणेणेसा ॥ १९० ॥  
25 अमयरसेण व सित्ता अणुहविरी तणुसुहं अणुभूयं । करयलजुएण वेत्तुं वालं संठवइ अंकम्मि ॥ १९१ ॥  
'जय नंद देवि !, भइं निक्कारणवच्छलाए तुह होउ । जीवाविया अणाहा सामिणि ! तुमए सुदीणा हं ॥ १९२ ॥  
किं मज्झ जीविएणं एवंविहपरिभवग्गिभुग्गाए ? । किंतु न तरामि वच्छं मोत्तुमणाहं विसालच्छं ॥ १९३ ॥  
किर काही मुयजम्मे राया नयरे छणं महच्छरियं । नवरं विहिपरिणामो एसो अइदारुणो जाओ ॥ १९४ ॥  
रज्जंति जाव कज्जं, कयकज्जा दुज्जण व्व दूमिति । जे ते कारिमनेहा हा हा ! धी विग्घिणा पुरिसा ॥ १९५ ॥  
30 अवि य—  
खणदंसियरायरसा खणेण संजणियगुरुयसंतावा । दूरट्टिएहिं पुरिसाऽभिवंदणिज्जा दिणयर व्व ॥ १९६ ॥  
पियेसाउल्लपिसल्लो जाण मणोमंदिरे न संवसिओ । निमिसंतरं पि तासिं नमो नमो वालसंमणीणं ॥ १९७ ॥

बालत्तणे वि जइ ता हुंता ह वंभयारिणी समणी । एरिसमब्भुयवसणं सुविणम्मि वि ता न पेच्छंता” ॥१९८  
इय विविहं विलवंती रुयंतवणदेवयं रुयंती य । तावसमुणिणा केणइ दिट्ठा सा पुन्नजोगेण ॥ १९९ ॥

तओ सकारुन्नं ‘किमेसा सग्गवह्ण वणदेवया विज्जाहरी व ?’ त्ति वियक्कयन्तेणाऽऽसमपयं गंतूण निवेइयं  
कुलवइणो । तेणावि साणुकोसयाए ‘मा वराई नोइलाईहिं उवदविज्जिहि’ त्ति तुरियमाणाविया । सा वि ‘न  
संपयमन्ना गइ’ त्ति समागया, कयप्पणामा य पुच्छिया पउत्तिं । तओ मन्नुभरनिव्वरा किं पि अव्वत्तं वोत्तूण 5  
परुन्ना एसा । समासासिया महुरवाणिनिउणेण कुलवइणा भणिया य-“वच्छे ! उत्तमकुलसंभवा तुमं कल्लाण-  
भायणं च कल्लिज्जसि, जओ महासरं पिव वैहुलक्खणाहिट्ठियं ते सरीरं, विउसगोट्ठि व्व गंभीरनायसारा वाणी,  
मुणिकिरिय व्व समप्पइट्ठा दिट्ठी, नंदणवणं व बहुविणयराइयं चेट्ठियं ति ।

अन्नं च—

को एत्थ निच्चसुहिओ ?, कस्स व लच्छी अखंडियच्छाया ? ।

10 .

कस्स थिरं पेमसुहं ?, खलियं न समागयं कस्स ? ॥ २०० ॥

ता सव्वहा अवलंवेहि धीरयं, परिवालहेहि तवस्सिणीणं चेव मज्झगया देवकुमारोवममिमं दारयं, होसु देवधम्मनि-  
च्छियमणा, जाव तुह पुव्वजम्मरोविओ पुन्नपायवो पहाणफलसंपयं पणामेइ” त्ति । ताहे संजायजीवियासा ‘जं  
गुरु आणवित्ति’ त्ति विन्ती समप्पिया कुलवइणा तावसीणं कालाणुरुवसुहं च तत्थ चिट्ठइ त्ति ।

इओ य चंडालीहिं दंसियाओ राइणो सकेऊराओ वैहुकणईओ । सो वि दट्ठूण य जयसेणनाममंगएसु ‘हा ! 15  
कयं मए महापावं’ ति संखुद्धो चित्तेण, अंगारपूरियं व पदड्ढं से वच्छयलं, तहा वि निच्छयत्थं सदाविऊण  
पुच्छिओ णेण गयसेट्ठी जहा ‘आगओ को वि देवसालओ ?’ । तेण भणियं ‘आमं, चिट्ठंति मम गिहे देविविसज्जा-  
वणत्थमागया रायंतरंगभिच्चा, अवसराभावाओ न कयं देवदंसणं’ ति । राइणा भणियं ‘तुरियं सहेह’ । समागया  
य भणिया ‘भो ! किमेयमंगयजुयलं ?’ । तेहिं भणियं “देव ! एयं ‘अणग्घमणिखंडमंडियमइसुंदरायारं’ ति काऊण  
पाणप्पियस्स देवस्स जयसेणकुमारेण पेसियं देवीगिहे मुक्कमम्हेहिं आसि” । त्ति भणमाणाण चेव तेसिं मुच्छानि- 20  
मीलियल्लोयणो झड त्ति निवडिओ सिंहासणाओ राया । तओ हाहारवमुहलपरियणपवण-पाणियप्पओगपउणिओ  
वि पुणो पुणो पयट्ठदंतसंघट्ठो कह कह वि पाविऊण चेयन्नं चित्तिउं पवत्तो ‘अहो ! अणवेक्खियकारित्तं, अहो !  
अकयन्नुया, अहो ! अन्नाणपगरिसो, अहो ! निव्वभग्गसेहरत्तं, अहो ! निरणुकोसया, अहो ! कूडवुद्धिया, अहो !  
कम्मचंडालया मम, सव्वहा अजोगोऽहमकित्तिमाणुरायमित्त-कलत्तसंपयाए’ । त्ति चित्तयंतो पुणो वि मुच्छिओ ।  
पुणो वि समासत्थो संतो मंति-सामंत-ऽन्तेउरेहिं ‘देव ! किमेयमयंढे चेव चंडमाउलत्तं ?’ ति पुच्छिओ वज्जरिउ- 25  
मारद्धो “भो भो ! मुट्ठो हं नियदुच्चरियचोरचक्केण । जओ मए अगणिऊण विजयनरिंदवच्छलयं, पम्हुसिऊण  
जयसेणकुमारमेत्ति, अकल्लिऊण कलावर्डपणयपरिवौडिं, अवहीरिऊण कुलकलंकपंकसंकं, अणालोइऊण कुलसंतइच्छेयं,  
संभावियासंभावणिज्जदोसा पेसिया समासन्नपुत्तपसवा सैमवत्तिनिहेलणं विजयपुहइपालपुत्तिया । ता संपयं असुइ-

१ भिल्लादिमि ॥ २ संकेतः—“वहुलक्खणाहिट्ठियमित्यादौ [सर पक्षे] बहुमि लक्ष्मणामि—सारसीमि, [शरीरपक्षे] बहुमिध्व  
लक्ष्णैरविष्टितम् । [विट्ठद्वोष्टिपक्षे] न्याय, [वाणीपक्षे] नादश्च । [मुनिक्रियापक्षे] शमे—उपशमे प्रतिष्ठा यस्या, [दृष्टिपक्षे] समा च—अविपमा,  
असमा वा—असाधारण प्रतिष्ठा यस्या । [नन्दनवनपक्षे] बहु[मि] [विमि—] पल्लिमि नगे—वृक्षे, [चेष्टितपक्षे] बहूना विनयेन च  
राजितम्” ॥ ३ संकेतः—“बाहुकणईउ त्ति बाहुवलयी(याँ) । “बाहुलता” जेटि० ॥ ४ “वाडी, ख१ ख२ ॥ ५ संकेतः—“सम-  
वत्तिनिहेलणं ति कृतान्तग्रहम्” ॥

पुंजो व्व अविज्जमाणसुद्धी, विवरीयसरुवो य अददुव्वो हं विसिट्टलोयस्स, न सकुणोमि पावयारिणमप्पाणमप्पणा वि अवयच्छिउं, अओ नीणेह तुरियं कट्टाणि जेण जलणजालावलीपवेसेण सहसा निव्वावेमि गुरुसंतावतवियमत्ताणयं” ति । एयं रायवयणमतक्कियचडं कानिवायदारुणमायन्निऊण सयलपरियणो अण्णोणवयणावयच्छणविणिच्छियच्छिउयलो ‘हा ! किमेयं ?’ ति कयवियप्पो सुन्नवुन्नो खणमच्छिय समकालमुकलल्लैकपोको विलविउं पयत्तो-

- 5 ‘हा अज्जउत्त ! अइनिग्घिणो सि, कह ववासियं तए एयं ? । सा मुहमंडणमम्हं कत्थ ?’ ति भणंति जायाओ ॥ २०१ ॥  
 ‘हा ! रायंगणमेयं वइइ सुन्नं व तं विणा मुद्धं । मा रूस, पसिय आणेसु सामि ! तं’ परियणो भणइ ॥ २०२ ॥  
 ‘हा हत्ति किं किमेयं?, धी धी एयारिसं विहिविवाणं’ । नर-नारिगणो नयरे रुयइ समंता इय भणंतो ॥ २०३ ॥  
 दरभुत्तयं पि भत्तं दरपीयं पाणियं पि परिचत्तं । डिंभेहिं वि तम्मि दिणे मुक्कं थम्मं पि, किमु अन्नं ? ॥ २०४ ॥  
 अक्कंदसद्दभीमं निक्करुणाणं पि जणियकारुन्नं । दट्ठूण पुरं राया उस्सुयचित्तो पुणो आह ॥ २०५ ॥  
 10 ‘भो मंति ! किं चिरावह ? किं न यणह मज्झ वेयणं अंगे ? । हा ! निट्टुरं न फुइइ हिययं मे गरुयदुक्खं पि’ ॥ २०६ ॥  
 अह मंति-दार-सयणा सँयराहमुदाहरंति रुयमाणा । “मा कुण वियक्खण ! खए खारक्खेवं खणेसड्ढ ॥ २०७ ॥  
 जइ कह वि बुद्धिखूणं संजायं देव्वजोगओ एगं । ता मा करेह वीयं गंडोवरि फोडियातुल्लं ॥ २०८ ॥  
 भयकायराण सरणं हवंति धीरा धराहस्त्येज्जा । धीरा वि धीरयं जइ चयंति ता होउ किं सरणं ? ॥ २०९ ॥  
 अन्नं च—

- 15 चिर परिवालियमेयं रज्जमसंपत्तसत्तुसंतावं । ह्यविप्पहयं होही तुमए मुक्कं मुहुत्तेण ॥ २१० ॥  
 काऊण कुलच्छेयं मा पूर मणोरहे रिबुजणस्स । पज्जालिऊण भवणं को उज्जोयं कुणइ मइमं ?” ॥ २११ ॥  
 इय सविणयं सपणयं गुण-दोसवियारसारमवि भणियं । अवगन्निऊण राया चलिओ अणुतावतत्तंगो ॥ २१२ ॥  
 न तद्वा तवेइ तवणो न जलियजलणो न विज्जुनिग्घाओ । जह अवियारियक्कज्जं विसंवयतं तवइ जंतुं ॥ २१३ ॥  
 तत्तो अणुगम्मंतो समंति-मुद्धंत-पत्ति-पउरेहिं । कह कह वि अणिच्छंतो वि तुरयमारोविओ तेहिं ॥ २१४ ॥  
 20 दिंतो दुक्खं सेवयजणस्स, धम्मज्जयाण वेरग्गं । सोयंसुवारिधोयाणणाहिं तरुणीहिं दीसंतो ॥ २१५ ॥  
 वारियगीया-SSउज्जो वज्जियधय-उत्त-चमरचिंधोहो । निग्गंतूण पुराओ पत्तो नंदणवणासन्नं ॥ २१६ ॥

- एत्थंतरे निवारणोवायमन्नमलभमाणेण ‘असुहस्स कालहरणं सेयं’ ति चित्तिऊण विन्नत्तं गयसिट्ठिणा  
 ‘देव ! अत्थि एत्थ उज्जाणे सयलतेलोकचूडामणिणो सयलमंगलमंगलीयस्स वीयराग-दोस-मोहस्स भगवओ  
 देवाहिदेवस्स मंदिरं । तत्थ ताव देवच्चणार्इ खणं कुणह । तद्वा डहेवुज्जाणेगदेसे अत्थि विमलनाणदिवोयरो गंभीरि-  
 25 मोवहसियसायरो उवसम-सीलसंपयाकोसो दूरोसारियसयलदोसो नीसेससत्तहिओ नरवडनिवहमहिओ अमियतेओ  
 नाम स्ररी । ता तं पि खणंतरं पिच्छह, तदुव्वएसेणं वि देवस्स महंतं कल्लाणं संभावेमि’ ति । तओ ‘अलंघणीय-  
 वयणो एस एत्तिण्णावि मन्निओ होउ, परलोयपत्थयणं चयं’ ति पडिन्नं राइणा । कया विच्छड्ढेण जिणपूया,  
 विट्ठियं हरिसनिब्भरेण जद्दापरिन्नाणं जिणवंदणं । तओ गओ गुरुसमीवं, सविणयकयप्पणामो उवविट्ठो उचियासणे,  
 विइयवुत्तंतेण य भणिओ गुरुणा—

- 30 “जम्म-जर-मरणसलिलो इट्ठुविओयाइवाडवालीढो । एस दुरंतो पावो भवोदही दुत्तरो राय ! ॥ २१७ ॥  
 नारय-तिरिय-नरा-मरणइंमु सव्वत्थ एत्थ दुक्खाइं । पुणरुत्तमणंताइं पत्ताइं सव्वजीवेहिं ॥ २१८ ॥

१ संकेतः—“विवरीयसरुवि(वो) ति विभि-कार्क परीतस्वरूप” ॥ २ संकेतः—“चडक्क ति विबुद” ॥ ३ संकेतः—  
 “लल्लैकपोको ति सीमाक्रन्दशब्द.” ॥ ४ संकेतः—“सयराहं ति शीघ्रम्” ॥

एयस्स हेउभूया चउरो कोहाइविसहरा घोरा । वंफिज्जइ जेहिं जणो अयाणुओ हिययम्मम्मि ॥ २१९ ॥  
 दट्ठो कज्जा-ऽकज्जं जुत्ता-ऽजुत्तं हिया-ऽहियं मूढो । वत्तव्वमवत्तव्वं सारा-ऽसारं न याणेइ ॥ २२० ॥  
 किं बहुणा ? तव्वसओ तं तं आयरइ बुद्धिमंतो वि । एत्थ परत्थ य जत्तो पावइ गुरुदुक्खरिंछोलिं ॥ २२१ ॥  
 तुम्हाणं पि अणत्थो एयाण वसेण एस संजाओ । अच्चंतहिययदाही जह पुत्वि पउमरायस्स” ॥ २२२ ॥  
 अह भणइ संखराया ‘भयवं ! भावेमि भुवणवलयम्मि । अहमेव महापावो ता को सो पउमराय ?’ त्ति ॥ २२३ ॥ 5  
 भणइ गुरु “संसारे अणंतसो एरिसाई वत्ताइं । कम्मवसयाण नरवर ! तढा वि ता पत्थुयं सुणसु ॥ २२४ ॥

[ १. पउमरायकहाणयं ]

आसि पुरा पुहइपुरे सस्सुइओ सुगुणभूसियसुयंगो । बहुमयकुसासणो वंभणो व्व पउमो महाराया ॥ २२५ ॥  
 तेणऽन्नया कयाई निग्गच्छन्तेण सयवाडीए । सच्चविया भवणोवरि वरुणमहिब्भस्स वरकन्ना ॥ २२६ ॥  
 रुवाइसयविणिज्जियसुरंगणा सह सहीहिं कीलंती । पच्चक्खा इव कमला कमला नामेण सविलासा ॥ २२७ ॥ 10  
 कामिजणजणियमोहं तीए दट्ठूण तणुलयासोहं । पउरतेउरसामी वि तम्मणो तो इमो जाओ ॥ २२८ ॥ जओ—  
 लुद्धो धणेण, रमणीहिं कामुओ, पत्थिवो वि पुहवीए । विउसो सुभासिएहिं, को संपत्तो जए तित्ति ? ॥ २२९ ॥  
 कोऊहलाइरेगा उव्वूढा मग्गिऊण सा तेण । अन्नन्नवाउलस्स य पम्हुट्ठा सा पुणो तस्स ॥ २३० ॥  
 चिरकालओ पुणरवि तहेव संपत्तपोढिमा दिट्ठा । अणुरायवसा पुट्ठो नियमित्तो ‘का णु एस ?’ त्ति ॥ २३१ ॥  
 सिट्ठं च तेण हसिउं ‘नणु एसा तुम्ह चेव देवि’ त्ति । जा मग्गिऊण तइया विवाहिया वहुकोड्डेण ॥ २३२ ॥ 15  
 भेरिउं चिरस्स राया चित्तइ अणुतावनिव्वभरो ताहे । ‘हा ! कह मए वराई पवंचिया मूढचित्तेण ? ॥ २३३ ॥  
 तारुन्ने वम्महवेयणाओ कस्स व मणं न पीडंति ? । अइसुत्थिएण सुइरं सहाविया ता मए एसा’ ॥ २३४ ॥  
 भणियं च ‘मित्त ! किं पुण पउत्थवइय व्व संतनेवच्छा । मंगलवलाहरणा दीसइ परिदुव्वलंती य ?’ ॥ २३५ ॥  
 मित्तेण तो पवुत्तं ‘पहु ! सीलमिणं कुलंगणाणं तु । जं कंतविउत्ताओ सरीरभोगं न इच्छन्ति ॥ २३६ ॥  
 मयणानलेण मज्झे जइ वि हु डज्जंति तह वि एयाओ । सुक्कंति पायवो इव सीलऽहिमाणं न मुंचंति ॥ २३७ ॥ 20  
 भइं कुलंगणाणं जासिं मणकमलकोसमणुपत्तो । मयणभमरो वराओ वच्चइ निहणं तहिं चेव’ ॥ २३८ ॥  
 आयन्निऊण एयं रन्ना कारुण्णनेहभरिएण । दिन्तो तस्साएसो आणयणे तीए तहियहं ॥ २३९ ॥  
 मोयाविया य तेणं जणयाणं साहिऊण परमत्थं । तेहिं वि ‘महापसाओ’त्ति जंपमाणेहिं परिमुक्का ॥ २४० ॥  
 अह सा कयसिंगारा सहियासहिया पओससमयम्मि । वासभवणम्मि रन्नो संगमसुहलालसा पत्ता ॥ २४१ ॥  
 राया वि उस्सुयमणो संज्जाकिच्चाइं अत्ति काऊण । पत्तो तीए सगासं महुरं च पभासिओ एवं ॥ २४२ ॥ 25  
 ‘मुंदरि ! गुरुअणुराया पाणिग्गहणं मए कयं तुज्ज । तह वि हु खलेण विहिणा एत्तियकालं कओ विरहो ॥ २४३ ॥  
 ता एयं अवराहं खमसु महं सुयणु ! मंदपुन्नस्स । मह चेव एस छेओ तुह संगसुहस्स जं चुक्को’ ॥ २४४ ॥  
 अमयरससीयलेहिं रन्नो एयारिसेहिं वयणेहिं । विरहतवियं पि तीसे सहसा निव्वावियं हिययं ॥ २४५ ॥  
 अवि य—

संदेसगस्स लक्खं मोल्लं, लेहस्स होइ धणकोडी । दिट्ठीए कोडिसयं, पियस्स वयणं पुण अमोल्लं ॥ २४६ ॥ 30

१ संकेते.—‘वंफिज्जइ त्ति दश्यते’ ॥ २ ‘क्खरिंछोली खर भ्रा० ॥ ३ संकेतः—‘आसि पुरेत्यादौ [ब्राह्मणपक्षे] सधृतिक-  
 सवेद’, [चपपक्षे] सकर्ण । [ब्राह्मण०] शोभनेन गुणेन-यज्ञोपवीतेन भूषित समु(१)शुचि) अङ्गमस्य, यदि वा श्रुतानि-अधीतानि अज्ञानि-  
 व्याकरणादीनि येन स धृताङ्ग, सुगुणभूषितश्चासौ श्रुताङ्गश्च, चपपक्षे सुगुणभूषितश्चासौ सुगन्धश्च, अथवा सुगुणभूषित शोभन अङ्गमस्य ।  
 [ब्राह्मण०] कुशश्च आसन च, ते बहुमते यस्य, [चपपक्षे] बहुमत को-पृथिव्या शासन यस्य” ॥ ४ संकेतः—‘भरिउं ति स्मृत्ता” ॥

अह संलत्तं तीए 'नामुक्कसियाइं तुम्ह बहुयाइं । अम्हं पि नत्थि पुन्नं, पैम्हुसणं तेण देवस्स ॥ २४७ ॥  
अणुभूयवेयणो च्चिय जाणइ परवेयणं जणो पायं । तं पिययम ! कयपुन्नो कहम्हऽनिट्ठं वियाणासि? ॥२४८॥  
हियए धरिओ सि सया, नयणेहिं वि पुलइओ सि तं बहुसो । अंगं पुण पिययमविरहचिच्चिणो निदयं दड्ढं' ॥२४९॥  
एमाइविचिच्चडुकम्मरम्मं किलिक्किचियम्मि पारद्धे । बहुकामसत्थसंसियविचित्तकरणंगहारेहि ॥ २५० ॥

5 अइवल्लहो च्चि पुण दुल्लहो च्चि रंजिउमणाए देवीए । पोढत्तणओ परिहरिय हिरियमह रामिओ राया ॥२५१॥  
विन्नाणविम्हिओ वि हु पगवभयं तारिसं नियच्छंतो । पच्छिमजामे सहसा वियप्पिउं एवमाढत्तो ॥ २५२ ॥  
'किर एसा नवमहिला चरियं पुण पोढरमणिरमणीयं । एयं दढं विरुद्धं, किं मन्ने छिंछई एसा ? ॥ २५३ ॥  
अह विन्नाणपगरिसो एरिसया करणदच्छयाऽउव्वा । कत्तो कुलनारीणं पढमम्मि समागमे पइणो ?' ॥२५४॥  
एवं विचित्तयंतो जलंतकोवानलो अजंपंतो । 'कह मारेमि सयं चिय नारि' च्चि सवेयणो मणयं ॥ २५५ ॥

10 निक्खमिय वासभवणा सचिवं सदाविउं भणइ राया । 'कारेहि पाणनासं पच्छन्नमिमीए पावाए' ॥ २५६ ॥  
अप्पडियारं कोवं कलिऊण न तेण कारणं पुट्टं । 'आएसो' च्चि भणित्ता नीया ठविया य पच्छन्नं ॥ २५७ ॥  
चित्तियं च—

'मुंचंति साणुरायं, महंति सब्भावनेहपरिहीणं । गुणमवि मुणंति दोसं कामग्गहमोहिया पायं ॥ २५८ ॥  
मल्लिणंगी वि अणिती रोयइ, इंती न उज्जलंगी वि । जूइयरस्स कवुड्डी रमणी पुण मयणवसयस्स ॥ २५९ ॥  
15 पेच्छइ खूणसयाइं अविज्जमाणाइं हिययदइयाणं । संतं पि दोसजालं न नियइ इयराण रागंधो ॥२६०॥ तथा—  
विणयविणयाण थड्ढा, थड्ढाण हवंति विणयविणयंगा । रागविसविज्जसा सव्वे च्चिय कामुया पायं ॥२६१॥  
ता परिकप्पियदोसो अत्रगयरोसोऽणुतावजरविहुरो । पउणेयव्वो देवो एयं परमोसहिं दाउं' ॥ २६२ ॥  
इय बुद्धिलद्धत्तो कयंजली वारिऊण रुयमाणिं । धीरविऊण य देविं पत्तो रायंतियं मंती ॥ २६३ ॥  
राया वि तीए चरियं समुव्वहंतो निरंतरं हियए । विम्हय-रोसवियकासंवलियरसं अणुहवन्तो ॥ २६४ ॥  
20 चिट्ठइ अत्थाणगओ अत्थाणगओ गुणो व्व विच्छाओ । मंदं निज्जायंतो विज्जायंतो पईवो व्व ॥ २६५ ॥  
दट्ठूण तमहसंतं मोणत्थं मुणिवरं व उव्वसंतं । छेएहिं समाढत्ता अब्भुयभूया विविहवत्ता ॥ २६६ ॥  
तत्थ हसिऊण भणियं मुलट्ठकंठेण विट्ठकंठेण । 'चित्ताण परं चित्तं जं वित्तं संपई इहई' ॥ २६७ ॥  
'भो भो ! कहेह किं तं ?, वट्टामो सवणलालसा धणियं' । भणिओ सहासएहिं सहासएहिं कहइ एसो ॥२६८॥

[ १. वणसेट्टिपुत्तचउक्कऽक्खवाणय ]

25 आसि इह धन्ननामो विउसो चाई पियंउदो सुयणो । सयलजगवहुमओ गयमओ य सेट्ठी गुणगरिट्ठो ॥२६९॥  
तस्स य सिरियाएवीसमुव्वभन्ना सयलजणमणाणंदा । घण-घणय-धम्म-सोमा अत्थि सुया विस्सुया चउरो ॥२७०॥  
ते वि य जोव्वणपत्ता पावियअणुकूलकुलयसुकलत्ता । चिट्ठंति जाव सुहिणो रंजियसुहिणो कलानिहिणो ॥२७१॥  
ताव य देव्वनिओया वहुधण-धम्मस्स तस्स धम्मस्स । जायममंदं मंदं गयजीयासं जणपयासं ॥ २७२ ॥

१ सङ्केतः—“नामुक्कसियाइं ति प्रयोजनानि” ॥ २ सङ्केतः—“पम्हुसणं ति विस्मरणम्” ॥ ३ सङ्केतः—“चिन्चिणं(च्चिण)  
त्ति वहिना” ॥ ४ सङ्केतः—“किलिक्किचियम्मि ति क्रोधाश्रु-हृष-भीत्यादे सङ्कर, किलिक्किचित्तं छिव (१ सुरतम्)” ॥ ५ सङ्केतः—  
“छिंछइ ति स्वैरिणी” ॥ ६ सङ्केतः—“मल्लिणंगी वि इत्यादि, अन्धिकयूते किल पञ्चवर्णा पञ्च कर्षदिका पात्यन्ते, यस्थि च दायोऽभ्येति  
स हारयत्यन्तेषां यत्तकाराणाम्, उद्धितं ददाति, मा(म)ता यदा मलिनाङ्गपि कर्षदिका दाय तस्य च ददाति तदा रोचते, पराजयाभावात्;  
उज्ज्वलाङ्गपि च दाय ददती नैव रोचते, पराजयात्” ॥ ७ “शुक्लादिवर्णपटे हि वर्णान्तरगुण” जेट्टि० ॥ ८ सपर्यं जे०विना ॥  
९ सङ्केतः—“सहासएहिं [ सहासएहिं ] ति समासद्विः सहासकै” ॥

तो संभासनिमित्तं आहूओ सयणपरियणो तेण । अन्नो वि नयरलोओ जहारिहं खामिओ तह य ॥ २७३ ॥  
 अह वंधवेहिं भणिओ सेट्ठी 'तुह सुट्ठु धीरया हियए । सुट्ठु कओ सम्माणो जणस्स, एकं तह वि भणिमो ॥२७४  
 'दीसंति जणयविरहे कलहन्ता अत्थकारणे णेगे । एकोयरा वि पाय जणएहिं अछिन्नसंवंधा ॥ २७५ ॥  
 ता अम्ह समक्खं चिय तहा निरूवेहि सममणो भागे । जह तुह न होइ अयसो नेहच्छेओ य एएसिं' ॥ २७६ ॥  
 'साहु भणियं' ति भेणिउं भणिया अह तेण नंदणा सव्वे । "समुदाए चिय सोहा जायइ सव्वस्स जियलोए ॥२७७ 5  
 जं लोयणेहिं वयणं, वयणेण य लोयणाइं रेहंति । सांलेहिं पल्लवा, पल्लवेहिं साला विरायंति ॥२७८॥ तहा—  
 कड्ढेति गुरुं पि भरं समचित्ता सुरहिनंदणा दो वि । कड्ढोयड्ढिकरा पुण अट्ट वि जुत्ता किलम्मंति ॥२७९॥  
 ता सघियाए पुत्ता ! वट्टेज्जह, एस मज्ज उवएसो । अह न वि वट्टह एवं ता सम्मं सुणह मह वयणं ॥ २८० ॥  
 चिट्ठंति महाकलसा अग्गेयाइसु घरस्स कोणेषु । कमसो ते गिन्हेज्जह तूसेज्जह तेहिं सव्वे वि" ॥ २८१ ॥  
 इय भणिय मए जणए तणया काऊण तस्स किच्चाइं । नेहनिरंतरहियया ठिया चिरं एगसंवासे ॥ २८२ ॥ 10  
 घरिणिविसंवायाओ कयाइ जुयगेहकरणकामेहिं । खणिऊण तेहिं गहिया कमेण कलसा जणयभणिया ॥२८३॥  
 तेसु य घणस्स कुंभे धूली, धणयस्स अट्टिसंघाओ । धम्मस्स उ वहियवडा, दिट्ठा सोमस्स दीणारा ॥ २८४ ॥  
 तो घणपमुहा तिमि वि वज्जेण व ताडिया महीवट्टे । पडिया झड त्ति मोहा, पच्चागयचेयणा य पुणो ॥२८५॥  
 उर-सिरदिन्नपहारा हाहारवेमिलियबंधवाण पुरो । विलवंति 'अहो ! पिउणा वीसत्था वंचिया अम्हे ॥ २८६ ॥  
 सोमस्स सव्वसारं दिन्नं, अम्हाण धूलि-हड्डाइं । कि ताय ! तुम्ह जुत्तं एरिसमसमंजसं किच्चं ?' ॥ २८७ ॥ 15  
 इय बहुवा विलवंता भणिया मज्झत्थसयणवग्गेण । 'सव्वं पि चउवभायं करेह किं एत्थ कलहेण ?' ॥ २८८ ॥  
 सोमेण तओ भणियं "चउभागमिणं न होइ कइया वि । मं मारिऊण गिन्हेह सव्वे तुम्भे तिहा काउं ॥ २८९ ॥  
 जइ तुम्ह कम्मदोसा दव्वं पि हु धूलिमाइ पल्लं । ता किमिह मज्ज दंडो जं इच्छह मं पि फेडेउं ? ॥ २९० ॥  
 तं सच्चमिण जायं विगततासा डहेइ किर धूवं । विन्नवइ देवि ! पेच्छसु मए समं सव्वलोयं पि " ॥ २९१ ॥  
 इयरेहिं तो भणियं 'मुद्धय ! अट्टल्लओ सि तं जेण । ल्हसि मुहाइं अम्हं एवं सव्वंगिलो होउं ॥ २९२ ॥ 20  
 ता कुणसु सयणवयणं, ववहारेण व विणिज्जिउं अम्हे । उवभुंजसु धणमेयं, तइओ पुण नत्थि इह मग्गो' ॥२९३॥  
 एवं ते विवयंता भणिया सयणेहिं 'कुणह ववहारं । मा अवरोप्परकलहा अणत्थसयभायणं होह' ॥२९४॥  
 किं बहुणा ? छम्मासे धम्महिगरणं पि सेवियं तेहिं । न य तिमो छिन्नेउं ववहारो ताण केणावि ॥२९५॥  
 पयडमिणं देवस्स वि इहं पि अत्थाणमंडवे जेण । नियवुद्धिविहवगव्वियमंतीहिं वि ते न संठविया ॥ २९६ ॥  
 तो ईसिहसियपुव्वं नरवट्टणा जंपियं 'कहसु भद ! । छिन्नो न व त्ति केणइ ववहारो ताण वरयाण?' ॥२९७॥ 25  
 'जीव' त्ति भणंतेणं भणियं तेणावि 'देव ! तुम्भेहिं' । कारणिएहिं वि जाहे उवेक्खिया ताव सव्विलक्खा ॥२९८॥  
 नयरंतरं वयंता पत्ता पच्चन्तगामदारम्मि । दट्टूण सुहासीणं पमुवालं विस्ससालीहं ॥ २९९ ॥  
 कयजोक्कारा सव्वे उवविट्ठा पुच्छिया य ते तेण । 'कत्तो कत्थ किमत्यं चलिया साहेह भो पहिया ! ?' ॥३००॥  
 तेहिं वि 'सरलसहावो एसो जणओवमो' त्ति काऊण । सिट्ठं जहट्टियं चिय निययं चरियं सनिव्वेयं ॥३०१॥  
 हसिऊण तेण भणियं 'किर नयरे पडियपंडिया लोया । एयारिसं पि पयडं कह तेहिं न लक्खियं कज्जं ? ॥३०२॥ 30  
 अहवा—

१ भणियं भणिया जे० ॥ २ सङ्केतः—'सालेहिं ति शाखिभि' ॥ ३ सङ्केतः—'संघियाए त्ति सव्वतत्त्वेन' ॥ ४ सर्वगिल-  
 सर्वमक्षक इत्यर्थ ॥

किं कुणउ पढिय-सुणियं मइविहवविज्जियाण पुरिसाण ? । अंधाण पुरो तेउज्जलो वि किं दीवओ कुणउ ? ॥ ३०३ ॥  
 इयरेहिं पुणो वुत्तं 'निव्विन्ना मो विवायवायाओ । ता ताय ! कयपसायं छिंदसु ववहारमम्हाणं' ॥ ३०४ ॥  
 आह तओ पसुवालो "पुत्ता ! सो तुम्ह संतिओ ताओ । आसि अइपंडिओ नणु एगंतहिओ य तुम्हाणं ॥ ३०५ ॥  
 जं जस्स हियं जं जस्स धारिणं परिणईए सुहफलयं । तं तस्स तेण दिन्नं उवएसपहाणमेयं तु ॥ ३०६ ॥  
 जस्स कलसम्मि रेणु दिघ्माइं तस्स तेण छेत्ताइं । 'किसिकम्मं चिय फलयं तुह' ति एसो य उवएसो ॥ ३०७ ॥  
 अट्टीणि दिंतएणं दिन्नं गो-महिसि-तुरय-करहाई । तह एयपोसणं चिय उवइट्टं सुट्टु सुहजणयं ॥ ३०८ ॥  
 वहियादाणेण पुणो सिट्टं तं रायलेहओ होज्ज । अहवा वि हट्टवणिओ गिन्हेज्ज धणं धुराहितो ॥ ३०९ ॥  
 एस पुण सव्वलहुओ किसिकम्माईण वाढमसमत्थो । गहियदीणारदच्चो कलंतराजीवओ होज्जा ॥ ३१० ॥  
 इय तुम्ह जहाजोगं विइन्नमइवच्छलेण ताएण । अप्पवहुत्तं पि इहं येवविसेसं ति तक्केमि ॥ ३११ ॥  
 तुव्भे सुसिक्खिया किर लक्खिस्सह एत्तियं सयं चेव । इयजणएण विमन्ने विसेसओ किं पि नो भणिया ॥ ३१२ ॥  
 ता तुच्छधणस्स कए मा निन्नेहा परोप्परं होह । संभरह जणयभणियं, सहोयरा दुल्लहा लोए ॥ ३१३ ॥ अवि य—  
 अइलालिया वि अइपालिया वि विहडंति सेसया सयणा । हुंति सहेज्जा विहुरे कुविया वि सहोयरा चेव" ॥ ३१४ ॥  
 इय येरमंतियं पयडजुत्तियं सुणिय मुणियतत्तेहिं । वाहजलोहियलोयणजुएहिं सव्वेहिं सहस ति ॥ ३१५ ॥  
 आलिगिऊण भणिओ सोमो 'वच्छय ! अनायतत्तेहिं । संताविओ सि सुइरं तं खमियव्वं तए सव्वं' ॥ ३१६ ॥  
 इयरेण वि पडिवुत्तं 'मए वि अन्नाण-लोहमूढेण । जं अविणएण भणिया मरिसेज्जह संपयं तं पि' ॥ ३१७ ॥  
 पसुवालो वि पवुत्तो सव्वेहिं वि 'अम्ह तायचत्ताणं । करुणारसिएण तए सुट्टु कयं अज्ज तायत्तं' ॥ ३१८ ॥  
 इय कयवहुसंभासं 'हिज्जो गेहागएहिं तुट्टेहिं । पुरजणजणियाणंदं वद्धावणयं कयं तेहिं ॥ ३१९ ॥  
 ता एत्य इम चोज्ज अदिट्टनयरेण मुक्खयेरेण । इय गिउणनीइसारं ववहारो एरिसो छिन्नो ॥ ३२० ॥

[ धणसेट्टिपुत्तचउक्कस्खाणयं समत्त. १ ]

अह सव्वेहिं स भणिओ 'सव्वं सव्वं, महंतमच्छरियं । अइविसमो ववहारो कह छिन्नो गामगोहेण ?' ॥ ३२१ ॥  
 आयन्निऊण एयं राया मउलंतवयणसरसिरुहो । हिययखुडक्खियदुक्खो वियप्पिउं एयमाढत्तो ॥ ३२२ ॥  
 "जइ ता निरक्खरस्स वि गामेल्लपसुस्स एरिसं नाणं । सत्थत्थकोवियाए ता तीए किं न संभवइ ? ॥ ३२३ ॥  
 सत्ये वि भणियमेयं 'सुरए पागवभमन्नया लज्जा । उज्जइ वरंगणाणं' किं न मुणइ सा फुडं विउसी ? ॥ ३२४ ॥  
 ता सव्वहा अणज्जो निल्लज्जो कुगइसंगमे सज्जो । निव्वभग्गो भग्गो इं तारिसरयणस्स य अजोग्गो" ॥ ३२५ ॥  
 सुइरं हियए पैरिचित्तिऊण दीणाणणो भणइ मंति । 'भो मंति ! कयं पावं मए महंतं अउत्तेण ॥ ३२६ ॥  
 अच्छंती जणयघरे सा वरई विहुयचित्तसंतावा । हा ! कह मए अणत्थं निक्कारणवेरिणा गमिया ॥ ३२७ ॥  
 ता सव्वहा न सत्तो पाणे दाणिं मुहुत्तमवि धरिउं । पउणीकरेहि जलणं जेण 'विसोहेमि अप्पाणं' ॥ ३२८ ॥  
 इय कयनिच्छयमच्चंतदुक्खियं लक्खिऊण तं मंती । काऊण रहं पभणइ 'सामि ! निसामेहि परमत्थं ॥ ३२९ ॥  
 केरिसओ सो भिच्चो हिया-इहियं सामिणो न जो मुणइ । सुपरिच्छियं खु कज्जं परिणामसुहावहं होइ ॥ ३३० ॥  
 भणियं च—

पढमं चिय रोसभरे जा बुद्धी होइ सा न कायव्वा । अह कीरइ ता नूणं न सुंदरो तीए परिणामो ॥ ३३१ ॥  
 ता सुपरिच्छियहेऊ अच्छइ सा रक्खिया मए ताव । आइसउ फुडं देवो जं संपइ तीए कायव्वं' ॥ ३३२ ॥

तत्तो राया आणंदनिम्भरो खणविसट्टमुहकमलो । भणइ 'जइ मित्त ! एवं ता जीयं मह तुमे दिच्चं' ॥३३३॥  
किं बहुणा ?

आणाविया पओसे अणुणीया खामिया य नरवइणा । तप्यभिइ ताण पेमं निरंतरं चैव संवुत्तं ॥ ३३४ ॥

[ पउमरायकहाणयं समत्तं. १ ]

\*

जह तेण पउमरन्ना तुलाए आरोवियं पुरा जीयं । कोहुग्गभुयंगमसंगदोसओ तह तुमे इण्हिं ॥ ३३५ ॥

तह वि न जुत्तं मरणं धम्मं पडिवज्ज सयलदुहहरणं । अन्नं न अत्थि सरणं आवसमाणाण भवसरणं" ॥३३६॥

एयमायन्निऊण जंपियं नराहिवेण 'भयवं ! सोहणो धम्मो, परमच्चंतमहन्तदुक्खदावानलपज्जलियहियओ  
न सकुणोमि पाणे धारिउं ति करेमि ताव पारद्धं, एयकालोचियं च देहं मे परभवपत्थयणं' । आयरिएहिं भणियं  
“महाराय ! सुण—

दुक्खस्स वि निम्महणो धम्मादन्नो न विज्जइ उवाओ । अहिययरदुहफलं चिय कम्मं तुमए समाखद्धं ॥३३७॥

एत्थ वि सुणाहि एगमक्खाणयं—

[ २. कविलसोत्तियऽक्खाणयं ]

अत्थि कोदंडदंढेहिं व विमुद्धवंसुव्भवेहिं सरलसहावगुणड्ढेहि य, मऊरेहिं व संपत्तगुरुकलावेहिं मणोहरा-  
लावेहि य, अणुमग्गलगाणेगचट्टेहिं विउसभट्टेहिं "टिविडिक्किए पच्चासन्नभाईरहीनीरे गंगातीरे सन्निवेसे अंगीकय- 15  
जयण-जायगायारो अच्चंतसोयसारो पहाणअग्गिहोत्तिओ कविलो नाम सोत्तिओ । सो उण अइसोयवायविनडिओ  
कयाइ एवंविहे चिंतासंकडे पडिओ "किर एत्थ अग्गाहारे अनिवारियजंणंगमविहारे रच्छाविरोलंतजरचीर-  
खंडनियरे निरंतरोवल्लभमाणफुडियकुलालसयलपयरे अनिवारियतुस-कुकुसाइसंचरे चंडालकर-चरणसंफरिसिय-  
धन्न-फुल्ल-फलविसरे अंतयलुत्तवियरंतचउप्पए परिहारागोयरीभूयपभूयासुइंगंयए वेयविहियायारसारो केरिसो नाम  
सोयववहारो ? । किंच—

नर-सारमेय-जंबुय-मज्जाराइण काइयुच्चारा । वासजलवाहवूढा नई-तलाएसु निवडंति ॥ ३३८ ॥

ता जइ कहिंचि माणुस-पसुरहिए जलहिमज्जदीवस्मि । कीरइ वासो ता सोयसंभवो, नऽन्हा मन्ने" ॥३३९॥

उप्फालियं च पुच्छंतयस्स निज्जामएण केणावि । 'पुंडुच्छुभरियमभय दीवं दिट्ठं मए भट्ट !' ॥ ३४० ॥

सोऊण तस्स वयणं महानिहाणं व लद्धमूससिओ । पभणइ कविलो 'भइय ! नेहि ममं सव्वहा तत्थ' ॥३४१॥

किं बहुणा ? सो एवं सोयवायविसविमोहिओ बहुसो वि विउसेहिं विवोहिओ नेहाइसयविहियरुंभणे अव- 25  
गन्निऊण सयले वि सयणवंभणे कूडाहिमाणपत्रणपेल्लिओ निज्जामएण सद्धिं संचल्लिओ ।

पत्तो य नीरनिहिणो संसारस्स व अणोरपारस्स । मज्जे आसासकर माणुसजम्मं व तं दीवं ॥ ३४२ ॥

विसए व महुरसाए तहियं दट्टूण उच्छूणो वरओ । मोत्तुं पोयं धम्मं व पाविओ सो ठिओ मुइओ ॥३४३॥

स्वणिओ य तेण तडे वियरओ । तत्थं तिसंज्जं कयन्हाणो उच्छुभक्खणधरियदेहो कालं गमेउमारद्धो ।  
नवरमडुउच्छुचव्वणाओ छिन्ना से छोइयाहिं दो वि ओट्टा । तओ चव्वणे अक्खमो वियप्पिउं पवत्तो 'अहो ! 30  
सुंदरं हुंतं जइ एयाण उच्छूण फलसंपया हुंता । अवि य—

१ वेद्धि जे० ॥ २ सद्धेतः—“टिविडिक्किए ति मण्हते” ॥ ३ “ब्राह्मणस्थाने” जेटि० ॥ ४ सद्धेतः—“जणगम ति  
विभूपाप्रियतयाऽतीवजुगुप्सितद्वेषी” । “मातङ्ग” जेटि० ॥



सुयणाण निद्धणत्तं कुणओ कुलवाणियाण वेहव्वं । उच्छूण निष्फलत्तं धिरत्थु बुद्धी पयावणो ॥ ३४४ ॥  
अहवा अम्ह वेव देसे न फलंति एए, इह पुण भूमिगुणेण फलणं पि संभावीयइ, ता सम्मं निखवेमि' ।  
त्ति संपहारिज्जण य गवेसिओ एसो । पेच्छइ य एगत्य पुव्वागयस्स भिन्नवाहणिययाणियगस्स द्विणयरकरनियरसो-  
सियाओ अमेज्जपिंडियाओ । तयो 'अहो ! एयाइं फलाइं' ति हरिसिओ ताओ भोत्तूण पवत्तो

5 मविसेसमन्नेसिउं । अवि य—

असुइं पि अमयभूयं मन्नइ उयरग्गिताविओ कविले । उच्छलियलुहो को वा मिट्ठा-ऽमिट्ठं वियारेइ ? ॥ ३४५ ॥

मन्नइ असुइ पि सुइं अन्नाणविमोहिओ सुइगवेसी । कज्जा-ऽकज्जविवेगो अन्नाणीणं कुओ अहवा ? ॥ ३४६ ॥

किं बहुणा ? सो पत्थिव ! तारिसरूवीकयं रविकरेहिं । आहारइ नीहारं नियं पि अचन्तसूहप्पा ॥ ३४७ ॥

कालेण मिलिओ वाणियगस्स । कयपरोप्परसंभासा य 'सदेसय' ति हरिसिया दो वि । पुच्छिओ सो  
10 कविलेण 'कहं पुण सरीरट्ठिं करेसि ?' । इयरेण भणियं 'उच्छुमखणेण' । 'किं न लहसि उच्छुफलाइं ?' ति पुच्छि-  
एण वुत्तं वणिएण "भट्ट ! 'न हुंति उच्छुणो फलाइं' ति सुप्पसिद्धमेयं" । 'नणु अहं ते दंसेमि' ति वुत्तेण जंपियं  
नेगमेण 'भट्टं ते भट्ट ! जइ मम एरिसमव्भुयं दाएसि' । 'अवस्सं दाएमि' ति भणंतेण दंसियाइं कप्पियफलाइं  
तेण । तहंसणाओ चित्तियं वणिएणं 'अहो ! अन्नाणविलसियं । अहवा—

अन्नाणं चिय कट्ठं मज्झे सव्वेसि पावकम्माणं । जच्चंयो इव लोओ हिया-ऽहियं सुणइ नो जेण' ॥ ३४८ ॥

15 पुच्छियं च 'भट्ट ! केरिसाऽऽसायाणि एयाणि ?, केत्तिओ वा कालो ते एयाइं भुंजमाणस्स ?' ति । सिट्ठं  
च तेण 'अमयभूयरसाणि एयाणि भुंजंतस्स य वोलियप्पाओ मासो' ति ।

वणिएण तयो वुत्तं 'हद्धी ! अन्नाणमोहिएण तए । रक्खंतएण पाए गट्ठाए वोलियं सीसं ॥ ३४९ ॥

असुइलवसंगभीओ रओ सि तं असुइभोयणे मूह ! । सच्चं जं सिक्कुरिओ पैल्लुसिओ मेज्जमज्जम्मि ॥ ३५० ॥

उच्छूण निष्फलत्तं असइहंतेण सयलजणपयडं । मइमाणिणा तए भो ! विट्ठाए विनडिओ अप्पा' ॥ ३५१ ॥

20 कविलेण भन्नइ 'कस्स पुणो एरिसी विट्ठा ?' । इयरो आह 'तुह ममं च' । 'नणु सा अवंतसिड्डिला होइ' ति  
भणंतस्स सिट्ठं से वणिएण जहा 'बहुदियहेहिं एवं निट्ठुरत्तमावज्जइ' । तहा वि अपत्तियंतेण निरुत्थियं विसेसेण,  
निच्छियं च जहुत्तं कविलेण । ताहे गुरुविसायपिसायाहिट्ठिओ पुकरिउं पवत्तो । कहं—

'भो भो अणज्ज ! दुज्जण ! निक्कारणवेरिओ सि मे देव्व ! । विट्ठालिओ जमेवं तुमए हं धम्मकामी वि ॥ ३५२ ॥

किर सुद्धसोयजोगा साहिसं सुद्धसोत्तियायारं । इय सयणधणं सुहिणो चइज्जण इहाऽणुपत्तो म्हि ॥ ३५३ ॥

25 तं पावकयंतवसा पेच्छह विवरीयमेव मे जायं । किं कुणउ पुरिसयारो नरस्स दइवे पराहुत्ते ? ॥ ३५४ ॥

साहेमि कस्स एयं ? कत्थ व गच्छामि ? कमिह पुच्छामि ? । हा हा ! असुईभूओ सुज्जिस्सं संपयं कहं णु ? ॥ ३५५ ॥

पच्छायावपरद्धो भणिओ सो वणिएण भुज्जो वि । "आयकए अवराहे मा खसुसु भट्ट ! देव्वस्स ॥ ३५६ ॥

विउसेहिं समाइं सोयं चइज्जण कूडबुद्धीए । अइवाँएण दुमो इव भग्गो सि तुमं फुडं, वुज्ज ॥ ३५७ ॥

एसो वि महामोहो जं किर 'नीरेण सुज्जइ पावं । न्हायाण होइ धम्मो निबंधणं सग्ग-मोक्खणं' ॥ ३५८ ॥

• 30 अंगस्स वि जेण मलो सुज्जइ वज्जो, न अंतरंगो वि । जीवविलगं सुहुमं कह तेण विसुज्जइ पावं ? ॥ ३५९ ॥

देहगयं वज्जमलं सुज्जइ नीरेण खालिए देहे । भावगयं पुण पाव सुज्जइ परिणामसुद्धीए ॥ ३६० ॥

परिणामविसुद्धी वि हु रागाइजएण जायए नूणं । न उ रागाइनिबंधणमयव्रद्धणन्हाणकिरियाओ ॥ ३६१ ॥

१ लोलियं त्रा० ॥ २ सिक्कुरिओ जे०विना । "इत्तच्छृणारकौतुकी" जेटि० ॥ ३ "पतित अशुचिमध्ये" जेटि० ॥  
४ "वातेन वादेन च" ख१टि० ॥

एयं पवत्तियं पुण पुराणपुरिसेहिं अमुइदेहस्स । दोसच्छायणहेउं, किंचिं विभूसानिमित्तं च ॥ ३६२ ॥  
 देवच्चणम्मि जम्हा अवस्सकायव्वमेयमुवइट्टं । तेण पसिद्धी लोए 'धम्माय भवे सिणाणं तु' ॥ ३६३ ॥  
 'मा हुंतु अमज्जाया मणुया तिरिय व्व अत्रिययाहारा । भोयणपज्जंतम्मि वि' सोयविहाणं अओ दिट्ठं ॥ ३६४ ॥  
 तह णीणजाडयाणं कीरइ खलु लुत्तियो वि परिहारो । तेसिं पात्रायारं कुलया वि कुणंति नो जेण ॥ ३६५ ॥  
 एवं सोयायारो कारणभेया अणेगहा रूढो । धम्मत्थिणा वि एसो आयरियव्वो अओ चेव ॥ ३६६ ॥ 5  
 'परिहरियव्वं सकं, न उणाऽसकं' ति एय परमत्थो । तुम्हाणं पि सुईसु दियवर ! जम्हा इमं भणियं ॥ ३६७ ॥  
 'भक्षिकाः सन्ततिर्धाराविषुषो ब्रह्मविन्दवः । स्त्रीमुखं बाल-वृद्धं च न दुष्यन्ति कदाचन ॥ ३६८ ॥  
 देवयात्रा-विवाहेषु सम्भ्रमे राजदर्शने । सङ्ग्रामे हृदमार्गे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति' ॥ ३६९ ॥  
 'सुइ धरणिगयं तोयं' इच्चाइ वि किं नु तुम्ह पम्हुट्टं । चरुण लोडयं जं लग्गो सि अलोए मग्गे ? ॥ ३७० ॥  
 इय नियकयम्मि दोसे उवलंभं कीस देसि दइवस्स ? । एयविसुद्धिनिमित्तं सम्मं पडिवज्ज पच्छित्तं" ॥ ३७१ ॥ 10  
 एयं च तस्स भणियं पडिवन्नं सव्वमेव भट्टेण । पोयवणिण्ण केणइ नीया ते दो वि सट्ठाणं ॥ ३७२ ॥  
 कहिऊण पंडियाणं पायच्छित्तं इमेण पडिवन्नं । अणुसेविओ य कमसो बहुवंभणसम्मयायारो ॥ ३७३ ॥  
 [ कविलसोत्तियऽक्खाणयं समत्तं. २ ]

\*

तह जह सो अमुइभया मोहाओ अमुइभोयणे लग्गो । तह तं पि दुक्खभीओ मा निवडसु अहियदुक्खोहे ॥ ३७४ ॥ 15  
 पावेण होइ दुक्खं, पावं पुण पाणघायणाईहिं । परघाया पावयरो भणिओ नियपाणघाओ वि ॥ ३७५ ॥  
 इय अहियदुक्खहेऊ ववसाओ तुज्ज संतिओ एसो । भावेहि भूव ! सम्मं, मा मुज्जसु सव्वकज्जेसु ॥ ३७६ ॥  
 पावुवभवदुक्खाणं पुन्नं धम्ममुव्वं खु पडिवक्खो । आयरसु दुक्खभीरुय ! ता धम्मं जिणवराणाए ॥ ३७७ ॥  
 अन्नं च दिट्ठपच्चयनिमित्तओ जाणिमो लहुं चेव । होही तुह संजोगो तीए संपुन्नदेहाए ॥ ३७८ ॥  
 अब्भुयभूयब्भुदयं लद्धूण महुद्धवं सुदीहद्धं । वज्जियरज्जो अज्जेसि नूणमणवज्जपव्वज्जं ॥ ३७९ ॥ 20  
 ता पत्थिव ! सुविसत्थो दिणमेगं ठाहि ताव मम वयणा । संजायपच्चओ नणु करेज्ज उवरिं जहाजुत्तं" ॥ ३८० ॥  
 एवं च सिसिरमहुरेण सूरिवयणवारिणा मणयं निव्ववियहियओ 'मागणीओ मुणिजणो'त्ति दिवसाइवाहणत्थं  
 ठिओ राया वार्हि चेव नयरस्स देसणसवणमेत्तवाधारो य । पवोलिए वासरे रयणिपच्छिमज्जामे लद्धनिदो दच्छीय  
 इमं सुविणयं 'किर कप्पतरुल्लयणी दरनिष्फन्नेगफला केणइ छिन्ना निवडिया धरणीए पुणो वि कह वि तत्थेव  
 लग्गा, निष्फन्नमणोहरेगफला सोहाइसयाओ लोयलोयणाणदयारिणी य संवुत्त' ति । ताव य झड ति पडिवोहिओ 25  
 पाहाउयमहुरमंगलतूरवेण । तओ 'अहो ! अच्छरियरुव्वो सुविणओ गुरुवयणसंवाइ य नज्जइ, अहवा गुरुं चेव  
 पुच्छामि' ति संपहारिय कयगोसकरणिज्जो तुरियं गओ सूरिसयासं । कयपायवंदणेण य साहिओ गुरुण सुमिणओ ।  
 परिभाविऊण य सम्मं समाइट्ठं सूरिहिं—

'कप्पतरु तं नरवर !, छिन्नलया पुण विउत्तिया देवी । मन्नामि जायपुत्ता मिलिही अज्जेव सा तुज्ज' ॥ ३८१ ॥  
 तओ हरिसभरनिव्वरेणं भणियं राइणा- 'भयवं ! एवं होउ, तुम्ह पायाणुभावेण को वा एत्थ संसओ ? , 30  
 जओ असंभावणिज्जं पि संभवइ चेव कल्लाणं गुरुआणाकारीणं ति । एवं च बहुमाणसारं गुरुं वंदिऊण गओ आवासं ।  
 आहूओ तत्थ वत्तो लज्जोणयवयणेण भणिओ य 'मित्त ! कयं मए. महंतमेयमकज्ज ति, दिन्नो छणिंदुमण्डलुज्जले

१ सङ्केतः—“छोत्तिउ ति छोत्तिर—स्पृश्यस्य स्वर्गं तत्सम्बन्ध” ॥ २ सङ्केतः—“सर्वै(त)तिः इति प्रवाहादिजलम्, विषुषः जललया-(त्रा), तुह्य(ब्रह्म)विन्दवः वेदारिण्यता(वेदादिपठतां) निष्ठीवनकणा, सम्भ्रमे परचक्रादिभये” ॥ ३ “महाप्रमोदम्” जेटि० ॥  
 ४ बहियं ख१, बहिं ख२ आ० ॥ ५ संकेतः—“लयणि ति शाखा” ॥

- नियकुलम्मि मसिकुच्चओ, मरियव्वं च संव्वहा मए तयदंसणे, तद्वा वि तुरियतुरयेवाहणेणऽन्नेसिऊण जीवमाणि-  
 माणेहि तं, मरणनिच्छयं वा लहाहि' ति । दत्तो वि 'जहाऽऽणवेड देवो' ति भणंतो दुँत्ति निग्गओ । तओ ससंभमं  
 भमंतो निसामियपएसाणुसारेण देवनिओगेण तावसमेगमालोऽऊण कयप्पणामो पुच्छिउं पवत्तो 'रिसिकुमार !  
 5 दिट्ठा तुमए तुह संवंधितावसेण वा केणइ इहाऽरन्ने पसविउकामा अहिणवपसूया वा सुरवहुसमाणरूवा तरुण-  
 रमणी ?' । तावसेण भणियं 'रायपुत्त ! क्तो तुव्मे ?' । दत्तेण भणियं 'सखपुराओ' । इयरेण भणियं 'ता किं तीए  
 वराईए उवरिं राया वेरं न मुंचड जमज्ज वि अन्निसावेइ ?' । तओ 'जाणइ एसो' ति हरिसिएण जंपियं दत्तेण  
 'मुणिकुमार ! महई एस कहा, अइउत्ताला य अम्हे न कहिउं पारेमो, एस पुण धरमत्थो-जइ अज्ज तं जियंति राया  
 १० न पेच्छइ ता अवस्सं जलन्तजलणजालावलीसु पयंगचरियमणुकरेइ, ता जइ जाणासि कहेहि तीए पउत्ति, देहि  
 देवस्स चउरासमगुरुणो जीवियं' ति । एयं सोऊण करुणावन्नेण नीओ तावसेण कुलवइसमीवं दत्तो ।  
 नमिऊण चलणकमलं कुलवइणो तेण साहियं तत्तं । तेणावि तावसीणं मज्जाओ अत्ति वाहरिया ॥ ३८२ ॥  
 दट्ठण दत्तमह सा निरुद्धकंठं परोविया धणियं । कोडिगुणं पिव जायइ दुक्खं खलु परिचियजणग्गे ॥ ३८३ ॥  
 धीरत्तणेण धरियं पि हिययरुद्धं दुहं अइमहंतं । रोयंतीए तीए झड ति दत्तमाओ वमियं ॥ ३८४ ॥  
 आसासिया य सहसा दत्तेण वि संयरं रुयंतेण । 'मा कुण सामिणि ! खेयं एसो खलु कम्मपरिणामो ॥ ३८५ ॥  
 पाविति मुहं दुक्खं पि दारुणं चित्तगोयराईयं । चित्तमुहा-ऽसुहकम्ममेहिं पाणिणो एत्थ संसारे ॥ ३८६ ॥  
 15 एयम्मि अणुकूले माया भाया पिया पई सयणा । वट्टन्ति वेरिया इव, रिउणो वि इमे व्व अणुकूले ॥ ३८७ ॥  
 भवियव्वयानिओया तुम्हं अच्चव्वुयं इमं वत्तं । तहनेहनिव्वभरेण वि रम्मा ज कारियं एयं ॥ ३८८ ॥  
 अणुभूयं सुयणु ! तए सच्चं अच्चंतदारुणं दुक्खं । एत्तो वि अणंतगुणं रम्मा वि अओ निमित्ताओ ॥ ३८९ ॥  
 संपड पच्छायावी इच्छइ सो साहिउं खलु हुयासं । अज्जेव जइ न पेच्छइ तुह वयणं जीवमाणीए ॥ ३९० ॥  
 ता सुयसु मन्नुमहुणा कालक्खेवो वि खमइ नो एत्थ । आरुह रहवरमेयं एयं चिय संपयं सेयं' ॥ ३९१ ॥  
 20 कयनिच्छयं नरिदं नाउं गमणुमुया इमा जाया । पडिकूलस्स वि पइणो हियमेव मणं कुलवहूणं ॥ ३९२ ॥  
 नमिऊण पुच्छिऊण य कुलवइमह रहवरं समारूढा । पत्ता य पओसे नयरवाहिरे पत्थिवावासे ॥ ३९३ ॥  
 संपुन्नंतणुं दइयं दट्ठण महुद्धवं व्हंतो वि ! लज्जोणामियवयणो न तरइ तं पुलइउं राया ॥ ३९४ ॥  
 एत्थन्तरम्मि रम्मं वद्धावणयं पवज्जियं तूरं । आरत्तियाइकज्जे समागयं पायमूलं पि ॥ ३९५ ॥  
 पिसुणियपरमाणंटे मणहरगंधव्वतूररवमुहले । निव्वत्तियम्मि सयले संज्जाकिच्चे पुहइनाहो ॥ ३९६ ॥  
 25 आणंढामयसंसित्तगत्तसामन्तमंतिचकेण । सलहिज्जंतो उचियं कालं दाऊण अत्थाणं ॥ ३९७ ॥  
 लद्धावसरो परिओसनिव्वमरो उट्ठिओ सउकंठो । पत्तो पियासमीवं रोहिणिमूलं मयंको व्व ॥ ३९८ ॥  
 दिट्ठा य मन्नुभरमंथरमुही देवी । अइऊसुयचित्तयाए य दोहिं वि करेहिं उन्नामिऊण से उत्तमंगं 'अहो !  
 एयं तं महानिहाणं व 'दिप्पंतरयणं, माणससरनीरं व विसालच्छं, वीयरगवयणं व अंतरंगरिउनासं सुस्सवणा-  
 हिट्ठियं च, जलहिज्जलं पिव विहमच्छायाहरं मम संजीवणोसहं मुहं' ति जंपमाणो वाहोल्लोयणाए घग्घरकंठं

१ 'यसाहणेण' जे०विना ॥ २ संकेत.-"दुत्ति ति जीवम्" ॥ ३ 'वि तओ तावस्सिमज्जाओ जे०विना ॥ ४ 'यं पायं जे० ॥ ५ 'तणुं भ्रा० ॥ ६ संकेत.-" दिप्पंतरयणमित्यादौ [निधानपक्षे] रत्तानि, [उत्तमाङ्गपक्षे] रदनाश्च । [मानससरोनीरपक्षे] विशालं च तद् अचट्ठं च, [उत्तमा०] विगालाक्षं च । [वीतरागवचनपक्षे] अन्तरङ्गान् रिपून् नागयतीति, [उत्तमा०] अन्त-सुखस्य सम मध्यभाग अङ्गतीत्यन्तरङ्गा रीञ्जी(ऋञ्जी) च नासा यस्मिन्; [वीतराग० स्ववणा] श्रमणा-व्रतित्ति, [उत्त०] कर्णा च श्रवणौ । [जलधिजलपक्षे] विहमच्छाय धरति, [उत्त०] विहमच्छायोऽधरश्च यत्र" ॥

भणिओ देवीए 'देव ! अलं मे वराङ्गीए देसिणीए भग्गसोहग्गसिंकाराए मंदभाङ्गीए वन्नएणं' ति । ताहे राङ्गा संलत्तं 'देवि ! पावो हं अणज्जचरिओ अच्चंताहमो जेण तुहेरिसं दारुणं दुक्खमुप्पाइयं, लज्जामि य तुह पुरओ नियदुट्टचेट्टिणं, तुमं पुणऽऽभुयभूयपुण्णपवभारभायणं ता खमाहि मे मंदभग्गस्स महंतं पि दुक्कडमिणं' ति । देवीए भणियं "देव ! न कोड एत्थ दोसो तुम्हाणं, मम चेव पावपरिणई एसा । जओ—

सव्वो पुव्वकयाणं कम्माणं पावए फलविवाणं । अवराहेसु गुणेसु य निमित्तमेत्तं परो होइ ॥ ३९९ ॥ 5

तहा वि पुच्छामि 'देव ! केरिसदोसस्स इमो दारुणो देवेण मम दंडो कारिओ त्ति ?' । रत्ता बुत्तं—  
"जह नत्थि फल वंजुलदुमस्स, वड-उंवरेसु वा पुप्फं । तह दइए ! तुह देहे न विज्जई दोसलेसो वि ॥ ४०० ॥  
अन्नाणंवेण मए अहुन्तदोसो विभाविओ तुज्ज । पेच्छन्ति ब्रामलच्छा दीवे मंडलमसंतं पि ॥ ४०१ ॥  
कहिउं पि तं न तीरइ अन्नाणवियंभियं महापावं । तह वि 'तुहाऽऽकहणिज्जं नत्थि' त्ति सुणेहि हरिणच्छि !" ॥ ४०२ ॥

एवं भणिऊण साहियं से कोवकारणं । राङ्गा पुच्छियाए देवीए वि निवेइओ नियबुत्तं । तं च सोऊण 10  
विम्हिओ नराहिवो भणिउं च पेवत्तो—

'वज्जिस्सइ मम एसो आससि-सूरं पिए ! अयसपडहो । तुह पुण सीलपडाया सपाडिहेरा जए फुरिही ॥ ४०३ ॥

अणुतावग्गिपलित्तं विज्जाइस्सइ न माणसं मज्ज । वीसरिउमसकं तुज्ज दुहमिणं संभरंतस्स ॥ ४०४ ॥

जं च तुह संगमासा जाया कारुणियपवरगुरुवयणा । तेण न मओ मि सुंदरि ! दुक्खंतरभीरुओ तुज्ज' ॥ ४०५ ॥

तो भणियं देवीए 'मन्ने पुन्नेहिं एयवालस्स । विसमीभूया वि दसा समत्तमम्हाण संपत्ता ॥ ४०६ ॥ 15

धन्नो य गुरु भयवं निम्मलनाणावलोयकलिण । जेण तुह सुद्धवुद्धी दिन्ना कारुन्नसारेण ॥ ४०७ ॥

दंसेहि तं सुणिंदं महाणुभावं महं पहायम्मि' । 'एवं' ति अब्भुवगयं एयं रत्ता पसन्नेणं ॥ ४०८ ॥

इय अवरोप्परनिव्वुइयदुक्खसाणुणयवयणनिरयाण । खीणा खणेण खणया तेसिं नवघडियनेहाणं ॥ ४०९ ॥

सूरुगमम्मि दोहिं वि पणिवइओ अमियतेयमुणिनाहो । तेणावि कया गंभीरदेसणा सीलथुइसारा ॥ ४१० ॥

अवि य—

सीलं कुलघ्नइकरं, सीलं जीयस्स भूसणं पवरं । सीलं परमं सोयं, सीलं सयलावयामोयं ॥ ४११ ॥

सीलं दोग्गइमहणं, सीलं दोहग्गकंदनिदहणं । वसवत्तिसुरविमाणं सीलं चिंतामणिसमाणं ॥ ४१२ ॥

थंभइ खणेण जलणं वेयाल-व्वाल-भोगिपरिखलणं । सायरजलोहतरणं गिरिसरिनीरोहरयंधरणं ॥ ४१३ ॥

सीलइहाण जणाणं तियसा वि वहंति मत्थएणाऽऽणं । गुणसंक्रित्तणवग्गा कुणंति किच्चाइं एगग्गा ॥ ४१४ ॥

किं बहुणा ?—

तं नत्थि जं न सिज्जइ सीलसहायस्स देहिणो भुवणे । विज्जा-मंताइयं महंतमन्नं पि विक्खणयं ॥ ४१५ ॥

अहव सयं चिय दिट्ठं अब्भुयभूयं इमस्स माहप्यं । तुव्भेहिं पिययमाए देहस्स पुणन्नवीभवणं ॥ ४१६ ॥

जइ पुण लहइ सहायं सम्मत्तमहानिलं महीनाह ! । ता एस सीलजलणो डहेइ कम्मिधणं सहसा ॥ ४१७ ॥

सम्मत्तं पुण पत्थिव ! नेयं तत्तत्थसदहणरूवं । अमुहकवएण तं पुण लव्भइ आसन्नभेदेहिं ॥ ४१८ ॥

एयं खु परमतत्तं समत्तसंपत्तिउत्तमनिमित्तं । सत्ताणं सत्ताणं भवकंतारे सरंताणं ॥ ४१९ ॥ 30

एयम्मि पत्तमेत्ते भवजलही गोपयं व जीवस्स । पत्ते चित्तारयणे दोगच्चं केच्चिरं होइ ? ॥ ४२० ॥

- १ पयत्तो खर ॥ २ "रात्रि" जेटि० ख१टि० ॥ ३ 'यहरणं खर ॥ ४ सङ्केतः—"विक्खणयं ति कार्यम्" ॥ ५ 'भवेहिं जे० खर ॥ ६ संकेतः—"सत्ताणं ति सत् शोभन त्राणम्" ॥

लब्धन्ति दिव्यभोगा, लब्धन्ति नरिंद-इंदरिद्धीओ । लब्धन्ति सुविज्जाओ, दुलहं पुण एत्थ सम्मत्तं ॥ ४२१ ॥  
 एयम्मि महारयणे दिप्पंते हिययमज्झमायम्मि । परियाणिज्जइ देवो सव्वन्नू सव्वसत्तहिओ ॥ ४२२ ॥  
 राग-दोसकसाय-मोहमहणो निहडुहकम्मिधणो, लोया-ऽलोयपयासकेवल्लुणो मुक्काउहो निब्भओ ।  
 सावा-ऽणुग्गहवज्जिओ छुह-तिसा-निदा-रुया-विस्ससा-कीला-हास-विलास-सोयरहिओ देवाहिदेवो जिणो ॥४२३॥

जो पओसो वि अदिट्ठोसायरो, पायडगोसँगो वि नरविसोहिओ, अपईवो वि नेहगुणनिहणहेऊ, अमहि-  
 5 लाहिलासो वि अणंगसुहसमद्दासिओ, असमोसरणो वि सुरा-ऽसुर-नरिंदाणंदयारिसमोसरणो, नीरँओ वि नरयगइ-  
 निवारओ, परमयारी वि असहभावो त्ति । अवि य—

°संवरसूयणविमुहो जो सूयइ संवरं वरं वरयं । किन्ती कंती सुत्ती वाणी वि सुहासिया जस्स ॥ ४२४ ॥  
 इय विविहगुणावासो देवो निव्वाणसोक्खतिसिएण । सम्मत्तपभावाओ लक्खिज्जइ भव्वजीवेण ॥ ४२५ ॥  
 तथा—

10 हिंसादोसविमुक्को सुसमिक्खियसव्वसत्तहियवयणो । तणमेत्तं पि अदत्तं वैज्जंतो वंभवयजुत्तो ॥ ४२६ ॥  
 धण-धन्न-सुवन्नय-पुत्त-मित्त-घर-घरिणिसंगपरिहारी । समसत्तु-मित्त-तण-कणय-मणिगणो उवसमपहाणो ॥४२७॥  
 अहवा—

खमनिसियासिन्निज्जियअइदुज्जयकोहजोहमाहप्पो । मद्दवजलविच्छोलियमयचिकणकदमालेवो ॥ ४२८ ॥  
 अज्जवमंतनिवारियदप्पियमायाभुयंगिसंचारो । सुत्तिनववियडवेडालंधियगुरुलोहनइनाहो ॥ ४२९ ॥  
 15 दिप्पंततिव्वतवहव्ववाहडज्जंतकम्मदारुगणो । संजमपायारनिरुद्धकूरकम्माऽहियपवेसो ॥ ४३० ॥  
 सच्चवरमंतिमंतियहेलासंसिद्धसयलसुहकज्जो । °सोयामोयपमोइयविउसगणरसाउमणकुसुमो ॥ ४३१ ॥  
 आकिंचन्नयसन्नाहनिहयनीसेसवसणसत्थगणो । वंभवययरणनिहाणलाभपरिचत्तदुक्खभओ ॥ ४३२ ॥  
 भवसरणं निस्सरणं सुणिय मेहंतो तओ वि निस्सरणं । जो पालइ वयमग्गं दंसितो सिद्धियमग्गं ॥ ४३३ ॥  
 एयारिसो महप्पा परोवयारुज्जओ विमलनाणो । सम्मत्तस्स पभावा लब्भइ सुगुरु वि भव्वेहिं ॥ ४३४ ॥  
 20 ता अहरियचित्तमणिकप्पहुमकामधेणुमाहप्यं । सम्मत्तमिणं पत्थिव ! आहारो सव्वसुकयाणं ॥ ४३५ ॥  
 इच्चाइ देसणं सोऊण संजायासुहकम्ममुच्छेएण पाउब्भूयनिविडकम्मगंठिमेएण मिच्छत्तवासणाविरत्तेण परि-

१ सङ्केतः—“ जो पओसो वीत्यादौ प्रदोष-रात्रि, प्रकृष्टस्तोषोऽस्मात् स प्रतोषश्च । दोषाकर-चन्द्र, दोषादर[श्च] । गोसर्ग-  
 प्रभातम्, प्रकृष्टो गवा-वाणीना सर्गो यस्य, स च न रविणा शोभित, नराणा विशोधिदश्च । अप्रदीप अप्रतीपश्च । स्नेहगुणस्य-तैलवर्तिरूपस्य  
 निघनहेट्टु, न-नैव इह-जगति गुणाना विनाशहेट्टुश्च । अमहिलाभिलाषोऽपि, यदि वा न सन्ति महिलाहिला-ऽऽस्यानि-स्त्रीभुजा-सुखानि  
 मनस्यपि यस्य । अनङ्ग-काम, अनङ्ग च सुख मुक्के(क्के) । असमवसरण, [समोप-रण-] सह भोप-रणाभ्या वर्तते, यो न तथाऽसमोष-रण,  
 यदि वा असम-असाधारणो [१ अशरण-] हिंसारहित, श्रू-हिंसायाम् । नीरदो नीरजश्च । न-नैव रजोगतिनिवारको नरकगतिनिवारकश्च ।  
 परमृगारि परमत्तारिश्च । असटासद्भाव अशठभावश्च । सवरसूदन-काम, सवरसूचन च । सूचयति च वर-प्रधान वरद च सयमम् । कीर्ति  
 सुधासिता, कान्ति सुभासिता मूर्ति सुभाश्रिता, [वाणी] सुभाषिता” ॥ २ “पक्षे प्रगतदोष, अत एव न दोषविधानम् ।” जेटि० ॥  
 ३ “पक्षे वाणीनां निर्गम ।” जेटि० ॥ ४ “महिं ला[ती]ति महिल, तदादिग्रहणाभिलाषी न ।” जेटि० ॥ ५. “यो बध्यमान-  
 कर्मरहित स रजोगतिनिवारको नेति विरोध ।” जेटि० ॥ ६ “य प्रकृष्टसिंहः सोऽसटाभाव-केशरारहित इति विरोध, परिहारस्तु  
 प्रकृष्टमदारि मायारहितश्च ।” जेटि० ॥ ७ विरोधपरिहारे सवरसूदन-काम तस्य विमुखो य सूचयति-कथयति सवरं-सयम श्रेष्ठ  
 वाञ्छितार्थप्रदम् ।” जेटि० ॥ ८ “चत्तसोपि [कीर्ति-कान्ति-मूर्ति-वाण्य] क्रमेण सुधासिता, सण्डु भासिता, सुखाश्रिता, सुभाषिता ।”  
 जेटि० ॥ ९ वज्जितो जे०विना ॥ १० सङ्केतः—“सोयामोय त्ति शौचामोदेन प्रमोदिता विद्वद्गणभ्रमरा येन तथाविध [१ मन]कुसुम  
 यस्य” ॥ ११ सङ्केतः—“महंतो त्ति अभिलषन्” ॥

याणियपरलोयमग्गतत्तेण कयप्पणामेण जपियं सदेवीए पुहइपहुणा 'भयवं ! अच्चंतसोहणो एस देवाहिदेवो गुरु य, तहा गुरुगुणकहणेण साहिओ चैव भयवया परमत्थधम्मो, इच्छामो य इमं धम्ममणुट्टिउं किंतु दुपरिच्चओ अवच्चनेहो, ता जाव इमं बालयं पालेमो ताव पयच्छह गिहत्थोचियं धम्माणुट्टाणं' ति । तओ विन्नायतदोचित्तेण सम्मत्तपहाणो पंचाणुव्वइओ दिन्तो गुरुहिं तेसिं दोन्हं पि सावगयम्मो त्ति । तओ वदिऊण भयवंतमणाइक्खणीयं पमोयरसमुव्वहंतो करेणुमारुहिऊण पत्थिओ नयरब्भंतरं ।

5

अह आगच्छइ राया देवी य कलावई निरुयदेहा । जाओ परमाणंदो नर-नारीणं सयलनयरे ॥ ४३६ ॥  
 मंगलतूरनिनाओ उद्दामो नहयले वियंभंतो । उग्घोसइ व्व पयडं माहप्पमहो ! महसईणं ॥ ४३७ ॥  
 पंच्छाइयाओ हच्छं रच्छओ दीहलोलनेत्ताहिं । पयडुज्जलरयणाहिं य रमणीहिं व हट्टसोहाहिं ॥ ४३८ ॥  
 दरमंडियगंड-दरंजियच्छि-दरपरिहियंवरधराहिं । दरवद्धचिहूर-दरपीयपाण-दरनद्धहाराहिं ॥ ४३९ ॥  
 अवहत्थियरोइरबालयाहिं अंबगणियगुरुयणभयाहिं । पंडहच्छा हच्छं चिय वहुहिं घर-देउलट्टाला ॥ ४४० ॥ 10  
 देवीदंसणकोउयमिलियाणिमिसच्छिरमणिरुद्धासं । जायं सहसा नयरं विसइकमलायरायारं ॥ ४४१ ॥  
 काओ वि सतोसाओ सियकुसुमंजलिजलेण देवीए । अयसमलं पिव धोयंति सीलगुणसंथुइपराओ ॥ ४४२ ॥  
 जय जय नंद महासइ ! जीव चिरं जीविणण अम्हं पि । सिरकयकरंजलीओ थुणंति काओ वि तुट्टाओ ॥ ४४३ ॥  
 इय नयरजणाणंदं जणयंतीए समं पिययमाए । कयमंगलसयलक्खं राया नियमंदिरं पत्तो ॥ ४४४ ॥  
 आइट्टं च विसिट्टं वद्धावणयं नरिंदचंदेण । उप्फालिय सुयजम्मं चारयपरिमोयणाईयं ॥ ४४५ ॥ 15  
 मरणा निव्वो नियत्तो, मिलिया देवी, सुओ य पढमो त्ति । अमयमयं पिव भुवणं जणाण जायं दिणे तम्मि ॥ ४४६  
 तओ—

दिज्जंतदेयं पिज्जंतपेयं खज्जंतखज्जं भोज्जंतभोज्जं । वज्जंतवज्जं कीरंतकज्जं नच्चंतनट्टं घोसंतभट्टं ॥ ४४७ ॥  
 उद्दामसइ भन्नन्तभइं सारंगभोयं तूरंतलोयं । मंगलसारं तंबोलफारं तुट्टंतहारं रंज्जंतदारं ॥ ४४८ ॥  
 कयसयलजणच्छेरं उवहसियकुवेरिद्धिसुंदेरं । दिन्नावारियसत्तं वद्धावणयं इय पवत्तं ॥ ४४९ ॥ 20  
 किंच—

कत्थइ नच्चन्ति नडा, कत्थइ कयचोज्जरुज्जवामणया । कत्थइ चारवहूओ, कत्थइ कुलवालियालीओ ॥ ४५० ॥  
 देवउल-घरंगण-तिय-चउक्क-सिंघाड-चच्चराईसु । पेच्छणयाऽमायजणं मंडहं व पुरं तया जायं ॥ ४५१ ॥  
 रासेहिं चच्चरीहिं घोरणघोसेण तारगीएहिं । अक्खित्तेहिं सुरेहिं वि कुसुमेहिं पवरिसियं तत्थ ॥ ४५२ ॥  
 एवं पमोयसारं समइक्कंते दुवालसाहम्मि । सुहि-सयण-बंधवेहिं बालस्स पइट्टियं नामं ॥ ४५३ ॥ 25  
 ज एस पुन्नपुत्तो जणणी-जणयाण जीवणगुणेण । कलससुमिणेण लद्धो ता भन्नउ पुन्नकलसो त्ति ॥ ४५४ ॥  
 एवं सुहेण काले वच्चंते राइणो सभज्जस्स । देव-गुरु-भत्तिसारं धम्मस्सवणं कुणंतस्स ॥ ४५५ ॥  
 जाओ विसयविराओ उभयाणुमएण ता दुवेहिं पि । पडिवन्नं वंभवयं जावज्जीवं गुरुसमीवे ॥ ४५६ ॥

एवं च तेसिं पवित्तचित्तवित्तिधरितीए गुरुनीरवाहोवएसपिच्चेर्ण सिच्चंतीए सुद्धविवेगवीयप्पभवो पविट्ठो सम्मइंसणकप्पपायवो । वित्थरिओ पसम-संवेगाडगुणसाह-प्पसाहाहिं, परिवारिओ देव-गुरुपूयण-वंदण-सकारनिरन्तर- 30

१ सङ्केतः—“पच्छाइयाओ इत्यत्र हच्छं शीघ्रम्, नेत्राणि-चक्षुसि वल्लविशेषाश्च । रदना, रत्नानि, रचना वा” ॥ २ “परहियं” जे०विना ॥ ३ अविगणियं खं० ॥ ४ सङ्केतः—“पडहच्छ त्ति परिपूर्णा” ॥ ५ नयरिजं जे० ॥ ६ रुभंतदारं जे०विना ॥ ७ संकेतः—“मडहं ति लघु” ॥ ८ सङ्केतः—“पिच्चेण जलेन” ॥

पळवेहिं, अप्पुटो कुस्सुइदुव्वाएण, अवंडिओ संका-कंवाइपहियविंदिहिं, सुगुत्तो साहुजणसेवामहल्लेखरीए ।  
 'कुसुमावसरो' ति पुणो वि सित्तो गुरुहिं सुद्धदेसणासंरणीए । कंठं ?—

जहिं जिणपूय जिणिंदभत्ति जिणमहिम हिआयरु, जहिं पूइज्जइ चउपयारु जिणसंघु गुणायरु;  
 तित्थपभावण जहिं महत्थ पडणीयनिवारणु, तं सल्लहिज्जइ जगि पडुत्तु सुहसिद्धिहि कारणु ।

5 ता दुल्लह पाविवि रायसिरि, चंचलु जाणिवि जीय धणु । सम्मत्तमहागुणसिद्धियरि, तित्थपभावणि करहि मणु ॥४५७  
 तयणंतरं च पवत्तो एस प्पभावणाकुसुमप्पयाणे । तं जहा— पवत्तेइ पुव्वकयजिणाययणेसु महामढिमाओ,  
 उद्धरेइ सडियपडियाइं, कारवेइ अउव्वाइं, गउरवेइ साहुजणं, अब्भुद्धरेइ विहलिए साहम्मिए, इयरे वि करेइ करभर-  
 रहिए, उव्वसामेइ जिणसासणपच्चणीए त्ति । तओ परिव्वालिज्जण सावगयम्मं रज्जभरधुराधारणपच्चलं च पुनकलसकुमारं  
 वियाणिज्जण धम्मजागरियं जागरंतो चित्तिउं पवत्तो—

10 अहो ! अचंतदुत्तरो संसारसायरो सारीर-माणसाणेगदुक्खलक्खापारो, तदुत्तरणे जिणप्पणीयधम्मो चेव जाणवत्तं,  
 न उण लब्भइ एस विणा माणुसत्तं, तं पुण धम्मरहियाण रयणायरोयरपडियरयणं व सुदुल्लहं, तत्थ वि संपुन्न-  
 पुन्नभाइणो चेव निसुणंति सुगुरुधम्मकहं, सुणंताणं पि दुल्लहं विरइरयणं, जओ दुक्करं कायराण विसयसंगचयणं,  
 दुच्छेज्जा पुत्त-कलत्त-निद्धवंधुसिणेहपासा, दुन्निवारा य धण-सयणसंगमासा, दुक्खकारणं च सव्वमेयं, ता धम्म-  
 चरणमेव सेयं, वन्धणभूयं च रज्जं करेइ जीवं नरयगमणसज्जं, ता परिच्चयामि एयं, उव्वज्जेमि निरवज्जसेयं ति ।

15 परिभाविज्जण एयं, काज्जण य निच्छयं चरणगहणे । साहइ कळावईए, तीए वि सतोसमह भणियं ॥ ४५८ ॥  
 'विसयसुद्धं निस्सारं जाणिय जो कुणइ गेहनिस्सारं । सो दूरियसंसारं पावइ नेव्वाणसं सारं ॥ ४५९ ॥  
 तथा—

जोइयजवणतुरंगं जाणं पिव जाइ जीवियं सामि ! । ता कीरउ तुरियमिणं बहुविग्घो चरणपरिणामो' ॥४६०॥  
 'एवमिणं' ति भणंतो आपुच्छियसयलमंति-सामंतो । अहिसिंचइ वरकुमरं राया रायाहिसेएणं ॥ ४६१ ॥

20 तथो—

पारद्धा जिणमंदिरेसु महिमा कामं मणोहारिणी, मारीवारणपुव्वयं च विहिणा संघस्स पूया कया ।

दिक्खं दाणमणिंदियं बहुविहं दीणाइणं पाणिणं, लहं अट्टदिणाणि जाव रइयं वंधूण सम्माणं ॥ ४६२ ॥

वद्धाविओ ताव नरिंदचंदो उज्जाणपालेण पणामपुव्वं । देवाऽऽगओ अज्ज जणाण पुज्जो अणंगजेयाऽमियतेयसूरी ४६३

अह वसुमइनाहो चारुरोमंचराहो, सयलवलसमग्गो लोयरुव्वन्तमग्गो ।

25 चरणधरणसज्जो मुत्तिकामी सभज्जो, सुगइसमणुकूल पाविओ सूरिमूलं ॥ ४६४ ॥

अभिवंदिज्जण विहिणा विन्नत्तो तेण मुणिवरो एवं । 'रुंदम्मि भवसमुहे बुद्धंतं पाहि मं भयवं ! ॥ ४६५ ॥

'देहि लहु सारफलं सयन्नहारं अलोहसंबंधं । दिक्खानावं विभयं सियवडसमहिट्टियमच्छिद्धं' ॥ ४६६ ॥

गुरुणा वि तओ भणियं 'जुत्तमिणं मुणियभवसरूवाणं । को नाम पलित्तगिहे धरेइ डज्जंतमप्पाणं ? ॥ ४६७ ॥

पत्तं च तए नरवइ ! फलमउलमिमस्स मणुयजम्मस्स । अचंतदुल्लहो जं पत्तो चारित्तपरिणामो ॥ ४६८ ॥

30 चाइसु तुमं पढमो संपड नीसेससंगचायाओ । सरेसु तुमं सरो इय दुक्करसाहसरसाओ' ॥ ४६९ ॥

१ संकेतः—“झल्लरीए ति वाडया(वृत्त्या)” । “वृत्ति” जेटि० ॥ २ संकेतः—“सारणीए ति खल(२ कुल्यया)” ॥ ३ संकेतः—  
 “नेव्वाणसं सारं ति निर्वाणस्य श-सुख सार-प्रधानम्” ॥ ४ सङ्केतः—“देहि लहु सारफलं इत्यत्र [ नावापक्षे ] साराणि  
 फलकानि यस्याम्, [ दीक्षापक्षे ] सारफलं ददाति । [ नावा० ] सह कर्णधारण, [ दीक्षा० ] सकर्णान् हरति-रक्षयति च । [ नावा० ] न लोहेन,  
 [ दीक्षा० ] न लोमेन च सम्बन्धो यस्या । [ नावा० ] सिव(त पटेन-सिडनात्रा पटेन, [ दीक्षा० ] सिताम्बराचार्येण च बुक्काम्” ॥

उववृहिक्रण एवं उल्लसियविसुद्धचरणकरणिच्छो । पञ्चाविओ सुगुरुणा विहिणा विच्छडुसारेण ॥ ४७० ॥  
तओ—

रज्जुवलंभव्भहियं पमोयसुहसायरं समोगाढो । जइकिच्चनिच्चनिरओ संजाओ सखरायरिसी ॥ ४७१ ॥  
कालोचियसुत्तयो कालोचियचरणकरणतल्लिच्छो । कालोचियतवकम्मो कालोचियउज्जयविहारी ॥ ४७२ ॥  
दूसमदोसा जइ वि हु तुच्छं संघयणमवलमंगं पि । दुलहाइं विविताइ संजमजोग्गाइं खेत्ताइं ॥ ४७३ ॥ 5  
विरियं पि कालदोसा न पहुप्पइ दुकरासु किरियासु । अइउज्जया सहाया वि दुलहा निच्छिउच्छाहा ॥ ४७४ ॥  
तह वि हु अकज्जविसए अकरणनियमो इमस्स फुडमत्थि । जयणावित्तिपहाणो अनासगो चरणरयणस्स ॥ ४७५ ॥  
भणियं च—

जयणा उ धम्मजणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चैव । तव्वुडिढकरी जयणा, एगंतसुहावहा जयणा ॥ ४७६ ॥  
जयणाए वट्टमाणो जीवो सम्मत्त-नाण-चरणणं । सद्भावोहासेवणभावेणाराहओ भणिओ ॥ ४७७ ॥ 10  
जीए बहुयराऽसप्यवित्तिविणिवित्तिकारणं वत्थुं । सिज्जइ चेट्ठाए जओ सा जयणाऽऽणाए विवइम्मि ॥ ४७८ ॥  
खेत्तविहाराभावे वसही-संधारयाण परियत्तो । पडिमासु असामत्थे दव्वाइअभिग्गहासेवा ॥ ४७९ ॥  
एसणविसए असहू गुरुलाघवमागमाणुसारेण । नाऊण तणुं जावइ ओमगिलाणादवत्थासु ॥ ४८० ॥  
वुत्तं चागमे—

फासुयएसणिएहिं फासुयओहासिएहिं कीएहिं । पूईए मीसिएण य आहाकम्मेण जयणाए ॥ ४८१ ॥ 15  
सुत्तविहिणाऽववाए वि वट्टमाणो न वाहए चरणं । भणिओ तयत्थमेव हि जम्हा एसो जिणिदेहिं ॥ ४८२ ॥  
कारणकयं पि सम्मं आलोयण-निंदणेहिं गुरुमूले । सेवियपायच्छित्तो सोहइ एसो महासत्तो ॥ ४८३ ॥  
इय दव्वओ असुद्धं पि भावओ सुद्धचरणमणुचरिउं । अणसणसमाहिजुत्तो कालं काऊण सखमुणी ॥ ४८४ ॥  
उववन्नो सुरसुंदरिकडव्वक्किंक्रियेविचित्तमित्थिले । सोहम्मतिलयभूए पउमविमाणे सुरो जुइमं ॥ ४८५ ॥  
कालेण विमलसीला कलावर्द्धं संजई वि तह चैव । कयदेहपरिच्चाया देवी तस्सेव संजाया ॥ ४८६ ॥ 20

दिप्पंतुद्दाम्भतेयं सुविसयविसयासायसायाविसायं, सारं सारंगहारामररमणिमहानट्टेहापयट्टं ।

चिन्तासंपत्तकामं मयपुरिमभवं भावियन्नोन्ननेहं, सग्गे वुत्थं सुसुत्थं सुरमिहुणमिणं पंच पल्लोवमाइं ॥ ४८७ ॥  
सव्भावसाराण मुणीणमेयं किंचूणक्किच्चाण वि सच्चरित्तं । नेव्वाणकप्पहुमवीयभूयं कुजोणिवारं मुणिणो भणंति ॥ ४८८ ॥  
तम्हा असग्गाहविवज्जिएहिं होयव्वमेवं चरणुज्जएहिं । न दूसमालंघणतप्परेहिं पमाइयव्वं मुणिपुंगवेहिं ॥ ४८९ ॥  
अन्नाणदोसा पुण जे भणंति न दूसमाए चरणं खुअत्थि । निसामियव्वं वयणं न तेसिं पावाय तेसिं खल्लुदंसणं पि ॥ ४९० ॥  
आरंभिणो कामगुणेसु गिद्धा चरित्तभारुव्वहणेऽसमत्था । पेच्छन्ति साहूण असंतदोसे गुणे न संते वि महातमंथा ॥ ४९१ ॥  
सावज्जारंभसुक्का तवचरणरया वंभचेरप्पहाणा, सज्जायज्जाणसत्ता परमयमहणा तित्थवित्थारसारा ।  
सेवंता सुत्तवुत्तं किमवि गुणकरं कारणेणाववायं, चारित्ताराहगा भो ! मुणिवरवसभा मखसाहु व्व हंति ॥ ४९२ ॥

॥ इय पुहइचंदरायरिसिचरिए पढमचारित्तलाभवन्नणं पढमभवग्गहणं समत्तं ॥ १ ॥

[ गन्थाग्रम्-९२५ ]

१ संकेतः—“किंकियं ति धवलम्” ॥ २ संकेतः—“दिप्पंतुद्दाम्भ० इत्यत्र सुविशदेन विषयास्वादेन यत् सात-सुख तेनाविषादम् ।  
मत-सम्मत प्राक्चन-अग्नेतनश्च भवो त्यस्य तत् तथा । इति प्रथमो भव ॥ १ ॥” ॥



## [ बीओ कमलसेण-गुणसेणाभवो ]

उवञ्जिऊण सुइरं सुकयफलं सोवसेसतल्लेसो । जं सुहपरंपरमिमो संपत्तो तं निसामेह ॥ १ ॥

अत्थि इह जम्बुदीवे दाहिणभरहद्धमज्झखंडम्मि । गामा-ऽऽगर-पुर-पट्टणरम्मो मणिपिगलो देसो ॥ २ ॥

मैणहरविसयग्गामो मणोभिरामो त्ति सत्तिट्ठिवसामो । अइसुरससुहासायणसुत्थियपुरिसित्थिसंदोहो ॥ ३ ॥  
तत्थ सिरीसाहिट्ठियमहावणालंकिं वहिं अंतो । पोयणपुर विसालं अत्थि महासालकलियं पि ॥ ४ ॥

जं च जम्बुदीवं पिव सैयालवणरयणायरपरिगयं, कइलासगिरिसिगं पिव सइसमुन्नयपरवलाहयं, सुजाय-  
गज्ज-गोधूमवल्लरं पिव पमुइयविउलचित्तकासयं, पाउससरुवं पिव पलोइज्जमाणविचित्तसमुग्गयवीहियं, तथा पसाहिय-  
मप्पासाएहिं पासाएहिं, टिविट्ठिकियं हिमगिरिकूडागारेहिं सुरागारेहि, उज्जोइयं फुरंतकडय-कुंडल-हारमणीहिं  
रमणीहिं, भूसियं मयरद्धयसरिसेहिं पुरिसेहि । अहवा संकुलं सुणिवरेहि व महव्वयधणेहिं, सुरेहिं व अणमिसलोयणेहिं,  
असुरेहि व कइवच्छलेहिं, पन्नगिंदेहि व महाभोएहिं लोएहिं ति ।

तत्थ य होत्था दैरियारिदंतिविचासदित्तहरियक्खो । वंधवक्कुमुयमयंको राया सत्तुज्जो विजई ॥ ५ ॥

सूरेण वि जेण जणो न ताविओ चंडकरनिवाएण । वित्थारियं न थेवं पि उदयपत्तेण कमलवणं ॥ ६ ॥

नाएण जणो, वाएण सुहिगणो, पेहिएण रमणीओ । पच्चत्थिणो पयावा वट्ठंति वसे सया जस्स ॥ ७ ॥

तस्स य सुवंसजाया जाया धणुलट्ठियं व्व गुणजुत्ता । देवी वसतसेणा अईवइट्ठा वरिट्ठा य ॥ ८ ॥

पियंमाहवि व्व मियमहुरभासिणी विणयलच्छिक्कुलगेहं । लायन्ननीरसरिया सीलालंकारसारा य ॥ ९ ॥

तीए सद्धिं रन्नो निरवज्जं रज्जमुज्जियपयावं । पालितस्स सुहेणं बोलीणा वच्छराऽणेगे ॥ १० ॥

ताव य से देवीए उयरसरे पुन्ननीरसंपुन्ने । सुविसुद्धसुकयपक्खो अवयरिओ सखसुरहंसो ॥ ११ ॥

तत्तो छणससिवयणा सुविणे कमलायरं पलोइत्ता । पडिबुद्धा पाहाउयवरमंगलतूरसहेण ॥ १२ ॥

तं पुण पमोयरोमंचकंचुयंचियतणू वियसियच्छी । साहइ पइणो, तेणावि पुत्तजम्मो समाइट्ठो ॥ १३ ॥

तओ 'एवं देव-गुरुपायाणुभावेणं' ति बहुमन्निकुण रायवयणं गव्वं परिवालयंतीए पाउब्भूओ देवीए देव-  
गुरुपूयण-दीणाइदाणदोहलो । पूरिओ राइणा । पल्लया य उचियसमए त्रिप्फुरंतफारतेयं पुव्वदिसि व्व दिवायरं सयल-  
जणाणंदयारयं दारयं ति । ताहे वद्धाविओ सुमुहाए दासचेडीए राया । दाऊण य तीए पारिओसियं समाइट्ठमणेण

१ 'सावशेषतल्लेश' जेटि० ॥ २ संकेतः-“मणहरेत्यादौ मनोहरो विषयाणा-भोगाना ग्राम-समूहो यत्र, मनोहरा विषया  
ग्रामाश्च यत्र । सह त्रिदिवसाम्येन वर्तते, स्वर्गसम इत्यर्थ । अतिसुरसमुधास्वादानेन सुस्थित, सुरेभ्योऽभ्यधिकं सद्युभासादनं सद्युखासादनो  
वा सुस्थितश्च, पुरुष-स्त्रीसन्दोहो यत्र तत् । शिरीषाधिष्ठितमहावनं लक्ष्मीधराधिष्ठितमहाऽऽपणैश्च अलङ्कृतम् । [विसालं ति] विगत(ता) प्राकारो  
वृक्षा गृहविशेषाश्च यत्र तत्, विस्तीर्णं च । महासालेत्यत्रापि त्र्यर्थं सालशब्दः ॥ ३ सङ्केतः-“[जम्बूद्वीपपक्षे] सवालवणरत्नाकरेण,  
[पोतनपुरपक्षे] शोभनालपनरत्नैर्नागरैश्च परिगतम् । [कैलाशगिरिशृङ्गपक्षे] सतीच्छा(श)यो-गौरी-शिवयो मुञ्जया-हर्षप्रापकाः प्रकृष्टा  
बलाहगा यत्र, [पोतन०] सदैव समुन्नतेनापि परवलेन अहतम् । सुजातयव-गोधूमक्षेत्रमिव, [क्षेत्रपक्षे] प्रमुदितविपुलचित्रकर्षकम्, [पोतन०]  
प्रमुदितपक्षिकुलाश्विन्नाः काशयाश्च-जलाशया यत्र । [प्रावृट्स्वरूपपक्षे] प्रलोक्यमानविचित्रं समुद्रतत्रीहिकम्, [पोतन०] प्रलोक्यमानविचित्र-  
सम्पुटका वीथय-हृष्टमार्गा यत्र । अप्रासादै अल्पाऽसातैश्च, अल्पशब्दोऽभाववाची । टिविट्ठिकियं ति भूषितम् । [मुनिवरपक्षे] महा-  
व्रतानि धनं येषाम्, [लोकपक्षे] महाव्ययानि च धनानि येषाम् । [सुरपक्षे] निमेषरहितलोचनै, [लोक०] मत्स्याकारलोचनैश्च । कवि-  
[असुरपक्षे] शुक्रः, [लोक०] विद्धासश्च । भोग- [पन्नगेन्द्रपक्षे] सर्पशरीरम्, [लोक०] कामश्च ॥ ४ सङ्केतः-“दरियं ति हत्ता,  
हर्यक्ष-केसरी” ॥ ५ सङ्केतः-“सूर-रवि वीरश्च, करा-रश्मयो राजदेयाश्च भागाः, कमलाना वनं क्रमस्य लवनं च” ॥ ६ “वादेन-  
भापणेन” जेटि० ॥ ७ सङ्केतः-“पियमाहवी कोकिला” ॥

महावद्धावणयं । अवि य—

दिज्जंतमहादाणं कयचारयमोयणं महाभोगं । सम्माणियसुहिवग्गं सयलजणुग्घोसियाऽऽसीसं ॥ १४ ॥

मासे समइकंते कमलायरसुमिणसुइयत्तेण । ठवियं सुयस्स नामं नरवइणा कमलसेणो त्ति ॥ १५ ॥

पइदियहं च पविट्ठो एसो सियपक्खरिक्खनाहो व्व । उज्जोइयकुलगयणो वंधवचंदुज्जयाणंदो ॥ १६ ॥

पत्तो कुमारभावं गुणसंपयजणियजणचमुक्कारं । पुव्वसुकएहिं नवरं विसयसुहपरम्पुहो अहियं ॥ १७ ॥

5

न हसइ न चेव रूसइ न मणइ फरुसं दयालुओऽदीणो । उवसमविभूसियंगो सुणि व्व मोणप्पिओ पायं ॥ १८ ॥

अवि य—

आलिगिओ य सव्वंगमेस दक्खिन्नपुन्नमित्तेण । सोडीरयापियाए वसीकओ कम्मणेणं व ॥ १९ ॥

नीओ जयम्मि खाइं परोवयारित्तवित्तिवित्तेण । धम्माणुरायराएण रंजओ जणमणपैडीणं ॥ २० ॥

पुट्ठो खणं पि न धुवं मच्छरभरिएहिं पावचरिएहिं । अवहीरिएण व दढं मुक्को माणेण माणेण ॥ २१ ॥

10

इय जणियजणयचोज्जं जोव्वणपत्तस्स कमलसेणस्स । तरुणजणहिययहरणो वसंतसमओ समायाओ ॥ २२ ॥

सहयारमंजरीतोमरेहिं विरहियउराइं भिदंतो । पेत्तंतो दाहिणपवणपाणिणा पडिपहं सिसिरं ॥ २३ ॥

फुल्लियमल्लियकलियापयासदंतं हंसंतसिमवित्रिणो । सुव्वंतसत्तलामोयमत्तभमरोलिरुयगीओ ॥ २४ ॥

परहुयवहुमहुरोरेल्लिसवणसंभरियवल्लहुल्लवे । मुच्छिज्जंते पंये आसासित्तो मलयमरुया ॥ २५ ॥

तस्साऽऽगमणे मम्मणमहाभडो पयडउवभडाडोवो । पहओ सहस्सवाणो व्व बहुजणं पंचवाणो वि ॥ २६ ॥

15

तओ—

नट्ठो माणमहाभडो पइ पियं माणंसिणीणं खणा, आवद्धजलिणो कुणंति पणइं पाणप्पियाणं पिया ।

दोलाकेलिया पिया-पिययमे गायंति पुंथीगणा, पायं चच्चरिरासञ्जासल्लसिरं जायं मढोमंडलं ॥ २७ ॥

किंच—

सेला पुप्फियसिम्बलीघणवणा फुल्लप्पलासा रसा, रत्तासोयवणारुणा उववणा रत्तुप्पलिट्ठा सरा ।

20

सोणऽच्छायणमाणवा य नगरोवंता ससंता तओ, जायं रायमयं व सव्वभुवणं नूणं वसन्तागमे ॥ २८ ॥

एवं रमणीयरमणीए महुमासे सिंगाराभिरामरामाणुगएसु नंदणाइवणेसु, कीलन्तएसु नयरजुवाणएसु, मित्त-

पत्थणाकरणमेत्तपओयणो गओ वसन्तकीलावलोयणकए नदणवण कुमारो । निरुवियं पेच्छणयाइ । निसन्नो एगत्य

पुन्नागवीहियाए । कीलावाउलयाए गया से वयंसया अन्नत्थ । एत्थन्तरे सुओ णेण कस्सइ रुक्खन्तरियस्स 'अहो !

अनायगं भुवणं' ति सट्ठो । तओ 'कहं पुण ताए विजयवन्ते अणाहं भुवणं ?' ति अमरिसवसुग्गीरियकरवालो

25

गओ दूरं, न य कोइ सच्चविओ । नियत्तिउकामेण पुणो वि सुयं तं चेव, तहेव पहाविओ, न य कोइ दिट्ठो । सवि-

यक्केण पुणो तं चेव निसुयं, तुरिययरपहाविएण दिट्ठा नाइदूरदेवउले पविसमाणी एगा रमणी । 'एयाए एस सट्ठो,

ता किमेयं ?' ति पुच्छिउकामो गओ देवउलदुवारं कुमारो । 'न दीसइ' ति पविट्ठो तयव्भंतरं । ताव य समुप्पइयं

देवउलं नहंगणे, पयइं वेगेण । 'किमेयं ?' ति विम्हिओ कुमारो । पत्तो मुहुत्तमेत्तेण दूरदेसं । ताहे ठियं तमेगत्य

विसिट्ठपासायरुवेण ।

30

१ सङ्केतः—“चंदुज्जयाणं(जयं) ति कुमुदाना(कुमुद)म्” । “वान्धव एव चदोजयाणि—कुमुदानि तेषामानन्दकृत्” ख२टि० ।

“चंदुज्जयां” भ्रा०विना ॥ २ “वलाणाम्” जेटि० ॥ ३ सङ्केतः—“हसंतसिम ति हसत्सव्वविपिन” । हसंतसमविं ख१ भ्रा० ॥

४ “सत्तल—पुणविशेष, सत्तञ्ज—रुताविशेषा नवमालिका इत्यर्थ” जेटि० ॥ ५ सङ्केतः—“उरि(ओर)ल्लि ति कूजितशब्द” ।

“मधुरध्वनि” जेटि० ॥ ६ सङ्केतः—“मम्मण ति मन्मथ” ॥ ७ समं भावओ भ्रा० ॥

एत्थंतरे निग्गया केच्छन्तराओ पुव्वदिट्ठविलया । पढ्ढमुहपंकयाए 'सागयं' ति भणंतीए तीए दिन्नमासणं कुमारस्स । सो वि सकोउगो उवविसिऊण भणियाओ, 'भदे ! का तुमं ? किं चेयमिंदियालं ? कइं वा अनायगं भुवणं ?' ति । तीए भणियं "जीसे नत्थि नाहो तीसे भुवणं पि अनाहं चेव, इंदियालं पुण नाहनिमित्तमेव, जं पुण भणह 'का तुमं ?' एयं न जुत्तं । जओ भणियं—

- 5 सरियाण नरिंदाणं रिसीण कमलाण कामिणीणं च । पुच्छन्ति उग्गमं जे कुसलत्तं केरिसं तेसिं ? ॥ २९ ॥  
तह वि फुडं तुह सीसइ अंगसिगी नाम पोढविलया हं । बहुसुपुरिसपरिसुत्ता संपड वट्टामि य अणाहा ॥ ३० ॥  
तं दीणवच्छलो किर परोवयारी महाणुभावो सि । ता होसु मज्झ नाहो जेण सणाहं जयं मुणिमो" ॥ ३१ ॥  
तओ "परनारीभोइणो सुपुरिसा य'त्ति न घडइ एयं, होयव्वमेत्थ कारणेण तहा वि एवमेवोचियं वोत्तुं" ति सत्रियकेण भणियं कुमारेण "सुंदरि ! नाहं परनारीण नाहत्तं करेमि, जओ गरहिओ सुपुरिसाणं परकलत्तसंगो ।  
10 भणियं च—

मइलइ विमलं पि कुलं, हीलज्जइ पागएण वि जणेण । पडइ दुरन्ते नरए पुरिसो परनारिसंगेण ॥ ३२ ॥  
उच्चिट्टं चेट्ठिं पिव परनारिं परिहरन्ति सप्पुरिसा । सेवंति सारमेय व्व निंदिया जे दुरायारा ॥ ३३ ॥  
ते दीणवच्छला इह महाणुभावा परोवयारपरा । जे अप्पणो परस्स य पावायारं निवारिंति ॥ ३४ ॥  
पालण-पोसणमेत्तं करेमि दीणाण नाहयं अहयं । परदारपसंगं पुण पाणचाए वि न करेमि" ॥ ३५ ॥

- 15 एवं वोत्तूण 'जओ तुममेरिसो अओ चेव मम मणं हरसि' ति भणमाणिं तमवहीरिऊण 'अलमेयाए सह संलावेण' ति भावितो दुत्ति निग्गओ कुमारो पासायाओ ।

एत्थन्तरे 'रे ! सारमेउ व्व सुन्नगेहे पविसिऊण कत्थ पत्थिओ सि ?, ठाहि मम सम्मुहो जइ सुहडवाय-मुव्वहसि' ति भणन्तेण निसियतरवारिधारिणा हक्किओ एकेण पुरिसेण । तओ पंचाणणो व्व वल्लिऊण पत्तो तयमाओ भणित्तं च पत्तो 'किं रे ! तुमं केसरिणो सच्छंदचारं वारेसि ?' । तेण भणियं 'सच्चं पंचाणणो सि जइ  
20 सहसि मम पहारं' । तओ उड्ढियं व्रामंगमुग्गीरियखग्गेण कुमारेण । तेणावि खंधमोडिऊण संलत्तं 'ता पहराहि ताव पदमं' । कुमारेण भणियं 'नाहमपहरन्तेसु पहरामि ता तुमं ताव पहरेसु' ।

एवं चाचलियसत्तं तं पासित्ता भणियमियरेण "जओ एवं सत्तसाली तुममओ चेव मुंजिहिसि अगसिंरिं पिं, ता खमियव्वं महाणुभावेण जं मए सकज्जलोलुययाए जणयाणं विओइओ, जं च सत्तपरिच्छाकए कयथी-पुरिस-रुवेण विप्पलंभिओ सि । अहं खु चपाह्विइणो सन्नेज्जकारी देवो भवंतमंगदेसलच्छीए सामियं काउमिच्छामि, ता  
25 न चित्तक्खेओ कायव्वो" । ति वोत्तूण तिरोहिओ लहुं तियसो त्ति ।

कुमारो त्ति तं पुरिस-पासायाड अपेच्छंतो विन्नायअंगसिरिनामत्थो सुट्ठ विम्भिओ 'सच्चं बहुसुपुरिसपरिसुत्ता एस' ति जायनिच्छओ अणुकूलसउणविसेससमुट्ठासियमाणसो पत्तो एगं महासरं । जं नहंगणं पिव संचरंतरायहंसं, धम्मिगचरियं पिव हरियालियासगसोहियं, गिरिसिहरं पिव संचरंतवहुलहरिउलं, रणंगणं पिव पयडचक्कवाय-

१ "अपवरकमध्यात्" जेटि० ॥ २ चट्ठी-चाट इति लोकभाषायाम् ॥ ३ "उत्क्षिप्तम्" जेटि० ॥ ४ "[नभोऽङ्गणपक्षे] सन्नरञ्चन्द्र-रविम्" जेटि० ॥ ५ "सङ्केतः—'हरियालियासंगसोहियमित्यादौ [धार्मिकचरितपक्षे] हतालीक(के) असङ्घै -नि सङ्घैर्यतिभि सह सौहृदम् यत्र, [महासरपक्षे] हरियालि[या]-दूर्वा, यद्वा हरीणा-ददुंराणा तटवनमर्कटाना वा आल्फिका-पक्ति' तत्सङ्घेन शोभितम् । [गिरिशिखरपक्षे] सन्नरन्ति बहुलानि हरिकुलानि, [महासरपक्षे] बहूनि लहरिकुलानि च यत्र । [रणङ्गणपक्षे] प्रकटाश्वक्रपाता, शरवणानि शराश्व येषामरीणा ते सन्नरन्त्यस्मिन्; [महासरपक्षे] प्रकटाश्वक्रवाका तटेपु शरवणानि शस(रा)रिसन्नरश्च यव(त्र), यद्वा सरवणा-सकृजना इति

सरवणसरारिसंचरं, पहाणपट्टणं पिव सस्सिरीयमहावणराइराडयं, महाधणवइमंदिं व बहुलक्खणोवसोहियं, तरुण-  
बहुवयणं पिव वराहरमणिटिविडिकियं ति ।

तं नाडयं व रम्मं दट्ठं सह सारसेहिं विसएहिं । कोउगमेत्तनिमित्तं मज्जणकज्जेण ओयरिओ ॥ ३६ ॥

इंदिंदिरनियरारद्धसुद्धसंगीयसोहियं सुइरं । वेळंतकमलकरकमलिणीवहूविहियवरनट्टं ॥ ३७ ॥

काउं मज्जणकीलं हियइच्छियमुच्छलंतकळोलं । एगागी गंधगओ व्व निग्गओ निब्भओ तत्तो ॥ ३८ ॥

पणओ य पणयनिउणं पुरओ उवणीयपवरतुरएण । 'इह सामि ! समारुहसु' तिं सुत्तिणा केणइ नरेण ॥ ३९ ॥

भणिओ कुमरेण इमो 'को सि तुमं ? कत्थ किं निमित्तं मं । इच्छसि नेउं सुंदर ! ?' पडिवुत्तं ताव तेणावि ॥४०॥

'अत्थि इओ नाइदूरे नदणवणे कीलानिमित्तमागओ चंपाहिवइ गुणसेगो नाम राया । तथाएसयारी अहं ।  
तदंतियं च गंतव्वं । कज्जं पुण तत्थगएहिं देवाणुप्पिएहिं नायव्वं, जाणामि पुण परोवयारवसणी दहं सो भट्टारओ'  
त्ति । तओ आरूढो कुमारो पत्तो नागवल्लीलयाजालालिं गियसव्वंगस्साऽसोयपायवस्स हेट्ठा निविट्ठस्स राइणो 10  
पुरओ । पणमंतो य निवारिओ राइणा दिट्ठिसन्नाए । तओ 'किमेयं ?' ति सवियको दोलायंतकन्नकुंडलेण सेय-  
विंदुमुत्ताहलजालालंकियभालवट्टेण मंतिवयणनिवद्धदिट्ठिणा खलंतक्खरमालत्तो य, कहं ?—

'सु .सु सुयण ! पु पुच्छामो क क कत्तो एसि ? कि .कि किमेगागी ? ।

कु कु कुसलं तु तु तुम्हं ? स .स सा .सा सागयं सुट्टु' ॥ ४१ ॥

कुमारो वि तस्स रूवलायन्ननिरिक्खणक्खित्तचित्तो 'कहमेयारिसरूवो वि जीहाजडत्तेण दूस्सिओ ? किं वा 15  
पणामं वारेइ ?' ति चिन्तयन्तो जाव चिट्ठइ ताव भणियं मइवद्वणमंतिणा 'देव ! चिरऽम्हं वट्टइ, परिस्संता य तुब्भे  
पाहुणगरायपुत्तो वि, ता पविसामो ताव नयरिं, दुहा वि साहिस्सइ इच्छियं सव्वमेस देवस्स' ति । तओ 'एवं  
होउ' ति अव्वत्तमुल्लवंतो आरूढो तुरंगमं राया, पत्थिओ य अद्धच्छिपेच्छिएहिं पुणो पुणो कुमारमवयच्छंतो ।  
कुमारो वि कयप्पणामेण मंतिणाऽऽरोविओ नियरहवरं, भणिओ य—

"मा कुणसु चित्तखेयं कुमार ! 'परदेसमागओ मि' ति । वियरंतो खलु सरो करेइ भुवणस्स उवयारं ॥४२॥ 20  
तहा—

जत्थऽत्थमेइ तरणी तं जणयविट्ठत्तयं वणं हरिणो । निय-परदेसवियप्पो होइ फुडं मंदसत्ताणं" ॥ ४३ ॥

कुमारेण भणियं—

'पज्जलिओ वि पयामं हियए खेयानलो अइमहंतो । विज्झाइ सुयणमुहमेहमुक्कवयणंवुधाराहि ॥ ४४ ॥

तहा—

सुयणो सरलो विउसो परोवयारी गुणाणुरागी य । जत्थ जणो उचियन्न वसइ विएसो स किं होइ ?" ॥४५॥

एमाइनिउणालावेहिं मंतिणो मणमवहरंतो पारद्धो पविसिउं चपाउरिं कुमारो । पेच्छइ य तं लंकाउरिं व  
पैमुइयवियरंतपुन्नजणं, अलयाउरिं व गिज्जन्तधणयगुणनिवहं, अमरावइं व सुपव्वलच्छीपडहच्छं, माहेसरकुलं व

शरारीणां विशेषणम् । महत्यश्च ता [ प्रधानपत्तनपक्षे ] आपणराजय, [ महासर-पक्षे ] वनराजयश्च । [ महाधनपतिमन्दिरपक्षे ] बहुलाश्च  
ते क्षणाश्च [ क्षणा-उत्सवा ], [ महासर पक्षे ] वह्यश्च ता लक्षणाश्च-सारस्य । [ तक्षिणवधुवदनपक्षे ] वराधरमणि, [ महासर पक्षे ]  
वराध( २ ह )रमण्यश्च ॥

१ "[ रणाङ्गणपक्षे ] रवणा-उष्ट्रा शरा-वाणास्ते सह ये वर्तन्ते ते च तेऽरयश्च सरवण-शरारय " खरटि० ॥ २ सङ्केतः-  
"विशदै ससे( रसै ) छत्वा नाटकमिव [ २ सहसा दृष्ट्वा ], [ महासर पक्षे ] सारसै सह वीना-पक्षिणा शतै रम्य च" ॥ ३ "इति  
सूक्तिना" जेटि० ॥ ४ सङ्केतः-"साधयिष्यति-कथयिष्यति करिष्यति च" ॥ ५ सङ्केतः-"पमुइ० इत्यादौ [ लङ्कापुरीपक्षे ] पुण्यजना-  
राक्षसा, [ चम्पापुरीपक्षे ] पुण्यवज्जनाश्च । [ अलकापुरीपक्षे ] धनद-कुत्रेर, [ चम्पा० ] त्यागिनश्च [ घनदातार इत्यर्थः ] । [ अमरावतीपक्षे ]  
सुपर्वाण-देवा, [ चम्पा० ] शोभनपत्राणि च । पडहच्छं ति परिपूर्णम् । [ माहेश्वरकुलपक्षे ] बहुमण्डितो धवल-शुकलो हरः, धवलो वा-धृपभो  
हरः येन, [ चम्पा०-बहुमण्डितधवलगृहम् ] । [ दरिद्रमन्दिरपक्षे ] विगतहाररमणीकम्, [ चम्पा० ] देवकुलैश्च रमणीयम्" ॥

बहुप्पसाहियधवलहरं, दरिद्रमंदिरं व विहाररमणीयं ति ।

बहुकोऊहलकलियं पेच्छंतो तं पुरिं कमलसेणो । नियमंदिरम्मि रम्मे मइवद्धणमंतिणा नीओ ॥ ४६ ॥

सम्माण-नोरवघणं कयमज्जण-भोयणाइउवयारो । सुहसयणगओ पुणरवि संलत्तो एवमेगंते ॥ ४७ ॥

‘चिन्तानलपज्जलियं निव्ववियमउव्ववारिवाहेण । अणहासएण तुमए हिययं अम्हारिसाणऽज्ज ॥ ४८ ॥

5 सलहिज्जइ जियलोए जम्मो चंदणदुमस्स एगस्स । उज्जंतस्स वि धूमो परोवयारक्खमो जस्स ॥ ४९ ॥

उप्पत्ती सुयणाणं महहुमाणं व जीवलोगम्मि । उवयारकए विहिणा नूण कया सैउणवग्गस्स ॥ ५० ॥

ता पडिवज्जसु वैज्जं रज्जं निरवज्जमंगदेसस्स । पूरेहि अम्ह पहुणो मणोरहे सव्वहा धीरं !’ ॥ ५१ ॥

तं भणइ वरकुमारो दसणावलिकिरणधवलउट्टउडो । ‘रायम्मि विज्जमाणे मग्गिज्जइ किं निव्वो अन्नो ? ॥५२॥

केरिसया वा सुंदर ! मणोरहा तुम्ह सामिसालस्स ? । साहिज्जउ परमत्थो महन्तमियमव्वभुयं मज्ज’ ॥५३॥

10 मंती वि ‘जहा आणवेसि’ त्ति भणित्ता साहिउं पयत्तो—

आसीह पुरवरीए दरियारिगंइंदकेसरिकिसोरो । नरनाहो सिरिकेऊ सूरु सूरु इव पयावी ॥ ५४ ॥

लायन्ननीरसरिया गुणमणिभरियाऽकलंककुलचरिया । घणदन्तीरिणकंती देवी तस्सऽत्थि विजयंती ॥ ५५ ॥

सुपइट्ठियंसीमंतं विसयग्गामोवसोहियं सुहयं । तं वरघरिणिं धरणिं व भुंजमाणस्स से रन्नो ॥ ५६ ॥

नयरे नयरेहिल्ले ‘को सुहिओ सुत्थिओ दहं ऐत्थ ?’ । एव पवत्ता वत्ता, वत्ता कइया वि अत्याणे ॥ ५७ ॥

15 भणियं भडेण केणइ ‘अग्गमणी सुत्थियाणमिह नयरे । वरइव्वभसुओ धीमं धणियं विणयघरो नामं ॥ ५८ ॥

जस्स धणं धणयस्स व, मयणस्स व जणविमोहणं ख्वं । विघ्नाणं विवुहाणंददाययं देवगुरुणो व्व ॥ ५९ ॥

तह वरघरिणिचउकं पहसियसुर-खयरिनारिसुंदेरं । जस्साऽऽणासंपायणपउणं पुलएइ मुहकमलं’ ॥ ६० ॥

भणियमवरेण तत्तो ‘वणियवहुवन्नवायकरणेण । मा सुर-खयर-नरीसरदइयाओ हीलसु अलज्ज !’ ॥ ६१ ॥

इयरेण पुणो भणियं ‘का हीला ? एत्थ वन्नओ को वा ? । भणियं सरुवमेयं सुपसिद्धं सव्वनयरीए ॥ ६२ ॥

20 देवाण देवयाण य कुणंति ओवाइयाइं जुवईओ । तारिसरुवस्स कए, तव्विहदारऽत्थिणो तरुणा ॥ ६३ ॥

वन्निति वन्निणीओ सव्वाओ विगयरुवगव्वाओ । चंक्रमियं ललियं जंपियं च तारिं सत्तोसाओ’ ॥ ६४ ॥

एवं बहुप्पयारं सोऊणमईव वन्नयं तारिं । भवियव्वयानिओया राया रायाउरो जाओ ॥ ६५ ॥

अवि य—

न तहा दिट्ठसरुवे रज्जंति जणा जणे गुणड्ढे वि । जह निग्गुणे वि परवयणवन्निए, जयठिई एसा ॥ ६६ ॥

25 जओ—

हुंतो वि धम्मवुद्धी अहम्मवुद्धी खणेण सो जाओ । कस्स व विवरीयत्तं न होइ मयणेण मूढस्स ? ॥ ६७ ॥

एगत्तो कुलममलं मइलिज्जइ, अन्नओ दहइ मयणो । दुत्तडि-वग्घन्तरसंठिओ व्व दुहिओ अओ जाओ ॥ ६८ ॥

कुवियप्पलहरिहीरन्तएण चिन्तौमहन्नवुच्छंणे । आसासदीवभूओ लद्धो तेणेरिसउवाओ ॥ ६९ ॥

‘पच्चाइय पउरजणं दोसं उप्पाइऊण से वणिणो । गिन्हामि वला ताओ, न होमि गरिहारिहो जेण’ ॥ ७० ॥

१ सङ्केतः—“न विद्यते [१ अघ-पाप] आश्रयो यस्य तेन, अनघाशयेन च” ॥ २ सङ्केतः—“सउण त्ति पक्षिण, सगुणाश्च” ॥  
३ “श्रेष्ठम्” जेटि० ॥ ४ वीर ! जे० ॥ ५ ‘गयंद’ खर ॥ ६ सङ्केतः—“इरिण-सुवर्णम्” । “इरिणकती इरिण-कनकम्, कनकवत्  
कान्ति” जेटि० ॥ ७ सङ्केतः—[गृहिणीपक्षे] सीमन्त(न्ताम्), [घरणिपक्षे] सीमान्तश्च(न्तां च), [घरणि०] विषया-देशा-प्रामा-प्रसिद्धा,  
[गृहिणी०] विषयप्रामाश्व-भोगसमूह, [घरणि०] सुतुरङ्गा, [गृहिणी०] सुखदा च” ॥ ८ “शोभावति” जेटि० ख१टि० ख२टि० ॥  
९ इत्थ खर ॥ १० “चिन्तामहार्णवोत्सङ्गे आश्वासदीपभूतः” जेटि० ॥

इय निच्छिऊण पच्छन्नमेव भणिओ पुरोहिओ तेण । 'विणयधरेण सद्धिं कुण मेत्तिं कवडनेहेण ॥ ७१ ॥  
तत्तो वि भुज्जखंडे एयं गाहं लहुं लिहावित्ता । पच्छन्नमेव मज्झं उवणेहि अजाणिओ तेण ॥ ७२ ॥

सा पुण—

पेसयच्छि ! रइवियक्खणि ! अज्जमभवस्स तुह विओए मे । सा राई चउजामा जामसहस्सं व वोलीणा ॥७३॥  
वडुएण तहेव कए रन्ना पउराण पेसियं भुज्जं । 'किर देविगंधपुडए पहियं विणयं धरेणेयं ॥ ७४ ॥  
ता भो ! लिवीपरिच्छं काऊण विणिच्छयं कहह मज्झं । मा पच्छा वि भणीहह अजुत्तमेयं कयं रन्ना' ॥ ७५ ॥  
तेहिं वि 'न हुंति दुद्धे पूयरया तह वि सासणं पहुणो । ऋयव्वं' ति भणंतेहिं लिवीपरिच्छा कया हत्थं ॥ ७६ ॥  
दट्ठु लिवीसंवायं भणियं पउरेहिं सुट्ठु सविसायं । "अत्थि लिवीसंवाओ, न य घडइ इमं तु एयाओ ॥ ७७ ॥

अवि य—

जो चरइ मणभिरामे दक्खारामे सुहं विगयसंको । सो कटइयसरीरे करी करीरे कहं रमइ ? ॥ ७८ ॥

अन्नं च—

जो चिट्ठइ गोटीए सुहुत्तमेत्तं पि तस्स धन्नस्स । वंजुलसंगेण विसं व पन्नगो सुयइ सा पावं ॥ ७९ ॥  
ता परिभावउ देवो सम्मं परमत्थमेत्थ वत्थुम्मि । अघडन्तयं पि घडियं एयं पिसुणेण केणावि ॥ ८० ॥  
सच्छं पि फलिहरयणं उवहाणवसा कलिंजए कालं । इय खलखोलाओ खलु खलियं अक्खलियचरियस्स' ॥८१॥  
इय जंपंते पउरे पडियारे कुंजरो व्व अगणितो । वियलियमेरालाणो पक्को असमंजसं राया ॥ ८२ ॥  
पमणइ पुरिसे 'रे रे ! आपेह बला वि तस्स जायाओ । सुहेह मंदिरं लहु निद्धाडिय परियणं दूरं ॥ ८३ ॥  
तुव्वे पुण नायरया ! विरुद्धयारिम्मि पैक्खवाइल्ला । तं कारवेह सुद्धिं मम पुरओ जेण मुंचामि' ॥ ८४ ॥  
एवं ते फरुसगिरं पउरा पउरा खणेण विमुहाऽऽसा । किवणेण भग्गणा इव गेहाओ धाडिया रन्ना ॥ ८५ ॥  
एत्थंतरम्मि ताओ विगयधरभारियाओ चउरो वि । लिवणभयाओ पुरओ ठियाओ पत्तीण पत्ताओ ॥ ८६ ॥  
दट्ठूण ताण ख्वं अप्पडिख्वं पचित्तिओ राया । 'सच्चं न संति अमरालए वि एवंविहवहूओ ॥ ८७ ॥  
अणूकूलो मज्झं विही नूणं जं किर सुयाओ दिट्ठाओ । पत्ताओ य गिहं मे एयाओ अमयक्खीओ ॥ ८८ ॥  
कह नाम पुण इमाओ नवनेहरसेण पुलइयंगीओ । लगिस्संति सयं मे कंठे उक्कंठियमणाओ ॥ ८९ ॥  
भुंजंतीओ वि बला न मयणरसकारणं जओ हुंति । तयभावे किमिह सुहं जायइ मयरमणिरमणे व्व ? ॥९०॥  
अहवा सहेमि कालं परिणामे सिज्झिही इमं सव्वं । भुक्खियवसेण पच्चंति उंवरा, नेह कइया वि' ॥ ९१ ॥  
इय चित्तिरेण तुरियं ताओ अंतेउरम्मि खित्ताओ । सयणासणाइ सव्वं दवावियं चंगभोगंगं ॥ ९२ ॥  
तं पुण विसं व गणिउं ताओ गुरुदुहदवगितवियाओ । उवविट्ठाओ धरणीयलम्मि सुद्धम्मि सुद्धाओ ॥९३॥  
भणियाओ य सविणयं रायनिउत्ताहिं चाडुजुत्ताहिं । चेडीहिं निउणमेवं 'देवीओ ! सुयह उव्वेवं ॥ ९४ ॥  
फलियं तुम्हाण फुडं पुव्वज्जियपुन्नपायवेणऽज्ज । जं एस अम्ह सामी वट्ठइ अच्चंतमणुकूलो ॥ ९५ ॥  
जस्स पसज्जइ एसो तस्स हु चिंतामणि व्व सुहहेऊ । रुट्ठो जमो व्व जीयंतकारओ होइ नियमेण ॥ ९६ ॥  
ता एयस्स पसाया भुंजह भोएऽवइज्झियविसाया । मुचह मणसंतावं, कुणह कयत्थं जुवइभाव' ॥ ९७ ॥  
इय जंपिरचेडीओ भणियाओ सुट्ठु निट्ठुरामिमाहिं । 'उव्वेव्वरेण हला ! अलाहि हलव्वोलकरणेणं ॥ ९८ ॥

१ पसियच्छि जे० ख२ ॥ २ "वजुल-अशोकशू" जेटि० ॥ ३ "उपाधिवशात्" जेटि० ॥ ४ "खल-दुर्जन" स एव खोलो लघुस्तुच्छ इति यावत् तस्मात्" ख२टि० जेटि० ॥ ५ "पक्षपातिन" जेटि० ॥ ६ "पदातीनाम्" जेटि० ॥

जइ सट्टो जीयंतं करेइ ता सुट्ठु सुंदरो एस । अखलियसीलाण जओ जणयइ मरणं पि सुहमेव ॥ ९९ ॥  
 कैरिमरिगहणेण परित्थियाओ भुंजंति नेह भिल्ला वि । लंघियकुलमज्जाओ तओ वि अहमो इमो जाओ ॥ १०० ॥  
 इचाइवयणनिब्भच्छियाहिं चेडीहिं साहियं रम्भो । 'उच्चिइ न वको कह वि देव ! फलिहामलसिलासु' ॥ १०१ ॥  
 नाऊण निच्छयं नरवई वि चिंताउरो दढं जाओ । तत्तपुलिणम्मि मीणो व्व न हु रइ लहइ सयणीए ॥ १०२ ॥  
 5 अवि य—

सुयइ सुहं गयराओ घणकंदयसंगए वि सयणीए । रागी उ हंसतूलीगओ वि निहं न पावेइ ॥ १०३ ॥  
 चित्तगिसंपलित्तो रयणिं संवच्छरोवमं गमिउं । कयसिंगारो सूरुदयम्मि तासिं गओ पासं ॥ १०४ ॥  
 अब्भुट्ठिओ न ताहिं, तुच्छं पि नियच्छिओ न य तहा वि । ईसरसिरिं व रोरो व पेच्छिउं ताण सो ख्वं ॥ १०५ ॥  
 अह पेच्छइ सव्वाओ हुयवहजालोलिकविलकेसाओ । अइचिव्विरनासाओ जरचीवरमलिणवेसाओ ॥ १०६ ॥  
 10 मज्जारलोयणाओ दंतुरलंबोद्धवंकवयणाओ । परिगलियजोव्वणाओ तुच्छंगुलिपाणि-वलणाओ ॥ १०७ ॥  
 अइसयवीभच्छाओ रागीण वि रागहरणदच्छाओ । दट्ठूण ता नरिंदो चित्तइ धणियं निराणंदो ॥ १०८ ॥  
 'किं एस दिट्ठिवंधो मइमोहो सुविणयं व पेच्छामि ? । किं वा दिव्वपओगो ? किं वा पावप्पभावो मे ? ॥ १०९ ॥  
 हंहो ! महन्तमेयं अच्छेरमदिट्ठनिसुयमेत्ताहे । कत्थ गयं एयासिं खणेण तं तारिसं ख्वं ? ॥ ११० ॥  
 अह जाणियवुत्तंता सहसा तत्थाऽऽगया महाएवी । पायडियपेमकोवा पयंपिउं चेवमारद्धा ॥ १११ ॥  
 15 'हद्धी अणज्ज ! रज्जसि विलीण-हीणासु एरिसित्थीसु । अमुणियपत्तविसेसो अवगन्नसि रायदुहियाओ ॥ ११२ ॥  
 न कलेसि कुलकलंकं, विरज्जमाणं जणं न लक्खेसि । एवं निम्मज्जाओ कह ठावसि परजणे मेरं ? ॥ ११३ ॥  
 एवं बहुप्पयारं उवलद्धो पत्थिवो पिययमाए । लज्जोणओ विसज्जइ सज्जो विणयंधरपियाओ ॥ ११४ ॥  
 दट्ठुं विसज्जियाणं ख्वं साहावियं पुणो तासिं । कारणजिन्नासाए चिट्ठइ चिंताउरो निच्चं ॥ ११५ ॥

आयन्नियमन्नदिणे सूरु सन्नाणसंपयानिलओ । नयरुज्जाणे रम्मे ओसरिओ सूरसेणो त्ति ॥ ११६ ॥

20 चलिओ पमोयकलिओ सपउरभिच्चो तओ पुरीनाहो । उवविट्ठो य सुहिट्ठो तयंतिए वंदणापुव्वं ॥ ११७ ॥  
 पारद्धा य भयवया धम्मकहा मोहकंदनिद्वलणी । लद्धावसरेण तओ पुच्छियमेयं पुहइपहुणा ॥ ११८ ॥  
 'भयवं ! किं कयमसमं सुकयं विणयंधरेण पुव्वभवे । जं विजियसुरवहूओ कंताओ णेण पत्ताओ ? ॥ ११९ ॥  
 कत्तो वा सुकयाओ एयासिं ख्वमेरिसमपुव्वं ? । केण पओगेण तया विरुवया दुत्ति संजाया ? ॥ १२० ॥  
 इय नरवइणा पुट्टे पउरा विणयंधरो सह पियाहिं । सव्वे सकोउयमणा गुरुवयणमुवट्ठिया सोउं ॥ १२१ ॥  
 25 अह सुरदुंदुहिघोसो परिसायणजणियवहलपरिओसो । वज्जरइ परहिएसी जहट्ठियं केवल्लिमहेसी ॥ १२२ ॥  
 आसीह भरहवासे गयसीसे पुरवरम्मि सुपयासे । राया वियारधवलो रज्जधुरावहणधुरधवलो ॥ १२३ ॥  
 तस्स वरो वेयाली उदारचित्तो दयाइगुणसाली । सययं परोवयारी आसि दढं पावपरिहारी ॥ १२४ ॥  
 सो पुण उदारयाए निच्चं असणाइयं मणुत्तं पि । विस्साणिऊण कस्सइ उवियं उवभुत्तवं नियमा ॥ १२५ ॥  
 अह अन्नदिणे दिट्ठो उस्सप्पिणिनवमजिणवरो तेण । विंदुज्जाणे पडिमाए संठिओ मेरुथिरमुत्ती ॥ १२६ ॥  
 30 दट्ठूण तस्स ख्वं उवसमलच्छिं च चारु तवचरियं । असमप्पमोयवसओ पडिउमिणं सो समारद्धो ॥ १२७ ॥  
 'वप्पु सुंदरु अंगविन्नासु,  
 कट[?रि] ! मणहर तेयसिरि कटरि कटरि ! लायन्नु वयणहँ, अइ ! उवसमु लोयणहँ अइय अइय वलि धम्मचरणहँ ।

करहु रे ! नेयणहँ रंक्कघणि, अज्जहु अज्जु सुसेउ । वलि वलि जोयहुं चोज्जकरु, ईहु परमप्पा देउ' ॥ १२८ ॥

इय उल्लसंतसद्धो थोउं सामन्नभत्तिराएण । बहुमाणमुव्वहंतो जिणम्मि एसो गिहं पत्तो ॥ १२९ ॥

कुसलाणुबंधिकम्मोदएण अह तस्स भोयणावसरे । पत्तो तिलोयनाहो भिक्खवट्ठा गिहदुवारम्मि ॥ १३० ॥

तं पेच्छिऊण वंदी आणंदरसुद्धुमायसव्वंगो । पडिलाभेइ जिणिंदं परिवेसिय कामगुणिएण ॥ १३१ ॥

चित्तइ य 'अहं धन्नो सहलं मे जम्म-जीवियं अर्ज्ज । जं भयवं दाणमिणं पडिच्छए पाणिपुडएण' ॥ १३२ ॥ 5

एत्थंतरम्मि गयणे उच्छलिओ देवदुंदुहिनिनाओ । घोसिति 'अहो दाणं ! अहो महादाणं'मिइ विवुहा ॥ १३३ ॥

जणजणियमहच्छेरं गंधोदय-पुप्फवरिसणं जायं । उँकोसा वसुहारा पडिया य घरंगणे सहसा ॥ १३४ ॥

अवि य—

नर-नरवइ-असुर-सुरा वंदित्तं वंदिणो वि से पत्ता । किं वा सुपत्तदाणा जायइ अच्चब्भुयं न जए ? ॥ १३५ ॥

इय पयंडं माहप्यं पेच्छंतो सुद्धदाणधम्मस्स । भेतूण कम्मगंठिं दंसणसद्धो इमो जाओ ॥ १३६ ॥ 10

विणिओइऊण वित्तं पवित्तपत्तेसु दूरियदुरासो । चइऊण पूइदेहं पत्तो पढमं अमरगेहं ॥ १३७ ॥

भोत्तूण चिरं भोए सुरसुंदरिविसरवड्ढियामोए । चविउममरालयाओ एसो विणयधरो जाओ ॥ १३८ ॥

जाओ जहत्थनामो इमेण जाएण रयणसारिब्भो । जणणी वि हु पुन्नजसा पुन्नजसा चेव संपन्ना ॥ १३९ ॥

रुवं कलाकलावो लच्छी कित्ती कलंकनिम्मुक्का । अंतेउरं सुतारं सव्वं दाणस्स फलमेयं ॥ १४० ॥

अवि य—

15

दाणं पुभतरुस्स मूलमणहं पावाऽहिमंतक्खरं, दालिद्धुमकंदलीवणदवो दोहग्गारोगोसहं ।

सोवाणं गुरुसगसेलचडणे मोक्खस्स मग्गो वरी, ता दायव्वमिणं जिणुत्तविहिणा पत्ते सुपत्ते सया ॥ १४१ ॥

विणयंधरपुव्वकयं सिट्ठं नरनाह ! तुम्ह संखित्तं । संपइ सुण एगग्गो वुत्ततं एयघरणीण ॥ १४२ ॥

अत्थि कलाविकुलड्ढं कइविसरविरायमाणघणसालं । साएयपुर गिरिकाणणं व सच्छंदरायसुयं ॥ १४३ ॥

तत्थ य ह्यय-गयनाहो उन्नामियकेसरो अइकरालो । विप्फुरियपोरुसो केसरि व्व नरकेसरी राया ॥ १४४ ॥ 20

कमला इव कम्मलकरा तस्स पिया कमलसुदरी देवी । रइसुंदरी य दुहिया रइ व्व रुवेण सुपसिद्धा ॥ १४५ ॥

अह बुद्धि-रिद्धि-सुइसंपयाहि गुरु-धणय-येरसाहुँलया । मंति-महेब्भ-पुरोहा संति पसिद्धा तर्हि नयरे ॥ १४६ ॥

सिरिदत्त-सुमित्त-सुधोसनामया बहुमया महीपहुणो । रयणायर व्व ते उण नियनियमेरं न लंघंति ॥ १४७ ॥

तेसिं लक्खण-लच्छी-ल्लियाघरिणीण कुच्छिखाणीसु । उप्पन्नमणग्घेयं कन्नारयणत्तियं अत्थि ॥ १४८ ॥

ता बुद्धि-रिद्धि-गुणपुव्वसुंदरीनामधेयपयडाओ । उव्वहसियसुरवहूओ तिन्नि वि लायन्न-रुवेहिं ॥ १४९ ॥ 25

गिन्हंतीण कलाओ तारिं एगत्थ लेहसालाए । रइसुदरीए सद्धिं जाया पीई समगुणाणं ॥ १५० ॥

१ नयणहँ ख१ विना ॥ २ संकेतः—“रक्कघणि ति रक्कघाणि” । “रक्कत्ति” जेटि० ॥ ३ पहु ख२ भ्रा० ॥ ४ ‘परिपूर्ण’ जेटि० ॥ ५ “अर्द्धत्रयोदशकोटिरूपा” जेटि० ॥ ६ संकेतः—“अत्थि कलावीत्यादी [गिरिकाननपक्षे] कलापिन-मयूरा. [साकेतपुरपक्षे] कलाविदथ । [साकेत०] कोविदा, [गिरि०] कव(प)यथ । [गिरि०] शाला-वृक्षा, [साकेत०] शालाश्व-गृहाणि । [गिरि०] राजशुका, [साकेत०] राजसुताथ” ॥ ७ संकेतः—“[केसरिपक्षे] हता गजनाथा येन, [राजपक्षे] हय-गजाना नाथथ । [केसरि०] उद्धटीकृतकेसरसट्, [राजपक्षे] उन्नामिता-अतिसमृद्धीकृता ईपदीश्वरा येन । [के०] कराल-भीषण, [रा०] मनोज्ञथ” ॥ ८ संकेतः—[कमलापक्षे] कमलकर (रा), [राज्ञीपक्षे] कमला(ठे) [इव] करौ च यस्या” ॥ ९ “बृहस्पति-कुवेर-ब्रह्मसदृशा” जेटि० ॥ १० संकेतः—“साहुलय ति सदृशा” ॥



अवि य—

विउसाण कुलीणाणं धणीण धम्मीण तदियराणं च । पायं तुल्लगुणाणं जायइ जीवाण मित्तत्तं ॥ १५१ ॥

नेहनिरंतरयाए ताओ चउरो वि पायमेगत्य । भुंजंति सुवंति रमंति लोयलोयणकयाणंदं ॥ १५२ ॥

किं बहुणा ?

- 5 'एसा कज्जवसेण वम्मद्वपिया जाया चउद्धा णु किं?, देवी किं व सरस्सई फुडमहो ! एवंसरुवा ठिया ?' ।  
रुवं नाणगुणं चऽणन्नसरिसं तासिं समं पेच्छिरो, जाओ विम्हियमाणसो पुरजणो एवंवियप्पाउलो ॥१५३॥  
अह रिद्धिसुंदरीमंदिंरंतिए ताहिं रंसेंतीहिं । निज्जाइया कयाई पवित्तिणी गुणसिरी नाम ॥ १५४ ॥  
जा मयंकलंकमुक्का दूरियदोसुग्गमा थिरसहावा । निच्चमखंडायारा अउव्वगहनाहमुत्ति व्व ॥ १५५ ॥  
वासोउ व्व सुंमेहा अदिट्टदोसायरा अरयसंगा । ससियरधवलंवरसच्छमाणसा सरयलच्छि व्व ॥ १५६ ॥
- 10 अंगीकयपरमहिमा विउडियकमलायरा हिमोउ व्व । झिज्जंतसयलदोसा मुसीयला सिसिरमइय व्व ॥ १५७ ॥  
परहुयमहुरालावाणंदियलोया वसंतमुत्ति व्व । गिम्हमया इव्व कयजणवेंहुसेया उग्गतवणाहा ॥ १५८ ॥  
इय सव्वकालसीलं पवित्तचित्तं पवत्तिणिं दट्टुं । भणियं रायसुयाए वियसंतमुहारविंदाए ॥ १५९ ॥  
'चंदकल व्व सतारा किंक्रियवेसा हला हु का एसा । सहिया समाणवेसाहिं रायहंसि व्व हंसीहिं ?' ॥१६०॥  
भणियं वणियसुयाए 'अम्ह गुरुणं पि गउरवट्टाणं । उग्गतवच्छउयंगी एसा समणी समियपावा ॥ १६१ ॥
- 15 अच्चब्भुयं च सामिणि ! एयाए मांणसे विसालम्मि । निम्मलदैयकलियम्मि वि न रंयहंसो पयं कुणइ ॥१६२॥  
धन्ना नियंति एयं, धन्ना वंदन्ति भत्तिराएण । धन्ना इमीए वयणं निमुणंति कुणंति य सया वि' ॥ १६३ ॥  
इय सोउं सव्वार्हिं गंतूणं ताहिं वंदिया गुरुणी । तीए वि सुत्तविहिणा धम्मकहा तासि पारद्धा ॥ १६४ ॥  
'दुलहं मणुस्सजम्मं लद्धूणं रोहणं व रोरेण । रयणं व धम्मचरणं बुद्धिमया हंदि ! वेत्तव्वं ॥ १६५ ॥  
सिद्धं पि महाविज्जं असरंतो निप्फलं जहा कुणइ । तह धम्मपमाइल्लो हारइ पत्तं पि मणुयत्तं ॥ १६६ ॥
- 20 जह पत्थणालसाणं चिंतामणिणो न दिन्ति धणरिद्धिं । धम्मचरणालसाणं तह विहलो मणुयजम्मो वि ॥१६७॥  
जह दुलहं कप्पतरु लद्धं मग्गइ वराडियं मूढो । मोक्खफले मणुयत्ते तह मूढो मग्गए विसए ॥ १६८ ॥  
ता गिन्हइ सम्मत्तं, पडिवज्जह संजमं धुयावज्जं । तप्पह तवं महंतं, जइ मग्गह जम्म-मरणंतं ॥ १६९ ॥  
लूहं संजमकोट्टे ताविज्जंतं तवग्गिणा धणियं । सुंचइ कम्मकलंकं जीवसुवन्नं न संदेहो ॥ १७० ॥  
देहो धुवं विणासी, तव-संजमसाहणं फलं तस्स । वोळइ ह्हेलियं जीयं, ता मा धम्मे पमाएह' ॥ १७१ ॥
- 25 इय गणिणिमुहमयंका झरियं वयणामयं पियंतीणं । मिच्छत्तविसमसेसं नट्टं तासिं खणद्धेण ॥ १७२ ॥  
तो ताहिं सप्पमोयं भणियं "मयवइ ! न अन्नहा एयं । जं तुमए आइट्टं किंतु वयं मंदसत्ताओ ॥ १७३ ॥

१ संकेतः—“रंरंमंतीहिं ति मृश रममाणभि ” ॥ २ संकेतः—“[प्रहनाथमूर्तिपक्षे] मृगकलङ्क, [गुणश्रीपक्षे] मदकलङ्कश्च । [ग्रह०] दोषा-रात्रि, [गुणश्री०] दोषा-] दूषणानि च । [ग्रह०] अखण्डाकारा, [गुणश्री०] अखण्डाचारा च” ॥ ३ संकेतः—“[वर्षापक्षे] सुमेघा, [गुणश्री०] सुमेघा च । [वर्षा०] दोषाकर-चन्द्र, [गुणश्री०] दोषादरश्च । [वर्षा०] अरजसङ्गा, [गुणश्री०] अरतसङ्गा च । शशिध(क)रधवल [शरत्पक्षे] अम्बरम्-आकाश स्वच्छ च मानस सरो यस्याम्, अन्यत्र तु अम्बरं-वन्न मानस तु-चित्तम्” ॥ ४ संकेतः—“[हिमन्तपक्षे] अक्षीकृत परमहिमम्, [गुणश्री०] परा च महिमा यया । [हिमन्त०] विकुट्टिता कमलाकरा, [गुणश्री०] कमलादरश्च यया । [शिशिरपक्षे] दोषा-रात्रि, [गुणश्री०] दूषणानि च” ॥ ५ संकेतः—“[प्रीष्मपक्षे] बहुस्वेदा, [गणश्री०] बहुश्रेया च । [प्रीष्म०] उप्रतपनामा, [गुणश्री०] उप्रतपनाथा च” ॥ ६ संकेतः—“किंकियवेस ति धवलवेपा” ॥ ७ “उप्रतपकृशाङ्गी” जेटि० ॥ ८ संकेतः—“मानसे-सरोवरे, चेतसि च” ॥ ९ संकेतः—“दक-जलम्, दया च-करुणा” ॥ १० संकेतः—“राजहसो रागहसश्च” ॥ ११ संकेतः—“हुलियं ति शीघ्रम्” ॥

जओ—

उप्पाडिओ वि तुव्वेहिं अक्कतूलं व एस हेलाए । तवचरणभरो अम्हं भासइ गिरिरायगस्ययरो ॥ १७४ ॥  
 ता मोहविणडियाणं पडियाण पमायसंदेरेणीए । हत्थालंबसमाणं देहि गिहत्थोचियं धम्मं ॥ १७५ ॥  
 कलिऊण जोग्गयं मग्गासाहणे साहुणीपहाणाए । दिअं तासि विमुद्धं सम्मत्तं निम्ममत्ताए ॥ १७६ ॥  
 भणियं च 'जइ न सक्ह सव्वाणुव्वय-गुणव्वए धरिउं । तह वि परपुरिससंगे अकरणनियमं दढं कुणह ॥ १७७ ॥ 5  
 पावं सयं न कीरइ, विणियत्तिज्जइ परो वि पावाओ । मइविहवा नयनिउणं अकरणनियमस्सरूवमिणं ॥ १७८ ॥  
 एत्तो वित्थरइ जए विमला आचंद-सुरियं कित्ती । एत्तो कल्लाणपरंपरेण पाविज्जए मुत्ती ॥ १७९ ॥  
 वट्ठंति वसे तियसा, चित्तियमेत्ताइं सव्वकज्जाइं । संपज्जंति जियाणं एत्तो एत्थेव जम्मम्मि' ॥ १८० ॥  
 'उचियं कुलंगणाणं परलोयसुहावहं च तुव्वेहिं । आइट्ठमोसहं जह मिट्ठं गुरुरोगहरणं च' ॥ १८१ ॥  
 इय जंपिरीहिं हरिसुल्लसंतगत्ताहिं ताहिं सहस ति । गुरुवहुमाणपहाणो पडिवन्नो एस वरनियमो ॥ १८२ ॥ 10  
 पालंतीण य एयं जिणगुरुसक्कारकरणनिरयाणं । जिणमयसुइरसियाणं सुहेण कालो गओ कोइ ॥ १८३ ॥  
 अह नंदणम्मि नयरे चदनरिंदेण निययदूयाओ । रूवाइसओ रडसुंदरीए निसुओ हिययहारी ॥ १८४ ॥  
 अणुरायरसाइसया तेण निउत्तो तयत्थणे मंती । लद्धा य तेण पडिवत्तिनिउणमइमग्गमाणेण ॥ १८५ ॥

तओ—

विच्छेण सुमहया तिसज्जिया राइणा सुहसुहुत्ते । लच्छि व पुन्ननिहिणो सयंवरा तस्स सा पत्ता ॥ १८६ ॥ 15  
 अह वासरे पसत्थे वत्ते वीवाहमंगले रम्भे । वद्धावणयाणंदो नंदणनयरे पवित्थरिओ ॥ १८७ ॥  
 'किं एसा सग्गवहू ? किं वा पायालकन्नया धन्ना ? । लच्छी गोरी विज्जाहरि व मयणप्पिया किं वा ?' ॥ १८८ ॥  
 पइभवणं पइहट्ठं पडमग्गं पइसहं पइनिवाणं । सुव्वंति तम्मि नयरे इय नर-नारीगणुल्लावा ॥ १८९ ॥  
 कालेण निक्कलंको चदो चंदो व तीए जुन्हाए । जाओ जयम्मि पयडो संपत्तविमुद्धपक्खाए ॥ १९० ॥  
 अन्नदिणे कुरुवइणो महिंदसीहस्स संतिओ दूओ । चदनराहिवपुरओ संपत्तो भणुत्तामहत्तो ॥ १९१ ॥ 20  
 'संदिट्ठं मह पहुणा अम्हं तुम्हं च पुव्वपुरिसाणं । इयरजणाऽसामन्नो आसि दढ नेहपडिवंधो ॥ १९२ ॥  
 ते च्चिय सुया सुजाया चिट्ठंति थय व्व निययवंसग्गे । दुव्वायहया वि न जे मुयंति पुव्विल्लसंबंधं ॥ १९३ ॥  
 सायर-निसायराणं मेह-सिंहंडीण मिहिर-नलिणीणं । दूरे वि वसंताणं पडिवणं नऽन्नहा होइ ॥ १९४ ॥  
 किं वा भन्नउ अन्नं ? अन्नयसोजन्नमुव्वहंतस्स । सव्वं पओयणं मे कहियव्वं सव्वहा तुमए ॥ १९५ ॥  
 अन्नं च नवोढा ते सुव्वइ रडसुदरी पिया देवी । तं अम्हं पाहुणिगं पेससु सम्माणिमो जेण ॥ १९६ ॥ 25  
 जो मन्निज्जइ सयणो तस्स कलत्तं पि गउरवट्ठाणं । जम्हा पोत्तम्मि पिए होइ पियं पोत्तवेढणयं' ॥ १९७ ॥  
 सोऊण दूयवयणं भणियं चंदेण ईसि हसिऊण । "सव्वस्स जणियपणया भण कस्स न वल्लहा सुयणा ? ॥ १९८ ॥  
 मित्ती परोवयारो सुसीलया अज्जवं पियालवणं । दक्खिन्न-विणय-चाया सुयणाण गुणा निसग्गेण ॥ १९९ ॥  
 ता दूय ! जुत्तमेयं संदिट्ठं अम्ह तुह नरिंदेणं । उत्तमजसा हु सुयणा नियकुलमेरं न लंघंति ॥ २०० ॥  
 अम्हाण वि कहियव्वं पओयणं सव्वमेव जं उचियं । देवीए पेसणे पुण अज्ज वि न हु अवसरो कोइ ॥ २०१ ॥ 30  
 वायापडिवत्तीए वि कलिओ नेहो महिंदसीहस्स । किं वज्जगोरवेणं पढंति खल्ल पंडिया जेणं ॥ २०२ ॥  
 वज्जंति सुक्खविहगा नेहविहणेण वज्जदाणेण । छेयाण वंधणं पुण नऽन्नं सव्भावभणियाओ ॥ २०३ ॥

तथा—

वाया सहस्समडया सिणेहनिज्जाइयं सयसहस्सं । सवभावो सज्जणमाणुसस्स कोडि विसेसेइ” ॥ २०४ ॥  
 अह भणइ पुणो दूओ “देवीदंसणसमूसुओ देवो । ता न हु जुत्तं तुम्हं तव्वयणं अन्नहाकाउं ॥ २०५ ॥  
 ताव सुहओ गइंदो जा मज्जायं धरेइ हिययम्मि । अण्ह रुट्ठो दारुणभयंकरो कस्स नो होइ ? ॥ २०६ ॥  
 5 तुह चैव हियं भणिमो, कीरउ सामेण तरस आएसो । अण्ह वल्लिमड्ढाए गहिउमणो सो मए कलिओ” ॥ २०७ ॥  
 ताव कयभिउडिभंगो पभणइ चंदो “अहो ! कुलायारं । पालिउमिच्छइ स निवो मग्गंतो परकलत्ताइं ॥ २०८ ॥

अहवा—

जं छन्नं आयरियं तइया जणणीए जोव्वणमएण । तं पयडिज्जइ इण्हिं सुएहिं सीलं चयंतेहिं ॥ २०९ ॥  
 किं दूय ! घडइ एयं जीवंतो नियपियं सुयइ कोइ ? अप्पेइ पन्नगो किं जीवंतो मत्थयाभरणं ? ॥ २१० ॥  
 10 दूमिज्जंति नरिंदा लुपंते चंद-दिणयरकरेहिं । निययकलत्ते जे ते कह तं पेसिंति परगेहं ?” ॥ २११ ॥  
 पुणरवि दूओ जंपइ “नरवइ ! निसुणेहिं सत्थपरमत्थं । ‘आया हु रक्खियव्वो सव्वपयत्ता’ जओ भणियं ॥ २१२ ॥  
 भिच्चेहिं धणं रक्खह, दारं रक्खह धणेण भिच्चेहिं । नियजीवियं तु रक्खह धणेण दारेण भिच्चेहिं” ॥ २१३ ॥  
 इय सो समुल्लवंतो नरवडमिच्चेण चडसीहेण । निव्वमिच्छऊण हत्थं निच्छूढो अद्वयंदेण ॥ २१४ ॥  
 गंतूण तेण सिट्ठे कुत्रिओ भणियं महिंदसीहो वि । चलिओ निम्मज्जाओ जलही वा पलयपवणेण ॥ २१५ ॥

15 अवि य—

करिवरगुरुकल्लोलो फुरंतघणपुंडरीयडिंडीरो । पसरंतपउरवाहो अइभीमो खुहियजलहि व्व ॥ २१६ ॥  
 सोऊण तमासन्नं चदनरिंदो विवड्ढियामरिसो । विप्फुरियरणुच्छाहो पत्तो सवडम्मुहो तुरियं ॥ २१७ ॥  
 नियनियसामियकज्जुज्जयाण जसलालसाण तो सहसा । दोन्हं पि अणीयाणं पयट्टमाओहणं भीमं ॥ २१८ ॥  
 सुहडेहिं समं सुहडा जुडिया, तह साइणो वि साईहिं । रहिएहिं महारहिणो, निसाइणो पुण निसाईहिं ॥ २१९ ॥  
 20 खित्तं च खणेण पडिप्पहेण चंदस्स सेन्नमियरेण । थेंवं बहुणा सरियाजलं व जलनाहनीरेण ॥ २२० ॥  
 अह पवणजवणउत्तुंगतुरयजुत्तं रहं समारूढो । रोसानलदुप्पेच्छो सयमेव समुट्ठिओ चदो ॥ २२१ ॥  
 तो कुंताहयकुंजरविरसियभज्जंतसेसदोघइं । मोगगरपहारलुज्जंतरहरवुत्तद्वहयथइं ॥ २२२ ॥  
 अणवरयवाणधोरणिविज्जंतपलायमाणपैयालं । खित्तं तेण रिउवलं केसरिणा हरिणज्जूहं व ॥ २२३ ॥  
 ता उट्ठिओ सुट्ठो महिंदसीहो वि जीवियनिरीहो । जायं च वणगयाण व तेसिं दोण्ह वि चिरं समरं ॥ २२४ ॥  
 25 कह कह वि गयाघायाऽऽसाइयमुच्छो छलं लहेऊण । भवियव्वयानिओया वद्धो चदो महिंदेण ॥ २२५ ॥  
 ‘भो साहु साहु सुपुरिस ! निव्वडिओ अज्ज ते सुहडवाओ’ । इय जंपिरेण मंतिस्स अप्पिओ जीयरक्खत्थं ॥ २२६ ॥  
 गंतूण तओ तुरियं पलायमाणम्मि चंदसेन्नम्मि । हाहारवं कुणंती गहिया रइसुदरी तेण ॥ २२७ ॥  
 मोयाविऊण चंद रइसुदरिलाभवडिहयाणंदो । पत्तो नियम्मि नयरे भणिउं च तइं समाढत्तो ॥ २२८ ॥  
 ‘सुंदरि ! सुयमेत्ताए अणुराओ मे तुमम्मि संजाओ । तव्वसएण य विहिओ संरंभो एत्तिओ एस ॥ २२९ ॥  
 30 ता एस पयासतरू साहल्लं लहउ तुह पसाएण । पडिवज्जसु नणु संपइ कुरुजणवयसामिसालित्तं’ ॥ २३० ॥  
 तो चित्तइ चंदपिया “धिरत्थु संसारविलसियं पावं । रूवं पि मज्ज एवं अणत्थमूलं जओ जायं ॥ २३१ ॥

१ ‘हि पत्थ परमत्थं जे ॥ २ सट्ठेतः—“पसरंतपउरवाह ति [जलधिपक्के] वाहा -प्रवाहा, [महेन्द्रसिंहपक्के] अश्वश्व” ॥  
 ३ सट्ठेतः—“ पायालं ति पदातीना समूह पादातम्” ॥

जं किर एयनिमित्तं संपत्तो पाणसंसयं दइओ । एसो त्रिमुक्कलज्जो इच्छइ एवं नरयवायं ॥ २३२ ॥  
 अवियाणिय मह चित्तं कामग्गहमोहिणएण एएण । हा ! कह कओ निरत्थो संहारो भूरिसत्ताणं ? ॥ २३३ ॥  
 किं बहुणा ? ते घन्ना संपत्ता मुत्तिमुत्तमं जे उ । जम्हा ते जीवाण न कारणं दुहलवस्सावि ॥ २३४ ॥  
 कह नाम रक्खियव्वं सीलं एयाओ पावचरियाओ ? अहवा वि कालहरणं भणियं असुहस्स नीईए ॥ २३५ ॥  
 ता सामपुव्वगं चिय कालविलंबं इमं विहावेमि । सामं विणा न तीरइ वारिउमेसो जओ लुट्ठो” ॥ २३६ ॥ 5  
 इय भाविऊण पभणइ ‘कलिया गाढाणुरागया तुज्ज । पत्येमि अभो किंचि वि जइ न कुणसि पत्थणाभंगं’ ॥ २३७  
 भणइ निवो ‘जीयस्स वि पहवसि तं तह वि जंपसि किमेवं ? । जो देइ सिरं सुंदरि ! सो किं जाइज्जए नयणं ? २३८  
 अहवा तिलोयमंदिरमज्जगयं दुल्लहं पि जाएहि । संपाएमि अवस्सं तणं व तुलिऊण जीयं पि’ ॥ २३९ ॥  
 रइसुंदरीए भणियं ‘अलाहि अन्नेण एत्तिय भणिमो । मा वंभवयभंगं कुणसु महं जाव चउमासं’ ॥ २४० ॥  
 पडिभणइ पत्थिवो तो “वज्जपहाराओ दारुणं एयं । तह वि ‘तुहाऽऽणाभंगो न हु कायव्वो’ त्ति पडिवन्नं” ॥ २४१ ॥ 10  
 तो रुंदवसणसायरपडिया दीवं व पाविया सहसा । एहमेत्तेणं चिय जाया सा निव्वुया किंचि ॥ २४२ ॥  
 ष्हाणंगरायपमुहं अकुणंती सयलमंगपरिकम्मं । सोसंती य सरीरं निच्चं आयंविलाईहि ॥ २४३ ॥  
 जाया खल्लकवोला परिसोसियमंससोणिया धणियं । सुक्ककडीयड-सिहिणा पयडनसा फरुसकेसा य ॥ २४४ ॥  
 मलक्किणकसिणियकाया दवदड्ढा कमलिणि व्व नरवइणा । दिट्ठा सा अन्नदिणे पडिपुन्नप्पायवयसमया ॥ २४५ ॥  
 भणिया य ‘सुयणु ! किं पुण संजाया एरिसी तुहावत्था ? । किं अत्थि कोइ रोगो ? दुक्खं वाग्गणसं तिव्वं ?’ २४६ ॥ 15  
 भणइ रइसुंदरी तो ‘नरवर ! वेरग्गओ महाघोरं । पडिवन्नं वयमेयं ओलुग्गा तेण जाय मिह ॥ २४७ ॥  
 पालेयव्वं च मए तहा वि अइदुक्करं पि वयमेयं । जं वयभंगो नरयस्स कारणं नियमओ भणिओ’ ॥ २४८ ॥  
 वज्जरड तओ राया ‘किं पुण वेरग्गकारणं तुज्ज । जेणेरिसमारद्धं मुट्ठे ! उग्गं तवोकम्मं ?’ ॥ २४९ ॥  
 सा भणइ “मेइणीसर ! सरीरमेवऽप्यगो महापावं । वेरग्गकारणं मे पायडदीसंतदोससयं ॥ २५० ॥

अवि य—

20

वस-मंस-दइ-सोणिय-मुत्ता-ऽसुइ-सिंभ-पित्तपडहत्थं । दारेहिं नैवहिं एय झरइ सया असुइनीसंदं ॥ २५१ ॥  
 परिसीलियं पि मुहुमुहुधोवण-धुवण-विलेवणाईहि । न सुयइ विगंधिभावं सुनियंसियभूसियमवीमं ॥ २५२ ॥  
 अंतो बहिं च जं जं भोगंगमिमस्स सुट्ठु सुहगंयं । उवणिज्जइ निज्जइ तं इमेण सहसा असुइभावं ॥ २५३ ॥  
 अच्चंतं दुव्विसहो गंधो एयस्स खलसरीरस्स । कस्स न करेड गरुयं वेरग्गं नणु सयन्नस्स ? ॥ २५४ ॥  
 अन्नं च एस अन्नो दोसो एयस्स पावदेहस्स । इय निग्गुणेण इमिणा मोहिज्जइ जं गुणड्ढो वि” ॥ २५५ ॥ 25  
 एवं विरागजणणिं सोउं तद्देसणं मणागं पि । न हि भाविओ नरिंदो घणंबुणा मुग्गसेलो व्व ॥ २५६ ॥  
 चित्तइ य ‘अपरिकम्मा एसा अंगे विरागयं पत्ता । होही पुणो वि सत्था नूणं नियमे सैमत्तम्मि’ ॥ २५७ ॥  
 ‘मा कुणसु सुयणु ! खेयं पुज्जउ नियमो सुहेण तुह एसो’ । इय जंपिऊण हसिरो तो राया पडिगओ तत्तो ॥ २५८ ॥  
 अवहिम्मि पुणो पुन्ने वुत्ता भुत्तुत्तरे मर्हिदेण । ‘उक्कंठिओ मिह सुंदरि ! वाढं तुह संगमे अज्ज’ ॥ २५९ ॥  
 तो भणियं देवीए “सच्चयमाहाणयं इमं जायं । टारस्स मरणसमओ मग्गिज्जइ पंचहिं सएहिं ॥ २६० ॥ 30  
 अज्ज मए बहुकाला परिभुत्तं निद्धमणहरं भत्तं । तेण सरीरे संपइ वट्टइ हल्लोहलो अउलो ॥ २६१ ॥

१ संकेतः—“ओलुग्गा त्ति विच्छाया” ॥ २ “नित्र२-कर्ण२-नामा२-सुख१-अपान१-मेहना१ख्यानि ९ पुस”, स्त्रीणा तु स्तनद्वये-  
 नैकादश” जेटि० ॥ ३ समत्थम्मि जे०विता ॥ ४ “अधमाश्वस्य” जेटि० ॥

फुडइ सिरं वियणाए, अइरुंदा सुलवेयणा तुंदे । तुट्टंति व संधीवंधणाणि सव्वाणि समकालं” ॥ २६२ ॥  
 इय दीणं भणिरीए मयणहलमलक्खियं कयं वयणे । वमियं च तेण सहसा तक्खणभुत्तं सयलभत्तं ॥२६३॥  
 भणियं ससंभमं तो “पेच्छ सरीरस्स देव ! असुइत्तं । तव्विहमणुन्नमन्नं खणेण असुइकयं जेण ॥ २६४ ॥  
 अन्नं च सुहय ! साहसु अइसयल्लुहिओ वि को वि किं एयं । इच्छइ पुरिसो भोत्तुं तुम्हारिसवाल्लिसं मोत्तुं” ॥२६५  
 5 जंपइ पुहइपहू तो ‘सुंदरि ! कह वालिसो अहं होमि ? । कह वा एरिसभत्तं भोत्तुं इच्छामि पसयच्छि ! ?” ॥२६६  
 इयरी भणइ ‘वियक्खण ! पयडं एयं पि किं न लक्खेसि । परपरिसुत्तकलत्तं एत्तो वि ‘विलीणयं होइ ?’ ॥२६७  
 ‘सच्चं सुंदरि ! एयं इह परलोए विरुद्धमच्चंतं । रागाडरेगओ हं तथा वि तुह संगमे लुद्धो’ ॥ २६८ ॥  
 इय जंपिरो नरिंदो भणिओ तीए वि मुक्कनीसासं । ‘एत्थ निहीणे देहे किं रागनिवंधणं तुज्ज ?’ ॥ २६९ ॥  
 भणइ निवेण ताहे ‘सुंदरि ! तवसोसिए वि तुह देहे । नयणं वुरुहस्स फुडं मोल्लं पुहई वि नो होइ’ ॥२७०॥  
 10 नाऊण निच्छयं से उवायमन्नं अपेच्छमाणीए । नियसीलरक्खणत्थं अगणंतीए तणुविणासं ॥ २७१ ॥  
 रइसुंदरिदेवीए अवलंविचय साहसं महाचोज्जं । उप्पाडिऊण सहसा लोयणजुयमप्पियं रन्नो ॥ २७२ ॥  
 भणियं च ‘गिन्ह सुपुरिस ! इमाइं अइवल्लहाइं हिययस्स । कुगइनिवाडणपड्डुणा अलाहि सेसंगसंगेण’ ॥२७३॥  
 दट्टण तं विचक्खुं वियलियराओ नरेसरो जाओ । वडिद्वयगरुयविसाओ सविम्हओ मणिउमाढत्तो ॥ २७४ ॥  
 ‘हा सुयणु ! कीस तुमए कयमेयमईवदारुणं कम्मं । मम अप्पणो य दुहदाहदायगं दुक्करं सुट्टु ?’ ॥ २७५ ॥  
 15 तीए भणियं “नरवर ! मम तुम्ह य सुहनिवंधणं एयं । कडुगोसहं व आगाढरोगिणो रोगसमदच्छं ॥२७६॥  
 जं मइलिज्जद वंसो, वज्जइ भुवणे सया अयसपडहो । पाविज्जइ नरयगई नरवर ! परदारसंगेण ॥ २७७ ॥  
 दालिहं दोहगं नपुंसयत्तं भगंदर कोहं । जीवा अणंतखुत्तो लहंति परदारसंगेण ॥ २७८ ॥  
 निरएसु तिच्चदुक्खं, नेल्लणमाइयं च तिरिएसु । जीवा अणंतखुत्तो लहंति परदारसंगेण ॥ २७९ ॥  
 एयारिसदुक्खाणं चुक्का अहयं तुमं च एत्ताहे । इय उभयहियं एयं कयं मए दुक्करं जइ वि ॥ २८० ॥

20 अण्णं च—

मह दोसेण महायस ! पावाभिमुहो तुमं पि संजाओ । ता कह दंसेमि नियं वयणं तुह मंदभग्गा हं ? ॥२८१॥  
 जइ लोयणहाणीए वारिज्जइ तुम्ह दोग्गईगमणं । ता किं न मए लद्धं ? परत्थसारा जओ पाणा” ॥ २८२ ॥  
 एमाइजुत्तिसारं गंभीरं देसणं निसामितो । पडिबुद्धो नरनाहो परिओसवसा भणइ देविं ॥ २८३ ॥  
 ‘सुंदरि ! हिया-उहियाणं सुट्टु विभागं तुमं वियाणासि । ता आइस जमियाणिं जुत्तं मम मंदपुन्नस्स’ ॥२८४॥  
 25 सा पभणइ ‘निवसुंदर ! कुण विरइं परकलत्तसंगस्स । जेण भवसंभवाणं दुक्खाण न भायणं होसि’ ॥ २८५ ॥  
 अणुतावतिच्चहयवहडज्जंतमणोवणो तओ राया । मन्ततो धम्मगुरुं तं पडिबज्जइ तथादेसं ॥ २८६ ॥  
 ‘हा ! कह महासईए कओ अणत्थो मए अणज्जेण ?’ । इय सोयनीसहंगो जाओ य विमुक्कवावारो ॥ २८७ ॥  
 अह रइसुंदरिदेवी सासणदेविं मणम्मि काऊण । काउस्सगम्मि ठिया ज्ञायंती जिणनमोक्कारं ॥ २८८ ॥  
 आकंपिया य सहसा तयंतियं देवया समायाया । कुणइ नयणाइं तीसे सविसेसविलाससोहाइं ॥ २८९ ॥  
 30 तदंसणसीयलवारिवारियासेससोयसंतावो । जाओ थिरयरचित्तो पडिबन्नवए नरवरिंदो ॥ २९० ॥  
 मरिसाविऊण बहुहा पच्चइयमहंतएहिं परियरियं । कयवहुविहप्पसायं पेसइ तं नंदणं नयरं ॥ २९१ ॥  
 संदिट्ठं चदस्स वि जह “एसा मज्झ सोयरी भइणी । धम्मगुरु परमप्पा महासई देवकयरक्खा ॥ २९२ ॥

ता एयाए उवरिं असुहासंका न काइ कायव्वा । खमियव्वो अघराहो ममावि पाविट्टलट्टस्स ॥ २९३ ॥  
धम्मो तं जस्स घरे तिहुयणलच्छि व्व पंकयदलच्छी । अच्छइ निच्छियसारा एसा सुररक्खिया सक्खा” ॥२९४  
दट्टूण तं किसंगिं सोऊण महिंदसीहसंदिट्ठं । वुत्तंतं च पवित्तं चदनरिंदो दहं तुट्ठो ॥ २९५ ॥

तीए सद्धिं सद्धम्मविद्धिसारं मणोरमं रज्जं । परिवालिउमारद्धो फुरंतजसकित्तिसंताणो ॥ २९६ ॥

एवं अकरणनियमो सम्मं आराहियो निवसुयाए । वयणं पवित्तिणीए निरंतरं संभरंतीए ॥ २९७ ॥

5

अह बुद्धिसुंदरी वि हू दिण्णा पिउणा सुसीमनयरम्मि । कयपत्थणस्स बहुसो सुकित्तिणो रायमंतिस्स ॥२९८॥  
उत्तमकलाकलावं पुन्नं ताराहिवं व तं लहिउं । छणजामिणि व्व सुहया सुसोहिया सा जए जाया ॥ २९९ ॥

अन्नदिणे नरवडणा नीहरमाणेण रायवाडीए । दिट्ठा पासायतले फुरंतकंती सुरवहु व्व ॥ ३०० ॥

लायन्नमणन्नसमं तीए दट्टूण माणसं तस्स । खुत्तं सिलाजउम्मि व संचरिउं तरइ नऽन्नत्थ ॥ ३०१ ॥

कामग्गितत्तणुणा उवायमन्नं अपेच्छमाणेण । तेणऽण्णदिणे दूर्इ नियदासी पेसिया तीसे ॥ ३०२ ॥

10

उवलोहिया वि तीए विचित्तजुत्तीहिं मणहरूत्तीहिं । निव्वमच्छिऊण हत्थं निट्ठाडइ चेडियं सा उ ॥ ३०३ ॥

तह वि निव्वो मोहंधो गहिओ कामग्गहेण उग्गेण । व्वगयलज्जोऽणज्जो सज्जो गहणुज्जओ संतो ॥ ३०४ ॥

सहसा सपुत्तदारं वंधाविय चारए खिवइ मंतिं । मंतविभेयऽवराहं पयडं कवडेण जंपंतो ॥ ३०५ ॥

पउरेहिं पउरविणयं ‘न कुणइ एसो इमं’ ति वित्तेहिं । कह कह वि मोइओ सो न य मुंचइ सुदरिं तह वि ॥३०६॥

संलवइ उच्चसदं ‘भो भो ! ता कुणह पच्चयं मज्झ । मुंचिस्सामि इमं ता न अन्नहा अइचिरेणावि’ ॥३०७॥

15

विन्नायतयज्झप्पा नागरया पडिगया विलियचित्ता । अंतेउरं पवेसिय इयरेण वि सुंदरी भणिया ॥ ३०८ ॥

‘विन्नत्ता दूर्इए मह वयणा तह वि किं न मन्नेसि ? । सोहग्गाओ उवरिं किं मग्गसि मंजरिं मुट्ठे ? ॥ ३०९ ॥

को एत्तियं कुणंतो पडिवन्नं होज्ज जइ पुरा तुमए ? । कज्जम्मि सामसज्जे को दंडं चंडमाढवइ ? ॥ ३१० ॥

एयारिसनिव्वंधा जइ मुणिओ मह सिणेहसव्भावो । ता मा मामवमन्नसु अखंडिओ होइ जेणेस’ ॥ ३११ ॥

सोऊण रायवयणं संवेगरसं परं अणुहवंती । तं पडिवोहिउकामा मंतिपिया भणिउमाढत्ता ॥ ३१२ ॥

20

‘एयारिसे अक्कजे रमंति जे होंति हीणजाईया । तुम्हारिसाण नरपहु ! न हू छज्जइ एरिसं पावं ॥ ३१३ ॥

न चयइ मेरं सुयणो ताविज्जंतो वि तिव्वदुक्खेण । पहओ वि चंडमरुया लंघइ किं सायरो सीमं ? ॥ ३१४ ॥

रायरिसिणो य तुब्भे दुन्नयनासणनिमित्तमिह सिट्ठा । सयमेव दुन्नयरया कहऽण्णलोयं निवारिहिह ? ॥३१५॥

अन्नं च पत्थिवाणं अवच्चपाया पया सदेसत्था । ता तत्थ पेमरागो न संगओ नायसाराण ॥ ३१६ ॥

उत्तमकुलजायाओ जायाओ संति ते अणेगाओ । लज्जसि किं न महंतो हीणाओ मारिसित्थीओ ? ॥ ३१७ ॥

25

पोरुसपयावपायवदवपायपरंगणापसंगेण । मा मा लिहसु निरत्थं अयसपैसत्थं(त्थिं) मयंकम्मि’ ॥ ३१८ ॥

इय सोववत्तियं तीए मंतिं संतिं पियं मूढस्स । भरियघडस्स व नीरं न तस्स कंठरे थक्कं ॥ ३१९ ॥

हसिऊण भणइ तो सो “सुंदरि ! जाणामि निच्छियं सव्वं । किंतु न जुज्जइ एरिसवियारणा नेहरसियाण ॥३२०

भणियं च—

जेत्थु गणंतेहिं अत्थु वइज्जइ, तुच्छं वि पाणपीड रक्खिज्जइ ।

30

जेत्थु अजुत्तु जुत्तु जोइज्जइ, नेहह तासु जलंजलि दिज्जइ’ ॥ ३२१ ॥

नाऊण निच्छियं से कलिऊण य कालजावणाकालं । तं बुद्धिपुव्वयं बुद्धिसुंदरी सायरं भणइ ॥ ३२२ ॥

“जइ एस निच्छओ ते तद्वा वि पडिवज्ज पत्थणं एगं । परिवालिज्जउ नियमा नियमसमत्ती तुमे मज्झ ॥३२३॥

जओ—

जो कुणइ नियमभंगं जो वि य कारेइ कह वि दुव्वुद्धी । ते दो वि हुंति दुहलक्खभायणं भीमभवगहणे” ॥३२४

पडिवज्जमकामेणावि मेइणीसामिणा इमं वयणं । ‘मा हुज्जसज्जयं भामिणीण’ परिभावयंतेण ॥ ३२५ ॥

5 इयरी वि किंचि निव्वुयहियया रन्नो विवोहणोवाए । मग्गंति च्चिय कालं गमेइ नाणाविणोएहिं ॥ ३२६ ॥

अण्णदिणे आणाविय सुपसत्थं सित्थयं विसत्थाए । घडियं नियपडिविं निउणाए पुत्थकम्मम्मि ॥ ३२७ ॥

तं पुण अंतो सुसिरं भरियममेज्जस्स दुरट्ठिगंधस्स । वाहिं सुमट्ठलट्ठं कयसुराहिविलेवणाडोवं ॥ ३२८ ॥

तो ईसि हसंतीए गोट्टिकए आगयस्स भूवस्स । दंसिय भणियं तीए ‘होमि न वा एरिसी अहयं ?’ ॥३२९॥

विम्हियमणेण तेण वि भणियं ‘ते साहु सुयणु ! कोसलं । सच्चवियं सविसेसं जेण इमं अत्तणो ख्वं ॥३३०॥

10 जस्स तुमं हिययगया नियच्छमाणस्स तस्स फुडयेयं । नयण-मणोनिव्व्राणं सुंदरि ! निस्संसयं कुणइ’ ॥३३१॥

‘जइ एवं ता सुपुरिस ! धरेहि एयं समंदिरे निचं । सुंचाहि मं इयाणिं निबंधणं कुलकलंकस्स’ ॥ ३३२ ॥

इय तीए संलत्ते पडिवुत्तं पत्थिवेण ‘नणु एवं । पवणेण घणा इव झत्ति मज्झ पाणा विलिज्जंति ॥ ३३३ ॥

जे तुह संगसुहासारज्जुनिवद्धा दुह मए रुद्धा । घांटेरुयससया इव अवंधणा ते पलायंति’ ॥ ३३४ ॥

‘मन्ने मम संगआओ एईए संगमो सुहय ! सुहओ । अहयं मयणविउत्ता मयणमया चैव जं एसा’ ॥ ३३५ ॥

15 इय वितीए तीए उवणीया राइणो मयणमहिला । तेण उ साह्वयं पिव पणोल्लिया पाविया भंगं ॥ ३३६ ॥

दट्ठण असुइनियरं जंपइ राया ‘किमेरिसं मुद्धे ! । वाढं दुगुंछणिज्जं वालाण वि चेट्ठियं तुमए ?’ ॥ ३३७ ॥

सा भणइ ‘देव ! एसो नियपडिच्छंदो मए त्रिणिम्मविओ । एयारिसि च्चिय अहं अहवा एत्तो वि हीणयरी ॥३३८॥

जल-जलणाइपओगा सोहिज्जंतो विसुज्जई एस । एयं तु मज्झ अंगं नरनाह ! न सोहिउं सक्का ॥ ३३९ ॥

असुइम्मि समुप्पन्नं असुइस्स रसेण पावियं विद्धिं । अंतोऽसुइपडिपुन्नं असुइं पज्जरइ सव्वत्तो ॥ ३४० ॥

20 जं किर इमस्स मज्झे तं जइ वाहिं पि पायडं होज्जा । काय-सुणयाण ता को रक्खेज्ज इमं सुदक्खो वि ? ॥३४१॥

अविगणिय कुलकलंक इय कुहियकरंकारणे कीस । वियरसि सच्चंकारं तं नारय-तिरियदुक्खाणं ? ॥ ३४२ ॥

तिलत्तुसमेत्तसुहत्ये मीणो इव मंसपेसियाल्लद्धो । पाढेहि अप्पयं मा हु धीर ! नरयानले घोरे ॥ ३४३ ॥

सुंजंतो परदारं दारं पउणेइ नरयगुत्तीए । न य संपावइ पारं पारंपरियाण दुक्खाणं ॥ ३४४ ॥

कस्स न सुहय ! सुहायइ संगो तुम्हारिसेहिं सुयणेहिं ? । किंतु न सक्का सोढुं नरए वज्जग्गिजालाओ ॥ ३४५ ॥

25 भोगसुहं मणुयाणं संजायइ केई परिमिए दिवसे । नरए दारुणदुक्खं सागर-पल्लिओवमाणेहिं ॥ ३४६ ॥

अन्नं च—

किं पेच्छसि मम अहियं नरवर ! अंतेउराउ निययाओ । जं कुणसि असग्गाहं वालो व्व अनायपरमत्थो ॥३४७॥

अवि य—

मग्गंति विम्हिया जह एगं चंदं जले जले वाला । तह तुल्लं भोगसुहं मूढा अन्नन्ननारीसुं” ॥ ३४८ ॥

30 इय निमुणंतो सहसा राया संवेगसारसुल्लवइ । ‘साहु सुभणियं सुंदरि ! नायं तत्तं मए दाणिं ॥ ३४९ ॥

मोहंघस्स तए मम विवेगचक्खु सुनिम्मलं दिन्नं । नरयागढे पडंतो झड त्ति धरिओ अहं तुमए ॥ ३५० ॥

१ पोत्थकं ले०विना ॥ २ अंतो सुसिरं आ० ॥ ३ वन्धनच्युतशशका इव इत्यर्थः ॥ ४ केवि पं ले० ॥

५ ‘पल्लोवमां’ ले०विना ॥

मण किं करेमि इण्हि तुज्ज पियं सुयणु ! मंदमग्गो हं ? । तीए भणियं 'गिन्हसु विणित्रित्तिं परकलत्तस्स' ॥३५१  
तो हरिसपुल्लइयंगो चको इव दिट्ठउग्गयपयंगो । विरओ परदाराओ राया कयधम्मगुणराओ ॥ ३५२ ॥

'भो साहु साहु सुपुरिस ! मुणियं तत्तं उरीकयं सत्तं । न य मेइलियो सवंसो' इय सुदरिए कयपसंसो ॥३५३॥

खामिय पुणो पुणो तं पूइयसकारियं विसज्जेइ । मंतिस्स वि सपसाओ राया पुण्वि व संजाओ ॥ ३५४ ॥

एवं अकरणनियमो अकलंको पालियो इमीए वि । जिणसासणसरसिरुहं सेसं व सिरे धरंतीए ॥ ३५५ ॥ 5

अह तामलित्तिउत्तमचित्तं गयनेगमंगओ धम्मो । वाणिज्जकए साँकैयमागओ मुणियजिणधम्मो ॥ ३५६ ॥

तेणै य कयाइ विवणिट्ठिएण किर रिद्धिसुदरी दिट्ठा । सहसा सहीहिं सहिया वच्चंती रायमग्गेण ॥ ३५७ ॥

परिचित्तियं च ताहे 'अहो ! असारं वि एत्थ संसारं । एसा सारंगच्छी सारारयंति व्व पडिहाइ ॥ ३५८ ॥

जइ कीरइ गिहवासो आसावंधो य विसयसुहलेसे । ता सह इमीए जुत्तो इहरा उ विडंबणा चेव' ॥ ३५९ ॥

इय चित्तिरस्स अहियं वच्चइ तहियं पुणो पुणो तस्स । वारित्तस्सावि वला दिट्ठी गिट्ठि व्व जवसम्मि ॥३६०॥ 10

एत्थंतरम्मि देव्वा कुज्जलालोयवाउलमणाए । तीए वि लोयणाइं सहस चिय तम्मि पत्ताइं ॥ ३६१ ॥

तं पेच्छिउकामाए तत्तो उद्विस्स सहियणं भणियं । 'एसो हला ! नवल्लो दीसइ वाँलुंजओ कोइ' ॥ ३६२ ॥

मुणियमणोभावाए भणियं एगाए ईसि हसिरुण । 'सच्चं न एस वल्लो दीसइ सहि ! तिल्लमओ जेण' ॥३६३

अन्नाए संलत्तं 'सहि ! ऐंसो निउणकरिसओ कोइ । जो उप्पायइ तिल्लेवल्लरेसु सहसा तिल्ले विउले' ॥३६४॥

अन्ना वि आह 'मुद्धे ! नणु एसो पस्सओहरो' तिथिन्नो । जेण सहिचित्तवित्तं हरियं सव्वासि पच्चक्खं ॥३६५ 15

ता उवणिज्जउ मुद्धे ! एस महौरायगोयरं तुरियं । जेणऽम्ह सामिणीए अप्पइ सयलं हिययरित्थं' ॥ ३६६ ॥

अन्ना भणइ 'सयं चिय गहियो एसो हलाऽणुराएण । नज्जइ जीवियकज्जे महइ अओ सामिणीसरणं' ॥३६७

'नाया हं' ति विलक्खा अह पभणइ रिद्धिसुदरी ताओ । 'संचलह हला ! हुलियं अलं असंवद्धवाएण' ॥३६८॥

एत्थंतरम्मि सहसा छीयं धम्मेण नियनिमित्ताओ । भणियं च तयवसाणे 'नमो नमो जिणवरिंदाणं' ॥ ३६९ ॥

तं मुणिय समुल्लसियं अहिययरं रिद्धिसुदरीए वि । भणियं च 'चिरं जीवउ जिणिंदमत्तो जणो एस' ॥३७०॥ 20

आयन्निय नीसेसं वुत्तं तमिणं सुमित्तवित्तेसो । पुच्छइ धम्मसरूवं तयभिन्ने भव्वजीवो व्व ॥ ३७१ ॥

नाऊण परियणाओ चेइय-जइपूयणेकरसियत्तं । तस्स सयमेव गंतुं वियरइ धूयं सुहमुहुत्ते ॥ ३७२ ॥

मग्गंताण वि कुल-रूव-विहव-कोसल्ल-कित्तिकलियाण । जिणमयवज्झाण वहूण जा न दिन्ना पुरा पिउणा ॥३७३

संपइ अमग्गिया सा लद्धा धम्मेण जिणमयरएण । अहवा अमग्गियं चिय लहंति सोक्खं जिणमयत्था ॥ ३७४ ॥

वारिज्जयम्मि वत्ते संपुन्नमणोरहो सह पियाए । कयकायव्वो धम्मो संपत्तो तामलित्तीए ॥ ३७५ ॥ 25

जायं च तहा तेसिं पेम्मं निव्वडियहिययसव्भावं । न सहंति विप्पओगं जह दो वि निमेसमेत्तं पि ॥३७६॥

अह अन्नया सभज्जो पोएण महग्गमंडभरिएण । धम्मो धणज्जणत्थं संपत्तो मिहलदीव ॥ ३७७ ॥

तत्तो विट्ठवित्तो पमुइयचित्तो लहुं पडिनियत्तो । पत्तो अंतो रयणायरस्स भव्वभीमरूवस्स ॥ ३७८ ॥

१ मयलियो खर ॥ २ सागेयं जे०विना ॥ ३ तेण वि कया जे० ॥ ४ संकेतः—“सारारयंति व्व ति सारारय-  
माणा” ॥ ५ सक्कत्तगौ- इत्यर्थः ॥ ६ देवा जे०विना ॥ ७ “वाल्लजओ-वणिक्” जेटि० ॥ ८ “वल्लो हि रुद्ध”, अत स्नेहसद्भावात्  
तिलमय-स्नेहमय” जेटि० ॥ ९ संकेतः—“तिलशब्देन स्नेहो लक्ष्यते” ॥ १० एसो नूण करिं जे० ॥ ११ सङ्केतः—“खिलव-  
ल्लरेसु ति अक्कच्छेत्रेषु” । “खिलवल्लरेषु-ऊपरक्षेत्रेषु अक्कच्छेत्रेषु कन्यासु इति भाव” जेटि० ॥ १२ त्येव्वो जे०विना । “स्तेन-  
चौर” जेटि० ॥ १३ सङ्केतः—“महाराजस्य महाराजस्य गोचरम्, राज्ञा रागेण च” ॥ १४ दरी तत्तो । संचल्ल हला ! जे० ॥



- भवियव्रयानिओया अतक्कियं चैव दुद्धिणं जायं । उल्लालियकल्लोलो उच्छलिओ कालियावाओ ॥ ३७९ ॥  
 दट्ठूण पलयमारुयपहयं व महोदहिं महाभीमं । ओलंविआ खणद्धेण नंगरा पोयभियगेहिं ॥ ३८० ॥  
 संकोइओ सियवडो पारद्धा देवयाण विघ्नत्ती । वणियमिहुणेण विहियं सागारं तत्थ संवरणं ॥ ३८१ ॥  
 भमिऊण जाणवत्तं चक्काउद्धं व ताव खणमेकं । सीमतिणिहिययगयं गुज्जं पिव तक्खणे फुट्टं ॥ ३८२ ॥  
 5 परिमुक्कजीवियासं उव्वुद्धनिवुद्धणं कुणंतेहिं । कह कह वि फलयजुयलं सुंदरि-धम्मैहिं संपत्तं ॥ ३८३ ॥  
 चउ-पंचवासरेहिं लगाइं दो वि एगदीवम्मि । मिलियाइं च कयाई हरिस-विसायं वहंताइं ॥ ३८४ ॥  
 सुलहाओ विवयाओ, दुलहा सुविसुद्धधम्मसंसिद्धी । इह संसारे घोरे अणोरपारे समुदे व्व ॥ ३८५ ॥  
 संपत्तीसु पमोओ न हु जुत्तो आवईसु य विसाओ । जाणियअसारसंसारख्वजिणभणियतत्ताणं ॥ ३८६ ॥  
 धीरेहिं कायरेहि य सोढव्वमवस्समेव सुहदुक्खं । तम्हा धीरेहिं वरं सोढमिणं बुद्धिमंतेहिं ॥ ३८७ ॥  
 10 ते धीरा साहसिणो उत्तमसत्ता महायसा पुरिसा । आवइगया वि जे इह न धम्मकम्मे पमायंति ॥ ३८८ ॥  
 इय अन्नोन्नं कयदेसणाहिं उद्धरियधीरभावाइं । सावयधम्मं सम्मं कुणंति ताइं पसंताइं ॥ ३८९ ॥  
 उद्धीकयं च तेहिं दीवत्तडे भिण्णवाहणियचिंधं । तं पेच्छिऊण पत्ता तत्थ नरा वेडियारूढा ॥ ३९० ॥  
 भणिओ य तेहिं धम्मो लोयणवणिण पेषिया अम्हे । जइ एसि जंबुदीव ता आरूह एत्थ वेडाए ॥ ३९१ ॥  
 ताहे पियासमेओ धम्मो तं वेडियं समारूढो । आरोविओ य पोयं सगउरवं पोयवणिण ॥ ३९२ ॥  
 15 वचंति भरहसमुहं सन्नायकहाहिं पसुइया दो वि । जाव जलनाहकूलं जायमहोरत्तदुगगम्मं ॥ ३९३ ॥  
 अह धम्मभारियं हिययहारियं लोयणो पलोयंतो । वम्महकिसाणुकीलाकवलियकाओ विचित्तेइ ॥ ३९४ ॥  
 “अहह ! चिराओ विहिणा सयलो विन्नाणपरिसो नियओ । पयडीकओ इयाणिं रइऊण इमं वरं रमणिं ॥ ३९५ ॥

अहवा—

- अविरयचावायइहणपगाढसुंठियस्स कुसुमचावस्स । मन्नामि हत्थभल्ली जयविजयत्थं इमा सिद्धा ॥ ३९६ ॥  
 20 किं जोव्वणेण ? किं वा धणेण ? किं जीविण रूवेण ? । जइ मे सयं न लग्गइ एसा उकंठिया कंठे ॥ ३९७ ॥  
 नूणं न चैव इच्छइ नरमन्नं नियमभत्तुणो एसा । को परिणयमायंदं मोत्तुं निवप्फलं असइ ? ॥ ३९८ ॥  
 एवं स पावकम्मो अणप्पकुविद्यप्पसप्पगसियप्पा । धम्मविवायाभिमुहो संवुत्तो दूरभविउ व्व ॥ ३९९ ॥  
 जायम्मि मज्जरत्ते पसुत्तवक्खित्तपरियणे तेणं । खित्तो पमत्तचित्तो धम्मोऽगाहे नईनाहे ॥ ४०० ॥  
 जाए तओ पहाए अनियंती रिद्धिसुदरी दइयं । किंकायव्वविमूढा परोविया करुणसद्धेण ॥ ४०१ ॥  
 25 भणियं च लोयणेण वि ‘हा हा ! मित्तो कहिं मम पउत्थो ?’ । हाहारवं कुणंतो परोविओ भियगवग्गो वि ॥ ४०२ ॥  
 अकंदिऊण सुइरं अणुणीया तेण सुदरी वहुहा । भणिया य ‘मा विस्सरसु अहं भविस्सामि ते नाहो ॥ ४०३ ॥  
 तुह संतियं किसोयरि ! सव्वं चिय मह विदत्तयं एयं । किं खिज्जिण संपइ विहिणा विहडाविए कज्जे ? ॥ ४०४ ॥  
 दासत्तं पि पवज्जिय काहं मणनिव्वुइं अहं तुज्ज । कहसु किमन्नं संपइ सकइ अम्हारिसो काउं ? ॥ ४०५ ॥  
 इय निसुयतदुल्लावा वियक्खणा लक्खिऊण विक्खणयं । संवेगभावियमणा निंदइ हियए नियं रूवं ॥ ४०६ ॥  
 30 चित्तइ “इमेण नूणं कयमेयं एरिसं महापावं । जं रागग्गहगहिया कज्जा-ऽकज्जं नै वुज्जंति ॥ ४०७ ॥

१ संकेत—“कालियावाउ ति कालिकावात प्रवहणोपघाती” ॥ २ ओवुद्धनिं जे० ॥ ३ धम्मणेण सं जे० ॥  
 ४ संकेत—“किसाणुकील ति वहिज्जवाला” ॥ ५ सङ्केत—“सुद्धियस्स ति श्रान्तस्य” ॥ ६ सङ्केत—“मायंदो ति सहकार” ॥  
 ७ सङ्केत—“विकखणयं ति कार्यम्” ॥ ८ इ महकज्जेणं कयं भ्रा० ॥ ९ न चितंति भ्रा० ॥

जुत्तं ममावि नूणं पडिउं रयणायरम्मि रयणीए । जं कंतविउत्ताणं मरणं सरणं कुलवहूणं ॥ ४०८ ॥  
 अहवा वि बालमरणं पडिसिद्धं जिणमए पयत्तेण । संभवइ जियंतीए कयाइ सद्धम्मचरणं पि ॥ ४०९ ॥  
 ता जीविउं पि जुत्तं किंतु न याणामि कैह वि एयाओ । अक्खंडियसीलगुणा पाविस्सं जलहिपेरंतं ? ॥४१०॥  
 अहवा अत्थि उवाओ सामेणं कालगमणिया एत्थ । आसानडिया पुरिसा वासाण सयं पि विसहंति” ॥४११॥  
 इय चित्तिऊण भणियं ‘का पुण अन्ना गई मह इयाणिं ? । उत्तरिमो जलहीओ चित्तिस्सामो तओ उचियं” ॥४१२ 5  
 संजायासावंधो पडिवज्जिय तगिरं स मोहंधो । परिवालिउं पवत्तो सुणओ इव फेलियांसत्तो ॥ ४१३ ॥  
 अह दुम्भयदसणकुवियदेवयादुप्पउत्तपवणेण । फुडिऊण जाणवत्तं सहसा अहंसणं पत्तं ॥ ४१४ ॥  
 लद्धण सुकयजोगा सम्मत्तं पिव सुहावहं फलयं । संसारभीमजलहिं संतिन्ना सुंदरी तेण ॥ ४१५ ॥  
 मिलिया य पुव्वविहडियपवहणफलएण पुव्वपत्तस्स । धम्मस्स धम्मजोगा थाणे थाणेसेर तुरियं ॥ ४१६ ॥  
 परिओसामयरसत्तिसव्वगत्तेहि निययमणुभूयं । लक्खियलोयणचरियं परोप्परं पुच्छियं कहियं ॥ ४१७ ॥ 10  
 सोउं लोयणवसणं धम्मो धणियं विसायमावन्नो । अवयारकारणम्मि वि कारुणिया सज्जणा हुंति ॥ ४१८ ॥  
 भणियं च ‘पिए ! धन्ना जिण-गणहरमाडणो महाभागा । जेसिं अन्नासत्था चयंति जीवा असुहभावं ॥४१९॥  
 अम्ह पुण सन्निहाणे दूरे ता सुद्धधम्मपंडिवोहो । पेच्छाऽसुहपरिणामो अहिययो चेवं से जाओ ॥ ४२० ॥  
 जेणऽम्हं उवयरियं दावियतीरेण अइनिरीहेण । सो वि कह पेच्छ पत्तो जीवियसंदेह-धणहारिणं’ ॥ ४२१ ॥  
 इय तं सोयंताइं ताइं दिट्ठाइं गामनाहेण । ख्वमउव्वं तेसिं दट्ठूण विचिंतियं चेवं ॥ ४२२ ॥ 15  
 ‘मयणो व्व पियासहिओ एसो खलु को वि उत्तमो पुरिसो । विहिविलसिएण केणइ एगागी इह समायाओ ॥४२३  
 तम्हा करेमि उचियं गोरवमेयस्स देवरूवस्स । अब्भुद्धारं च तथा अणुरूवं निययविहवस्स ॥ ४२४ ॥  
 कडिद्धज्जंति गइंदा पंके खुत्ता महागइंदेहिं । आवइपडिया सुयणा सुयणेहिं समुद्धरिज्जंति’ ॥ ४२५ ॥  
 इय चित्तिऊण बहुमाणसारमाभासिओ वणी तेण । धरिओ य वरावासे कयप्पसाओ धुयविसाओ ॥ ४२६ ॥  
 कालोचियववसाया वड्ढंतथणस्सऽणाउलमणस्स । वच्चंति तत्थ दियहा सुहेण धम्मस्स धन्नस्स ॥ ४२७ ॥ 20  
 सो वि पुण लोयणो कंठपत्तपाणो पुराणकट्टेण । कट्टेण नट्टचेट्टो लग्गो तीरे समुदस्स ॥ ४२८ ॥  
 कह कह वि लद्धसण्णो ठिओ तयासण्णपल्लिगामम्मि । तत्थ य मच्छाहारे गिद्धो गिद्धो व्व मोहधो ॥४२९॥  
 चलियं च से सरीरं रसंसदोसेण थेवदियहेहिं । इय दुट्टकुट्टनिट्टानिट्टियचेट्टो जियइ कट्टं ॥ ४३० ॥  
 अवि य—  
 धम्मविधाएण नरो इच्छंतो माणिउं पियसुहाइं । गयवुद्धिलोयणो लोयणो व्व दुहमायणं होइ ॥ ४३१ ॥ 25  
 संपत्तो य भमंतो कयाइ थाणेसर दुहकिलंतो । उदयत्थनिग्गयाए दिट्टो धम्मस्स जायाए ॥ ४३२ ॥  
 संवेगघणघिणारसवसेण उप्फालिओ य दइयस्स । कारुणसारयाए तेणावि गिहं समाणीओ ॥ ४३३ ॥  
 भणिओ य—

‘पहसंगमसालस्स व बहुजणसुहयारिचारुचरियस्स । हा ! कहमिमा अवत्था वट्टइ अइदारुणा भवओ ॥४३४॥

अहवा—

गरुयाणं चिय भुवणम्मि आवया हुंति न उण लहुयाण । गहकल्लोलगलत्था ससि-सुराणं, न ताराणं ॥४३५॥

१ जियंताणं कं भ्रा० ॥ २ कह मि वेयाओ जे० विना ॥ ३ सङ्केतः—“फेलिय ति उच्छिष्टघात्यम्(धान्यम्)” ॥  
 ४ सङ्केतः—“सुहावह ति सुखावहम्, फलद फलक/च” ॥ ५ पडिबोहे भ्रा० ॥ ६ व सजाओ जे० ॥ ७ “चतुप्पयतरोः”  
 जेटि० ॥ ८ सङ्केतः—“गहकल्लोलो राहु” ॥

ता होसु धीरचित्तो मा वहसु मणे विसायलेसं पि । कारेमि निरुयदेहं मित्तं वित्तेण वैहुणा वि' ॥ ४३६ ॥  
 एवमणुसद्विपुवं पडियरिओ सम्ममोसहाईहिं । जाओ य निरुयकाओ सुमित्तसामगिसुकएहिं ॥ ४३७ ॥  
 सोजणमणणसमं तेसिं दट्टूण लोयणो धणियं । लज्जामउलियनयणो ज्ञायइ सययं निराणंदो ॥ ४३८ ॥  
 'भदं सज्जणचंदणतरुण सव्वंगचंगसंगाणं । डज्जंताण वि जेसिं गंधो भुवणं सुहावेइ ॥ ४३९ ॥ -

5 अवयारसयाणि वि पम्हुसंति, तणुयं पि नेगसुवयारं । सुन्नहियया सहियया व हंदि ! सुयणा न नज्जंति ॥ ४४० ॥  
 एयारिसाण वि मए ववहरियं निग्गिणं अणज्जेण । मइ पुण पावे वि इमाण माणसं नेहपडहत्थं ॥ ४४१ ॥  
 तउय च्चिय जलहिजले निहणमहं पाविओ वरं हुंतो । न उ कयपावो एएसि नयणाविसेयम्मि जीवंतो' ॥ ४४२ ॥  
 इच्चाइ चित्तयंतो भणिओ धम्मेण पुण्णकम्मेण । "चित्तमिलाणवयणो किं चिट्ठसि मित्त ! तुममेवं ? ॥ ४४३ ॥  
 किं अत्थहाणिजणियं सयणविओगुन्धवं च तुह दुक्खं ? । किं वा वि वाहिविहियं ? सुणाहि नणु एत्थ परमत्थं ४४४  
 10 होही पुणो वि विह्वो, मिलिही सयणो वि जीवमाणस्स । वाही वि न ते ठाही चिरं सहाए मइ धरंते ॥ ४४५ ॥

अवि य—

गिम्हुम्हसोसियाण वि पुणो सिरी होइ नइ-तलायाणं । झीणो वि ससी कइवयदिणेहिं भुज्जो हवइ पुन्नो ॥ ४४६ ॥  
 झडिऊण पल्लविल्ला पुणो वि जायंति तरुवरा तुरियं । धीराण वि धणरिद्धी गया वि न हु दुल्लहा एवं ॥ ४४७ ॥

अन्नं च —

15 सव्वं चिय सुह-दुक्खं पुव्वज्जियसुकय-दुकयविवाया । जायइ जियाण जं तो को खेओ सकयउवभोगे ? ॥ ४४८ ॥  
 जुत्तं च नायतत्तस्स जंतुणो सुकयसाहणं निययं । जत्तो जायइ जम्मंतरम्मि न हु दुस्सहं दुक्खं" ॥ ४४९ ॥  
 सोऊण तयणुसद्विं जंपइ इयरो विमुक्कनीसासं । "नियदुच्चरियं मोत्तुं न मज्झ दुहंकारणं अन्नं ॥ ४५० ॥  
 तं मह दहं खुडुकइ हिययगयं निसियनद्धसल्लं व । जं खित्तो सि गभीरे समुदनीरे तुमं तइया ॥ ४५१ ॥  
 तं दहइ अविस्सामं हिययगयं उम्मयं व जलमाणं । जं अहिलसिया एसा महासई कूरचरिएण ॥ ४५२ ॥  
 20 पत्तं पावस्स फलं अचिरेण मए इहेव जम्मम्मि । 'अइपावो' त्ति व काउं नीओ म्हि न पेयवइणा वि ॥ ४५३ ॥  
 अहवा 'डज्जउ निहुयं निद्धमं कुंफुम व्व चिरमेसो' । इय भाविऊण विहिणा धरिओ हं पावभरिओ वि ॥ ४५४ ॥  
 जत्तियमेत्तं मित्तय ! तुरियं संवरसि कारणे मज्झ । तत्तियमेत्तं अणुतावपावए त्विवसि मं अहियं" ॥ ४५५ ॥  
 इय त्रिविहं पलवंतो भणिओ सो रिद्धिसुदरीए वि । "धणो सि जेण पावे पच्छायावं वहसि एवं ॥ ४५६ ॥  
 जं काऊण वि पावं पावा पावंति परमपरिओसं । धीरा न कुणंति च्चिय कए वि अणुताविणो हुंति ॥ ४५७ ॥  
 25 को वा तुहेत्थ दोसो ?, अण्णाणवियंभियं खु तं सव्वं । अंधस्स कूवपडणे को देइ बुहो उवालंभं ॥ ४५८ ॥  
 ता उज्जसु अन्नाणं, लग्गसु मग्गम्मि सुद्धपण्णाणं । कुण आयहिए बुद्धी, धरेहि निच्चं मणविसेद्धी ॥ ४५९ ॥  
 रक्खेहि सुकयवित्तं पंचिदियतकरेहिं हीरंतं । मा दालिइदुहत्तो सोइहिसि कुजोणिसंपत्तो' ॥ ४६० ॥  
 जंपेच्छया हु पुरिसा मायण्हियमोहिया कुरंग व्व । अलियसुहासानडिया पडंति वयणे कयंतस्स ॥ ४६१ ॥  
 वरमिह विसमुवभुत्तं वरं पविहं जलंतजलणम्मि । न य इंदियवसयाणं जत्थ व तत्थ व मणं काउं ॥ ४६२ ॥  
 20 मायंग-मीण-पन्नग-पयंग-सारंगपपुडसत्तोहा । इंदियवसेण मूढा लहंति व्व-वध-मरणाइं ॥ ४६३ ॥  
 मणुया वि पेच्छ निच्चं पि दुत्थिया इंदियत्थवित्थारं । पत्थिता पत्थिवपत्थणाइणा नणु किलिस्संति ॥ ४६४ ॥

१ बहुपण जे० ॥ २ पेयत्रयणा जे० ॥ ३ संकेतः—“कुंफुम त्ति कुकूलमि” ॥ ४ बुद्धि, धं जे० विना ॥ ५ विमुद्धि जे० विना ॥ ६ 'त्तो ॥ जं चिय पिच्छइ तं चिय इच्छइ जंपेच्छमो हु सो भणिओ । अलियं इति ख३प्रतौ पाठान्तरम् ॥ ७ चय्रेयका इत्यर्थं ॥

विसयाण कए मूढा कुणंति चित्ताइं पावकम्माइं । निवडंति अपुण्णमणोरहा वि नरए महापावा ॥ ४६५ ॥  
 जे उण विसयपरम्मसुहहियया सव्वन्नुसासणे लीणा । तेसिं सुर-नर-सिवपयसुहाइं करपल्लवत्थाइं” ॥ ४६६ ॥  
 इच्चाइ निसामितो पडिबुद्धो लोयगो भणइ सम्मं । ‘सुट्ठु सुट्ठो मग्गो सुंदरि ! तुमए सउआए ॥ ४६७ ॥  
 तं मज्झ गुरु सुंदरि !, ता आइस किं करेमि एत्ताहे?’ । तीए वुत्तं ‘परदारवज्जणं कुणसु जाजीवं’ ॥ ४६८ ॥  
 ‘एवं’ ति पहट्टमणो पडिविआणुव्वओ य सो तीए । उव्वूहिओ खमाविय गओ सनयरं निरुयदेहो ॥ ४६९ ॥ 5  
 धम्मो वि पियासहिओ अज्जियइच्छियधणो सुहसुहेण । गंतूण तामलित्ति पवालिओ नियकुलायारं ॥ ४७० ॥  
 इय रिद्धिसुंदरीए वि गुरुजणवहुमाणपूयपावाए । सम्मं अकरगनियमोऽणुवालिओ सुद्धभावाए ॥ ४७१ ॥  
 गुणसुंदरी वि सुरसुंदरी व वियसंतसारसुंदेरा । संपत्ता जगमण-नयणहारयं तारतारुणं ॥ ४७२ ॥  
 दिट्ठा य सहीसहिया कयाइ तणएण वेयम्मस्स । वडुएण वेयरुइणा जोव्वणगुणरुव्वमेत्तेण ॥ ४७३ ॥  
 परिचितियं च “धम्मो अज्जाहं जं पलोइया अज्जा । पउम व्व पउमपाणी अणिमिसनयणा सुरवहु व्व ॥४७४॥ 10

अवि य—

पंकय पंकि चहोडिय कुलवय लुद्ध दहि, विंव वि वाडिहिं घल्लिय ससहरु खित्तु नहि ।  
 निम्मिन्नि कर नयणाऽहरु मुंहु लीलावडिहिं, उच्चिटी नियसिट्ठि वि नाइ पयावडिहिं ॥ ४७५ ॥

तहा—

कासकुसुमं व मन्ने सुनिप्पलं जम्मजीवियं निययं । जइ ता इमा मईच्छी न वसइ लच्छि व्व मह गेहे” ॥४७६ 15  
 इय विविहं ज्ञायंतो मयणानलताविओ ठिओ एसो । जा नयणगोयराओ पत्ता अन्नत्थ सा मुद्धा ॥ ४७७ ॥  
 नायाकूएहिं गिहं नीओ मित्तेहिं देहमित्तेण । मणभमरो पुण तीए सुहारविदे च्चिय चहुट्टो ॥ ४७८ ॥  
 अत्रइज्जियेयंज्जण-भोयणाइआवस्सओ मयणवसओ । मित्तेहिंतो कहमवि विन्नाओ वेयसम्भेण ॥ ४७९ ॥  
 पुत्तसिणेहाइसया समयेव पुरोहिओ तओ तेण । कन्नं विमग्गिओ तं पडिवत्तिपुरस्सरं वहुसो ॥ ४८० ॥  
 ‘सावत्थिपुरोहियनंदणस्स दिम्म’त्ति तेण नो दिन्ना । उत्तमजणाण नूणं न अन्नहा होइ पडिवन्नं ॥ ४८१ ॥ 20  
 रांगुप्पेहडनडिओ वियडमणो दुक्खसंकडावडिओ । न हु होइ अवेयरुई वेयरुई तह वि तव्विसए ॥ ४८२ ॥  
 सच्चं वामो कामो जं जं अइदुल्लहं पराहीणं । वियरइ तत्थऽणुरायं साहीणे णाऽऽयरं कुणइ ॥ ४८३ ॥  
 मित्तलपित्तपलित्तो तो सो गुणसुंदरीनिहियचित्तो । सिक्खइ मंतपयाइं इच्छइ य उवाइयसयाइं ॥ ४८४ ॥  
 नवरं ऊसरववियं वीयं व फलंति ताइं नो तस्स । आरंभा पुन्नविज्जियाण कत्तो फलं देति ? ॥ ४८५ ॥  
 परिणीया य कयाइ सावत्थीआगएण सुमुहुत्ते । पुन्नाहिएण विहिणा सा वाला पुन्नसम्भेण ॥ ४८६ ॥ 25  
 वेत्तूण तं मयच्छि नियनयरिं पडिगओ पुरोहसुओ । इयरो विसायविहुरो छोहियक्रियवो व संजाओ ॥ ४८७ ॥  
 वियलियकुलाभिमाणो विरलीकयदेव-विप्पवहुमाणो । वडइ अट्टवसट्टो सो तइया वेयरुइमट्टो ॥ ४८८ ॥  
 पीयासवो व्व धुत्तोरिओ व्व विसघारिओ गहिल्लो व्व । जाओ तओ वराओ कज्जा-ऽकज्जाइमइविमुहो ॥४८९॥  
 अण्णदिणे संभाविय ‘किं तीए वज्जियस्स जीएण?’ । अत्रइज्जिऊण सव्वं सागेयाओ विणिकखंतो ॥४९०॥  
 चलिओ सावत्थि पइ तल्लाभोवायमग्गणसयण्हो । पत्तो गिरिदुग्गगयं पल्लिं सवराण सुविसालं ॥ ४९१ ॥ 30

१ तीए भणिय ‘परं’ जे०विना ॥ २ अणमिसं जे०विना ॥ ३ मुह आ० ॥ ४ मयच्छी न विसइ जे०विना ॥  
 ५ ‘यभोयण-मज्जणाइभाव’ जे०विना ॥ ६ ‘ओ पुणो तेण जे०विना ॥ ७ संकेतः-“रागुप्पेहड ति रागोद्धट्ठा” । “रागे  
 उत्कर” जेटि० ॥ ८ सज्जेतः-“मित्तल ति कन्दर्प” । “काम, स एव पित्त तेन प्रदीप्त” जेटि० ॥ ९ धुत्तोरिओ ख१ ॥

ओलग्गिउं पवत्तो तयहिवइं विणयसारमच्चंतं । जाओ पच्चयठाणं कमेण सो सवरपवरस्स ॥ ४९२ ॥  
 अब्भत्थिओ विसत्थो वडुणा सवराहिवो अह कयाई । सावत्थिपुरोहियमंदिरम्मि धाडीनिमित्तेण ॥ ४९३ ॥  
 पडिवज्जिऊण तेण वि लेक्खियथक्केण चरनरेहिंतो । दिग्घा झड च्चि धाडी निहेल्लेणे पुन्नसम्मस्स ॥ ४९४ ॥  
 अवसोयणिविज्जाए पसुत्तपायम्मि परियणे सहसा । सव्वं से घरसारं अवहरियं सवरविसरेण ॥ ४९५ ॥  
 5 वडुएण वि विलवंती गहिया गुणसुदरी पहिट्ठेण । संपाविया य पल्लिं महुरगिरं संठवंतेण ॥ ४९६ ॥  
 भोयण-वत्था-ऽऽहरणं संपायंतेण सव्वमक्खूणं । मणहरवयणविणोया पसाइया वासरे केइ ॥ ४९७ ॥  
 अण्णम्मि दिणे भणिया “तुह सुयणु ! गुणिकेणेहिं विविहेहिं । जं तइया मम हरियं हिययधणं तं समप्पेहि ॥ ४९८ ॥  
 वियरामि सुण्णवुण्णो तेण विणा जीवियंतपत्तो व्व । कुणसु दयं ता धम्मिणि ! किं चिट्ठसि निट्ठुरा सुट्ठु ॥ ४९९ ॥

अण्णं च—

10 निवससि हियए, सुविणेसु दीससे, दिसिमुहेसु घोलेसि । फुरसि फुडं जीहग्गे विहिणा दूरीकया जइ वि” ॥ ५०० ॥  
 इय जंपिरस्स सवियकमेव गुणसुंदरीए संलत्तं । ‘नाहं मुणेमि सुंदर ! इमस्स भणियस्स परमत्थं ॥ ५०१ ॥  
 कइया कहं व हरियं ? को सि तुमं ? कत्थ ते सपुव्वा हं ?’ । इय पुच्छिण वडुणा निवेइयं वेइयं निययं ॥ ५०२ ॥  
 तं सोऊण विचिंतइ इणमो गुणसुंदरी सुसंविग्गा । “ही ! गरुओ अणुवंधो दीसइ एयस्स मूढस्स ॥ ५०३ ॥  
 एगाणिणी असरणा अणज्जमेच्छाण मज्झयारम्मि । एत्तो रागंघाओ न याणिमो ‘कह णु लुट्ठिस्सं ?’ ॥ ५०४ ॥

15 अहवा—

अवि चलड मेरुचूला, उदेइ सूरुओ वि पच्छिमदिसाए । मइलेमि जियंती नियकुलं व सीलं न हि कैयाइ ॥ ५०५ ॥  
 न हि एसो वि वराओ एगंतेणेव निग्गुणो जेण । पत्थेइ नीइनिउणं मड्डाए खंडइ न सीलं ॥ ५०६ ॥  
 ता एस वोहियव्वो, न खंडियव्वं च अत्तणो सीलं । एवं पत्रत्तिणीए आएसो पालिओ होइ ॥ ५०७ ॥  
 माया वि एत्थ कज्जे पउंजियव्वा असंकहिययाए । जं पावजणे सट्ठं उवइट्ठं नीइसत्थेसु” ॥ ५०८ ॥  
 20 इय चित्तिय भणिओ सो “जइ एवंकज्जओ तुमं आसि । ता कीस न तइय चिय तुमए जाणावियं मज्झ ॥ ५०९ ॥  
 तड सन्निहिए सुहए किं कज्जं मज्झ दूरगमणेण ? । को फलियं वयपत्तो दूरत्थं सिंवल्लिं महइ ? ॥ ५१० ॥  
 न य परलोयविरुद्धं, न कलंको कुलदुग्गस्स विमलस्स । जोगे कुमारयाणं सव्वं चिय सुंदरं हुंतं ॥ ५११ ॥  
 इन्दि तु संपओगे लोगे गरहा कुलस्स मालिण्णं । दोग्गइगमणं दारुणदुहाइं बहुसो परे लोए ॥ ५१२ ॥  
 ता परिभावसु सम्मं संपइकालोचियं महासत्तं । परिणामसुंदरं जं, वियारसारा जाओ विउसा ॥ ५१३ ॥  
 25 नाएण जं न सिद्धं केसफलो खलु तयत्थमन्नाओ । निहओ चडप्फडंतो अहिययरं घंसणं लहइ” ॥ ५१४ ॥  
 एमाइवयणरयणारंजियचित्तेण चित्तियं वडुणा । ‘विघ्नाणवुद्धिनिउणा सच्चं गुणसुंदरी एसा ॥ ५१५ ॥  
 अइवच्छला य मज्झं उवइसइ सिणेहसंरमिइ जेण । सच्चं पउणोवाओ कज्जस्स मए न विघ्नाओ ॥ ५१६ ॥  
 नवरं एयनिमित्तं कओ मए एत्तिओ परिकिलेसो । ता कह मुयामि एयं पत्तं भत्तं व अइल्लुहिओ ?’ ॥ ५१७ ॥  
 इय चित्तिय सा भणिया ‘सुंदरि ! सव्वं पि अवितह भणसि । किंतु न तरामि धरिउं खणं पि पाणे तुह विओए ॥  
 30 जं जीविओ म्हि सुंदरि ! कालं किर एत्तियं तुह विओए । तं सुयणु ! संगमासादिव्वोसहिसंपओगेणं ॥ ५१९ ॥  
 मइल्लिज्जंतु कुलाइं, हुन्तु परत्थ वि दुरंतदुक्खाइं । परिनिव्ववेहि सुंदरि ! तवियं विरहग्गिणा अंगं’ ॥ ५२० ॥

१ “ज्ञातावसरेण” जेटि० ॥ २ संकेतः—“थको अवसर” ॥ ३ सङ्केतः—“निहेल्लणं गृहम्” ॥ ४ सङ्केतः—“इक्कणा—चौरा” ॥  
 ५ कया वि ॥ ५०५ ॥ न य एसो जे०विना ॥ ६ संसारमिय जेण जे०विना ॥

नाऊण निच्छयं से भणियं गुणसुंदरीए 'जइ एवं । जं सुंदर ! तुज्ज हियं मए वि तं चेव कायव्वं ॥ ५२१ ॥

जइ मज्झ संपओगा होइ सुहं सुहय ! उत्तमं तुज्ज । पल्ली वि सग्गतुल्ला ता पडिहासइ फुडं मज्झ ॥ ५२२ ॥

किंतु मए पारदो साहेउं दुल्लहो महामंतो । पडिवन्नं च तयत्थं मासे वंभव्वयं चउरो ॥ ५२३ ॥

समइच्छियं तयद्धं मासदुगं सेसयं पुणो अत्थि । सहियं च वहुं तुमए ता विसहसु येवमेयं पि ॥ ५२४ ॥

तत्थ पुण एस कप्पो पुरिसो सव्वो वि भाइ-पिइकप्पो । दट्टव्वो अवियप्पं वज्जं भोगंगमवियप्पं ॥ ५२५ ॥ 5

भणियं च तेण 'सुंदरि ! सिज्जइ किं नाम तेण मंतेण ?' । तीए भणियं 'विहव्वो पुत्तुप्पत्ती अवेहव्वं' ॥ ५२६ ॥

'एगंतहियं एयं ममं' ति तुट्टेण मन्नियं तेण । इयरी वि ठिया तहियं दुहा वि मोक्खं अहिलसंती ॥ ५२७ ॥

तओ—

सव्वायरेण सव्वं गिहकिच्चं कुणइ पच्चयनिमित्तं । सयणा-SSसण-अव्वुट्टाणमाइणा दंसइ सिणेहं ॥ ५२८ ॥

नाणावज्जणपक्कणसुंदरं कुणइ सुंदरं पायं । घय-गोरसाइपउरं परिवेसइ विप्पजणदइयं ॥ ५२९ ॥ 10

अवि य—

जोयइ सा तं वैरभोयणेहिं, न य लोयणेहिं निद्धेहिं । सोयइ सययं चिय माणसेण सच्छेण, न जलेण ॥ ५३० ॥

दंसियं कारिमनेहं तह तीए पत्तियाविओ एसो । जह मन्नइ 'एयाए वसामि हियए अहं चेव' ॥ ५३१ ॥

परिसोसिओ य अप्पा आयंविह-ओमभोयणाइहिं । ण्हाणुव्वट्टणपमुहं चत्तं तह देहपरिकम्मं ॥ ५३२ ॥

अण्णसमयम्मि सहसा रयणीए पच्छिमम्मि जामम्मि । अकंदिउं पवत्ता सा नियमे पुण्णपायम्मि ॥ ५३३ ॥ 15

भणिया दिएण 'सुंदरि ! किं ते बाहइ सरीरमज्जम्मि ?' । तीए वि सदुक्खं चिय भणियं अफुडक्खरं 'सूलं' ॥ ५३४ ॥

तं दट्टूण विसन्नो वेयरुडं कुणइ उवसमोवाए । मणिमतोसहिजोए सओ य परओ जहानाणं ॥ ५३५ ॥

गुणसुंदरी वि मणयं गोसे उवसंतवेयणा सणियं । कुणइ खलंतपंडंती कंदंती गेहकिच्चाइं ॥ ५३६ ॥

भणइ य "अहं अजोमा तुह घरवासस्स सुहय ! निव्वग्गा । जेणेरिसं महंतं उवट्टियं दारुणं दुक्खं ॥ ५३७ ॥

तिव्वा सिरम्मि वियणा, डज्जइ अंगं हुयासगसियं व छिज्जंति व अंताइं, फुडंति सव्वंगसंधीओ ॥ ५३८ ॥ 20

इय दुहदावपलित्ता मणे 'पाणे चिरं न धारिस्सं' । तं पुण तवेइ अहियं न पूरिया जं तुह सुहासा ॥ ५३९ ॥

मह पावाए कज्जे सुडरं आयासिओ तुमे अप्पा । मायण्हियाणुधाविरहरिणेण व न य फलं पत्तं ॥ ५४० ॥

अन्नं च—

काउं परस्स पीडं जं रइयं अप्पणो सुहं पुंवि । तस्स विवागमणाहा सहामि अइदारुणं मन्ने ॥ ५४१ ॥

दाऊण मए हरियं, चंडमेल्लंडं व कस्सई दिण्णं । भग्गं च वयं पुंवि, हरियं दइयं च कस्सावि ॥ ५४२ ॥ 25

तहुक्कडा वियज्जा अज्जा डज्जामि तुज्ज नयणग्गे । देहि लहुं कट्टाइं न अण्णहाऽवेइ मे दाहो" ॥ ५४३ ॥

इय विविहं विलवंति अकयाहारं सनिंदणपरं च । पिच्छिय पच्छायावी जंपइ विप्पो सनिव्वेयं ॥ ५४४ ॥

'पाणे वि अहुवेउं किर सुंदरि ! तुह पियं करिस्सामि । विहिणो वसेण नवरं जायं तुह एरिसं दुक्खं ॥ ५४५ ॥

ता जइ भणासि संपइ सावत्थि पुरवरिं तुमं नेमि । वेज्जोसहाइजोगा संभवइ अरोगया तत्थ' ॥ ५४६ ॥

तीए भणियं 'सुंदर ! न याणिमो किं पि दुज्जणो भणिही । कह पत्तिएज्ज भत्ता अइसयईसालुओ सो मे ॥ ५४७ ॥ 30

एगत्तो दुक्खमिणं वीय पुण दुज्जणाणमुल्लावा । खारक्खेवं व खए को एयं विसहिउं तरइ ? ॥ ५४८ ॥

१ "बन्दिमोक्ष मुक्ति च" जेटि० ॥ २ सङ्केतः—"यो(जो)यइ ति योजयति, न तु पश्यति, वरकोदनं-प्रधानकूरं" ॥-  
३ वरकोयणेहिं (!) सङ्केतसम्मतपाठ ॥ ४ सङ्केतः—"सोयइ ति शोचयति, न तु शौचं कुरुते" ॥ ५ सङ्केतः—"अलडं ति आलम्" ॥ ६ "परतन्त्रा" जेटि० ॥ ७ अइसइइं जे० ॥

ता परिभावसु सम्मं, किं वा अण्णेहिं इह वियारेहिं ? । इय दुक्खपीडियाए मरणं चिय संपयं सरणं' ॥५४९॥  
 वेयरुहणा वि भणियं 'दट्टं न तरामि तुह दुहमिणं पि । किं पुण उदग्गहुयवहजालावलिकवलणं मुद्धे ! ? ॥५५०  
 ता वच्चसु निस्संकं काहं सक्खित्तणं अहं तुज्ज । जं जीवंतो जीवो पावइ भदाइं संदाइं' ॥ ५५१ ॥

एवं बहुप्पयारं भणमाणो तीए वंभणो भणिओ । 'जह तुह न होइ दुक्खं तह सुयणु ! करेहि, किं बहुणा ?' ॥  
 5 आरोविऊण जाणं नेऊण य नयरवाहिरे तेण । भणिया 'कह दाइस्सं नियवयणं एत्थं लोयस्स ? ॥ ५५३ ॥  
 जइ ताव तरसि गंतुं अहं नियत्तामि ता इओ चेव' । परिचितियं च तीए 'सुयामि अविवोहियं कह णु ?' ॥५५४  
 तओ भणियं—

'पज्जत्ता अण्णकहा, संपइ तं निद्धवंधवो मज्ज । ता परिहरेहि लज्जं वच्चामो ताव गेहम्मि ॥ ५५५ ॥

नियभइणियपराणयणे का लज्जा ?, अवि य ऊसवो एसो । मणनेवुइ य कह ते होही एत्तो नियत्तस्स ?' ॥५५६

10 इय भाविय गुणदोसं पत्ताइं दो वि मंदिरे ताइं । जाओ सयणाणंदो परितुट्ठो पुन्नसम्मो वि ॥ ५५७ ॥

भणिओ य सुदरीए 'पिययम ! एएण भाउणा अहयं । जत्तेण मोइया रक्खिया य कूराण सवराण ॥ ५५८ ॥

ता एस महासत्तो उवयारी अम्ह पळ्ळिवासी वि । एयस्स य जं उचियं तं जाणइ पिययमो चेव' ॥ ५५९ ॥

भणियं च पुन्नसम्मेण 'भइ ! तुम्हारिसस्स विउसस्स । छज्जइ न पळ्ळिवासो हंसस्स व कायसंवासो ॥ ५६० ॥

ता चिट्ठ इहेव सुहं पूरिस्सं जं न पुज्जइ तुज्ज' । इय वयणामयसित्तो चित्तइ लज्जोणओ सो वि ॥ ५६१ ॥

15 "गंभीरिम-तुंगिम-महुरवाणि-रुवाणि ताव एएण । रयणायर-सुरगिरि-वैणसवाइ-मयणाण गहियाइं ॥ ५६२ ॥

अण्णासंभवि एयं सोज्जन्ने पुण न याणिमो कत्तो । खलसेहरे वि जं मारिसम्मि इय पेसलालावो ॥ ५६३ ॥

अहवा—

नियगरिमगुणेण मुणंति नेय खुद्दाण विलसियं गरुया । निवडंति तणोत्थयकूवियासु तुंगा वि मायंगा ॥५६४

हा ! कह कओ निरत्थो मए अणत्थो इमस्स सुयणस्स ? । फोडेइ विरालो लोल्याए सारं पि उच्चिविडिं ॥५६५॥

20 एयारिसं पमोत्तुं किं रज्जइ सुदरी मइ अभव्वे ? । न रमइ लच्छी कमलायरस्स रुवियवणे कह वि ॥ ५६६ ॥

निउणा इमीए बुद्धी जं एवं पालियं निययसीलं । अहयं पि पडंतो पावपावए वारिओ विहिणा ॥ ५६७ ॥

गरुयावराहगहिओ जइ एत्तो नीहरेज्ज जीवंतो । भुज्जो एवंविहदुन्नएसु ता नेव वट्ठिस्सं" ॥ ५६८ ॥

अह 'मज्जणवेला वट्टइ' त्ति किंकरगणेण विवत्ते । आमंतिऊण इयरं समुट्ठिओ पुण्णसम्मो वि ॥ ५६९ ॥

अव्भंगुवट्टण-मज्जणाइं कारावियाइं एयस्स । पढमं खु पुरोदियनंदणेण पच्छा सदेहस्स ॥ ५७० ॥

25 दाऊण चोक्खजुयलं विहिणा कयभोयणाइकौयवा । गमिऊण दिणं सुत्ता रयणीए उचियसेज्जासु ॥ ५७१ ॥

'अवराहि' त्ति ससंको न लहइ निदं तहा वि वेयरुई । अइतरलतारनयणो मग्गइ य विणिग्गामोवाए ॥ ५७२॥

न हि पत्तियंति पात्रा चलभावा सरलसज्जणाणं पि । आयावराहविहुरा संकंति असंकणिज्जं पि ॥ ५७३ ॥

इय सो मज्जिमरत्ते निगंतुमणो समुट्ठिओ सणियं । डक्को य देव्वजोगाऽऽगएण सहसा भुयंणेण ॥ ५७४ ॥

पुक्कारियं निसामिय आणावियदीवएण सच्चविओ । घोरो कसिणभुयगो सपरिच्छयपुन्नसम्मेण ॥ ५७५ ॥

30 वाहरिया सैयराहं ताहे नयरीपसिद्धगारुडिया । पकया य ते तिगिच्छं ससत्तिओ मंत-ततेहि ॥५७६॥

पेच्छंताण य तेसिं रुद्धा वाणी, ठियं अचलमंगं । नवरं तु किंचि सचेयणाइं मण-सवण-नयणाइं ॥ ५७७ ॥

१ सङ्केतः—“वणसवाय त्ति कोकिला” ॥ २ सङ्केतः—“उत्त(इत्ति)विडिं ति भाण्डकावल्लिम्” ॥ ३ सङ्केतः—“रुविय त्ति सर्क” ॥ ४ नियं सीलं जे०विना ॥ ५ काइव्वा जे० ॥ ६ संकेतः—“सयराहं ति शीघ्रम्” ॥

ताहे पचक्खाओ वेज्जेहिं 'किरेस कालदट्टो' त्ति । जाओ तओ निरासो वेयरुई पुनसम्भो वि ॥ ५७८ ॥  
 एत्थंतरम्मि गुणसुंदरीए जलकरेयवग्गहत्थाए । सित्तो जलेण सहसा भणमाणीए इमं वयणं ॥ ५७९ ॥  
 'जइ ताव निकलंका विज्जइ मम सीलसंपया देहे । ता एसो मम भाया होउ लहुं निव्विसो अज्ज' ॥ ५८० ॥  
 इय वारतियं सित्तो संजाओ निव्विसो खणद्धेण । विम्हियमणेण भणियं जणेण 'सीलं जए जयइ' ॥ ५८१ ॥  
 मिलिओ नयरीलोगो 'जय जयहि महासइ' त्ति जंपंतो । पकओ पूयं तीसे कुमुमंजलि-अक्खयाईहिं ॥ ५८२ ॥  
 भणियं च वेयरुद्रणा "भो भो ! अचंतविम्हओ मज्झ । 'को एसो वुत्तंतो ?' करेह मं गहियसंबंधं" ॥ ५८३ ॥  
 सिट्ठं जणेण 'भो अग्गजम्म ! जम्मंतरं व संपत्तो । आसि तुमं पहरदुगं गारुडियाणं पि मड्डाए ॥ ५८४ ॥  
 जणजणियचमुक्कारं काउं नियसीलसावणं सहसा । जीवाविओ सि नवरं एयाए निययभइणीए ॥ ५८५ ॥  
 तम्हा महासइए कीरइ अम्हेहिं पूयसकारो' । इय भणिय गए लोए वेयरुई भणइ तं पणओ ॥ ५८६ ॥  
 'आसि पुरा तं भइणी, संपइ पुण जीवदाणओ जणणी । पावमइवारणाओ गुरु वि तं निच्छियं मज्झ ॥ ५८७ ॥  
 मुणियं तुह माहपपं मए, तए पावचेट्ठियं मज्झ । ता भण कं उवयारं करेमि तुह पावकम्मो हं ?' ॥ ५८८ ॥  
 तीए भणियं 'सुंदर ! उवयरियं सब्बमेव मह तुमए । जइ परदारनिवित्तिं करेसि परमत्थवुद्धीए ॥ ५८९ ॥  
 दोग्गइमूलं अयसस्स कारणं कुलकलंकखयहेऊ । आयास-किलेस-महाविरोहजणणं खु परदारं ॥ ५९० ॥  
 अहवा तए सयं चिय दिट्ठो परदारवज्जणपहावो । ता वुज्झसु आयहियं, किं बहुणा भाय ! भणिएण ?' ॥ ५९१ ॥  
 पडिवज्जिय वयमेयं कहिऊण पुरोहियस्स सब्भावं । तं खामिऊण बहुहा सट्ठाणं पडिगओ वड्डओ ॥ ५९२ ॥  
 पिदहर-कुलहरकयउद्धवाए गुणसुंदरीए धीराए । एवं अकरणनियमो नरवर ! अणुपालिओ सुइरं ॥ ५९३ ॥  
 एएण पगारेणं रइसुंदरिमाइयाओ चउरो वि । परपुरिससंगपावे अकरणनियमं चिरं काउं ॥ ५९४ ॥  
 उववण्णाओ तियसालयम्मि रइसुंदरे वरविमाणे । फारप्फुरंततणुतेयलच्छिपज्जोइयदिसाओ ॥ ५९५ ॥  
 देवीओ दिव्वसुहं चिरमुवभोत्तूण पुण्णसेसेण । आउक्खए चुयाओ अवयरियाओ इह पुरीए ॥ ५९६ ॥  
 कचणसेट्ठिस्स पिया वसुहारा, पडमिणी कुवेरस्स । धरणस्स महालच्छी, वसुधरा पुनसारस्स ॥ ५९७ ॥  
 एयासिं सिप्पीण व वियडोयरसंपुडेसु विमलाओ । जायाओ सुवित्ताओ ताओ मुत्तामणीउ च्व ॥ ५९८ ॥  
 तारा-सिरि-विणया-देविनामधेयाहिं तक्कलसराइं । पप्फुल्लुप्पलनयणाहिं ताहिं नलिणीहिं व सहंति ॥ ५९९ ॥  
 सुहसंगहियकलाओ लायणुवहसियसिययरकलाओ । जणनयणहारिणीओ कमेण जायाओ तरुणीओ ॥ ६०० ॥  
 पुर्व्वि पिव पुन्नाओ अन्नोणममंदनेहपुन्नाओ । सावयकुलजम्माओ पावियदरविरइधम्माओ ॥ ६०१ ॥  
 जिणदाणपुन्नगुरुसंकलाए आयडिहऊण एएण । विणयंधरेण ताओ विवाहियाओ महाराय ! ॥ ६०२ ॥  
 पाएण संपओगा समाणपुन्नाण हुंति संसारे । लोए वि पसिद्धमिणं 'सरिसा सरिसेसु रज्जति' ॥ ६०३ ॥  
 पुन्नाणुवंधिपुण्णप्पवाहत्तुल्लत्तओ फलं तुल्लं । वेयंति सुहमिमाइं पंच वि नरनाह ! धन्नाइं ॥ ६०४ ॥  
 जिणवयणभावियाणं एसिं सुरविहियपाडिहेराणं । जो कुणइ धम्मविग्घं वच्चइ निहणं तओ सिग्घं ॥ ६०५ ॥  
 तं पुण उत्तमपुरिसो वुज्झसि किर अत्ति एत्तिएणेव । कयमेयासिं रूवं पवयणदेवीए वीभच्छं ॥ ६०६ ॥  
 केत्तियमेत्तं एयं नरवर ! ? हुंकारिएण एयासिं । जायइ छारुकेरो पुरिसो विज्जाहरो जइ वि ॥ ६०७ ॥  
 नवरं सम्मत्तगुणा अणुकंपाभावियाहिं एयाहिं । न कयं कूरं चित्तं तुह उवरिं पावमइणो वि ॥ ६०८ ॥  
 न तहा जणइ अणत्थं पुरिसाणं मंदसाहिया किच्चा । जं खलियारिज्जंती महासइ सीलभंगत्थं ॥ ६०९ ॥



मयणविसघारिएण वि सुट्टु तए राय ! चेइओ अप्पा । जं कल्लाणकलावो अज्ज वि निययं लहेयव्वो ॥६१०॥  
इय सीलमहातरुलेसपालणाफलमणुत्तरं सोउं । संपुण्णसीलभरधरणमायरो जुत्तमहुणा ते ॥ ६११ ॥

इय केवलिवयणघणेण चुन्निए निविडमोहगंठिम्मि । सम्मत्तदित्तजोदेक्खलक्खियत्थो निव्वो भणइ ॥६१२॥  
'भयवं ! सुलद्धमेसिं जीयं धण्णाण जेसि भुवणम्मि । एगो पवित्तवित्तंतपल्लवो सव्वसुइसुहओ ॥ ६१३ ॥  
अहयं तु पावचरिओ एरिसयाणं पि जणियसंतावो । निंदाण निंदाणिज्जो, तहा निहीणो निहीणाणं ॥ ६१४ ॥  
अहवा मए वि पुंवि मुकयलवो को वि अज्जिओ आसि । कण्णजलीहिं जमिणं पीयं वयणामयं तुम्हं ॥६१५॥  
आडट्टं च फुडं मे गुरुहिं संपुण्णसीलभरधरणं । संपाडेमि तयं चिय संपइ ता कि वियप्पेहिं ?' ॥ ६१६ ॥  
इय चरणधरणकयनिच्छए निवे निवइए गुरुकमग्गे । विगयंघरो सभज्जो कयंजली भणिउमाढत्तो ॥ ६१७ ॥  
'भयवं ! सुट्टु पणट्टो अरुहाण वि तुम्ह वयणमंतेहिं । विसयग्गहगरुयग्गहो नीसेसविडंवणाहेऊ ॥ ६१८ ॥  
ता इच्छामो तुह चलणकमलमूले सुनिम्मलं चरिउं । निरवज्जं पव्वज्जं भीया संसारवासाओ' ॥ ६१९ ॥  
'जुत्तमिणं कुसलाणं, मा पडिवंधं करेह' इय गुरुणा । भणिए धणियं तुट्टा नरवइपमुहा गुरुं नमिउं ॥ ६२० ॥  
पत्ता गिहेसु तुरियं पकया य समग्गद्विक्खसामग्गि । नवरं न अत्थि रत्तो पउप्पए को वि पयजोग्गो ॥६२१॥  
इय पणयमंति-सामंत-पउर-अंतेउरेहिं दीणेहिं । विन्नत्तो 'परिवालसु पुत्तुप्पत्ति' ति नरनाहो ॥ ६२२ ॥  
वेरग्गरसाडसया तहा वि छम्मासग्गव्वसंपुण्णं । विजयति नियदेविं अहिंसिंचिय निययरज्जम्मि ॥ ६२३ ॥  
अभिउंजिऊण नीसेसरज्जकज्जेसु मंति-सामंते । विणयथर च खामिय पच्चक्खं सयलपउराणं ॥ ६२४ ॥  
काराविऊण जिणचेइएसु अट्टाहियं महामहिमं । दाणाणंदियलोगो निक्खंतो सो महाभागो ॥ ६२५ ॥  
विणयंघरो वि सह गेहिणीहिं पउरो जणो तहा विविहो । पव्वइओ तेण समं सम्मं संवेगजोग्गाओ ॥६२६॥  
विजयंती वि रुयंती अणुणिज्जंती महंतयाईहिं । परिवालित्तं पवत्ता गव्वं रज्जं च थिरसत्ता ॥ ६२७ ॥  
अह अन्नया मुहुत्ते गहवलजुत्ते जणे सुहपसुत्ते । नयणमहूसवभूयं सुहं पसूया उमा धूयं ॥ ६२८ ॥  
तं दट्टूण विसन्ना चित्तड देवी 'अहो ! अहमहन्ना । जाया दढं अणाहा संपड वड्ढियहिययदाहा ॥ ६२९ ॥  
किर होही मह तणओ वररज्जधुरंधरो महासूरो । विहिणो वसेण नवरं विवरीयं चेव संजायं ॥ ६३० ॥  
ता न मुणिज्जइ इण्हं परिणामो एत्थ केरिसो होही ? । अहवा पच्छन्नं चिय एयं साहेमि मंतिस्स' ॥६३१॥  
पच्चइयअंगपरिचारिगाए जाणाविओ तओ मंती । तेणावि तक्खणं चिय वद्धावणयं समाइट्टं ॥ ६३२ ॥  
धरिया रहम्मि देवी मुयजम्मो सीसिओ सयललोए । जाओ परमाणंदो सामंताईण सव्वेसिं ॥ ६३३ ॥  
कयनरनेव्वच्छाए पयत्तपरिवालणेण वालाए । केणड अलक्खियाए संपत्तो जोव्वणारंभो ॥ ६३४ ॥  
तो भणिओ देवीए मंती 'मग्गेहि अज्ज एयाए । पाणिग्गहणस्सऽरिहं किंचि महग्गं पुरिसरयणं' ॥ ६३५ ॥  
तेणावि कया सेवा सपाडिहेरस्स नयरिजक्खस्स । तइए दियहे दिन्नम्मि ढंसणे साहियं कज्जं ॥ ६३६ ॥  
नाणनयणेण निउणं निरुत्तिऊणाऽमरेण वज्जरियं । 'दिज्जो वरं लहिस्सह उज्जाणसरे मयाऽऽणीयं ॥ ६३७ ॥  
पोयणपुराहिन्नसुओ होही नाहो इमस्स देसस्स । पुन्नाहिओ पयावी स डमीए पुव्वभवत्ता' ॥ ६३८ ॥  
सो हं तं सुरवयणं पडिवज्जिय अज्ज नंदण पत्तो । कन्नानिवेण सहिओ सेसं तुह चेव पच्चक्खं ॥ ६३९ ॥  
अत्थि य तुम्मि तीसे अणुराओ जेण दिट्टमेत्तम्मि । गहिया अगहियपुव्वा मयणवियारेहिं सयराहं ॥६४०॥  
अवि य—

लोलं लोयणपंकयं कयमलं लज्जाए मंदप्यभं, भालं सेयलवेहि मोत्तियमणिच्छण्णाद्धमिंदूवमं ।

रोमंवेण पसाहिया तणुलया वाणी खलंतक्खरा, सक्खं चैव वियक्खणेण तुमए तीसे न किंलक्खिया ॥६४१

एवं च ठिए तीसे मणोरहा अणुमिया कुमारेण । पूरिज्जंतु घणेण व वरेण रुंदा सरुच्छंगा ॥ ६४२ ॥

एस मए परमत्थो विन्नत्तीए निवेइओ तुम्ह । संपइ परत्थनिरया अम्ह वि तुब्भे पमाणं ति ॥ ६४३ ॥

तओ 'अहो ! सुपत्तदाण-सीलपालणाणं फलाइसओ, अहो ! सूरिवरस्स नाणसंयया, अहो ! वेरगरस्स 5  
माहप्यं जं तारिसी सुहसंपया परिजुन्नतणं व गणिया राय-विणयधराईहिं, अहो ! बुद्धिनिउणया मंति-महादेवीणं  
जं केणावि अलक्खियं रक्खियं चिरमेवमणायगं रज्जं' ति सविम्हयं भणमाणेण कुमारेण दक्खिन्नपाहन्नाओ  
मन्नियं मंतिवयणं । पुव्वभव्वासाओ ख्वाइगुणप्पगरिसाओ य जाओ से रायकन्नं पइ पेमराओ । अवि य—

जाईसराइं नूणं नयणाइं मणं व हुंति लोयस्स । पच्चभियाणंति जओ पिया-ऽपियं दिट्ठमेत्तं पि ॥ ६४४ ॥

एसो कलावडजिओ उव्वन्नो रायकन्नयत्तेण । जाओ वला वि राओ तेण कुमारस्स एयाए ॥ ६४५ ॥ 10

वियाणिओ एस सव्वो वि वुत्तंतो विजयतीए । तओ अउव्वमाणंदसुहमणुहवंतीए पारद्धो विवाहमहूसवो ।  
तओ वि पसत्थे तिहि-करणमुहुत्ते उच्चट्टाणट्टिएसु सोमग्गहेसु नीयट्टाणगएसु इयरेसु पणईयणमणोरहाइरित्तदाण-  
सम्माणसुंदरं कयं कुमारेण गुणसेणाए पाणिग्गहणं, पडिवन्नमगदेसाहिवडत्तं । सव्वहा सव्वओ पसरियपउरप्पयावो  
दिवायरो इव पाविओ एस परमं पसिद्धिं ति ।

इओ य विन्नायवुत्तंतेण वच्छादिवइणा समरसीहेण 'चिरं पत्रंचियामो' त्ति सामरिसेण पेसिओ दूओ राय- 15  
कमलसेणतिए जंपिउं पवत्तो—

'भो भो सयंभुपत्थिव ! आइट्टं सुप्पइट्ठियजसेण । मह सामिएण तुम्हं नयनेउन्नं वहंतेण ॥ ६४६ ॥

भुज्जइ नरिंदलच्छी कुलक्कमेणाऽऽगया वि किच्छेण । तं पुण पैहियो पैहियो अप्पहियं किं न चित्तेसि ॥६४७

काऊण सामिसालं जुज्जइ निच्चित्तमच्छिउं एवं । नंदंति न जाउ चिरं दुम्मइणो देवपरिचत्ता ॥ ६४८ ॥

ता पडिवज्ज ममाऽऽणं, रज्जं मोत्तूण वा पलाएहि । सज्जो रणसज्जो वा भवाहि, किं भूरिभणिएण ? ॥६४९॥ 20

एयमायन्निऊण अंतोजलंतकोवानलेणावि सहासमुल्लवियं कमलसेणेण—

"रे दूय ! सच्चमेयं सयंभुराया अहं अपरनाहो । थुंजामि रायलच्छि तुह पहुवुद्धिं अणिच्छंतो ॥ ६५० ॥

तं पुण वच्चसु तुरियं, भणसु य नियसामियं पयत्तेण । 'होऊण समरसीहो मा संपइ होसु रणसुणओ ॥६५१॥

पियपणणीण पुरओ जह जंपिज्जइ पयासहेलाए । तह जइ सुहडेहिं रणंगणे वि ता किं न पज्जत्तं ? ॥६५२

पेच्छामो दो वि जणा स-परविसेसं सगव्वउंवाया । सुहडाण सुहडभावे रणंगणं चैव कसव्वट्टो ॥ ६५३ ॥ 25

एस पयट्टो अहयं तुमं पि पउणीकरोहि नियसामिं । 'जं रासहस्स कम्मं पारद्धं तं भरेणेव ॥ ६५४ ॥

सुहसुत्तं पंचमुहं खलियारिय को णु जाइ खेमेण ? । पेच्छह लहुं विवायं दूयय ! उट्टामभणियाण" ॥६५५॥

एमाइवयणपुव्वं विसज्जियदूएण दवाविया णेण पयाणदक्का, मिलियाइं दो वि वलाइं विसयसंधीए, पयट्ट-  
माओहणं । साणुकोसयाए भणियं कमलसेणेण 'भो समरसीह ! किमेइणा निरवराहजणसंहारेण ? अहं तुमं च मउ-  
म्मत्ता जुज्जामो जेण संगामो सम्पपइ' । पडिवण्णं समरसीहेण । तओ ते दो वि दप्पुद्धुरा मत्त व्व वणसिंधुरा 30  
रोसग्गिदिप्पंतया जुज्जेउमादत्तया । कहं—

१ °प्पगरिसओ जे० ॥ २ °हमुव्वहंतीए जे०विना ॥ ३ "पथिक प्रथित" ज२टि० ॥ ४ सङ्केतः—"पहिउ 'त्ति  
प्रथित" ॥ ५ सङ्केतः—"उव्वाय त्ति उट्टाता वातलमा" ॥ ६ "यद् रासभस्य भरोद्धहनरूप कर्म तद् वहनीयरूपेण भरेणैव प्रारव्वम् ।  
'चौराडुत्ताला मोट्टे'ति लोकधुत्ते (?) जेटि० ॥

हक्कंति पोकंति गोत्तेहिं कोकंति ठाणा न चुकंति वेगेण हुकंति,

सत्थाइं मुंचंति इंताइं वंचंति लीलाए वेळंति करणेहिं खेळंति ।

वंदीहिं गिज्जंति न खणं पि रिज्जति चित्तेहिं सत्थेहिं चउरेहिं हत्थेहिं,

सेणं विमोहंति खयरे वि खोहंति खरे वि भेसंति देवे वि तोसंति ॥ ६५६ ॥

तह तेहिं सयलपहरणपभोयनिउणेहिं जुज्जियं तत्थ । जह दो वि परोप्परचेट्टिएहिं गुरुविम्हयं पत्ता ॥ ६५७ ॥

नवरं देव्वनिओगा गयापहारेण पीडिओ सहसा । मुच्छानिमीलियच्छो पत्तो धरणिं समरसीहो ॥ ६५८ ॥

इयरो वि साणुकंपं 'नीरं नीरं'ति घोसिरो तुरियं । चेळंचलेण चउर पवाइओ तं महासत्तो ॥ ६५९ ॥

सित्तो य सिसिरनीरेण तेण संपत्तवत्तचेयन्नो । भणिओ य 'सुट्टु लद्धं विन्नाणं सुहड ! ते समरे ॥ ६६० ॥

धारेहि धीरिमं ता अप्पाणं संठवेहि सुविसत्थो । गिण्हाहि पहरणगणं संथेहि पुणो वि रणकेलिं ॥ ६६१ ॥

समरसीहो वि तच्चरियावलोयणविम्हिओ 'अहो ! सोडीरया, अहो ! कलाकोसल्लं, अहो ! दच्छया, अहो ! गरुयया,

ते ! महाणुभावया एयस्स, सव्वहा महानरिंदवंसप्पसूओ उत्तमो को वि एस, अलं च मे भग्गमाणपयावस्स संपयं

जेण, करेमि विवुहजणसलाहणिज्जं परलोयाणुट्टाणं' ति भावयंतो भणिउं पत्तो 'भो महासत्त ! अलं मयप्पा-

मए सह समरसमारंभेण तुम्हारिसैवीरस्स, मयप्पाओ य अहं माणजीवियविवाएण , ता गिण्हाहि मम रज्जं

मट्टहिं कण्णयाहिं, अहं पुण परत्तहियमायरिस्सामि' त्ति । कमलसेणेणावि भणियं 'भो महामाग ! मुंच विसायं,

रेवालेहि कुलकमागयं नरिंदसदं, पत्थावे पारत्तियं पि करेज्जासि' त्ति । तद्वा वि वेरग्गाइसयाओ न ठिओ एस,

ते-सामंतसमक्खं कम्माओ रज्जं च कमलसेगस्स ढाळण सुहम्मसूरिसमीवे महाविभूर्इए पडिवन्नो पव्वज्जं ति ।

रो वि समद्वासियदुइज्जरज्जो संपूइओ सयलप्रीमसामंतेहिं गाहिओ पाणिं सुरवहुविभमाणमणेगरायकण्णयाणं ।

तो पमोयामयविंदुसंदोहेण जणमण-नयणाइं पीणिंतो चपाउरिं । अण्णया समागओ पोयणपुराओ सत्तुंजयमहाराय-

सेओ सुवयणनामो दूओ । कयप्पणामो सुहासणत्थो पुच्छिओ राडणा जणणि-जणयपउत्तिं सविणयं च

हिउं पत्तो—

'देव ! अनायनिमित्तं कयप्पवासे तुमम्मि तम्मि दिणे । जायं महंतदुक्खं सवालबुद्धम्मि नयरम्मि ॥ ६६२ ॥

हाहारवमुहलमिलंतलोयनिव्वेइयंतभिक्खागे । रणरणओ चेव घरंघरेण एको परिब्भमिओ ॥ ६६३ ॥

उवसंहरिया तुरियं वसंतजत्ता महामहता वि । पम्हुट्टपाण-भोयणवावारा नायरा जाया ॥ ६६४ ॥

जं पुण दारुणदुक्खं अणुभूयं तुम्ह जणणि-जणएहिं । तं अणुइवंतु तुम्हाण वेरिणो वण्णणार्इयं ॥ ६६५ ॥

तुह विरहे नेहनिरंतरेहिं संपावियाइं जणएहिं । आवइसयाइं जाइं ताइं उज्जंतु जलणेण ॥ ६६६ ॥

जइ नवरं नरए तारिसाइं सुव्वंति तिच्चदुक्खाइं । अणुभूयाइं जाइं तुह विरहे राय-देवीहि ॥ ६६७ ॥

आसासियाइं नवरं कंहंवि एत्तो गएण केणावि । वेयालिएण विमले तुह नाम-गुणे थुणंतेण ॥ ६६८ ॥

तह वि विणिच्छयकज्जे आएसो तेहिं वियरिओ मज्झ । संपाइओ य स मए अज्जदिणं तं अविग्घेण ॥ ६६९ ॥

ता विन्नवेमि देवं दुहदव्रतवियाण जणय-जणणीणं । कीरउ परिनिव्ववणं नियदंसणवारिपूरेण' ॥ ६७० ॥

ताहे तमायभिउण चित्तियं कमलसेणेण "अहो ! निविडनेहया अम्म-तायाणं, जमेत्तिएणावि कालेण न

महुट्टो म्हि ? जओ जणवाओ—

दियहाइं दो व तिन्नि व रणरणओ होइ पवसिए दइए । पम्हुसइ त तह च्चिय दंसणसाराइं पेमाइं ॥ ६७१ ॥

अहवा एवंविहो चेव अवच्चसिणेहो होइ, जओ भणियं—

अह्दाण दरिद्राण य अवचनेहो समं सुहावेइ । न य एयाओ अन्नं अत्थि जए वंधणं निविडं ॥ ६७२ ॥  
 अहयं पुण पेच्छ कहमप्पंभरित्तमवलंविद्य विरहियकुलहरसंभरणो चिरं ठिओ म्हि, ता सव्वहा नियरिद्धिदंसणेण  
 करेमि जणयाण मणनेव्वाणं” । ति निच्छिऊण ‘एवं’ ति पडिवणं सुवयणवयणं । तओ निउत्ता मइवद्दणाइणो रज्ज-  
 चिताए । कयं पसत्थमुहुत्ते पत्थाणमंगलं । चलिओ य धराहरुद्धरेहिं सिंधुरेहिं चलंतधयवडाडोवावलोयणतसियतुरं-  
 गुप्पहपयट्टियरविरहेहिं संदणनिवहेहिं, खरखुरनिवायायंपियपुहइपट्टेहिं तुरयथट्टेहिं, असि-कुंत-सत्तिप्पमुहमहाउहकरालेण 5  
 पायालेण परिगओ, निरंतरुइंडुंडरीयनिवहनिवारियरवियरनिवाओ वज्जंताणवज्जाउज्जगुंजियरवावूरियसयलदि-  
 सिविभाओ गज्जंतेहिं वारणेहिं, पढंतेहिं चारणेहिं, हिंसंतेहिं तुरंगेहिं, चिकारंतेहिं रङ्गेहिं, कुणंतो सदाउलं गयणं-  
 गणवसुहावलयंतरालं पए पए पूज्जमाणो मग्गट्टियनरिंटेहि, पलोइज्जमाणो कोऊहलाउल्लियजणवयविंटेहिं, कारित्तो  
 देवमंदिरेसु महब्भुयभूयाओ पूयाओ, सम्माणित्तो परिहरियपरदोहे मुणिसंदोहे, दवावित्तो दीणाईणमणुकंपापहाणाइ  
 दाणाइं, समुद्धरंतो सडिय-पडियाइं धम्माययणाइं सुहंसुहेण पत्तो पोयणपुरं कमलसेणो । तओ— 10

विभ्रायतयागमणो पत्तो सव्वडम्मुहो सयं राया । पणओ य कमलसेणेण पायचारेण होऊण ॥ ६७३ ॥  
 चिरविरहताव्रतवियं निव्ववियं पत्थिवेण नियहिययं । चंदणरससीयलतणयवच्छमुवगूहमाणेण ॥ ६७४ ॥  
 अह गहिरतूरपडिरवपडइत्थनहंगणेण हरिसेण । थुव्वंतो इव जयजयरवेण दिसिवहुसणाहेण ॥ ६७५ ॥  
 वरहत्थिमत्थयत्थो नरवइअद्धासणे सुहासीणो । निययजसुज्जलचामरजुएण पुरओ ढंलंतेण ॥ ६७६ ॥  
 धावंतखलंतपडंतयाहिं तरुणीहिं रुद्धगुरुरच्छो । दारे दारे नायरघराणमग्गं पडिच्छंतो ॥ ६७७ ॥ 15  
 वियसंतकमलनयणं कुणमाणो पुरसरं दिणेतो व्व । संपत्तो निव्वंभवणं रायकुमारो कमेणेस ॥ ६७८ ॥  
 पायपणयस्स अह से सहसा आणंदवाइसलिलेण । कयमज्जणाए पाहुण्णयं व त्रिहियं सैवित्तीए ॥ ६७९ ॥  
 चिरधरिओ संतावो पुत्ताणणदंसणेण जणणीए । देहाओ नीहरिओ मंधररोमचरूवेण ॥ ६८० ॥  
 आलिंगिऊण मुहु मुहु भणियं जणणीए ‘निट्ठुरा अहयं । जा पुत्तय ! तुह विरहे त्रि जीविया एत्तियं कालं ॥ ६८१ ॥  
 नद चिरं, जीव चिरं, रिद्धिं विद्धिं जसं च पावेसु । होज्ज कुलनंदिदाया पुत्तय ! साह-प्पसाहाहिं’ ॥ ६८२ ॥ 20  
 एवं लद्धासीसो पणओ सेसं पि माइसंदोहं । पकओ सम्माणं परियणस्स सव्वस्स जहजोग्गं ॥ ६८३ ॥  
 वित्ते वद्धावणए सुमहत्थे पत्थिवेण पत्थावे । पुट्ठो तणओ निग्गमणकारणं तह य अणुभूयं ॥ ६८४ ॥  
 जइ त्रि न जुत्तं नियचरियकित्तणं उत्तमाण तणुयं पि । तह त्रि हु ‘अलंयणिज्जो ताओ’ त्ति निवेइयं तेण ॥ ६८५ ॥  
 सदसवणाणुधावणपमुहं सव्वं जहद्वियं सोडं । विम्हयवसेण राया सिरं धुणंतो इमं भणइ ॥ ६८६ ॥

‘अहो ! पुण्णपगरिसाणुभावो अहरीकयकामधेणु-चित्तमणि-रुप्पपायवपद्दावो जमेत्तो अकामियाऽचित्तियाऽ- 25  
 संकप्पियाडं एरिसाडं कट्टाणाइं संपण्णाइं मम सुयस्स, एत्तो चेव अत्थि सग्गा-ऽपन्नगकारणभूओ धम्मो, न तं  
 विणा पंचभूयसमुदायमेत्ताण पुरिसाणमेवंविहो विसेसो जुज्जइ, न य ईसराडणो वि एत्थ विसेसकारणं घडंति  
 पओयणाभावाओ एमेव विहाणे अइप्पसगाओ । ता सव्वहा न जुत्तमणुवज्जियधम्माण रज्जपंजरे निवसिडं,  
 करेमि एगंतसुंदरं धम्मासेवणं’ । ति भणंतेण वाहरिया कालन्नुणो । तन्निरुविए सुपसत्थमुहुत्ते विविहमंगलो-  
 वयारसारो महया विच्छड्ढेण कओ नरिंदाहिसेओ कमलसेणस्स । 30

अप्पणा पुण सत्तुजयमहाराओ संजायविसयसंगविराओ खंतितरवारिवारियकोहजोहाणं दूरीकयवर-घरणि-  
 वामोहाणं दुवालसंगसुयसमुदपारगयाणं अट्टारससीलंगसहस्सभारधारयाणं उवसामियवहुजणवेराणं सीलधग्घेराणं

१ रुलंतेण जे०विना ॥ २ नियमं जे०विना ॥ ३ “सावित्र्या-जनन्या” जेटि० ॥ ४ वत्ते जे०विना ॥

समीवे कयसव्वसंगचाओ महारिसी संजाओ, कमेण संपत्तो केवलसिरिं निव्वुइपुरिं च ।

कमलसेणनरिंदो वि सियपव्वखमयंको व्व पइदिणं पवड्ढमाणमंडलो, सूरुो इव पयावकंतमहिहरो, कंठीरवो इव पयावमणहरो, तहा सयलदंसैणायारसारो वि जिणसासणसुट्ठिओ, धम्मकित्तिसत्थसव्वणाणुराई वि सिवपया-  
राहणकामी, सयलगुणग्गामरमणीयं रायसिरिमुवभुंजंतो, अणेगपुत्त-नत्तुयाइसाह-प्पसाहाहिं नग्गोहपौयवो इव  
5 पाविओ परमं वित्थारं । ताव य 'सयलनरिंदव्वभहियगुणो' त्ति व काउं लद्धावसराए सव्वंगमालिं गिओ वयपरिणइ-  
पुरंधीए, तव्वसओ य जाओ मंदायरो कामभोग-रज्जरिद्धिसंवंधेसु ।

एत्थंतरे तिव्वगिम्हुम्हसंतावतवियं जीवलोयमव्वलोइऊण समुप्पन्नकरुणारसो तयासासणत्थमोइध्नो जलय-  
कालो । जत्थ कलिकालम्मि व दुज्जणेहिं मलिणसहावेहिं वि समासाइया समुन्नई धंणेहिं, महिलासहावं पिव निवेइं-  
तीओ पवित्थरियाओ चंचलसहावाओ समंतेण सोयामणीओ, परिस्सुसियसरसीदेहिणीं निलीणनिरासीभूयभूरिज-  
10 लयरजीवे इव समासासिउं समुच्छलिओ गंभीरमहुरो गज्जियरवो, दाणुज्जएसु घणेसु मग्गणकुलाइं व जायाइं  
सामोयाइं कयंव-कुडवकाणणाइं, पमत्तपंथसत्थे इव विवोहिउं तारमहुरं केगाइयं वरहिणगणेहिं, घणरवसवणमुच्छि-  
यपउत्थवइयाओ चेयाविउं पिव 'पियं पियं' ति पघोसिया वप्पीहयविहंगमा । अवि य—

वयणं कज्जविहूणं समुन्नयाणं पि लाघवं कुणइ । इय कलिउं व पवुट्ठा गज्जियसमणंतरं मेहा ॥ ६८७ ॥

निव्ववियकासयगणो वि तवड विरहिणिमगाइं नवमेहो । चित्तसहावे भुवणे सव्वस्स पियं करो को वा ? ॥ ६८८ ॥

15 विमलियवणेहि वि घणेहिं नूण विहिया जलासया मलिणा । को वा जलासयाणं मालिन्ननिबंधणं न भवे ? ॥ ६८९ ॥

अविरयविरलेयरथुलवारिधाराहिं निवडमाणीहिं । समनिन्नुन्नयदेसं जयं व एक्कन्नवं जायं ॥ ६९० ॥

तओ—

वारियजणप्पयारं वरिसियविरए घणे दिणस्संते । सुपहायम्मि व मुइओ लोगो चंकमिउमारद्धो ॥ ६९१ ॥

राया वि कमलसेणो पाउसलीलावलोयणनिमित्तं । पत्तो सरियातीरं करेणुयाकंधराख्खो ॥ ६९२ ॥

20 पेच्छइ सव्वत्तो च्चिय मिलन्तगिरिनिज्जरप्पवाहेहिं । वड्ढंतिं गिरिसरियं पाडंतिं दो वि कूलाइं ॥ ६९३ ॥

भज्जंततडिमहीरुहकडयडरवतत्थविहगकयरोलं । निवडंतवियडदोत्तडिरेणुकरकलुसियजलोहं ॥ ६९४ ॥

ससय-सिरीसिव-सूरुयरपमुहजिए कूहरे परिवहंतिं । परिभग्गजाणजुग्गे पहिए निंतिं पराहुत्तं ॥ ६९५ ॥

उव्वुड्डण-निव्वुड्डणसयाइं तारुयगणं पि पारिंतिं । सव्वजियाणं अवयारकारिणिं भेरवायारं ॥ ६९६ ॥

कोऊहलकलियाणं नियच्छमाणाण् नरवराइणं । ओहट्टिउं पवत्ता तरंगिणी सा पुणो तुरियं ॥ ६९७ ॥

25 तओ—

पाडेड नो तडाइं, न खणइ तीरहुमाण मूलाइं । अणुसमयं विमलीहुंतवारिणा रेहिरा जाया ॥ ६९८ ॥

ण्हायंति पियंति जलं ललंति कीलाहिं विमहयकरीहिं । अहियं तहियं मुइया वाला तरुणा वि पंचयणा ॥ ६९९ ॥

तं विलसियं नईए सुविसत्थो पत्थिवोऽवयच्छंतो । संवेगरसाभिमुहो परिभाविउमेवमारद्धो ॥ ७०० ॥

१ संकेतः—“पवड्ढमाणमंडलो इत्यादौ मण्डलम्—[चन्द्रपक्षे] चक्रवालम्, [चपपक्षे] देशश्च । शिव(सित)पक्षद्वितीयादिसकाशचन्द्रोपमा । महीधरा—[सूर्यपक्षे] पर्वता, [चपपक्षे] क्षितिपाथ, अपकृष्ट हीन (?) । [सिंहपक्षे] पदेषु अपमा—तुल्या अधमा वा लक्षणया कुटिला नखा यस्य । धर्मकीर्तिः—बौद्धशास्त्रकर्ता, धर्म-कीर्त्योश्च प्रतिवद्धस्य शास्त्रस्यार्थश्रवणेऽनुरागवान्, शिवस्य—महेश्वरस्य पद—वचनम्, मोक्षपद च” ॥ २ पयामणहरो ख१ ख२ । “राजा तु प्रजानाम् अवेन-पालनेन मनोहर.” जेटि० ॥ ३ “विरोधपरिहारे दर्शन-सम्यक्तवम्, आचार-क्रियाकलाप ताभ्या सार” जेटि० ॥ ४ “धर्मकीर्तिः—सप्तप्रकरणीकर्ता बौद्ध, तच्छास्त्रश्रवणानुरागी य महेश्वरपदारोधनकामीति विरोध” जेटि० ॥ ५ पाइवो जे० ॥ ६ सद्धेतः—“घनै-मेघै बहुभिध” ॥ ७ संकेतः—“देइ(?) हि)णिं ति कर्दम” ॥ ८ पगन्नवं जे०विना ॥

इद्दी ! अणत्थजणओ सव्वस्स वि एस रिद्धिवित्थारो । स-परावयारकारित्तणेण नूणं धुणीए व्व ॥ ७०१ ॥  
जेण—

उच्चलियलोलकल्लोलजालउम्मगलगजलपूरा । कल्लससरूवा एसा सव्वस्स भयंकरा आसि ॥ ७०२ ॥  
संपड पसंतरूवा वीससणिज्जा पमोयजणणी य । वट्टइ सुद्धसहावा सुहहेऊ सयललोयाणं ॥ ७०३ ॥  
सरिसरिसो एस जिओ जलपूरसमाए वज्जरिद्धीए । वड्ढंतो कूलाण व स-परेसिं कुणइ अवयारं ॥ ७०४ ॥  
एत्तो च्चिय कल्लसिज्जइ अणवरयं पावरेणुनियरेण । उस्सिखलभावाओ भयावहो होइ सव्वस्स ॥ ७०५ ॥  
एत्तो चेव परत्थ वि पावइ पाणी अणत्थरिंछोलिं । तम्हा अलमेयाए रिद्धीए मोहजणणीए ॥ ७०६ ॥

अन्नं च—

जेऊण रणे रिउणो णेगे देसे वसम्मि काऊण । आयासाओ अन्नं किं साहिज्जइ नरिंदेहिं ? ॥ ७०७ ॥  
एगो हरी करी वा सेज्जा गंड्वहाणयं रमणी । वत्था-SSसणाइ परिमियमुवओगि, निरत्थयं सेसं ॥ ७०८ ॥ 10  
भरियं भंडागारं कोट्टागारं च रयण-धन्नाणं । सव्वं परपुट्टिकरं अहिमाणो केवलं पहुणो ॥ ७०९ ॥  
इय निप्फलाहिमाणो एसो सयलो वि रिद्धिसंबंधो । ते धन्ना जेहिं इमो परिचत्तो बुद्धिमंतेहिं ॥ ७१० ॥  
संता वीससणिज्जा विमला सुहया निसेवणिज्जा य । हरिसावहा वहुणं हवंति ते संपडनइ व्व' ॥ ७११ ॥  
इय भाविंतो मइमं परमं संवेगमागओ सहसा । विसमिस्सभोयणम्मि व गओ विरागं विसयसंगे ॥ ७१२ ॥  
तओ मज्जत्थभावमणुहवंतो गओ नियपासायं । ठविऊण य गुणसेणागन्धसंभूयं सव्वजेट्टं सुसेणकुमार रायाहि- 15'  
रायत्ते, गुणसेणापमुहेण अंतेउरेण मंति-सामंत-सेट्टि-सत्थवाहपमुहेहिं अणेगेहिं पहाणपुरिसेहिं सद्धिं मुणियत्तप्परिवाग-  
समयागयाणं सीलधरसुरिसीसाणं सजमसीहायरियाणं समीवे विहिणा पडिवन्नो समणत्तणं कमलसेणनराहिवो, गहिय-  
दुविहसिक्खो जाओ महातवस्सी, कहं ?—

छट्ट-ऽट्टम-दसम-दुवालसेहिं मास-ऽद्धमासखमणेहिं । सोसेइ नियसरीरं थुव्वंतो सेससमणेहिं ॥ ७१३ ॥  
निच्चं भमरायंतो चिट्टइ गुरुपायपंकए विमले । वेयावच्चं मुणिपुंगवाण वंधूण व करेइ ॥ ७१४ ॥ 20  
हरिसिज्जइ सारण-वारणेहिं, तूसइ सुचोइओ किच्चे । रोमंचिज्जइ सज्झाय-झाण-आवस्सयाईहिं ॥ ७१५ ॥  
एसेइ सुद्धमुंछं पायमनायं पि नीरसं ल्हं । सव्वप्पमायरहिओ कउज्जमो सव्वकज्जेसु ॥ ७१६ ॥

सुइरमणुचरित्ता संजमं सत्तसाली, परिमुसियसरीरो सुद्धसंलेहणाए ।

अणसणविहिणा सो देहचायं करित्ता, सुरभवमणुपत्तो वमलोयम्मि कप्पे ॥ ७१७ ॥

सहरिससुररामारामणक्खित्तचित्तो, कयविविहविलासुल्लासलासाणुरत्तो । 25

सुचरियचरणाओ सो सुही तत्थ बुत्थो, सुरगणमणहारी सागराडं दसेव ॥ ७१८ ॥

गुणसेणा वि गुणड्ढा तवसंजमभारधरणऽणुंवाया । तत्थेव देवभावं पत्ता मेत्तिं च सह तेण ॥ ७१९ ॥

सन्भावसारं तव-संजमेसु, कुणंति जे उज्जममुज्जुभावा । ते सखराया इव सुद्धमगं, भवे भवे भव्वजिया ल्हंति ॥

॥ इय पुहइचंदमहारिसिचरिए वीयं चरित्तलाभवणणं कमलसेणभवगहणं सैमत्तं ॥

[ गन्थाग्रम्-१००५ ]

## [ तइओ देवसीह-कणयसुंदरीभवो ]

अह अत्थि महिमहेलातिलए निलए सिरीण सयलाणं । देसम्मि सूरसेणाभिहाणए वरपुरी महरा ॥ १ ॥

जा सा पसाहिया विमेलचित्तेहिं हम्मिएहि धम्मिएहि य, अलंकिया बहुसाहारेहिं भवणेहिं उववणेहि य,  
5 टिविडिक्रिया सुरयणरायंतंगणेहिं नाडएहिं धणवइपाडएहि य, पवित्तिया समुन्नयसहावेहिं सुरभवणेहिं सज्जण-  
जणेहि य । जीए य भुयंगदंसणं पणविलयानिलएसु, खलुप्पत्ती तिलजंतेसु, दंडकरणं धय-छत्तेसु, वंधणं कन्व-  
कुसुमेसु, मारणं सारिजूएसु, करपीडा जुवइसिहिणेसु, खंडणं दइयाहरेसु, भंडणं मुट्टिय-तंवचूडेसु, भंगो चिहुरेसु,  
मओ कुंजरेसु, तासो असुद्धमणीसु, वंधणं पहरणपैरिगुणिएसु, परदारगमो भिक्खायरेसु, दोजीहत्तसुरगेसु, गुण-  
हाणी छाइलएसु चेव लक्खिज्जइ त्ति ।

10 तीए वरनयरीए मयरद्धय-धणय-केसरिसरिच्छो । रुव-प्पयारणं-पोरुसगुणेहिं मेहो निवो होत्था ॥ २ ॥

भयमप्पणो असंतं एगमणेगाण वीरवेरीणं । दिंतेण जेण जुगवं जणाण जणियं महाचोच्चं ॥ ३ ॥

तावियपडिवक्खेण वि जस्स पयावेण वित्थरंतेण । परिनिव्वविया नियदेसवासिणो पयइसंदोहा ॥ ४ ॥

तस्स य विमेलसुवित्ता गुरुगुणसारा मणोहरायारा । मुत्तावलि व्व सुहया देवी मुत्तावली नाम ॥ ५ ॥

तीए विज्जुज्जलविग्गहाए उज्जोइओ कुलनहम्मि । रेहइ मेहो मेहो व्व दाणसलिलेण वरिसंतो ॥ ६ ॥

15 तीए हिययगयाए निच्चं विज्जाहरो व्व विज्जाए । मेहो महंतनेहो करेइ किच्चाइं सव्वाइं ॥ ७ ॥

अन्नया वासभवणं पविसंतेण वामकरयलनिहित्तकत्रोलमोणयमुही थूलमुत्ताहलविम्भमेहिं वाहविंदूहिं  
सिंचमाणी कुट्टिमतलं पलोइया एसा महाराएण, अतक्कियनियदोसलेसेण च साणुणयं पुच्छिया उव्वेवकारणं ।  
सदुक्खं च जंपियं तीए 'कहं सयलजणपायडं पि ममुव्वेवकारणं देवो न याणेइ ?' । राइणा भणियं 'कहं सयलजण-  
पायडं पि अह न याणामि ? विम्भओ मे, ता साहेउ ताव देवी' । इयरीए भणियं "सपुव्वमेयं सुभासियं देवस्स—

20 को नाम गुणमरट्ठो ? सोइग्गमडप्फरो य को तासिं ? । का वा सुहासिया वोंसियाण जासिं सुओ नत्थि ? ॥८॥

तहा—

धावंत-खलंत-पडंतयाइं धूलीए धूसरंगाइं । धन्नाण रमंति घरंगणेसु दो तिन्नि डिंभाइं ॥ ९ ॥

ता देव ! किं मम मंदभग्गाए सयलजणउव्वहसणिज्जाए एगेणावि पुत्तभंटेण विरहियाए जीविएण ? जओ  
देवस्स वि नत्थि ममोवरि चित्तं, जमेद्वैहमेत्तं पि दुक्खनिबंधणं सयं न लक्खेइ" । त्ति भणंती परुन्ना एसा ।

25 पुणो राइणा ससिणेहं भणिया "देवि ! देव्वायत्तमेयं, न विसओ पुरिसकारस्स । जओ—

१ सङ्केतः—“विमलचित्तेहिं० इत्यादी [प्रासादपक्षे] चित्राणि, [धार्मिकपक्षे] चित्तानि च । [भवनपक्षे] बहुस त्ति जनवाहुल्य  
तदाधारं [उपवनपक्षे] बहुसहकारैश्च । [नाटकपक्षे] सुष्ठुरचनो रागस्य-वसन्तादे अन्त-प्रकर्षो यासा तथाविधा अज्ञाना येषु वद्धा,  
[धनपतिपाटकपक्षे] सुरचना सुरदना वा राजन्त्योऽज्ञाना येषु, सुरत्नं राजन्त्यज्ञानानि येषु, यद्वा सुरतेषु प्रागल्भ्याद् नरायमाणा-पुरुषा-  
यित्त्वं न्योऽज्ञाना येषु । [सुरभवनपक्षे] समुन्नतस्वभाव, [सज्जनजनपक्षे] समुत्-सहर्षो नतश्च स्वभावो येषाम्” ॥ २ परिगुणविपसु  
जे०विना ॥ ३ सङ्केतः—“छाइलएसु त्ति प्रवीपेषु” ॥ ४ ण-पोरिसं ख१ ॥ ५ सङ्केतः—“[मुत्तावलीपक्षे] विमला चासौ सुवृत्ता च-  
सुवृत्तला, [राज्ञीपक्षे] विमल-शोभन वृत्तम्-आचारो यस्या । [मुक्ता०] सुखदा, [राज्ञी०] सुभग च” ॥ ६ मुत्तावली व सुं  
जे०विना ॥ ७ कज्जाइं जे०विना ॥ ८ उव्वेयकां ख१ आ० ॥ ९ याणाइ जे० ख२ ॥ १० संकेतः—“वामि(?) स्त्रियाणं  
त्ति स्त्रीणाम्” ॥ ११ संकेतः—“पहहमेत्त पि त्ति एतावन्मात्रमपि” ॥

चाएण बलेण परकमेण मंतोसहाइजुत्तीहिं । विउसेहिं वि विहिविहियं न तीए अन्नहा काउं ॥ १० ॥  
ता किं पडियाराऽगोयरेण इमिणा सोइएणं ?” ति । तीए भणियं “मा एवमाणवेउ देवो, जम्हा नेगंतेण  
पुरिसकारासज्जमेयं जेणार्चितणीयं मणि-मंतोसहिमाहप्यं, नत्थि असज्जं देवयापसायस्स, साहीणा य देवरक्खि-  
यस्स देवस्स एयसामग्गी, केवलं नत्थि मइ कारुणं । किंच—

ता दुत्तरो नईसो, तुंगो मेरू, नहं निराहारं । जाव विणिच्छियसारा न दिंति हियं महासत्ता ॥ ११ ॥ 5  
एवं पि ठिए जं निरुज्जमो अज्जउत्तो मम चेव पावविलसियमेयं” ति । एवमायन्निय विन्नायनिच्छओ राया ‘पिए !  
मुंच विसायं, संपाडेमि लहुं चेव ते समीहियं’ ति संठविय जाओ तदुवायऽन्नेसणपरो । ‘किं विणोयमेत्तफलेहिं  
मंतोसहाइएहिं ?’ ति भावयंतो कसिणचउइसीनिसाए खग्गसहाओ गओ पिइवणं । भणिउं च पैवत्तो—

‘भो भो भूय-पिसाया ! एसो हं विक्किणे महामंसं । दाऊण पुत्तमेगं पडिगिन्हह अत्थि जइ कज्जं’ ॥१२॥

अह भणियं गयणंगणगएण भूएण तारसहेण । ‘मंसेण सुओ कत्तो ? सीसेण उ निच्छियं होइ’ ॥ १३ ॥ 10

‘ता सीसं पि पडिच्छह’ एवभणंतेण पुहईवालेण । वामकरगहियकेसं निहिया कंठम्मि खग्गलया ॥ १४ ॥

एत्थंतरे भुयाए धरिउं ‘मा साहसं’ ति विंतेण । भणिओ सुरेण ‘सुपुरिस ! होही पुत्तो धुवं तुज्ज’ ॥ १५ ॥

तओ राइणा भणियं ‘जइ एवं ता पडिच्छहि पडिवणं मोळं’ । देवेण भणियं ‘किमित्तियसाहसाओ वि अण्णं  
मोळं ?, सव्वहा परितुट्ठो हं भवओ, मा संसयं करेहि, पच्चओ एत्थ-अज्जेव देवी सुविणे सीहकिसोरगमुच्छंगगयं  
पासित्ता पडिबुज्जिही’ । तओ परितुट्ठो राया बहुमन्निऊण विवुहवयणं गओ नियमंदिरं । उववन्नो य तीए चेव 15  
रयणीए वंभलोयाओ चविऊण कमलसेणदेवो सुत्तावलिदेवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए । तओ तीए टिट्ठो पुव्वोइयसुमिणओ,  
निवेइओ नरिंदस्स । तेणावि वज्जरियसुरवयणेण समाइट्ठो पुत्तजम्मो । तओ सा परिओसनिव्वमरा ‘तह’ त्ति  
पडिवन्नरवइवयणा सुहपरिवालियगव्भा उचियसमए पसत्थमुहुत्ते पस्सया सयलजणमणाणदयारयं दारयं । कारियं  
च राइणा चारयमोयणाइयं नयरीजणविम्हावणयं वद्धावणयं ।

अवि य—

20

ठाणे ठाणे वियरिज्जमाणगयमाणदाणरमणीयं । वारवहुविहियनटं वद्धावणय नणु पयटं ॥ १६ ॥

वत्ते दुवालसाहे दिन्नो देवेण सीहसुविणेण । ता एस देवसीहो पिउणा नामेण निदिट्ठो ॥ १७ ॥

संगहियकलाविहवो तारुणं जणंमणोहरं पत्तो । विलसइ तओ कुमारो परियरिओ पणइचकेण ॥ १८ ॥

इओ य गुणसेणाजीवो तओ देवलोगाओ चविऊण उववन्नो अवतिजणवयतिलयभूयाए नामओ गुणओ वि  
विसालाए विजयसत्तणो महानरिंदस्स कणयमजरीए महादेवीए कुच्छिसि भूयत्ताए । जायाए पइट्टियं से नामं 25  
कणयसुदरि त्ति । तओ—

सा वड्ढिउं पयत्ता जणनयणाणंदयारिकंतीए । कुलनहयलकयसोहा सियपक्खे चंदलेह व्व ॥ १९ ॥

पत्ता नवतारुण लायन्न-कलाकलावसंपुन्नं । पुव्वसुकएहिं धन्ना नवरं विसएसु साऽवन्ना ॥ २० ॥

भणिया बहुसो वि सहासयाहिं सहियाहिं नेहसहियाहिं । अवि वम्महसरिसाणं न सहइ नामं पि पुरिसाणं ॥२१

असुणती पाणिग्गइणसंकह तं कहिंचि नाऊण । चिंताउरो नरिंदो मंतियणं पुच्छइ उवायं ॥ २२ ॥ 30

१ पिउषणं जे०विना ॥ २ पयत्तो जे०विना ॥ ३ इपालेण जे०विना ॥ ४ भणियं सुं जे०विना ॥ ५ सुविणओ  
जे०विना ॥



परिभाविऊण सम्मं भणियं मंतीहिं “नूणमेयाए । आसी नेहाइसओ पुव्वभवे कम्मि वि नरम्मि ॥ २३ ॥

तं वज्जिय एयाए रंजिज्जइ माणसं न अण्णेण । अवगच्छामो एयं पोरणकहाणुसारेण ॥ २४ ॥

तस्स परियाणणत्थं पडिख्वाइं नरिंदतणयाणं । दंसिज्जंतु इमीए एस उवाओ इह पसत्थो ॥ २५ ॥

जओ—

5 नामं पि सुयं, पडिख्वयं पि दिट्ठं मणिट्ठ-ऽणिट्ठाणं । जम्मंतरियाण जए राय-विराए पयासेइ” ॥ २६ ॥

‘जुत्तमेयं’ ति परिभाविऊण राइणा गहियकन्नापेडिच्छंदया पेसिया सव्वरज्जेणु चित्तयरदारया । आणीयाइं तेहिमणेगाइं अब्भुयभूयाइं रायउत्तख्वाइं । तीए वि निखुवियाणि अवघ्नाए, ‘किमेएसिं कज्जतरविघायहेउणा पलोयणेणं?’ ति भणंतीए सास्यं परिचत्ताणि य । विसन्ना रायाइणो ।

एत्थंतरे समागया महराओ चित्तयरसुया । दंसियं तेहिं राइणो देवसीहकुमारपडिर्विवं । तमालोइऊण विम्बिओ  
10 सपरिसो एसो, भणिउं च पयत्तो—

“भो भो ! विघ्नाणसीमा फुडमइ विहिणो ख्वसव्वस्समेय, मच्चा-ऽमच्चाण सच्चं मयमहणकए को वि देवोऽवइणो ।

एयं दट्ठूण मन्ने विसमसरसुरो हंत ! जाओ अणंगो, निस्संकं संति लोए गुणिनररयणा सुंदरा सुंदराणं ॥ २७ ॥

सव्वहा जइ एएणावि न रंजिज्जइ मणो मम तणयाए ता अविसेसणुयाणं वीयरागाण वा सिरोमणी एसा” ।

‘भो ! कहेह ताव, किमेत्तियो कालो तुम्हाणं ? को वा एस ? कैहिं तुव्वेहिं उव्वलद्धो ?’ ति भणिए नरिंदेण

15 साहियं चित्तयरदारएहिं “देव ! महराहिवइणो मेहनरिंदस्स नंदणो देवसीहो नाम कुमारो एस, चिरावणकारणं पुण लज्जाए न पारेमो अक्खिउं । जओ—

दिट्ठो अत्थाणमओ, वाहितो तह तुरंग-दोघट्टे । राहावेहपवत्तो, निउणं वीणं च वायंतो ॥ २८ ॥

कर-चरण-दिट्ठिठाणाइं तस्स अच्चंतविम्हयकराइं । सच्चविउं कह वि न सक्कियाइं सुव्वहुं पि दिट्ठाइं ॥ २९ ॥

अणुदियहदंसणाओ तुरयाख्खस्स निच्चलिहणाओ । कह कह वि किंचिमेत्तं निव्वत्तियमेत्तियदिणेहिं ॥ ३० ॥

20 ता देव ! फुडं सीसइ दीसइ एयम्मि चित्तयम्मम्मि । लक्खंसो वि न सुद्धो तयंगलायन्न-कंतीणं” ॥ ३१ ॥

तयायणणाओ सुट्ठुरं तट्टेण राइणा पेसिया चित्तवट्टिया दुहियाए । तीए वि निउणं निखुविया । कहं ?

पढमं जणयाऽऽएसा, पुणो ‘अउव्वं’ ति कोउगविसेसा । तो चंगिमहरिसाओ, तओ वि मयरद्धयरसाओ ॥ ३२ ॥

अइख्वविम्बियाए धुणियं तीए पुणो पुणो सीसं । उप्पाडिउमसमत्थाए तत्थ दिट्ठिं चहुट्ट व ॥ ३३ ॥

रोमंचच्चियंगी विहसइ नीससइ कुणइ हुंकारं । सेयजलकलियभाला मंदं मंदं तओ भणइ ॥ ३४ ॥

25 ‘पियसहि ! अंमच्चलोउयमालिहियं केण एरिसं ख्वं ? । संभवइ किं नु कत्थइ पुरिसो जस्सेस पडिछंदो ?’ ॥ ३५ ॥

भणियं सैहीहि ‘सामिणि ! पयावई सव्वसत्ततत्तिहो । तेण य तुह निम्मावणमणेण पढमं इमो घडिओ’ ॥ ३६ ॥

पडिभणइ ईसि ढसिउं सविलक्खा कणयसुदरी तत्तो । ‘कत्तो पियसहि ! अम्हारिसाण एयस्स संपत्ती ?’ ॥ ३७ ॥

तओ पढियं वियड्ढसहीए—

‘वियरंती सच्छंदं सुहेण विंघंगिरिन्नणनिगुंजेसु । करिणी चिरेण विहिणा आलाणे अज्ज संजमिया’ ॥ ३८ ॥

30 सहासं च भणियं ‘सामिणि ! एस महराहिवसुओ देवसीहनामो कुमारो सुव्वइ, ता लिहेउ सामिणी एयस्स समीवे किंचि अणुख्वं जुव्वइख्वं’ । तओ आणाविऊण वत्तिसमुग्गयं लिहियं तीए नियपडिख्वं । ‘किमणुख्वमेय-

१ चित्रपट्टिका ॥ २ संकेतः—“गुणिनररयणा सुंदरा सुंदराण ति गुणिनराणां रचना सुन्दराणामपि सुन्दरा सन्तीत्यर्थः” ॥  
३ कह जे० ॥ ४ अमर्त्यलौकिक दिव्यमित्यर्थ ॥ ५ सहीण सां जे०विना ॥ ६ विद्वद्दृष्टिं जे०विना ॥

स्स ? न व ?' ति पुच्छियाओ सहीओ । भणियं च ताहिं 'अहो ! अणुख्वो संजोगो घडिओ सामिणीए, जइ विही वि एवं घडेइ तां सोढणं होइ' ।

एत्थंतरे पडिहारी 'देवो चित्तफलहगमाणावेइ' ति भणंती तं गहाय गया रायसमीवं । 'अणुख्वो अभिरुइओ य एस कुमारीए' ति परितुट्टेण राइणा निरुवाविऊण वोरिज्जयदिणं पेसिया पवणजवणाहिं उट्टवामाहि महु र महंतया । तेहिं वि संपत्तमहंतगोरवेहिं पसत्थवासरे देवसीहकुमारस्स दिन्ना कणयसुंदरी, पडिच्छिया मेहमहीनाहेण । 5 पेसिओ पहाणसामग्गीए कुमारो कमेण पत्तो विसाल, बहुमाणमद्वग्धं च ठिओ वरावासे । पाहुडपडिवत्तिपेसणेहिं परोप्परं वड्हंताणुरायाणमागओ कल्लाणमुहुत्तो ।

तओ गुमुगुमंतेहिं मइलेहिं, गिज्जंतेहिं मंगलेहिं, नच्चंतेहिं पांयमूलेहिं, दिज्जंतेहिं तंवोलेहिं, विक्खिप्यंतेहिं गंधेहिं, कीरंतेहिं पुप्फवंधेहिं, विहसंतेहिं पेच्छयजणविलोयणेहिं, विस्साणिज्जंतेहिं सुरसभोयणेहिं, कीरंतकुला- 10 यारनिव्वहणं संजायं तेसिं पाणिग्गहणं । अवि य—

अणुख्वं संजोगं पेच्छंतो बहु-वराण सव्यो वि । जाओ जणो कयत्थो विही नरिंदो वि सयरहं ॥ ३९ ॥

वत्ते वीवाहमहे महापमोएण चिट्टमाणणं । ओसरिओ तत्थ कयाइ मुणिवरो सुरगुरू नाम ॥ ४० ॥

उन्नड्जुएण संतावहारिणा गहिरमहुरघोसेण । मेहेण व तेण जणो पमोओ तीए नयरीए ॥ ४१ ॥

सोऊण तयागमणं भत्तिव्वरनिव्वरो पुहडनाहो । पत्तो तस्स समीवं सभारिओ देवसीहो वि ॥ ४२ ॥

तस्स वरपायपउमे कारावियभमरविलसियं सीसं । सव्वे कयजलिउडा पारद्धा देसणं सोउं ॥ ४३ ॥ 15

एत्थंतरे सुरदुंदुद्धिगहिरघोसेण भणियं भयवया—भो भो देवाणुपिया ! चउकसायनिविडभित्तिसंगओ दुब्भेयरॉय-दोसकवाडसंपुडो अण्णाणतिमिरभराणुवल्लभमाणवत्थुसख्वो अच्चंतदारुणो एस संसारचारओ । एत्थ णं वसंताणं पाणिणं अवट्टियं वंधणं, अव्वोच्छिन्ना इट्टविओगा-ऽणिट्टसंपओगतत्तकालायससंडासयवेयणा, संतावया- 20 रिणो धणियं पराभियोगपन्नगा, दुन्निवारा वाहि-रोग-दंस-मसगच्चमदणा, सुदुस्सहं सोयधूमद्वयधूमपाणं, अच्चंतनि-ग्घिणा कम्मदंडवासिगा, न गणंति बालं, नाणुकंपंति जराज्जरियं, न मुयंति निद्वणं, विणडित्ति दीणं पि, कय- त्थिति दुक्खियं पि, सव्वहा नत्थि सा विडंबणा जाए य परंतंतेहिं चउगइकोणसंचारपरेहिं पाणीहिं अणंतसो नेह विसहिया । ता न जुत्तं तुम्हारिसाणं त्रिसुद्धवुद्धीणं जंभविस्सभावमवलंबिय एत्थ चिट्ठिउं, जुत्तो पुण सव्वणुप्पणीए धम्मो समुज्जमो, एस खलु पहाणो मुंक्खोवाओ, न पहवंति एयाणुभावाओ पुव्वभणिओवद्वा, उवणमंति मणोणु- 25 कूला सुहसंदोहा, पाविज्जइ लहुं चैव निरुव्वमसाहावियसुहाणुगओ मोक्खो वि । अवि य—

सव्वजगज्जीवहिओ सव्वन्नू सव्वकम्मनिम्मुको । धन्नाण होइ नाहो निस्सेसंदुहोहनिम्महणो ॥ ४४ ॥ 25

आराहिऊण एयं तिगरणसुद्धं त्रिसुद्धकम्मंसा । अक्खयसोक्खं मोक्खं लहंति धन्ना लहुं चैव ॥ ४५ ॥

आणाणुपालणं चिय इमस्स आराहणे धुवोवाओ । भावत्थय-द्वत्थयविसयविभागा दुहा सो उ ॥ ४६ ॥

छक्कायदयासारो भणिओ भावत्थओ इह पहाणो । सो पुण खंताईओ जईण धम्मो दसवियप्पो ॥ ४७ ॥

पंचमहव्वयमूलो पिंडविसुद्धाइउत्तरगुणड्ढो । निव्व्राणफलो नियसा जायइ आराहिओ सम्मं ॥ ४८ ॥

पडिव्वओ पुण एसो जावज्जीवं पि नेय मोत्तव्वो । संपुन्नो चिय सम्मं पालेयव्वो ति एसाऽऽणा ॥ ४९ ॥ 30

१ सङ्केतः—“वारिज्जयदिणं ति विवाहदिनम्” ॥ २ उट्टवामाभि उट्टीभिरित्यर्थ, ‘साढणी’ इति लोकभाषायाम् ॥ ३ नर्तकजातिविशेषे ॥ ४ ‘राग-रोसक’ जे०विना ॥ ५ सङ्केतः—“चमदण ति भक्षणम्” ॥ ६ मोक्खो जे०विना ॥ ७ नीसेसं जे०विना ॥ ८ ‘वं च ने’ जे० ॥

अंगीकयम्मि एयम्मि । नयमओ सत्तु-मित्तसमयाए । सम्ममहियासियव्वा उवसग्गपरीसहा घोरा ॥ ५० ॥

निप्पडिकम्मसरारा अन्नाउंछेसिणो महासत्ता । उग्गतवत्तवियकाया इमस्स आराहगा होंति ॥ ५१ ॥

एगाइएहि अट्टहिं भवेहिं आराहगा उ एयस्स । भवचारयाओ मुच्चंति पाणिणो वीरियविसेसा ॥ ५२ ॥

ता भो महाणुभावा ! भवचारयनिग्गमं समीहंता । एयं सव्वपहाणं गिण्हह सव्वन्नुणो आणं ॥ ५३ ॥

5 जस्स उ न अत्थि सामत्थमेयसंपायणे गिडत्थस्स । चरणोवघाइकम्मोदएण विसयाइसंगाओ ॥ ५४ ॥

सो तल्लाभनिमित्तं अंगीकाऊण देसओ एयं । विहिभत्तिसंपउत्तो भव्वो दव्वत्थए जेयउ ॥ ५५ ॥

भव्वणं विंवं पूयाइयं च भावेण वीयरयाणं । जं कीरइ विहिसारं एसो दव्वत्थओ नेयो ॥ ५६ ॥

एसिं एक्केकेण वि कुसलासयसालिणो जियाऽणेजे । लग्गा विसुद्धमग्गे क्रमेण मुत्तिं च संपत्ता ॥ ५७ ॥

अवि य—

10 मणि-रयणकिरणउज्जोइएसु रम्मेसु सुरविमाणेसु । माणंति सुहं सुचिरं जिणमंदिरकारिणो बहुसो ॥ ५८ ॥

गयरोय-सोय-टोहग्गसंगभासंतकंतिमुत्तिळा । हुंति निरंतरसुहसंपओगिणो विहियजिणविंवा ॥ ५९ ॥

अव्वंगणेगभोगंगसंगया सयलजणमणाणंदा । नंदंति आभवं भुवणपूइया देवपूयाए ॥ ६० ॥

विहिसारं कीरंतो भावत्थयकारणं ति दव्वत्थओ । वियरइ तत्तो सिवसंपयं पि सत्तऽट्टजम्मेहिं ॥ ६१ ॥

परिणामविसेसाओऽणाभोगेणावि एस कीरतो । कुणइ कुसलाणुबंधं सुयमिहुणस्सेव नियमेण ॥ ६२ ॥

15 ता भावत्थयसामत्थवज्जियाणं जियाण हियहेऊ । दव्वत्थयसंपायणमाइट्टं वीयरगेहिं ॥ ६३ ॥

इय भाविऊण सामत्थमपणो भवभयाओ उव्विग्गा । एगयराणासंपायणेण सहलं कुणह जम्मं ॥ ६४ ॥

तइओ न चेव विज्जइ भवकाराहरविमोक्खणोवाओ । ता मा किं पि विलंबह दुलहा हु पुणो वि सामग्गी ॥ ६५ ॥

एयमायन्निय संसारचारयदुहोहपरिभंतचित्तेहिं अणेगेहिं भव्वसत्तेहिं काऊण वि दव्वत्थयं 'भावत्थयातो इट्ठ-

20 रूवा देसविरई । पडिवन्नमन्नेहिं विसुद्धसम्मत्तं । देवसीहकुमारेणावि गहियसम्मत्ता-ऽणुव्वएण सहरिसं वंदिऊण पुणो

वि पुच्छिओ सूरी "भयवं ! 'कहं पुण सुयमिहुणस्स दव्वत्थओ कुसलाणुबंधकारणं सवुत्तो ?' ति महंतं कोउगमम्हाणं, ता काऊण पसायं कहेह एयवुत्तंतं" ति । तओ भयवं भव्वजणाणुग्गहव्वद्वुद्धी उप्फालिउं पवत्तो । अवि य—

[ ३. सुयमिहुणकहाणयं ]

अत्थि सिणिद्धनिरंतरतरुनिउरुंवेण कुसुमसारेण । गयणंगणं व तारागणेण सरयम्मि रेहंत ॥ ६६ ॥

25 मुत्ताहलटिविडिक्रियमरगयमणिकुट्टिमं ति खयरेहिं । दीसंतं वीर्समलालसेहिं नहचरणसुंदिएहिं ॥ ६७ ॥

वेयइहसमासन्ने दाहिणभरहद्धमज्झखंडम्मि । सव्वोउलच्छिरम्मं सिद्धिकर नाम वणसंडं ॥ ६८ ॥

घोसंतकोडलाओ गायंतीओ य किन्नरवहूओ । सिक्खंति व जत्थ सया परोप्परं महुरओरिंलिं ॥ ६९ ॥

अवि य—

फुरियकइपउरघोसं संताणयताललयकयसुनट्टं । रायंतसरसपत्तं नाडयमिव तं वणं रम्मं ॥ ७० ॥

१ जयह जे०विना ॥ २ संपाइणेण जे० ॥ ३ णुबंधे कां जे० ॥ ४ पयत्तो जे० विना ॥ ५ तारायणेण जे० विना ॥ ६ विस्समं जे० विना ॥ ७ संकेतः— "सुहि(दि)पहिं ति थान्ते" ॥ ८ सङ्केतः— "उरिहिं(ओरलिं) ति मधुर-दीर्घशब्दम्" ॥ ९ सङ्केत— "फुरियकइ० इत्यत्र [ नाटकपक्षे ] कवय, [ वनपक्षे ] कपयश्च । [ नाटक० ] सत्-शोभन अनकस्य-एठ- (१ पट्ट) हस्य तालाना च-कासिकाना योऽमौ लय, [ वन० ] सन्तानकास्तालाश्च-वृक्षा लता-वीर्य" । [ नाटक० ] प( पा )त्राणि-आ- (स्व्या)दीनि, [ वन० ] पत्राणि च-दलानि" ॥

तस्स बहुमज्जभाए रंम्मे मणिकुट्टिमम्मि रुंदम्मि । सरयरविदित्तेए तुंगे तवणिज्जपीढम्मि ॥ ७१ ॥  
 वरपउमरायघडिया परियरिया पयडपाडिहेरेहिं । विज्जाहरनिम्मविया पडिमा सव्वन्नुणो अत्थि ॥ ७२ ॥  
 विज्जासाहणहेउं निवसंता खेयरा वणे तम्मि । वंदण-पूयण-सकारणाइं तीसे किर कुणंति ॥ ७३ ॥  
 तत्थेव वणे पयईए भइयं झीणअसुहकम्मंसं । आसि किर कीरमिहुणं परोप्परं नेहसंवद्धं ॥ ७४ ॥  
 तह लहुयकम्मयाए परिणामविचित्तयाए जंतणं । जिणविंवदंसणाओ तं परिओस परं लहइ ॥ ७५ ॥ 5  
 कीरंती जिणमहिंसं भत्तिव्वरनिव्वभरेहिं खयरेहिं । अच्छइ नियच्छमाणं वज्जियनीसेसवावारं ॥ ७६ ॥  
 असुहक्खएण धणियं धन्नाणं आगमेसिभद्दाणं । अमुणियगुणे वि नूणं विसए पीई समुच्छलइ ॥ ७७ ॥  
 होति पओसो विसए गुरुकम्माणं भवाभिन्दीणं । पच्छम्मि आउराण व उवट्टिए निच्छिए मरणे ॥ ७८ ॥  
 विसयम्मि पीडलेसो कल्लाणनिबंधणं धुवं होइ । दुक्खपरंपरहेऊ जहा अपीईलवो तत्थ ॥ ७९ ॥  
 एत्तो च्चिय त्तत्तणू जिणल्लिगे जिणवरिंदविंवे य । असुहव्वासभयाओ पओसलेसं पि वैज्जिति ॥ ८० ॥ 10  
 सट्टसंजाओ एसो अव्वासाओ भवे भवे होइ । तत्तो भवो अणंतो दोहग्गदुहाउलो होइ ॥ ८१ ॥  
 पीइलवो पुण विसए निबंधणं होइ भत्तिरायस्स । सो पुण विसिट्टगुणसंपयाए तत्तो सुहं सिद्धी ॥ ८२ ॥  
 अप्पवले मिच्छतमे सम्मत्तदिवायरोदए नियडे । होइ विसयम्मि पीई सुयमिहुणस्सेव धन्नस्स ॥ ८३ ॥

अन्नया विविहकुमुमामोयमोइयमहुयरमहुरअंकारसुहलियसयलकाणणे समागए वसंतसमए कीलानिमित्तं सट्टाणे  
 गएसु विज्जाहरेसु पंडरिकदंसणातो परिओसनिव्वभरेण सुयमिहुणेण जिणपडिमाए सहयारमंजरीहिं विरइओ महंतो 15  
 सेहरो, कया कन्नावयंसया, पूइयं पायजुयलं, सुइरं च नियच्छमाणेण उल्लासविसेसाओ समासाइयं वोहिवीयं, वद्धं  
 मणुयाउयं, आसकलिया कल्लाणमालिया, मंदीकयाइं अयसा-ऽसाय-नीयगोत्ताइं, पवडिदयाओ पुन्नपयडीओ, ठइयाइं  
 नरय-तिरियगडदुवाराइं, परित्तीकओ भवपवंचो त्ति । तओ—

कालंतरेण कीरो कालं काऊण सुद्धपरिणामो । जंबुदीवविदेहे विजए रमणिज्जनामम्मि ॥ ८४ ॥

सिरिमदिरम्मि नयरे रन्नो नरसेहरस्स दइयाए । कित्तिमईए गव्भे उववन्नो पुत्तभावेण ॥ ८५ ॥ 20

दट्टण सुमिणए दिव्वकुंडलं मंडलं व दिणवइणो । तज्जामिणीए देवी कहइ नरिंदस्स परित्तुट्टा ॥ ८६ ॥

तेणावि समाइट्टो सयलमहीवालपवरपुत्तस्स । जम्मो, सुहेण गव्भं पवड्ढिया सा विसालच्छी ॥ ८७ ॥

कमेण य पसत्थे तिहि-करणसुहुत्ते पसूया एसा कोसुइसंझ व्व तुहिणकिरणं फुरंतफारकंतिउव्वासियपुव्वाऽऽसं  
 सयलजणाणंदणं नंदणं । लद्धो से नालनिहणणप्पएसे महग्घरयणपडिपुन्नो महानिही । कारियं च पिउणा पहाणवद्धा-  
 वणयं । पइट्टियं च पसत्थवासरे निहिलाभ-कुंडलसुविणसइयत्तेण तणयस्स नामं निहिकुंडलो त्ति । तओ सो कुमारचंदो 25  
 कयवधवक्कुमुयमहाणंदो पउरदाणकिरणनियरेण पणईयणमणोरहमहोयहिं पूरमाणो पत्तो सयलगुणसंपुन्नं तारुन्नं ।  
 नवरं—

साहीणमहैव्वयभूइणो वि रमणीसु माणसं तस्स । न रमइ वरसुणिणो इव मणयं पि महाणुभावस्स ॥ ८८ ॥

नेच्छइ निव्वकन्नाओ इंतीओ तो सयंवराओ वि । कुसलाणुबंधकम्माणुभावओ वीयरगो व्व ॥ ८९ ॥

नीसेसधणुद्धरधोरिओ वि पारद्विवुद्धिपरिसुक्को । मंसं विसं व मन्नइ, वज्जइ गंधं पि मज्जस्स ॥ ९० ॥ 30

दूमिज्जइ अन्नेण वि अवन्नवाए परस्स कीरंते । हरिसिज्जइ गुणगहणं निमुणंतो रिउजणस्सावि ॥ ९१ ॥

१ रंम्मे कुट्टिमतलम्मि रुंदम्मि जे० विना ॥ २ कीरंतं ख१, कीरंति ख२ आ० ॥ ३ धुवो जे० ॥ ४ तत्तन्नु जिण-  
 विंवे जिणवरिंदल्लिगे वा जे० विना ॥ ५ वज्जति जे० विना ॥ ६ मिच्छत्ते सम्मं जे० ॥ ७ सकेतः—“पइरिकं ति रह” ॥  
 ८ सुविणप जे० विना ॥ ९ सकेतः—“महव्वयभूइणो त्ति [वरसुनिपक्के] महाव्रताना भूति, [कुमारपक्के] महाव्यया च भूति” ॥

जं जं पावद्वाणं न सम्मयं सव्वहा विसिद्वाणं । परिसुद्धपुन्नवीया न रोयए तं तमेयस्स ॥ ९२ ॥

भणियं च—

कुसंलासयहेऊओ विसिद्धसुहहेउओ य नियमेणं । सुद्धं पुन्नफलं चिय जीवं पावा नियत्तेइ ॥ ९३ ॥

एवं ताव जणणि-जणयाणं विम्वहयमुप्पायंतो पवड्डिओ निहिकुंडलकुमारो ।

- 5 इओ य सुइगा वि भद्दगपरिणामाणुगया देहपरिच्चायं काऊण उववन्ना तम्मि चैव विजए महीमहेलात्तमाल-  
वत्तविब्भमाए सुरलोयाणुगारिजणविब्भमाए विजयावईए नयरीए सयलदिसिवहूत्रयणारविंदासंभदंणदवाणुगारि-  
पवरजसपसरपूरियपुहइपीठस्स रयणचूडस्स राइणो मणोविस्सामधामकप्पाए सुवप्पाए महादेवीए कुच्चिसि दुहियत्ताए  
त्ति, जाया उचियसमएण य । पइट्टियं से जणएण नामं पुरदरजस त्ति । तओ पारियायमंजरी व वहलामोयवासिय-  
सयलजणा, कंकेल्लिकणइ व्व वेड्डहलपल्लवपाणी, चंदमुत्ति व्व सोमाए कंतीए कलाकलावेण य कलिया, जणणी-  
10 मणोरहसएहिं सद्धिं पवड्डभाणी संपत्ता जुवजणमणमयणमहानलक्कोवणं जोव्वणं । नवरं नाभिउंजेइ सव्वणजुयलं  
सिंगारकहासु, न निरुवेइ भोगिलोगनेवत्थाइं, न चिट्ठइ भोगिणीणं गोट्टीसु, न कुणइ सहियणेणावि सद्धिं मयण-  
रसाणुगयं परिहासं, अवहिया धम्मवियारेसु सव्वहा पसंतमाणसा निच्चं कलाणुगुणणमेत्तवाचारा असहंतीं विवाहस्स  
वत्तं पि अच्चिउं पयत्ता । अवि य—

आलिंगियमंगं जोव्वणेण उक्कंठिएण व चिरस्स । मयणो उण ओगासं न लहइ मणमंदिरे तीसे ॥ ९४ ॥

- 15 तं पुरिससंगविमुहं दूरियतारुन्नसंभविवियारं । नाऊण सहीहिंतो जाया चिंताउरा जणणी ॥ ९५ ॥

भणइ रुयंती दइयं 'चिरप्परूढा वि मह मणावाले । सामि ! मणोरहतरुणो न याणिमो कह फलिस्संति ? ॥ ९६ ॥

कइया किर वीवाहो होही धूयाए मे समियदाहो । कयगेहंगणसोहो परिओसियसयणसंदोहो ? ॥ ९७ ॥

को नाम रायजणओ एयाए होज्ज पुहइवइतणओ । रुव-गुणेहिं समाणो पडिहयपडिसत्तुवलमाणो ? ॥ ९८ ॥

तहा—

- 20 कह सुवसि सुवीसत्थो भुंजसि जंपेसि हससि परिसत्थो । कन्नं जोव्वणपुन्नं निहेलणे तं निहालेंतो ? ॥ ९९ ॥

एवं सदुक्खं देवीए उवालद्वेण सहिययसंक्रामियपिययमामणसंतावमाहूओ राइणा महसायरप्पमुहो मंति-  
समूहो, भणिओ य 'भो ! किं कारणं तारुन्नारन्ननिवड्डिया वि कन्ना न सहयरं कं पि समीहेइ ? को वा तारिसीए  
वीवाहणे उवाओ ?' त्ति । तओ सम्मं परिभाविज्जेणं भणियं सुमइणा 'देव ! वालिसजणसम्मओ वि वत्थुवित्तीए एस  
अणंगो महारोगो दढमुच्छलड मंदपुन्नाणं तुच्छसत्ताणं सत्ताणं, जणयइ विचित्ते वियारे, परिवड्डइ विसयविसतणं,  
25 पयडेइ जत्थ तत्थ तिन्वाभिलासं । एसा पुण तुम्ह नंदणी पहाणपुन्नसंभारसंगया इव लक्खिज्जइ, अओ न तेण  
मणयं पि वाहिज्जइ, जइ नवरं कोइ उत्तमपुन्नसाली पुव्वभवभत्ता वा एयाए चित्तसालमावसेज्जा, ता तस्स जाण-  
णत्थं सव्वरायउत्तनामाइं पडिच्छंदया य दाइज्जंतु, परिन्नायभावण वीवाहविहाणं परिणामसुंदरं होहि' त्ति । तओ  
'अहो ! जहत्यनामो सुमई, जुत्तमेयं' ति सव्वेहिं वुत्ते निउत्ता नरिंदेण समंतओ तुरियकैरहधोरणा पहाणमणुस्सा ।  
दंसिया तेहिं नाम-भोत्तगुणकित्तणाडंवरसारमणेगे रायकुमारपडिच्छंदया, न रमइ तीए कहंचि माणसं ।

- 30 नवरि निविट्ठा दिट्ठी तीए निहिकुंडलस्स पडिंविंवे । उप्पडइ न हि सिला इव निवेसिया वज्जरालाए ॥ १०० ॥

१ "कुसलाशयहेतुत्वत", निशिष्टसुखहेतुत्व" जेटि० ॥ २ "पुण्यफलमेव-पुण्यानुवन्धिपुण्यजन्यसर्वलक्षणोपेतकलत्र-पुत्रादिलक्षणमेव  
वस्तु पापाशिवर्तयति" जेटि० ॥ ३ सङ्केतः-"तमालवत्तविब्भमाए ति तिलकन्नान्तजनिक्काया" ॥ ४ 'ती वत्तं पि विवाहस्स  
अच्चिउं पवत्ता जे०विना ॥ ५ 'ण जंपियं सु' जे०विना ॥ ६ सङ्केतः-"करहधोरण ति करमवाहना" ॥

आइद्धो सव्वंगं तीए रोमंचकंचुओ निविडो । उज्जोइयमहरउडं दियदितीए फुरंतीए ॥ १०१ ॥  
परियोलिओ य सहसा पंचमगेयज्झणी घणं कंठे । लीलुप्पलं मिलणं पद्यं दीहुण्हसासेहिं ॥ १०२ ॥

तओ—

नाउं कम्माकूयं सविसेसं पुच्छिया नरा रन्ना । ‘को एस वरकुमारो ? कस्स सुओ ? केरिसायारो ?’ ॥ १०३ ॥  
तेहिं भणियं “देव !

5

रुवविणिज्जियमारो एसो निहिकुडलो वरकुमारो । नरसेहरस्स तणओ तरुणीयणजणियरणरणओ ॥ १०४ ॥  
सुयं च देव ! निउणमण्णेसमाणेहिं अम्हेहिं ‘किर उत्तमवंसप्पस्ययाओ वि न परिणेइ रायकम्माओ एस’ त्ति  
सयलगुणभूसियस्स वि एत्तिओ तस्स दोसो, संपयं देवो पमाणं” ति । ततो खणं वियक्किऊण लद्धोवाएण दारिया-  
रुवदंसणत्थं गहियपडिच्छंदया ते चेव पुरिसा पेसिया सिरिमदिरनयरं नराहिवेण ।

इओ य निहिकुडलकुमारस्स कुलदेवयाए दंसिया सुविणयम्मि पुरदरजसा, अभिरुइया य दहं पुव्वभववभासेण, 10  
अणुरायरसनिभरमाभासिया वि अदिघ्नपडिवयणा लज्जोणंउत्तमंगा आसंधियपेमगुणं गहिया णेण पाणिपल्लवे ।  
ताव य वंदिचिदुद्दामसदसंवलिण पवोहो एस पाहाउयगहिरतूरनिग्घोसेण । तओ ‘हा ! कहमेएहिं सुहरसाओ  
वंचिओ मि ?’ त्ति कुविओ मागहाईणं, तहा वि तरलतारलोयणेहिं पलोइऊण घरकोणाइ तमपेच्छंतो छोहोइओ इव  
जूयारो, वंचिओ इव धुत्तो, सुट्ठो इव स्रराभिमाणी, कलंकिओ इव सुद्विगारी वसीकओ चिंता-ऽमरिसेहिं ।  
अवि य—

15

खणरुट्ठो खणतुट्ठो खणं सचिंतो खणं च सवियक्को । पायडियविचित्तरसो नडो व्व रंगंगणे जाओ ॥ १०५ ॥

एत्थंतरे समागया से समीवं वयंसया । तओ कयमणेणागारसंवरणं । उचिओवयारसरं पारद्धो तेहिं  
कहाविणोओ । तहा वि अथक्कमुक्कहुंकारस्स सुमिणोवलद्धकम्मादंसणत्थमिव सव्वओ विरोलंति लोयणाइं  
कुमारस्स । जओ—

कामं कामकिलंतगत सोयानलताविय, गाहुम्मायविमूढचित्त संभमरसभाविय ।

20

चोरुत्तासिय सुविणनडिय हिययत्थु अहुंतउ, दूरत्थु वि पेक्खंति वत्थु नयणग्गि निरुत्तउं ॥ १०६ ॥

ततो भणियं चउरमइणा ‘भो भो ! अज्ज कुमारस्स नटं किं पि, ता पुच्छिय कुमारमन्नेसेमो सव्वे वि’ ।  
कुमारेण भणियं ‘अइचउरो सि, ता तं पि किं न लक्खेसि ?’ । तेण भणियं ‘तुम्ह पसाएण तं नज्जिही’ । सेसेहिं  
भणियं ‘कुमार ! किमेस सव्वयं किं पि जंपइ ?’ । कुमारेण भणियं ‘घडइ केत्तियं पि’ । ‘ता किं तयं ?’ ति कहेउ  
कुमारो” त्ति बुत्ते कुमारेण भन्नइ ‘नामं से न याणेमि,

25

नयणेहिं जं न दिट्ठं, जत्तो अन्नं न सुंदरं भुवणे । तं मज्झ करयलाओ नटं इट्ठं पि सहस’ त्ति ॥ १०७ ॥

‘किं पुण तयं ?’ ति विम्हयमणाण य समागया पडिहारदावियमग्गा पुरदरजसापडिर्विवायणत्थं निउत्ता  
रयणचूडभिच्चा । सिट्ठं च पडिहारेण “कुमार ! ‘एए तुम्ह किं पि अब्भुयं दाइस्संति’ त्ति देवेण पेसिया, ता देह  
अवसरमेएसि” । कुमारेण वि ‘एवं’ ति बुत्ते समप्पिया तेहिं चित्तवट्ठिया । तओ ‘सा चेव एस’ त्ति वियसंतने-  
त्तसयवत्तेण भणियमणेण ‘भो ! कया पुण तुम्हेहिं एरिसो सुविणो दिट्ठो ?’ । जाव य अविन्नायपरमत्था न ते 30  
पडिजंपंति ताव भणिया चउरमइणा ‘भो ! एरिसिन्थी मणुस्सलोए न संभवइ, देवीओ उण सुमिणेसु चेव दंसणं  
दिंति, अओ भट्ठिदारओ एवं पुच्छइ’ । तओ ‘अहो ! गभीरो उल्लावो’ त्ति तुट्ठेहिं संलत्तं तेहिं—

१ णयुत्तमंगा जे०विना ॥ २ जूइयरो जे०विना ॥ ३ सार चारद्धो जे०विना ॥ ४ संकेतः—“अथक्क त्ति अप्रस्ताव” ॥  
५ तुम्हेहिं जे०विना ॥ ६ सुविणेसु जे०विना ।

‘देवीण रूवगव्वं हरिउं उप्पाइया इमा विहिणा । पाणप्पिया सुकन्ना नरवइणो रयणचूडस्स ॥ १०८ ॥

भन्नइ पुरदरजसा वियक्खणा सयललक्खणोवेया । नीसेसजणाणंदा पच्चक्खा पुन्नमुत्ति व्व’ ॥ १०९ ॥

एवमायन्निय ‘अहो ! रूवाइसओ’ त्ति जंपमाणेण दाऊण दीणारलक्खं विसज्जिया ते कुमारेण, ‘सिद्धप-  
ओयण’ त्ति परिओसनिब्भरा पडिगया नियनयरिं । कुमारेण वि ईसि हसिऊण भणिया मित्ता ‘भो ! एयं मम  
5 नट्टमासि’ । तेहिं भणियं “कहमेयं ?” ति न याणिमो परमत्थं” । साहिए कुमारेण सुमिणवुचंते ‘देवयापओगो’ त्ति  
हरिसिया सव्वे वि ।

अह कन्नागयचित्तं कुमरं सोऊण पमुइयमणेण । नरवइणा वरणकए महंतया पेसिया तुरियं ॥ ११० ॥

लद्धा गउरवसारं निरुविओ वासरो विवाहस्स । चलिओ परिणयणकए जणयाएसा तओ कुमरो ॥ १११ ॥

करि-करह-रह-त्तुरंगमपमुइयपायालवहलरोलेण । सुहलितो गयणंगणदिसंगणाओ समंतेण ॥ ११२ ॥

10 पँत्तो अरन्नमज्जे वार्हितो वाइणो अह कयाइ । हरिणा हरिऊण वणं पवेसितो एस एगागी ॥ ११३ ॥

भमिऊण दिणं सयलं एगो संसारवत्तिजंतु व्व । देवनिओया वणगहणंमागओ रयणिगमणत्थं ॥ ११४ ॥

सरिऊण नीइसत्थं अपमत्तो तत्थ चिट्टमाणो सो । निमुणइ कलुणं सहं रुयमाणीए महेलाए ॥ ११५ ॥

तओ करुणावसेण गओ सणियं सणियं तयासन्नं, पच्छणं च निरुवयंतो पेच्छइ कत्तियाकरेण कावा-  
लिण मज्जियविलित्तगत्तं मंडलग्गे निवेसियं नयणाणंदयारियं दारियं ।

15 एत्थंतरे तं केसग्गेसु गहिऊण करालकत्तिउग्गीरणदारुणकरेण उद्दाममुग्घोसियं कावालिण ‘भयवइ !  
सव्वसिद्धिकारिणि ! सुलधारिणि ! पणयजणवच्छले ! पडिच्छ एयं वालिओवहारं, वाले ! तुम पि करेहि सुदिहं  
जीवलोगं, सुमरेहि इट्टदेवयं, पविस वा कस्सइ सरणं, पहारनिवायपज्जवसाणो ते जीवलोगो’ त्ति । ताहे सज्जस-  
वसखलंतगिरं भणियं तीए—

‘सुणिणो वि जत्थ घायं कुणंति कं तत्थ वच्चिमो सरणं ? । उदयम्मि दहणसीले अवणेमो कत्थ गिम्हुम्हं ? ॥ ११६

20 तह वि नरसेहरसुओ गुरुहिं दिन्नो मणेण पडिवन्नो । निहिकुडलो कुमरो एक्को सरणं ममेत्ताहे’ ॥ ११७ ॥

तओ—

नियनामसवणसंक्रियमणेण कारुन्नरसपहाणेण । कयकेसग्गहमह सो इक्किय भणिओ कुमारेण ॥ ११८ ॥

‘पाविट्ट ! दुट्ट ! निट्टुर ! नट्टो सि अणज्ज ! अज्ज निरवज्जं । कन्नारयणमणाहं इच्छंतो हतुमेत्ताहे’ ॥ ११९ ॥

तओ संखुद्रेण भणियं कावालिण ‘भो महासत्त ! मा विग्घं करेहि, कया मए दुक्करा पुव्वसेवाइसामग्गी,

25 दुक्खेण मए पाविया एसा सव्वगुणसंपुन्ना कन्ना, सिज्जउ मे परमेसरी महाजालिणो विज्जा, सिद्धविज्जो करि-  
स्सामि भवओ वि महंतमुवयारं ति । कुमारेण भणियं—

“लिंणं ववसि सुणीणं कम्मं चंडाल-हुंवसारिच्छं । लज्जसि नअप्पणो च्चिय करेसि क मूढ ! विज्जाए ? ॥ १२०

तुच्छेहियफलकज्जे मा चिरधरियं वयं विणासेहि । किं न सुयं चिय तुमए ‘दुहगहणं पाणिघायाओ ’ ॥ १२१ ॥

ता उवरम एयाओ ववसायाओ विवागकडुयाओ । उवयारेण वि पज्जत्तर्मम्हमेत्तो वि अन्नेण” ॥ १२२ ॥

30 एमाडमहुरमुवड्ढे कुमारेण पडिवुद्धो एसो, गहिओ पच्छायावेण, विरओ तयारंभाओ । ‘महाभाग ! वारिओ  
तए हं कुगडगभीरंधक्खनिवायाओ करिस्सामि संपयं गुरुसमीवे पच्छित्तं पडिवज्जिय विसुद्धं पारत्तहियं, तुमं पुण एयं

हम्मियतलाओ अवहरिऊणेहाणीयं विजयावइसाभिणो समप्पिय नियपओयणसिद्धीए जएज्जासि' त्ति वोत्तूण गओ कावालितो ।

कुमारो वि 'किं पुरदरजसा चैव एस' त्ति सवियको समासासिऊण तं पुच्छिउं पवत्तो 'सुंदरि ! को एस निहिकुंडलो जो तए विहुरे सरणमव्वभुवगओ ?' । तीए वि 'जहा एयसुहकुहरविणिग्गया वयणामयविंदुणो ममाणं-दम्मदीरंति तहा भवियव्वमेएण मम वल्लहेणं' ति निच्छिऊण भणियं 'दंसिस्सामि विजयावइ पत्ता तं, तुम्ह पुच्छामि 5 पुण जीवियदाययं—रुहमेयं सुत्तारमं देवयासहाएहिं तुव्वेहिं अलंक्रियं ? अवि कुसलं तुम्ह सरीरस्स ?' । कुमारेण भणियं 'कुसलं संपयं तुह मुहमयंकनिरिक्खणेण जीवियरक्खणेण य । अवि य—

हरिऊण तुरियतुरएण तरुणि ! दूराओ आणियो अहयं । पुन्नेण व तुज्ज पुराक्कएण विन्नायथेक्केण ॥१२३ ॥

इय परितोसपराणं सौउल्लरसुल्लसंतगत्ताणं । जंपंताणं ताणं झीणा रयणी खणद्धेण ॥ १२४ ॥

तं चैक्खुरक्खणाए ओमंथियमत्थयं नियइ जाव । कुमरो अतित्तनेत्तो पयासियं रविपर्इवेण ॥ १२५ ॥ 10

ता अस्सवारथट्टं वणंतरे सव्वओ वि य विसट्टं । अन्निसमाणं कुमरं अवरज्ज पयाणुसारेण ॥ १२६ ॥

मयणं व पियासहियं वेत्तुं तं हरिसनिव्वभरा सव्वे । संपत्ता नियकडयं, कमेण विजयावइपुरिं च ॥ १२७ ॥

तो रयणचूडरन्ना दुगुणियमाणंदमुव्वहंतेण । वारेज्जयमडरम्मं विहियं विह्णिणा कुमारस्स ॥ १२८ ॥

गोरवमहग्घमच्छिय मोयादिय पत्थिवं कुमारो वि । पत्तो गहाय गिहिणिं सुहेण सिरिमदिर नयरं ॥ १२९ ॥

गुरुयणकयपरिओसस्स तस्स संपत्तचित्तियसुहस्स । दोगुंदुगदेवस्सेव पुव्वलक्खा गया गेगे ॥ १३० ॥ 15

अह नरसेहराया सद्धिं पडिसत्तुणा पयंडेण । जायम्मि दांरुणरणे पहारविहुरो गओ निहण ॥ १३१ ॥

तं सोउं अरइए गहिओ निहिकुंडलो गलियराओ । रज्जे संसारसुहे य भाविउं एवमाढत्तो ॥ १३२ ॥

'जीए चलम्मि खणभंगुरेसु भोएसु तुच्छविहवेसु । इट्ठविओए पहवंतयम्मि कह रज्जिमो रज्जे ? ॥ १३३ ॥

जम्म-जर-रोग-सोगा तावित्ति निरंतरं जणं जत्थ । कह तत्थ मणुयभावे भाविज्जउ रइसुहे तण्हा ? ॥ १३४ ॥

मरणे अवस्सभाविणि अनिययसमए अथक्कमिन्तम्मि । कह नाम मूढमणुया विलास-हासाइं कुव्वंति ? ॥ १३५ ॥ 20

सुविणिंदयालसाहुंलमलियं सयलं पि नेहववहरणं । हीरइ वल्लहलोओ जणस्स जं मञ्जुणा पयडं' ॥ १३६ ॥

इय जणयविरहविहुरियमणस्स विसयाणुरायविमुहस्स । ओसरिओ सुरमहिओ अणतविरिओ जिणो तत्थ ॥ १३७ ॥

सोऊण जिणं अह सो मणयं उवसंतसोयसंतावो । वंदणक्कजेण गओ सभारिओ तिहुयणगुरुस्स ॥ १३८ ॥

पुव्वभव्वभासगुणा दिट्ठे सहसा जिणे दिणेसे व्व । पत्तं पमोयमसमं तं मिहुणं चक्कमिहुणं व ॥ १३९ ॥

अह काऊण पणामं पुणो पुणो पायपंकेए पहुणो । तम्मूहनिहित्तनयणं कयंजली सुणिय तव्वयणं ॥ १४० ॥ 25

गंभीरदेसणारसभावियचित्तं गिहासमविरत्तं । दाउं सुयस्स रज्जं निकवंतं तं महासत्तं ॥ १४१ ॥

परिवालिकुण विमलं सामन्नमहाउयक्खए धन्नं । सोहम्मटेवलोए सुरमिहुणत्तेण उववन्नं ॥ १४२ ॥

भोत्तूण दिव्वभोए पलियाइं पंच तत्थ गयसोए । निहिकुंडलसुरजीवो पढमयरं किर चुओ तत्तो ॥ १४३ ॥

विजयम्मि महाक्खे अलयाउरिविब्वमे विजयनयरे । महसेणनराहिवल्लहाए चदाभदेवीए ॥ १४४ ॥

सुयजम्मूम्माहियमाणसाए ओवाइएहिं विविहेहिं । कुच्छीए उववन्नो कयउन्नो पुत्तभावेण ॥ १४५ ॥ 30

१ सङ्केतः—“थक्क त्ति अवसर ” ॥ २ सङ्केतः—“साउल्ल त्ति प्रेमवेत्तुरकेणाप(२ प्रेमाङ्कुरकेण)” ॥ ३ “लजाए” ख१टि० ॥ ४ सङ्केतः—“ओमंथियमत्थयं त्ति लज्जया किञ्चिदवनामितमस्तकम्” ॥ ५ सङ्केतः—“अवरज्ज त्ति अतिक्रान्तदिनम् यदाह—‘गय-भाविवासरेसु दिवसारेमे य अवरज्जो” [दिसीनाममालावर्ग १ गा ५६] ॥ ६ सङ्केतः—“साहुलं त्ति सदसम्” ॥ ७ पंक्रयं पं जे० ॥



जाए कमेण जम्मे वद्धावणए अइच्छिए रम्मे । ललियंगो से नामं दिण्णं पिउणा मणभिरामं ॥ १४६ ॥

पावायारविरत्तो पुर्वि पिव एस सुचरियनिओया । परिवडिडुं पवत्तो परम्मुहो विसयसंगस्स ॥ १४७ ॥

ताव य पुंदरजसाऽमरी वि चविऊण तम्मि चैव विजए परमभूसणनयरे पुन्नकेउणो नरिंदस्स दइयाए रयण-  
मालाए महादेवीए कुच्छिसिं धूयाभावेणोववन्ना । जायाए पइट्ठियं नामसुम्मायंति त्ति । पुर्वि पिव परम्मुहा विसय-  
5 संगस्स । नवरं जणणीवयणाओ सहीयणेण बहुसो पन्नविज्जंती भणियाइया 'चउण्हमन्नयराए कलाए जो साइसओ  
जइ नवरं सो मम मणमहुयरमभिरामेइ, न सेसो सामन्नपुरिसो, ताओ पुण कलाओ—अमोहं जोइसं १ नहगामि-  
विमाणरयणनिप्फायणं २ राहावेहपवणो धणुव्वेओ ३ सज्जोविसावहारि गारुडं ४ ति । सुयमिणं राइणा । तओ  
'अहो ! गुणपक्खवाओ मम धूयए' त्ति हरिसिएण रायसुयपरिच्छणैत्थं आढत्तो सयंवरामंडवो । आहूया समंतओ  
रायकुमारा । पत्ता य निरुवियदिणे । सम्माणिया जहारिहं ठिया उचियावासेसु । ताव य पउणीकओ सयंवरा-  
10 मंडवो । केरिसो ?

रयणमणिखंडमडियथंभोवरिरइयवियडघणमंचो । ऊसियधयतोरणलंवमाणघणमोत्तिओऊलो ॥ १४८ ॥

मंचोवरिविरइयसुरविमाणरमणिज्जकायमाणगणो(?) । तारावलिटिविडिक्कियवियाणउग्गीवियजणोहो ॥ १४९ ॥

ठाणे ठाणे पारद्धपेच्छणो दिज्जमाणघणदाणो । मज्झनिवेसियराहासणाहउत्तुंगदढखंभो ॥ १५० ॥

एवं पउणीकए मंडवे जणउच्छंगनिविट्टाए रायकन्नाए पुरओ पारद्धो राहावेहो कुमारेहिं । जाया सव्वे  
15 उवहासट्टाणं । नवरं लीलाए चैव ललियगयकुमारेण समसुम्मायतीहिययसव्वस्सेण गहिया जयपडाया । अवि य—  
लीलायडिह्यकोदंडदंडमालोडऊण ललियगं । लडूणं निहिं दुग्गयवहु व्व तुट्टा दढं एसा ॥ १५१ ॥

पुव्वभवपेमरागो सहसा दोणं पि तेसिं हिययम्मि । लडिंधणो धणंजयकणो व्व दिप्पेउमारद्धो ॥ १५२ ॥

एत्थंतरे गयणाओ ओयरिऊण कामरायविनडिएण सयलजणदिट्ठिमोहणपुव्वं अवहरिया उम्मायती खयरेण ।  
खणंतरे तमपेच्छिय कओ हाहारवो सपरियणेण राइणा । 'किं किमेयं ?' ति पवियक्किया सव्वे समागयकुमारा  
20 सोयभरविहुरिएण भणिया रन्ना 'भो भो ! वंचिया मो केणइ महाधुत्तेण, ता संपयं जो तं पच्चाणेइ तस्स चैव  
मए सा दिन्न त्ति, करेह सव्वे ससत्तिओ उन्नाएण गवेसणं' । ताहे सामरिसेण भणियं ललियगकुमारेण 'भो भो !  
अत्थि कोइ जो मम तं दुट्ठतकरं दाएइ ?' । अन्नेण भणियं 'नाओ मए सो जोइसवलेण दूरंतरे य वट्टइ, तहा वि  
दरिसेमि जइ तत्थ कोइ नेइ' । ततो घडियमवरेण रायतणएण विज्जावलेण गयणंगणगामि विमाणं, भणियं च  
'आरोहह एत्थ जेण नेमि अभिमयपएसं' । तओ ललियगओ धणुद्धरो जोइसिओ विमाणकारी अन्ने वि रायसुया  
25 कोउगा-ऽमरिसाङ्कारणेहिं आरुढा तं विमाणं, पयट्टा जोइसाणुसारेण । मिलिया वेयइहसमीवे उम्मायंतीवग्गेगक-  
रस्स खयरस्स । ताहे साहिवखेवं भणियो सो ललियंगकुमारेण—

'रे खयरगहंर ! गहियामिसो वि दूरं सुहेण पत्तो सि । संपड ओलौवयदलियपोरुसोऽसंसयं मरसि ॥ १५३ ॥

'विज्जाहरो' त्ति भन्नसि छलेण अवहरसि परकलत्ताइं । ता सीहनामधारी कुकुरलीवो' सि तं सच्चं ॥ १५४ ॥

इय भणियो सो पावो चडऊण कराओ कन्नयं सहसा । मुंचंतो सरचरिसं कोवारुणलोयणो वलिओ ॥ १५५ ॥

30 चउरो वि चउरचूडामणिणा ललियंगणण सो मम्मे । तह पहओ जह गहियो सयराहं दीहनिदाए ॥ १५६ ॥

१ 'सि दुहियाभावेण जे०विना ॥ २ 'णत्थं पारद्धो स' जे०विना ॥ ३ जणयुच्छंगं जे०विना ॥ ४ ललियगणण  
'भो जे०विना ॥ ५ सद्धेतः—'गहर त्ति यत्र' ॥ ६ सद्धेतः—'ओलावय त्ति श्येन' ॥ ७ संकेतः—'लीवो त्ति बालकः' ॥

अन्नेसंतेहिं तओ महीयले तेहिं वणनिगुंजम्मि । दिट्ठा पणट्टवेट्ठा उम्मायंती मयायंती ॥ १५७ ॥  
 नायं च जहा एसा दट्ठा दुट्ठेण दीहपिट्ठेण । किं कायव्वविमूढा जाया सव्वे वि सविसाया ॥ १५८ ॥  
 उत्तमवंसपस्रएण नवरमेगेण रायपुत्तेण । जीवाविया दुयं सा अचिन्तमंताणुभावेण ॥ १५९ ॥  
 तो नीया रहसविसट्टनयणवयणेहिं तेहिं पिउमूलं । नवरं समोवयारा सव्वे वि तयत्थिणो जाया ॥ १६० ॥

अवि य—

निहओ स्वरओ ललियगएण नेमित्तिदंसिओ नियमा । नीया ते दो वि विमाणकारिणा तत्थ चउरा वि ॥१६१॥  
 सव्वेसिं मट्ठाए निवाइया पन्नगेण सा वरई । गारुडसिद्धेण धुवं जियाविया मंतसत्तीए ॥ १६२ ॥

तेण—

चउरो वि महासामंतनंदणा तुल्लरुव-वय-विहवा । वलिणो अलंघणिज्जा कन्ना वद्धग्गहा य दढं ॥ १६३ ॥  
 'तिण्हं उम्मल्लाए देमो दुहियं क्हं नु एगस्स ? । को वा इमीए उचिओ होही परिणामसुहओ य ? ॥१६४॥ 10  
 एईए पुण पइन्ना अन्नयरेणावि पुंज्जइ इमेसिं' । इय चिंतंतो जणओ न हि लहइ रइं सुहुत्तं पि ॥ १६५ ॥  
 किं बहुणा ? तम्मि दिणे समंति-सुद्धंत-परियणो राया । चिंतासायरपारं अपावमाणो ठिओ दुक्खं ॥ १६६ ॥  
 सोऊण वइयरमिणं उम्मायंती वि वड्ढियविसाया । ललियंगयगयचित्ता वियप्पिउं एवमाढत्ता ॥ १६७ ॥  
 'ललियंगयं पमोत्तुं न ठाइ मणुओ मणम्मि मह अन्नो । तह वि हु विवायवाओ वित्थरिओ विहिवसा एसो ॥१६८॥  
 आउलचित्तो ताओ संभावियवहुनरीसरविवाओ । हद्दी ! अणत्थमूलं जम्मं रुवं च मे एयं ॥ १६९ ॥ 15  
 पविसित्तु हुयवहं ता करेमि सव्वेसि निव्वुइमिमेसिं । असुहनिवित्तिनिमित्तं न निंदिओ आयघाओ वि' ॥१७०  
 इय चित्तिऊण भणिया अम्मापियरो 'विमुंचह विसायं । नीणेह मज्ज दाखणि जेण सव्वं हवइ सुत्थं ॥१७१॥  
 इहरा जणसंहारो, संदिद्धा तह य इट्ठसंपत्ती । आससिद्धरं अयसो मम तुम्ह य जीवलोगम्मि' ॥ १७२ ॥  
 नाऊण निच्छयं कन्नगाए जणएहिं विरहभीएहिं । भणियो तुहमती 'भो ! किमेवमच्छसि सुवीसत्थो ? ॥१७३  
 विसमं कज्जारंभं समीकुणंतो फलं लहइ मंती । समकज्जसाहणे पुण निवाण मंतीहिं किं कज्जं ?' ॥ १७४ ॥ 20  
 तो भणइ महामंती 'कीरउ कन्नासमीहियं देव ! । एवं चिय कीरंतं परिणामे सुंदरं होही ॥ १७५ ॥  
 अहयं तु तह जइस्सं जह तुम्ह न होइ दुक्खलेसो वि । पुज्जिस्संति य चितियमणोरहा कन्नगाए वि' ॥१७६॥

तओ तुट्ठेण राइणा 'एवं'ति भणिए निम्माविया मंतिणा सारसुरहिदारुनियरेण महंती चिया, आहूया  
 चउरो वि कुमारा, भणिया य सगोरवं—

'भो भो ! समगुणविहवा तुव्वे चउरो वि गोरवट्ठाणं । तिण्हमवमाणणाए दिज्जउ एगस्स क्ह कन्ना ? ॥१७७ 25  
 ता भे न चित्तखेओ कज्जो थेवो वि एत्थ वत्थुम्मि । अणुमभिज्जउ एसा वाला जलणम्मि पविसंती ॥१७८॥  
 जो वा अहिमाणघणो पइत्तणं काउ महइ एयाए । सो अणुगच्छउ एयं, नेहस्स फलं जओ नऽन्न' ॥ १७९ ॥

तओ 'अहो बुद्धिपगरिसो, छिन्नो ववहारो, न यावमाणिया वयं सव्वे वि, जुत्तमेयमेरिसरमणीरयणस्स' त्ति  
 भावित्ताणं ताणं समागया तं पएसं कयसिंगारा कन्नया । दाऊण दीणार्इण दाणं पविट्ठा चियंतरविरइयं कट्टकुडियं ।  
 पज्जालिओ चउदिसिं हुयासणो ।

30

एत्थंतरे 'कहमणाहा एगागिणी मम पिययमा पावपावएण गसिज्जइ ? किं वा मम एयाए विरहियस्स

जीविएणं? ति भाविऊण वारिज्जमाणो वि परियणेण बला पविट्ठो तं चियं ललियंगयकुमारो, ठिया सविम्हया सेसा । अवि य—

लुहियाण भोयणम्मि व राओ रमणीसु होइ कामीणं । नेहो पुण विरलाणं जो मरणंते वि निव्वडइ ॥१८०॥  
तण्हाणुगया वप्पीहया वि बहुसो पियं पियं विति । सव्भावियं पियं पुण नज्जइ कज्जेहिं विहुरेसु ॥ १८१ ॥

5 तओ जाव विन्नायतन्नेहसव्वस्सा उम्मायती 'हा अज्जउत्त ! किं मम मंदभग्गाए कए दारुणं ववसिओ सि ?'  
त्ति तं समुल्लवइ ताव ब्रड त्ति मंतिनिउत्तपुरिसेहिं उग्घाडियं सुरंगामुहं । तेण य पत्ताणि दो वि मंतिमंदिरं । इओ  
य लोलवहलजालावलीकरालं चियाजलणं दट्टुमचायंता विलीयविम्हिया जहागयं पट्टिया पायं रायतणया ताव  
भणिया मंतिणा संवंधिकुमारा 'अहो ! महासाहसं, अहो ! निच्छयकारिया, अहो ! पडिवन्नसारया ललियंगयस्स,  
तुव्भेहिं पुण पियजीवियधणेहिं परिचत्ता चेव रायधूया, अओ जइ कहंचि देवयाइसन्निहाणाओ जियंति एयाणि  
10 ता भवंतरपत्तं पिव एयं ललियगओ विवाहिउमरिहइ, न उण तुव्भे' त्ति । तेहिं वि साणुकोसहियएहिं भणिय 'एव-  
मेयं, न एत्थ का वि अम्हाणमक्खमा, जियंतु नियपुन्नेहिं महासत्ताणि दो वि' त्ति ।

इय जंपिराण तेसिं सव्भावं साहिऊण सचिवेण । आणाविओ कुमारो सहिओ कन्नाए धन्नाए ॥ १८२ ॥

उल्लसियमहाणंदं तओ नरिंदेण कारियं तुरियं । वद्धावणयं वारेज्जयं च कयजणचमुक्कारं ॥ १८३ ॥

अह रन्नाऽणुन्नाओ ललियंगो संगओ पिययमाए । पत्तो नियपुरमाणंदसुहरसं पणइणं दितो ॥ १८४ ॥

15 संपन्नमहाभोगं सुमहाभोगं मणोरमं रज्जं । जणयविदिन्नं सुइरं कमेण अह पालियं तेण ॥ १८५ ॥

अह निन्नासियकमले कमलेहिं अलंकियम्मि सरयम्मि । सरयम्मि निरीहमणो मणोरमे हम्मियतलम्मि ॥१८६

दइयाए सह निसन्नो दैच्छइ य नहंगणे महाभोगं । वरपासायसरुवं मेहं बहुवन्नयरवध्नं ॥ १८७ ॥

वरसिप्पिनिम्मियं पिव उप्पाइयविम्हयं तह पुणो वि । पवणेण खणेण विलुत्तमुत्तियं सव्वओ खित्तं ॥१८८॥

तो संजायविसाओ राया वज्जरइ 'पिययमे ! पेच्छ । नयणसुहविघाओ णे विहिणा विहिओ कह अयंटे ? ॥१८९

20 पेच्छ चलत्तं सारयघणाण जं तारिसो सुपासाओ । होऊण गओ निहणं सहसा सुमिणोवलंभो व्व ॥ १९० ॥

एयारिसं व सुंदरि ! सयलं संसारियं सुहं मन्ने । माइंदजालसरिसा संजोगा एत्थ जं सव्वे ॥ १९१ ॥

लच्छी करिकन्नचला, रुवं संझाणुरायसमथेज्जं । जीयं सरयव्वमचलं, सुमिणसमो पेमपरिणामो ॥ १९२ ॥

दीसंति जे पभाए न हु मज्झिमवासरम्मि ते पुरिसा । मज्झणहुवलद्धा न हु निसासु, 'हिज्जो न निसिदिट्ठा ॥१९३

इट्ठविओओऽणिट्ठागमो य रोगा जरा य मच्चू य । पद्वंति जत्थ रिउणो किं संसारे सुहं तत्थ ?' ॥ १९४ ॥

25 एवं वेरग्गओ पुणरवि पेच्छइ नरीसरो सहसा । नाणामणिभासुरसुरविमाणमालाउलं गयणं ॥ १९५ ॥

'नणु एए वि घणा किं ? न हि न हि जं अवयरंति धरणीए । सुव्वइ य तूरघोसो हंहो ! अच्चव्वुयसपुव्वं' ॥१९६॥

इय कोऊहलकलिओ राया उज्जाणपालपुरिसेणं । भणिओ 'वड्ढाहि पहू ! तुह नयरे आगओ अरिहा ॥ १९७ ॥

सत्त्वन्नु सव्वपहू सव्वुत्तमगुणनिही सयलदंसी । सव्वसुरा-ऽसुरमहिओ सव्वहिओ सव्वभयरहिओ ॥ १९८ ॥

जा पुण तस्सऽत्थाणी मणितोरणतुंगसालझयकलिया । सयरहं निम्माया सा न वयणगोयरे मज्झ ॥१९९॥

30 वंचिज्जामो निययं तमपेच्छंता निमेसमेत्तं पि । एवं ठियम्मि देवो आइसउ जमम्ह कायव्वं' ॥ २०० ॥

१ संकेतः—“कमले ति कस्य-जलस्य, मळे-पट्टे” ॥ २ संकेतः—“सरयम्मि ति सरजे-रते, सरके च-मयविशेषे” ॥

३ दच्छीय नं जे० ॥ ४ सुविणो जे०विना ॥ ५ मायंदं जे०विना ॥ ६ संकेतः—“झो(हिज्जो) ति य(थ)-कथे” ॥

७ अरहा जे०विना ॥

एयमायन्निऊण पमोयरोमंचकंचुयंचियचारुगतो दाविऊण तस्स पारिओसियं दीणारलक्खं, समग्गसाम-  
मीए निग्गओ भगवओ जयनंदणजिणिंदस्स वंदणनिमित्तं नरवरिंदो । तओ विहिविहियजिणिंदचरणारविंदवंदणो  
पयट्टाणवरयवाहविंदुसंदणो सोऊण सव्वभावाणमणिच्चयं धम्मस्स य पहाणकिच्चयं, भाविऊण संसारासारयं मोहस्स  
य दुन्निवारयं, अवहत्थिऊण असेसपरिग्गह, काऊण मणिंदियनिग्गहं, अप्पमाणप्पमोयमुव्वहंतीए सहिओ देवीए  
उम्मायंतीए पुत्तोवणीयरज्जसारो अंगीकयतवचरणभारो भवजलद्विपडियजंतुगणासासदीवे पव्वओ भगवओ 5  
समीवे । तओ आराहिऊण निकलंकं सामन्नमुव्वन्नाइं दो वि ईसाणकप्पे सुरमिहुणभावेण ।

भोत्तूण य तत्थ दिव्वभोए पंचपलिओवमाइं पढममेव चुओ ललियगयजीवदेवो, उव्वन्नो य इहेव जंबुद्वीवे दीवे  
सुकळविजयालंकारकप्पाए विस्सउरीए नयरीए सामिणो दरियरिउगइंदमइंदस्स सूरतेयनरिंदस्स दइयाए पुक्कवईए  
कुच्चिसि पुत्तत्ताए जाओ उचियसमएणं । कयदेवसेणनामो पुविं पिव कलत्तसंगहविमुहो कलाणुगुणणमेत्तवावरो  
संबुत्तो । 10

ताव य उम्मायंतीदेवी वि चुया उव्वन्ना तम्मि चैव विजए वेयड्ढपव्वए दाहिणसेठीए सुरसुदरनयरनाहस्स  
रविकिरणस्स विज्जाहररायस्स कंताए रविकंताए देवीए कुच्चिसि धूयत्ताए । जायाए कयं से नामं चदकता । पव्वड्ढिया  
एसा वि कलिया कलाकोसल्लेण, परं परम्मुहा पुरिसपरिग्गहस्स । अओ दंसिज्जंति से अणेगे सुरकुमाराणुगारिणो  
खयरपुंगवा, न रोयंति य तीसे मणागं पि । तन्निमित्तो य तवेइ जणयाण माणसं महंतो चित्तानलो । अन्नया  
य सहीहिं सद्धिं गिरिसिहरे कीलंतीए चदकंताए निसामियं किन्नरमिहुणेण गिज्जमाणं देवसेणकुमारगुणनिवद्धं 15  
तारमहुरं गीयं । तओ हयहियया एसा सायरं तमायन्निउं पयत्ता । अवि य—

नामं पि भवंतरवल्लहस्स निसुयं सुहावहं ढोइ । जीयंति विसपसुत्ता निसुणंता गारुडं मंतं ॥ २०१ ॥

तओ विन्नायहिययाए पियकरीसहीए उवसप्पिऊण सविणयं पुच्छिया किन्नरी 'देवि ! को एस, देवसेण-  
कुमारो जो तुम्हाणं'पि गीयविणोयकारणं संबुत्तो ?' । तीए भणियं "भदे ! सुण—

अमराण माणवाण व गिज्जंति गुणा मयंककरधवला । गुणपगरिसरसमयवाउलेहिं मज्झत्थविउसेहिं ॥ २०२ ॥ 20  
भुवणच्चभ्रुयभ्रूया जम्मि गुणा सो नरो सुराणं पि । अवहरइ अवस्स मणं गिज्जइ नणु तेण सो तेहिं ॥ २०३ ॥  
कोउगवसेण महिगोयराण नयरेसु वियरमाणेहिं । दिट्ठो विस्सपुरीए एसो अम्हेहिं निवत्तणओ ॥ २०४ ॥  
कीलंतो उज्जाणे दिंतो दाणाइं अत्थिवग्गस्स । पीणंतो सुहिवग्गं दिट्ठी-वायामयरसेण ॥ २०५ ॥

किंच—

दट्टूण तस्स रूवं नज्जइ मयणेण उज्जियं अंगं । पत्तो ससी कलंकं तारिससोमत्तमलहंतो ॥ २०६ ॥ 25  
मग्गइ तस्स पयावं निच्चं सूरुो वि करसहस्सेण । तम्मइविहवजिया इव गुरु-बुह-सुक्का गया दूरं ॥ २०७ ॥

किं बहुणा ?

सो नत्थि गुणो जो तम्मि नत्थि इय विम्बियाणमम्हाणं । एइ बलामोडीए तग्गुणगणथुणणसंगीयं" ॥ २०८ ॥  
सोऊण देवीवयणं भणिया पियकराए चदकंता "सामिणि ! 'चिरण्हं वट्टइ' त्ति अद्धिइं करिस्सइ अंवा ता  
वच्चामो नियमंदिंरं" । तओ 'एवं' ति भणिऊण गयाओ सगिहं । तत्थ वि परिचत्तकीलाविणोयाए सहीहितो 30  
शुणिओ से अभिप्पाओ जणणीए परियणेण य । ताहे पारद्धो तप्पडिवोहणकए भाइवग्गेण वियारो । कहं ?—

'सव्वत्थ भमंति रमंति ठंति विज्जाहरा सुरवरु व्व । विज्जाणुभावसंपन्नसयलमणचित्तियपयत्था ॥ २०९ ॥

१ पवत्ता जे-विना ॥ २ साहिऊण दे° आ-विना ॥

रूवाइं कुणंति मणिच्छियाइं, पणईण वंछियं दिंति । अप्पडिहयप्पयावा धम्मा एए खयरसीहा ॥ २१० ॥  
एए पुण धरणिचरा माणुसवेसेण कीडया घडिया । दीणा परिभवभवणं विहलसुहमणोरहा विहिणा ॥ २११ ॥

जओ—

- वंदंति न तित्थयरे विहरंते सयलकम्मभूमीसु । निष्णुणंतिं न तेसिं देसणाउ निम्महियमोहाउ ॥ २१२ ॥  
5 वंदंति न सासयचेइयाइं वासहर-मंदराईसु । पेच्छंति न दीव-समुद्दुदियं महियलाभोयं ॥ २१३ ॥  
विन्नाणं रूवं पौरिसं च को तेसि पत्तियइ विउसो ? । पंगूण व जाण करा हीरंति खगेहिं इट्टाईं ॥ २१४ ॥  
पुणरुत्तमुल्लवंते ताहे ते भणइ चंदकंता वि । 'कीरंति राग-दोसोदएण स-परेसि थुइ-निंदा ॥ २१५ ॥  
मज्झत्थो पुण पेच्छइ जम्म-जरा-मरण-रोग-सोगाइं । मणुयभवभाविभावा सामन्ना उभयपक्खे वि ॥ २१६ ॥  
वचंति नहेण विहंगमा वि, सरडा वि रूवपरियत्तं । कत्थइ कुणंति, को एत्तिएण गव्वो सयन्नाणं ? ॥ २१७ ॥  
10 विज्जावलेण एगे जिणंतिं अण्णे सवाहुदंडेहिं । के तेसु संसणिज्जा ? मज्झत्था ता वियारेह ॥ २१८ ॥  
एगो परेण दिन्नं भुंजइ, अन्नो सविक्रमकंतं । सारेयरमेएसिं फुडं वियाणंति वाला वि ॥ २१९ ॥  
जइ विज्जाहरजाई हवेज्ज सव्वुत्तमा मणुस्सेसु । ता किं न एत्थ तित्थयर-चक्कि-वल-केसवा हुंति ? ॥ २२० ॥  
जइ ता कीरंति वसे केसव-चक्कीहिं भूमिचारीहिं । दप्पकलिया वि खयरा ता कह विज्जाहिं मज्जंति ? ॥ २२१ ॥

- एमाइ, सजुत्तिउत्तीहिं निरुत्तरीकयभाइवग्गा 'पुव्वभवनेहसंवद्ध' ति कलिया पिउणा । ताहे पेसिओ पडि-  
15 छंदो देवसेणकुमारस्स । तं च दट्टूण गहिओ एसो वि महया अणुरायरसेण । तयणु जायनिच्छओ धूयं गहाय  
गओ विस्सउरिं रविकिरणराया । काऊण चडालीविज्जाए चंडालरूवं, गंधव्वपत्तेण उवट्टिओ कुमारस्स । पारदं मंजुलं  
गीयं । हरिसिया कुमारपरिसा । कुमारो पुंण कन्नाणुरायहयहिययत्तेण न चेव भाविओ, भणिउं च पयत्तो 'भो !  
केत्तियं विन्नाणं तुह धूयाए ? ' । गंधव्विएण भणियं 'किं तव एयाए ? मम गीयं ताव वियारेहि' । कुमारेण  
भणियं 'तो' खाइं ताव गाएह' । ताहे भणियं परियणेण 'चिरं गीयमेएण, किमियाणिं परिकिलेसेण ?' । तओ  
20 सविलक्खो ठिओ लज्जोणओ कुमारो ।

- एत्थंतरे चित्तियं रविकिरणेण 'अहो ! अणेगभविओ एएसिं सिणेहाणुवंधो, कहमन्नहा एसा अवहीरिऊण  
विज्जाहरिंदे एयम्मि रायमुवगया ? एयस्स वि चंडालीरूवाए वि एयाए अवगन्धियजणावन्नवाओ एरिसो अणुराओ,  
ता सव्वहा परिणामसुंदरो एएसिं सजोगो' ति । तओ 'अलं ते अगुणणुणो सेवाए' ति भणंतो निग्गओ रवि-  
किरणो । आवासिओ य कयकडयवित्थरो नाइदूरे नयरीए । तओ तक्खणा चेव विविहजाण-वाहण-विमाणा-  
25 रूदेहिं गहिरगंधव्वरवाऊरियभुवणभवणोयरेहिं पच्छाइयं नहंगणं विज्जाहरनिवहेहिं । तं च दट्टूण विम्हिओ सपरि-  
यरो सूरतेयराया । ताव य सहस ति पणमिऊण भणिओ एगेण खयरकुमारेण 'देव ! वड्डाहि कल्लाणमंगलब्धु-  
दएण, आगओ एस तुह पुत्तस्स धूयं दाउं रविकिरणखयराहिवो' । तमायन्निय परिओसनिव्वरो दाऊण तस्स  
पारिओसियं निग्गओ अम्मोगइयाए सूरतेयराया । तओ अन्नोन्नगोरवरंजियमाणसाणं दोण्हं पि तेसिं घडिओ अवच-  
संवंधो । जायं च सयलजणाणंदयारयं वारेज्जयमंगलं । अवि य—

- 30 वरगंध-कुसुम-कुंकुम-तंबोला-ऽऽभरण-सुरदुगुल्लाणं । दाणेण रंजिओभयपक्खं वारेज्जयं जायं ॥ २२२ ॥

तओ अणुरुवमिहुणदंसणुव्वभूयपरमाणंदरससंसित्तगतो वि हुंततणयाविओगग्गिसंतावियंगो विविहपडिबत्ति-

भलावणपुव्वं अणुजाणाविय विस्सउरीसरं जहागयं पडिगओ खयरिंदो । नेहाइसएण य पेसेइ पइदिणं विज्जाहरो-  
व्रभोगजोग्गाइं अव्वंगाइं भोगंगाइं संकंताए चदकंताए । कालेण य परिन्नायासारसंसारसरुवो पव्वइओ सूरतेवो ।  
पडिवन्नो पुहइपालत्तं देवसेणो । चदकता वि अलंकिया रुवाइसयविणिज्जियाणंगएण सूरसेणाभिहाणंगएण । किं  
बहुणा ?—

लीलानिज्जियदुज्जयारिनिवहं वंसस्स सोहावहं, तेलोकोयरपूरणुज्जलजसं वड्हंतकीलारसं ।

5

रज्जं रंजियसज्जणुकरमणं दुहंतसंतावणं, भुत्तं तेहिं चिरं चिरंतणमहापुन्नोहसंपावियं ॥ २२३ ॥

अन्नम्मि दिणे रविकिरणराइणा कह वि गरुयवक्खेवा । तेसिं न पेसियाइं भोगंगाइं सुचंगाइं ॥ २२४ ॥

पत्थावे उवणीयाइं चेडीहिं वत्थव्वाइं उव्वट्टण-विलेवणाईणि चदकताए । ताइं च दट्टूण तुसारनियराभिहया  
इव कमलिणी, पईवपहापुट्टा इव मालईकलिया सहस्रं त्ति परिमिलाणा एसा, चित्तिउं च पैयत्ता—

‘हद्धी ! किमज्ज न हि को वि आगओ तायपेसणयकारी ?! अवि कुसलं तायगिहे ! पम्हुट्टा हं किमेत्ताहे ?! ॥ २२५ ॥ 10’

किं किं पि मज्झ कुविओ ताओ कत्तो वि पिसुणवयणाओ ? । किं वा सिढिलसिणेहो एमेव कहिंचि संजाओ ?’ ॥

इय चित्तिरीए तीए भणियं हसिरीए कीय वि सहीए । ‘कहमेयसाहणेहिं काही देहट्टिइं देवी ? ॥ २२७ ॥

अवि य—

वेळहलेला-सळइ-लवलीपळवरसेहिं दुळलिया । छाँया वि करं करिणी कह काही कक्खडकरीरे ?’ ॥ २२८ ॥

अन्नाए भणियं—

15

‘किं न गमिज्जइ कालो कडुकुडयपसूणएसु भमरेहिं । अलहंतएहिं मालइ-कमलंव-कदंवमयरदं ?’ ॥ २२९ ॥

अवराए वुत्तं—

‘जाइयमाहरणं पिव परदिन्नसुहं न सासयं होइ । तो तल्लाभा-ऽलाभेसु हरिस-मन्नू न कायव्वा ॥ २३० ॥

अवमाणकारणं चिय होइ परासा जियाण पाएण । इय भाविज्जण धीरा संतोसपरायणा हुंति’ ॥ २३१ ॥

एमाइ सहाससहीयणुल्लावसवणओ सुहाणुवंधपुन्नपरिवागाओ संवेगाणुगया देवी भणिउं पवत्ता “हला ! 20  
सच्चमेयं महाऽवमाणनिबंधणं परासा, परासापहाणा य कामभोगा, जओ—

सदाइविसयगामो करणग्गामस्स गोयरावडिओ । जणयइ सुहाभिमाणं परप्पसूओ य सो नियमा ॥ २३२ ॥

जइ ता सदाइशुणा मणोरमा संति गायणाईणं । तदसंकमणासवणाइणा उ भोगीण को माणो ? ॥ २३३ ॥

जो विसयसंपओगो सुहभावो ताव करणवग्गस्स । इय कह न पराहीणं भोगसुहं हंदि ! जंतूणं ? ॥ २३४ ॥

एवंटिए अलमियाणिं मोहविलसियपाएहिं ण्हाणुवट्टणंगराएहिं, करेमि साहीणसुहत्थमुज्जमं, पडिवज्जामि 25

निरवज्जं संजमं” । ति भणंतीए तीए निवारियमुव्वट्टणाई । ताहे सविलक्खदुक्खियाहिं पाएसु पडिज्जण भणिया

वयंसियाहिं ‘नत्थि पहवंते देवे तिलोयमंदिरोयरे तुह किं पि पराहीणं, ता सव्वहा करेहि सरीरट्टिइं, ण जुत्तं हसि-

याणुमग्गेण धाविउं’ ति । देवीए भणियं “हला ! अलमियाणिं छंदाणुवत्तिभणिएहिं, मुणिओ मए भवसुहपरमत्थो,

चिरं पवंचियं म्हि मुणिजणाणुभूयसारस्स परमपयपउणहेउणो पसमामयरसस्स । अवि य—

धन्नाओ ताओ मन्ने कुमारसमणीओ समियपावाओ । जासिमवमाणमूले विसयसुहे नो मई जाया ॥ २३५ ॥ 30

किं पेमं ? को व पिओ ? को विरहो ? केरिसी विसयतण्हा ? । एयमंपुव्वं जासिं नमो नमो ताण समणीणं ॥ २३६

१ सकान्ताया पत्तिसहिताया इत्यर्थं ॥ २ पवत्ता ख१ आ० ॥ ३ सङ्केतः—“छायं त्ति बुभुक्षिता” ॥ ४ मउव्व  
जे०विना ॥

तासि सुलद्धं जीयं जासिं तवताविए तणुकुंडिच्छे । दाहभया इव न कयं मैयणेण पयं मणागं पि” ॥ २३७ ॥

एवं वेरगमगलगा देवी सहस्रं त्ति विघ्नत्ता पडिहारीए ‘देवि ! आणवेइ देवो जहा सिग्घमागच्छाहि, एस गच्छामि अहं तिहुयणभुवणेक्कजोईक्खस्स सिवपयवीगमणवद्धक्खस्स भवंधक्खपडंतसत्तसमुद्धरणदक्खस्स कयंतरा-  
रिचक्कच्चमढणासुद्धियसरणागयजणरक्खस्स भगवओ विजयजिणिंदस्स वंदणवडियाए’ त्ति । एवमायन्निऊणामयकुंड-  
5 बुहुणाइरिचचित्तगतसुहा देवी दाऊण पारिओसियं पडिहारीए तुरियकयसरीरभूसा गया नराहिवेण समं समत्थ-  
दुत्थियसरणं समोसरणं । भत्तिभरुभूयभूरिरोमंचमंचिऊण वंदियं जिणिंदचलणारविंदं राइणा देवीए सेसजणेण  
य । उवविहाण य सव्वेसिं पारद्धा भयवया धम्मदेसणा—

भो भो ! भीमे भवारन्ने भमंताणं सरीरिणं । दुन्निवारं दुहं भूरि सुहं तुच्छमसासयं ॥ २३८ ॥  
सी-उण्ह-सत्थसंपाय-सिंवली-वालुगाइणा । एगंतदुक्खिया सव्वे नारया पावकारया ॥ २३९ ॥  
10 छुहा-सी-उण्ह-संतास-वाह-दोहाइदूमिया । खजंता अन्नमन्नेण तिरिक्खा तुम्ह पायडा ॥ २४० ॥  
जम्म-मच्चु-जरा-रोग-सोग-ढालिइभिहुया । वलवंतसमकंता दुहं जीवंति माणवा ॥ २४१ ॥  
ईसा-SSभिओग-हीणत्त-कोह-लोह-भयाइणा । देवाणं पि दुहं घोरं चुइकाले विसेसओ ॥ २४२ ॥  
एवं ठियम्मि संसारे पलित्तम्मि व मंदिरे । ठाउं खणं पि नो जुत्तं जाणंताणं पमायओ ॥ २४३ ॥  
जओ अत्थि वरं ठाणं नेव्वाणं नाम निव्वभयं । सव्वाSSवाहाविणिम्मुकं जम्मि साभावियं सुहं ॥ २४४ ॥  
15 जं संपत्ता महासत्ता अमंदाणंदसालिणो । आकालमेव चिट्ठंति निद्धियट्ठा निरावया ॥ २४५ ॥  
सम्ममेवं विभावित्ता भव्वा नेव्वाणकारणे । करेह उज्जमं धम्मे सव्वदुक्खनिवारणे ॥ २४६ ॥

एवं च सुणमाणस्स राइणो खओवसममुवगयं चारित्तमोहणिज्जं, वियलियो विसयराओ, पणट्ठो परिग्गह-  
गहग्गहो, समुल्लसियं जीववीरियं, जाओ चरणधरणपरिणामो । तओ विघ्नविऊण भयवंतं सूरसेणकुमारनिवेशिय-  
रायसदो महया विच्छेणेण पुव्वपडिबुद्धाए देवीए समं निक्खंतो देवसेणराया । तओ—

20 अहिगयसुयसारो दूरविच्छूढमारो, अखलियसुविहारो चारुचारित्तचारो ।  
मुणिपयमकलंकं धोयपावोहपंकं, अकयकुमयसंकं पालइत्ता अवंकं ॥ २४७ ॥  
चइत्तु देहं अह वंभलोए जाओ महारायरिसी सुरिंदो । देवी वि देवो सुमहिद्धिजुत्तो दोण्हं पि आउं दस सागराइं ॥  
भोत्तूण वरे भोए परोप्परं नेहनिव्वभरा तत्थ । चइउं इहेव भरहे कुरुदेसे गयपुरे नयरे ॥ २४९ ॥  
परवलपयावसिरिवाहणस्स सिरिवाहणस्स नरवइणो । दइयाए लच्छीए कुच्छीए पंकयच्छीए ॥ २५० ॥  
25 सुरराओ उववन्नो चोदसमहसुमिणसुइओ धन्नो । भरहाहिवो विसिट्ठो सुविणत्थविज्जहिं आइट्ठो ॥ २५१ ॥  
इयरो वि बुद्धिसायरमंतिपियाए सुदत्तनामाए । उयरम्मि समुप्पन्नो तत्थेव य पुत्तभावेण ॥ २५२ ॥

जायाण य पडट्ठियाइं नामाइं रायसुयस्स पियकरो डयरस्स मडसागरो त्ति । अन्नया परोप्परदंसणेण पुव्वभव-  
नेहाणुवंधाओ पमुइया ते दो वि दहं दारगा निज्जायंति परोप्परं, न य विप्पओगमिच्छंति, विओइज्जंमाणा वि  
धणियं रोयंति, संजुत्ता उण न मुणंति छुहं, न पित्रासं, न सरंति माइणं पि । तओ विमिहएहिं राय-भंतीहिं निरुवि-  
30 यमेगत्य तेसिं कीला-भोयणाइं । तओ पत्राइइयसुहसंताणा पत्ता कलाकलावंसंपुधं तारुधं । गाहिवो य पाणिं  
पिउणा पियंकरो पहाणकुलुवन्नानं रूवोहामियसुरंगणाणमणेगाणं कन्नगाणं, मंतिणा वि मडसागरो त्ति ।

१ सङ्केत-“कुडिच्छे त्ति कुटीरे” ॥ २ “कामेन सिक्खकेन च” जेटि० ॥ ३ सङ्केत-“जोइक्खस्स त्ति दीपस्य” ॥  
४ सङ्केत-“चमढण त्ति भुजिधान्या(त्वा)देशोऽप्ययमत्र लक्षणया कदर्यनाया वर्तते, सुद्धिय त्ति श्रान्त” ॥ ५ सङ्केत-“वाहणस्स  
त्ति चोपम(वाधन)स्य” ॥ ६ ‘वसंपन्नं जे०विना ॥

अन्नया य सुयसागराणगारंति ए निसामिऊणं संसारासारयं, मच्चु-जरा-रुयाणं च दुघ्नवारयं, विसयाण विर-  
सावसाणयं, रज्जस्स य बंधणसमाणयं सासयसुहासाए पियंकरारोवियरज्जभारो पडिवन्नो समणभावं सिरिवोहणो  
राया, तेण समं मइसागनिउत्तमंतिसदो बुद्धिसायरमंती वि ।

ताहे पियंकरनरिंदो समासाइयचक्काइमहारयणो पसाहियसयलभारहो वत्तीसमहासामंतसहस्समत्थयालिमाला-  
लिहिज्जमाणपायपंक्रओ चउसट्टिसहस्ससंखंतेउरकमलायरे रायहंसो इव लीलाए अभिरमंतो ठिओ णेगाइं पुव्वल- 5  
क्खाइं । अइवल्लहो य तस्स राणो मइसागरमती । अवि य—

नो मायंगा न चंगा तुरयरहवरा नेव सामंतजोहा, भंडागारं न सारं न रयणनिहिणो नेव दारा उदारा ।

नट्टं गेयं न तारं तह मणहरणं नेय रज्जं न रट्टं, दिट्ठो रुट्ठो वि तुट्ठिं जह अह सचिवो राणो से करेइ ॥ २५३ ॥

मंती वि निवं मन्नइ देवं व गुरुं व निद्धवंधुं व । हियं च लोयणं पिव सव्वस्सं जीवियं व सया ॥ २५४ ॥

इय निविडपरोप्परनेहविम्हया अन्नया दुवेणं पि । कारणजिन्नासाए जाया चिंता अइमहंता ॥ २५५ ॥ 10

‘होयव्वममह नूणं परभवसंबंधिणा सिणेहेण । न हि सामि-सेवगाणं पीई एवविहा घडइ ॥ २५६ ॥

ता जइ कहिं पि कत्थइ पेच्छामो दिव्वनाणिणं कि पि । ता तं पुच्छिय करिमो विनिच्छयं एत्थ वत्थुम्मि’ ॥

इय चित्तिराण तेसिं संसयसंतमसनिरसणदिणिंदो । सुरगणमहिओ तहियं समागओ सुप्पहजिणिंदो ॥ २५८ ॥

मुत्तोऊलपलंविद्यफलिहफुरंतोरुकिरणजालेण । छत्तत्तएण सुइणा रेहंतो नियजसेणेव ॥ २५९ ॥

पेहंतो तमनियरं समंतओ निययतणुसमुत्थेण । भामंडलेण महया मुत्तिमया केवलेणं व ॥ २६० ॥ 15

पुरओ चलंतचामर-सिंहासण-चक्क-चिंधरुद्धनहो । उग्घुट्टजयपहुत्तो दुंदुहिणा तारसदेण ॥ २६१ ॥

अणुगमंतो मुणिमंडलेण पउमावलीठवियपाओ । सुररइयसमोसरणे उवविट्ठो भव्ववोहत्थं ॥ २६२ ॥

वद्धावयपुरिसाओ सोउं तं दो वि पमुइया धणियं । सीयंतछेत्तवासंतकालिया रोरसणिय व्व ॥ २६३ ॥

गंतुं सव्विड्ढीए नमिऊण य पायपंक्रयं पहुणो । सिरनिमित्तकरंजलिणो उवविट्ठा उचियदेसम्मि ॥ २६४ ॥

अह सव्वसभासाणुगत्राणीए सव्वसत्तहियनिरओ । सव्वन्नू सव्वेसिं जियाण उवइसिउमारद्धो ॥ २६५ ॥ 20

अवि य—

जम्म-जर-मरणनीरे भवणवे भीमदुहसयावत्ते । धम्मतरंडारुहणे जुत्तो जत्तो सयन्नाणं ॥ २६६ ॥

पडइ अथके सव्वत्थ एत्थ सव्वेसि पाणिमीणाणं । विहिधीवरनिम्मवियं सुदारुणं मरणमहजालं ॥ २६७ ॥

विसयामिसल्लुद्धमणा मुद्धा मीण व्व पाणिणो एत्थ । नियकम्मकटिणवडिसग्गपेल्लिया दुहपयं हुंति ॥ २६८ ॥

अट्टवियइहार्हिडणो-उव्वुड्ड-निवुड्डणाइं कुणमाणा । कम्मवसा इह जीवा चिट्ठंति अणिट्टियदुहोहा ॥ २६९ ॥ 25

जायइ जलजंतूणं एत्थ रई विविहदुहनिहाणे वि । चित्तमिणं पुण जं धीवरा वि ईहइं चिय रमंति ॥ २७० ॥

अकयसुकया अणेगे मगंता संपयं पयत्तेण । भग्गमणोरहपोया निहणं संपाविया एत्थ ॥ २७१ ॥

तरणुज्जया वि अन्ने गाहं गहिऊण दुट्टगाहेहिं । असमंजसं रसंता खिप्पंति खणेण पायालं ॥ २७२ ॥

तीरासणं पि गया खुत्ता अच्चिकणे विसयपंके । तीरगमणासमत्था निहणं वच्चंति तत्थेव ॥ २७३ ॥

ता भो ! वुज्झह वुज्झह, मा मुज्झह इंदयालकप्पेहिं । भोगेहिं भुयंगमभंगुरेहिं विरसावसाणेहिं ॥ २७४ ॥ 30

१ 'वाहणराया जे०विना ॥ २ ठिओ अणे' जे०विना ॥ ३ संकेतः—“सीयंतछेत्तवासंतकालिया रोरसणिय व्व  
सि सीदत्तु क्षेत्रेयु वर्षंति मेघे यथा दरिद्रा ग्राम्यलोका” । “सीदति-जलरहितत्वेन शुष्यमाणक्षेत्रे वर्षंती कालिका-मेघपङ्क्तिर्येषा ते सीद-  
श्चेन्नवर्षकालिका, रोरसणिया-रङ्गप्रामीणा” जेटि० ॥ ४ 'यं दारुणमरणं महाजालं खर भ्रा० ॥ ५ 'णमुब्बुड्ड' जे०विना ॥  
६ इहय ख१ ॥



अज्जिणह तमेगगा सुकयं एगंतनिच्छिउच्छाहा । जेण भवसायरं लंघिऊण पावेह सुहठाणं ॥ २७५ ॥

एवं संसारसायरसरूवसवणाओ संवेगमगलगमाणसेहि भणियं राया-ऽमचेहिं 'भयवं ! सच्चमच्चंतरउदो भव-  
समुदो न धम्मजाणवत्तमंतरेण तरिउं तीरइ, किंतु पुत्त-कलत्ताइनेहंतंतुनिव्वत्तियमहंतमोहवंधणवद्दा जच्चंध्रा इव-  
पच्चक्खं पि न लक्खंति एयं सुक्खपाणिणो, संपयं पुण दिट्ठं जहट्टियमम्हेहिं भगवओ भुवणपईवस्स सन्निहाणेणं,  
तद्दा वि इच्छामो ताव नाउमप्पणो परोप्परं सिणेहनिवंधणं भगवओ पसाएणं' ति । ताहे भगवया निवेइओ तेसिं  
पुव्वेभववुत्तंतो । अवि य—

विसए कुसलवभासा सामन्नं पुन्नमज्जियं पुव्वं । सामन्नं चिय भुत्तं पइजम्मं तप्फलं तुव्वे ॥ २७६ ॥

पइभवसंवंधाओ परमं कोडिं इमो गओ नेहो । नवरं सुहाणुवंधो, न कारणं भवपवंचस्स ॥ २७७ ॥

पूयावीयप्पभवो पुन्नतरू फाडमुवगओ इण्हिं । फलिही अवस्स तुव्वं सिद्धिपुरीरज्जलाभेण ॥ २७८ ॥

इय जिणवयणं सोउं सम्मं संभरियपुव्वसच्चरिया । जाया चरणधणज्जणनिच्छियमइणो निवा-ऽमच्चा ॥ २७९ ॥

रज्जं जज्जरपंजरं व विहगा हाउं सहेलं लहुं, निद्धं वंधवंधणं पि धणियं तोडित्तु तंतुं पिव ।

सुद्धंतं ढयरीगणं व गणिउं दीणं रुयंतं घणं, सामन्नं पुरपुन्नपेड्डियमणा सम्मं पवन्ता तओ ॥ २८० ॥

दहित्तु तवतेयसा तयणु सव्वकम्मिधणं, दलित्तु निविडुव्वमडं भवपरंपरावंधणं ।

सिवं निरुयमक्खयं परमनिव्वुइं पाविया, सरोयविवरच्चुया निसिनिरुद्धभिगा इव ॥ २८१ ॥

[ सुयमिहुणकहाणयं समत्तं ३. ]

\*

एवमणाभोगकओ दव्वथओ मइव-ऽज्जवगुणाओ । विसयस्स पहाणत्ता इमाण सुहकारणं जाओ ॥ २८२ ॥

सन्नाणसंपओगा विहिवहुमाणेण कीरमाणो उ । कल्लाणकारणं जं जायइ तुरियं ति किं चोज्जं ? ॥ २८३ ॥

पूयाविहिविरहाओ अपरिन्नाणाओ जिणगयगुणाणं । सुहपरिणामकयत्ता एसोऽणाभोगदव्वथओ ॥ २८४ ॥

गुणटाणगाणुगुन्ना एसो एवं पि गुणकरो चेव । सुह-सुहयरभावविसुद्धिहेउओ वोहिलाभाओ ॥ २८५ ॥

देवगुणपरिणणाणा तवभावाणुगयमुत्तमं विहिणा । आयरसारं जिणपूयणं तु सन्नाणजुत्ताणं ॥ २८६ ॥

एत्तो चरित्तलाओ होइ लहुं सयलकम्मनिद्वलणो । ता एत्य सम्ममेव हि पयट्टियव्वं सुदिट्ठीहिं ॥ २८७ ॥

एयमायन्निऊण संजायगुरुविम्हओ महानिहिलाभेण दरिदो व्व, महारिविजएण सुहडो व्व, चिरविउत्तव-  
ल्लह(हा)दंसणेण विरहिओ व्व, सिद्धमहाविजो विज्जाहरो व्व जिणसासणपडिवत्तीए परमं पमोयसुव्वहंतो मुणि-  
पुंगवमभिवंदिऊण पडिगओ नियावासं सभारिओ देवसीहकुमारो ।

एवं च पइदिणं गुरुचरणारविंदवंधण-देसणायन्नेणेहिं संजायजिणमयकोसल्लो ठिओ तत्येव केइ वासरे । अन्नया  
रायाणमैणुन्नविऊण चलिओ नियनयराभिमुहं । कइं ?

धुयाविओयधूमइइद्वहियएण पउरसहिएण । चित्तपडिवत्तिसारं कयाणुगमणो नरिंदेण ॥ २८८ ॥

दाणप्पणाम-पियवाणि-दिट्ठिदाणेहिं जणियसम्माणं । अब्भडवंचे सुहु सुहु मुंचंतोऽणिच्छमाणे वि ॥ २८९ ॥

अणुणिंतो जणयविओयकायरं पणइणिं पयत्तेण । दंसियगिरि-नामा-ऽऽगर-सरि-सरवर-काणणाभोगं ॥ २९० ॥

कयजोकारो विम्हियकिरायविसरेहिं अंतरवणेसु । कीलंतो गिरिसरिपरिसरेसु रम्मेसु य सरेसु ॥ २९१ ॥

१ सुय १ निहिकुडल २ सोहम्म ३ ललिय ४ इमाण ५ देवसेणे ६ य । वमिद ७ पियकरचक्कि ८ सिज्जणा होइ विन्नेया-  
॥ १ ॥ सुविगा १ पुरंदरजसा २ उम्मायती ४ य चदकंता ६ य । मइसागरो य मती ८ पिय ति पुच्छाइ सवेगो ॥ २ ॥" जेटि० १५-  
२ संकेतः—“ढयरि ति पिशाची” ॥ ३ सङ्केतः—“पुर ति प्रचुरम्” ॥ ४ मणुन्नविय च” ख१ आ० ॥

पूडंतो जिणमुणि-चेइयाइं पुर-नयर-गाम-निगमेसु । दिंतो दीणाईणं दाणं कारुन्नयपहाणं ॥ २९२ ॥  
 पत्तो कमेण महुरं संपाइयसयलपुरनरपमोओ । पिउणा वि कयं रम्मं वद्धावणयं तयागमणे ॥ २९३ ॥  
 पुव्वज्जियपुन्नफलं अणुहवमाणो सुरो व्व सुरलोए । सुहमच्छिउं पवत्तो चेइय-जइवंदणुज्जुत्तो ॥ २९४ ॥  
 कालेण मेहराया रज्जं दाऊण तस्स नीसेसं । निस्सेयसमुहत्तिसिओ निक्खंतो धम्मगुरूमूले ॥ २९५ ॥  
 इयरो वि अकयसमरो पयावमेत्ताऽऽणमंतनिवनिवहो । महिमंडलविक्खाओ राया पुरुसाहणो जाओ ॥ २९६ ॥ 5  
 धम्म-ऽत्थ-कामसाहणपरस्स तस्सऽघ्नया नरिंदस्स । जाया इमा सुत्तिता पहायकाले विउद्धस्स ॥ २९७ ॥  
 'ते घन्ना सप्पुरिसा, नामग्गहणं पि पावणं तेसिं । रज्जं तणं व जुंघं चइत्तु जे संजमे निरया ॥ २९८ ॥  
 मम पुंण क्किंत्तिचि नऽज्ज वि जायइ एउज्जमो अहन्नस्स । नूणं पदवड पावं हंत ! महामोहमाहप्पं ॥ २९९ ॥

जओ—

अज्ज वि पेमपिसाओ वेलवड पुणो पुणो मणं मज्झ । अज्ज वि धणग्गहगहो विडंवणाडंवरं कुणइ ॥ ३०० ॥ 10  
 अज्ज वि रज्जणुपालणमाणो धुंत्तीरउ व्व मोहेइ । अज्ज वि विसयपिवासा खला पिसाइ व्व मं छलइ ॥ ३०१ ॥  
 अज्ज वि विवेयरयणं हरइ वला रायरायराओ मे । अज्ज वि करणनिरिक्कां लुंपत्ति सुभावणसिंरिं पि ॥ ३०२ ॥  
 जगंतो वि जीणागमपाहाउयतूरगहिरघोसेण । मोहमहानिदाए कीडामि विचेयणो हु अहं ॥ ३०३ ॥  
 ता अह मुट्ठ वलिट्ठो दुट्ठो चारित्तमोहपरिपंथी । कायरपवरेण मए न याणिमो कह विजेयव्वो ? ॥ ३०४ ॥  
 अहवा मह पुव्वं चिय आड्ढो मुणिवरेण सुरगुरुणा । एयविजए उवाओ दव्वथयासेवणसरूवो ॥ ३०५ ॥ 15  
 ता एयम्मि पयत्तं करेमि सव्वायरेण एत्ताहे । जेण इओ संपज्जड भावत्थयसंपया तुरियं' ॥ ३०६ ॥

एवं संपहारिऊण पसत्थे तिहि-नक्खत्तमुहुत्ते निरुविया दव्व-भावविसुद्धा वसुंधरा, सम्माणिया विस्सक-  
 म्माणुगारिणो सुत्तहारा, निरुविया केइ जिणहरनिम्मावणे, अन्ने जिणविंविनिष्फायणे, ठिओ अप्पणा तव-वंभवे-  
 राइगुणेसु । तओ तेहिं सुत्तहारेहिं अंगीकयकज्जभारेहिं सुद्धचरिएहिं सवहुमाणमुवचरिएहिं पमोयमुव्वहंतेहिं निसि-  
 दियहमुज्जमंतेहिं तणतुल्लगणियगत्तेहिं चावारंतरापवत्तेहिं कंतिनीरसंदिंरं तुरियमेव निष्फाइयं जिणिंदमंदिंरं । 20  
 अवि य—

मरगयसिलोलिघडियं विचित्तमणिखंडमंडियं संदं । गयणंगणं व पुरओ ओयरियं पंगणे जस्स ॥ ३०७ ॥  
 रयणमयसालभंजियसंदोहो जस्स फलिहभित्तीसु । खयरंगणागणो इव रेहइ गयणा अवयरंतो ॥ ३०८ ॥  
 कणयकलसोलिकलियं सहड सियं जस्स उद्धुरं सिहरं । वीसमिरसंतगहमंडलं व कूडं हिमगिरिस्स ॥ ३०९ ॥  
 निययविमाणासंक्रियउवित्तसुरविसरवारणपरो व्व । पवणुद्धुओ विरायइ जस्स सिरे धयवडो धवलो ॥ ३१० ॥ 25  
 तुंगिम-चंगिमविंभियउम्मुहपेच्छंतनरसमूहेण । निज्जाडज्जइ निच्च जमगणियसकज्जनासेहिं ॥ ३११ ॥  
 सीह-वरालय-गय-गंडयाउलं विंझसेलसिंंगं व । वरमयर-संख-सिप्पीहिं 'रीरियं जलहिनीरं व ॥ ३१२ ॥  
 असमाणमाणसं जणियगरुयहरिसेहिं सड्ढसरिसेहिं । सिप्पीहिं खिप्पमेव हि विणिम्मिय तं जिणाययणं ॥ ३१३ ॥  
 ठवियं च तत्थ सत्थम्मि वासरे वासरेससमतेयं । विहिणा विंवं भुवणेक्कबंधुणो वीयरायस्स ॥ ३१४ ॥  
 सीहासण-छत्तत्तय-चामरपामोक्खपाडिहेरेहिं । सक्खं सव्वन्नुमंयं संपायंतं सुभव्वाणं ॥ ३१५ ॥ 30  
 संपुन्नससंकमुहं विसालकन्नंतपत्तवरनेत्तं । सिरिवच्छलंछणातुच्छवच्छमच्चंतमुवसंतं ॥ ३१६ ॥

१ उण जे-विना ॥ २ घत्तुरिउ व्व ख१ ॥ ३ संकेतः—“निर(रि)क्क ति चौरा” । “निलुका भ्रा० ॥  
 ४ पंगणं जे-विना ॥ ५ सक्केतः—“रीरियं ति राजितम् ॥३॥” ॥ ६ सिहां जे-विना ॥ ७ 'मइं सं' जे-विना ॥

तो काऊण पइट्टं विहिणा रोमंचच्चियसरीरो । अब्भुयंभूयं पूयं पइट्टियहं काउमारद्धो ॥ ३१७ ॥

तहा वाइज्जंतचउव्विहाउज्जाइं दाइज्जंताणवज्जचोज्जाइं नाडिज्जंतकुसलगोज्जाइं गिज्जंतजिणगुणपडिबद्ध-  
गीयाइं बहुजणुप्पाडयवोहिवीयाइं अणुकीरमाणसुरा-ऽसुरजीयाइं पयट्टतरुणितरट्टिनट्टाइं सुंटेरनिहसवट्टाइं संभारिय-  
जिणजम्माभिसेयाइं भैव्वजणजणियसेयाइं सयललोयविम्हावणाइं कारवेइं जिणविंणवणाट्टं, पवत्तेइं अमाघाया-  
5 हिणंदियसयलसत्ताओ महामहन्तजत्ताओ, कारेइं मिच्छत्तवाट्टिपसमणाइं रहनिग्गमणाइं, निव्वत्तेइं पुप्फगंघाडभोगा-  
हियाओ कल्लाणयाइंअट्टाहियाओ । किं बहुणा ?—

सव्वेसु वि जिणवैरमंदिरेसु उस्सप्पणापवत्तेण । सम्पत्तमयं व कयं नियरज्जं तेण धम्मेण ॥ ३१८ ॥

जिणसाहु-चेइयाणं भत्तणुरत्तो पभावणुज्जुत्तो । जाओ जणो असेसो तद्देसे तयणुमाणेण ॥ ३१९ ॥

एवं सावयचरियं चिरं चरंतस्स तस्स नरवट्टणो । पच्छिमवयम्मि संवेगजोगओ फुरियमिय हियए ॥ ३२० ॥

10 'जुत्तमियाणिं मम निम्ममस्स सामन्नमुत्तमं चरिउं । गिहियम्मकप्पतरुणो फलमेयं चेव जं भणियं ॥ ३२१ ॥

किंतु न अज्ज वि रज्जोरुभारधरणम्मि पच्चलो कुमरो । तेण न तरामि चउं एयं दढनेहवंधवसो ॥ ३२२ ॥

अहवा इमस्स रज्जं दाउं परिचत्तरज्जवावारो । चिट्ठामि धम्मनिरओ जा एसो पावड पट्टं ॥ ३२३ ॥

तोलियनियसामत्थो संजमभारं तओ धरिस्सामि । परिणामसुंदरमिणं एवं चिय होड कीरंतं ॥ ३२४ ॥

एवं संपहारिय कणयसुदरिदेवि-मंति-सामंतसम्मएण काऊण रायाभिसेयं नरसीहकुमारस्स जाओ अप्पणा चेइय-

15 जइत्तत्तिमेत्तपवित्ती संखित्ताणुव्वय-गुणव्वओ सामाइय-पोसहोववासाइतवोवहाणुज्जओ य । तओ—

विहिहत्तवविहाणा सोसियासेसकाओ, चरणविरियलाभाभावओ भावसारं ।

अणसणमकलंकं कालमासे करित्ता, विमलजुडसरो सो सुक्ककप्पम्मि जाओ ॥ ३२५ ॥

अह सुचरियसारं देसचारित्तभार, धरिय दढमसन्ता सा वि भूविंदकंता ।

विहिविहुणियदेहा चत्तपुत्ताइनेहा, बहुसुचरियपप्पं पाविया तं खु कप्पं ॥ ३२६ ॥

20 एगम्मि चेव रंमाणिज्जतमे विमाणे, ते दो वि देवपवरा पुररिद्धिभोया ।

जाया अणेगसुरकोडिकओवसेवा, आउं च तेसि दस सत्त य सागराइं ॥ ३२७ ॥

इय पुह्वीचंदचरिए देवसीहरायसमणोवासगचरियं तइयं भवगहणं समत्तं ॥

[ गन्याग्रम्-७५५ ]

## [ चउत्थो देवरह-रयणावलीभवो ]

अह तम्मि अमरवासे वसिऊण सुही अहाउपज्जंते । पढमं नरिंददेवो चंविऊण इमम्मि दीवम्मि ॥ १ ॥

वासे पुव्वविदेहे सइकेवल्लिदलियसयलसंदेहे । वरविजयम्मि सुरुच्छे उत्तमनरतरुवरमुकच्छे ॥ २ ॥

अत्थि वरालयकलिया सुरसेणा इव सया सवसकमत्ता । दढमेरावणरम्मा नयरी आयासुही नाम ॥ ३ ॥

अविरयमुङ्गुंजियग्जियआवज्जिया सिहिसमूहा । नच्चति जत्थ निच्चं पासायतलेसु विउलेसु ॥ ४ ॥

जत्थ य सुत्तिक्खतोखारखरखुरुक्खेवखणणखुत्थिओ वि । उच्छलइ रओ गयमयसित्तासु न जाउ रच्छासु ॥ ५ ॥

जत्थ य पियंकुसमयासणा दियाइणो जिणमयवाइणो य, अलक्खमयणववहारा कुलीणजुवाणा वणिप्पहाणा य, परगुणगहणवाउला तुम्हागा पुम्हागा य, फुरंतफारकंतीओ रमणीओ वरमणीओ य, रहंगसंगचंगाइं जाणाइं उज्जाणाइं च । तद्वा अलुद्धया वि कव्वरसलालसा विउसा, अत्राहा वि संगहियवहुसारमेया भंडसालिया, अणि- 10 सायरा वि पियंययारा दोसिया, अणव्वया वि कयविभत्तिलोया जणव्वय त्ति ।

तीए विलाससयसोद्वियाए नयरीए सहयरीए व । पालणपत्रणपविच्ची होत्था राया विमलकिच्ची ॥ ६ ॥

जो किर गयारिसारंगसंखवित्थरियविमलजसपसरो । लच्छीए सयं वरिओ सक्खा नक्खत्तनेमि व्व ॥ ७ ॥

जस्सावंइंसिज्जियविचित्तमग्गणगणस्स रिउणो वि । व्वंति रणे वि घरंगणे वि लहुहत्थयं सययं ॥ ८ ॥

तस्स य सयलंतेउरउरसल्लीभूयरुवलावण्णा । वन्नाइंयगुणगणा गणणिज्जा पियमई भज्जा ॥ ९ ॥

अकलंककुलुप्पन्ना पन्नासर्धुमियगुरु-वुहपसंसा । संसारसारकप्पा कप्पाद्विइस्स जह रभा ॥ १० ॥

रंभादलसोमाला माला इव मालईए सामोया । मोयावियतरुंगणगणहिययनिरुद्धगुणगव्वा ॥ ११ ॥

गव्वादोसरहिया द्विया य एगंतओ निवस्सेसा । सेसावरोहसारा सा रायनिबंधणं रन्नो ॥ १२ ॥

तीसे कुच्छीरोहणखणीए चउऊण देवसीहसुरो । जाओ गुणचंचिकं नरमाणिकं अणग्गेयं ॥ १३ ॥

१ चउऊण जे०विना ॥ २ सङ्केतः—“अत्थि वरालयेत्यादौ, [सुरसेनापक्षे] वरालया—वाहनविशेषा, [नगरीपक्षे] वरगृहा च । [सुर०] सन्त-शोभना अथा वृथा कमलाश्व-हरिणा यत्र, [नगरी०] सदा च स्ववशा लक्ष्मीर्यस्याम् । [सुर०] दढमैरावणेन रम्मा, [नगरी०] दढमर्यादा वनैश्च रम्मा” ॥ ३ अचिरइमुं ख१ ॥ ४ सङ्केतः—“तोखार ति अथा” ॥ ५ सङ्केतः—“[द्विजातियक्षे] प्रियाणि कुशमयानि—वभीनिमित्तानि (दर्भनिर्मितानि) आसनानि येषाम् । [जिनमतवादिपक्षे] प्रिय कुत्सितसमयानां अमन-क्षेपण येषाम् । [कुलीनयुवपक्षे] अलक्ष्यो मदनव्यवहार—अनङ्गक्रीडा येषाम्, [प्रधानवणिकपक्षे] न विद्यते लाक्षा-मदनयोर्व्यवहारो येषाम् । [तन्तुवायपक्षे] गुणा-तन्तव [श्रेष्ठपुपक्षे] गाम्भीर्यादयश्च । [यानपक्षे] रथस्य अङ्गानि—चक्रादीनि [उद्यानपक्षे] रथाङ्गाश्च—चक्रवाका । अलुब्धका—अव्याधा लोभमुक्ताश्च, क्रव्य—मास, काव्य च—कविकर्म । अव्याधा—अलुब्धका अवाधाश्च सारमेया—श्वान, साराणि च मेयानि—धान्यादीनि । अनिशाचरा—अराक्षसा, अनिश अकरा—राजदेयभागश्चान्या अदरा वा—भयवर्जिता, अन्धकारप्रियत्व च दौषि(ज्यि)काणा वर्माम्(?) वस्त्राणा छायासकमात् । अनि(न)व्यथा—अनिपाता, न विद्यते कार्पण्येन व्यथो येषा तेऽव्यथा न तथा अनव्यथा, यद्वा श्च(श्रु)णे व्रत-तन्निवृत्तिरूप झ(श्रु)णस्य वा त्याग-परिहारो येषा ते तथा, ऐश्वर्यादृष्ट्या इत्यर्थं, कृतो विभक्तिलोपो ये, कृता विशिष्टा भक्तिलोकाना ये, यद्वा कृतो विभक्ते—असत्यातृ(ज्ञातृ)णा पक्तिवाक्यतादिना था(वा) पृथग्भावस्य लोपो ये” ॥ ६ सङ्केतः—“[विष्णुपक्षे] गदा—कौमोदकी अरि—चक्र शार्ङ्ग—धनु शङ्ख—पद्मजन्यस्तं [राजपक्षे] गतानि—प्राप्तानि अरीणा साराण्यज्ञानि—हस्त्यश्च रथ-पदातिरूपाणि यस्मिन्, सख्ये—सङ्ग्रामे, तत्र च विस्तृतो विमलो यशःप्रसंगो यस्य । नक्खत्तनेमी विष्णु” ॥ ७ सङ्केतः—“अवन्ध्या—सफलीकृता विसर्जिता विचित्रा—अद्धेवन्त्रादिभेदे, विचित्रा—स्वदारिद्र्यवेद्येन शून्यहृदया, मार्गणाना—वाणाना याचकाना च गणा येन” ॥ ८ “प्रच्छादित” ख१टि० ख२टि० ॥ ९ सङ्केतः—“चच्चिकं ति मण्डितम्” ॥

तओ—

- ददृष्ट्वा रहं दिव्वं घरागयं 'सागयं' ति जंपंती । सुविणे सुहं विउद्धा मुद्धा परैमुद्धवालिद्धा ॥ १४ ॥  
 रायाइद्विसिद्धंगयजम्मा सम्मपालणाउत्ता । पुत्तं पवित्तमुत्तिं समए सुया सुहसुहुत्ते ॥ १५ ॥  
 विहियं च सविच्छड्डं वद्धावणयं मणोहरं पिउणा । जणमाणदाणसारं विसट्टवारंगणानट्टं ॥ १६ ॥  
 5 नयरच्छेरयभूए सोहैलए पुन्नपणइदोहलए । समइकंते कंते दुवालसाहे सुहसणाहे ॥ १७ ॥  
 जं दिव्वरहो रम्मो दिट्ठो सुमिणे इमस्स जणणीए । ता देवरहो नामं वालस्स पट्टियं पिउणा ॥ १८ ॥  
 संगहियासेसकलो अकलंको सूरतेयनिम्महणो । वियसियकमलो कमसो अउव्वचंदो व्व अह जाओ ॥ १९ ॥  
 वणवारणो व्व वियरइ सच्छंदो एस दाणगुणगरुओ । अणुगम्मंतो पेसलगिरेहिं पुंरुमित्तभमरेहिं ॥ २० ॥  
 सुयणो सरलालावो पुव्वाभासी थिरो विणयनिउणो । नायरसिओ दयालू अवज्जभीरू महासत्तो ॥ २१ ॥  
 10 पुव्वज्जियपुन्नवसा जणयजणाणंदसुंदरसहावो । एसो महाणुभावो विसयसुहपरम्मूहो नवरं ॥ २२ ॥  
 वीवाहकहाविरओ धम्मियजणचरियकित्तणे निरओ । तारुहए वि धन्नो संजाओ पसमसंपन्नो ॥ २३ ॥  
 अह अत्थि तत्थ विजए पुहइपुरंधीमुहं व सुपइट्ट । नयरं सुरइररयणं अविणासं सवणकयसोहं ॥ २४ ॥  
 तस्साहिवई सुवओवसोहिओ थिरसमुन्नयक्खंधो । सुहफलपत्तंसमिद्धो रवितेओ सिंदिरुक्खो व्व ॥ २५ ॥  
 तस्सइत्थि पिया सुप्पियसीलायारा मणोहरायारा । निज्जियसिरि-रइरूवा वसतदेवि त्ति नामेण ॥ २६ ॥  
 15 चइऊण सुरविमाणा कयउन्नो कणयसुदरीदेवो । उव्वन्नो से उयरे कम्मवसा इत्थिभावेण ॥ २७ ॥  
 रयणावलिंसुमिणाओ जाया रयणावली य नामेण । तारुहयं च पत्ता जाणियचउसट्टिविघ्नाणा ॥ २८ ॥  
 विणय-इज्जवाइगुणरयणभूसिया पुरिसदेसिणी नवरं । इय जणयइ जणयाणं सोमसहावा वि संतावं ॥ २९ ॥  
 वित्तानलतवियतणू तओ पिया मंतिविंदवयणाओ । पारद्धो पत्थावे सयंवरामंडवं काउं ॥ ३० ॥  
 आहूया य समंता नरिंदविंदारया निरवसेसा । कुमरचरियं निसामिय विसेसओ विमलकित्तिस्स ॥ ३१ ॥  
 20 पट्टविओ सविसेसं सिकखाविय मंतिनंदणो विवुहो । पत्तो पणामपुव्वं कयंजली भणिउमाहत्तो ॥ ३२ ॥  
 'विघ्नवइ देव ! रवितेयमहिवई अत्थि तुम्ह फिर पुत्तो । देवरहो देवरहो व्व उत्तमो सव्वगुणरासी ॥ ३३ ॥  
 तम्मि चवलं पि विमलं अन्नाऽणुखुव्वगरुयगुणघडियं । कन्नापडायमेयं जोइउमिच्छामि हत्थमहं ॥ ३४ ॥  
 एयाए इमो उचिओ, एसा एयस्स चैव उचिय त्ति । अणुखुव्वत्थुजौगो कस्स मणं नाभिरामेइ ॥ ३५ ॥  
 नवरमइदुक्कुहाणं इमाण हिययं न याणिमो सम्मं । इय पारद्धो एसो सयंवरामंडवोऽम्हेहिं ॥ ३६ ॥  
 25 ता सव्वहा कुमारो पेसेयव्वो अणिच्छमाणो वि । एयं चिय कीरंते मम तुम्ह य निव्वुई होही' ॥ ३७ ॥

एवमायन्निऊण परिभाविपरमत्येण विवुहस्स कारिओचियपडिवत्तिणा पडिवन्नमिणं विमलकित्तिणा । तओ अवसरे भणिओ कुमारो 'वच्छ ! सव्वेसिं नरिंदतणयाणं पुन्ना-ऽपुन्ननिन्नयनिमित्तमिवारद्धो रवितेएण सयंवरामंड-

- १ विवुद्धा जे०विना ॥ २ सङ्केतः—“ परमुद्धवालिद्ध त्ति परमोत्सवव्याप्ता ” ॥ ३ छोहलए जे०विना ॥ ४ पुरमित्तं जे० ॥  
 ५ सङ्केतः—“ पुरन्धीमुख सुच्छ पत्तु-भर्तु इष्ट-वल्लभम्, नगर तु शोभनप्रतिष्ठान्वितम् । [ पुरन्धीमुखपक्षे ] रुचिरा रदना, [ नगरपक्षे ] रत्नानि च यत्र । [ पुरन्धी० ] अविष्कृतनासिकम्, [ नगर० ] विनाशान्न्य च । [ पु० ] श्रवणाभ्या-कर्णाभ्याम्, [ न० ] श्रवणैश्च-व्रतिभिः, सवनैर्वा-यज्ञै वनयुक्तैर्वा प्रदेशैः कृतशोभम् ” ॥ ६ सङ्केतः—“ [ खर्जूरीवृक्षपक्षे ] सुवयोमि-पक्षिभिः, [ चपपक्षे ] शोभनवयसा-तारुण्येन उपशोभित । [ खर्जूरी० ] स्कन्धः, [ चप० ] प्रकाण्डाश्व । [ ख० ] शुभै फलै पत्रैश्च, [ वृ० ] सुखफलानि यानि पत्राणि-वाहनानि तैश्च समृद्धः । सिंदि त्ति खर्जूरी ” ॥ ७ समद्धो जे०विना ॥ ८ उदरे ख० आ० ॥ ९ सुविणाओ जे०विना ॥  
 १० एयमां जे०विना ॥

वाडंबरो, जइ तं कन्नयमन्नो विवाहेइ ता महंती ममोहावणा, ता करेहि ताव पुरिसायत्तं, गच्छाहि तत्थ, परं देवो' पमाणं' ति । एयं जणयकयं गंभीरत्थपत्थणमायन्निऊण दक्खिन्नसारयाए जणयवहुमाणओ अकामेण वि 'जं ताओ आणवेइ' त्ति वित्तेण अब्भुवगयमिणं कुमारेण । तओ पसत्थवासरे पयट्टो रंगंतोस्तुंगतुरंगथट्टेण, मयव-सऽडुवियइहाडिणुडुमरघोरभूरिदोघट्टेण, गुरुचकचिकाररवुकंपियपमुकपहपहियपलोइज्जमाणरहोहेण, विविहपहरणव-गवग्गण-रंगणुल्लंघणाइविलासलसंतजोहसंदोहेण, कयाणेकवुक-संवुक-हुडुक-डक-ढकारवाडंबरेण, समुच्छलंतातुच्छरय- 5 भरावरुद्धवियडंबरेण, निरंतरायवत्तपतिपवित्तमहंतविंधसंदोहसंछन्नेण, महया सेन्नेण । लघियाणेगगामा-ऽऽगरेण य वच्चंतेण दिट्टो णेण एगत्थ वणंतरे छिन्नपंखो इव विहंगमो उप्पयणूसुयमणो तदसमत्थो य त्रिंदारयाणुगारिख्वो विदाणदीणाणणो विज्जाहरजुवाणो । तओ समुप्पन्नो तं पइ दयापहाणो सिणेहवहुमाणो । अवि य—

कज्जसहे डयरम्मि य उवयारपरा निसग्गओ सुयणा । वरिसंति वल्लरे कल्लरे वि मेहा सहावेण ॥ ३८ ॥

सुयणसहावाओ सवहुमाणमाभासिओ कुमारेण पुच्छिओ य 'महाभाग ! कुओ तुमं ? किं निमित्तमिह 10 चिट्ठसि ?' त्ति । तेण भणियं 'सुयणवर ! तुब्भे मग्गसंठिया तहा वि संखेवओ सुणह—

अत्थि इहेव विजए वेयड्डगिरिमंडणं कुंडल नाम नयरं । तत्थ य गुणंगणसंमिद्धो वि अणुद्धओ सिरिद्धओ नाम राया । तस्स पुत्तो चदगईनामो अहं कुलकमागयाणेगविज्जाहिं जहिच्छमभिरममाणो विहरामि । अन्नया मए उवरिममेहलाए वियरमाणेणाऽऽयन्निओ वणगहणगयरमणीण करुणदाहारवो । ससंभमं धाविणं य दिट्ठा सहीयण-दिज्जमाणचेलंचलानिला सुरवइसावनिवडिय व्व सुरंगणा मउलियनयणकमला धरणीयलपसुत्ता खयरकंभा । भणियं 15 च मं उट्ठिसिय संभंताहिं तार्हिं 'एहि एहि लहुं सुपुरिस ! जियावेहि एयं विसहरविसविवसीकयं गधव्वनरिंदनंदणिं कुमारिणं' ति । तओ कारुन्नावन्नचित्तेण मए तुरियं नीरमाणाविय मुद्दारयणोदएण दिन्नं से नौमणं, सित्तं च सैमत्तं गत्तं, आइद्धा य वामकरंगुलीए मुद्दा । तओ अचित्तयाए मणिमाहप्पस्स निदाविगमम्मि व तीए उम्मि-ल्लियाइं लोयणाइं । दट्टूण य मं सलज्जं संठवियकंडिल्लोवरिल्लाए पलोइयाइं अंसुजलोळगल्लाइं पहसिराइं च सही-यणवयणाइं, सविम्हयं च भणियं 'पियसहीओ ! किं पुणेवं विरुद्धागाराओ दीसह ? ममावि साहेह परमत्थं' । 20 सहीहिं वुत्तं 'सामिणि ! जं तुममासीविसविसवियारेण अजंपिरी जाया सि तेण परुन्नाओ, जं च इमिणा अणुवकय-परोवयारपरेण खणेण पउणीकया अओ सहसा पहसियाओ, एयनिमित्तो आगारविरोहो' त्ति । तओ तीए मम वयणमालोइऊण सविलक्खं वामकरनिहित्तनेत्ताए पुणो भणियं 'हला ! केण पुण ममेयं मुद्दारयणं आइद्धं ?' । तार्हिं भणियं 'सयमेएण महाणुभावेण, एयप्पओगेण चेव तुमं पच्चुज्जीविया सि' । एयमायन्निऊण किंचि कयन्नुयाए किंचि पच्चुवयारचित्ताए किंचि मयणरसेण किंचि लज्जाए अणाडक्खणीयमवत्थमणुहवंतीए तीए पुव्वनिउत्तपडिहारीवाहर- 25 णाओ तूरंतो समागओ गधव्वराया । तेण य अवगयवट्टरेण साहुवायसारेण उचिओवयारेण सम्माणिओ अहं, 'सिरिद्धयसुओ'त्ति नियाणुचराओ वियाणिय भणिओ य 'कमार ! गुरुगोरवारिहो तुमं, न तुहावरदाणेण पडिकरिउं तीरइ, ता मुद्दारयणाइंधणनिहेण कयपुव्वं पि करेहि एयाए मम जीवियसारभूयाए धूयाए पाणिग्गहणं' ति । मए

१ देवो जे०, दिव्वो आ० ॥ २ एव'जं ख१ आ० ॥ ३ अकामेणावि ख१ आ० ॥ ४ सङ्केतः—“ दोघट्ट ति हस्तिन ” ॥ ५ छिन्नपक्खो जे०विना ॥ ६ सङ्केतः—“ वल्लरे ति ऊपरे ” ॥ ७ संकेतः—“ गुणा—तन्तवो गाम्भीर्यादयश्च ” ॥ ८ 'समिद्धओ वि जे०विना ॥ ९ सङ्केतः—“ अणु—स्वल्प ध्वज, अनुद्धतश्च ” ॥ १० 'कन्नया जे०विना ॥ ११ सङ्केतः—“ नामणं ति नश्यम् ” ॥ १२ समत्तगत्तं जे०विना ॥ १३ सङ्केतः—“ कडिल्लं परिधानम्, उवरिल्लं आच्छादनवत्त्रम् ” ॥ १४ सङ्केतः—“ आइंधणनिहेणं ति परिधानच्छन्नान् ” ॥

वि 'जं तुम्हे आणवेह'त्ति भणिए कओ महाविच्छङ्गेण वीवाहो । तओ मम तीए सद्धिं सिणेहसारं सुहमणुहवंतस्स कालो बोलेइ । अज्ज पुण दाहिणसमुद्दवेलावणेसु कील्लिऊण नियत्तमाणस्स मिलिओ मे एत्थ पएसे तीसे पिउच्छामुअं सुमेहनामो विज्जाहरो । दंसणमेत्तुच्छलियातुच्छरोसानलो य 'रे रे पाविट्ट ! दुट्ट ! धेट्ट ! मम मिह्णेणिगमादाय मम दंसणपहे चिट्ठसि ! दंसेमि ते अहुणा दुप्पयफलं' ति जंपंतो उवट्ठिओ मए समं जुज्जेणं । अहं पि सामरिसो पडिप 5 हरिउमारद्धो, नवरमइवाउलयाए देव्वनिओगओ पम्हुट्टं ममेगं विज्जापयं ति धस ति निवडिओ म्हि धरणीयले सो उण पंगुस्स व मम पिययमं गहाय वलिपुट्टो इव पणट्टो । एसो अलंघणीयवयणत्तणओ भवओ निवेइओ म निययवुत्तंतो चि" ।

तओ कुमारेण तद्दुक्खदुक्खिएण तदुवयारकरणासंभावणावाउलिएण य चित्तियं—

10 'तुंगाण मणोदुक्खं हरिउं पारंति तुंगतुंगयरा । गिम्हुम्हवेयणं गिरिवरस्स जलय च्चिय समिति ॥ ३९ ॥ विहलियसुयणुद्धरणे सामत्थं जस्स नत्थि येवं पि । पसवदुहं जणणीए तेण कयं मोरकुल्लाए ॥ ४० ॥ तहा वि ताव तोलेमि सामत्थं' । ति चित्तिय भणिओ खयरो 'के वयं तुम्हारिसजणस्स उवयारकरणे ? तह वि जइ अत्थि कप्पो ता तं विज्जं पढाहि मम पुरओ, मा कयाड तं पयमूहेमि' । तओ 'समाणा सिद्धि' ति भणिऊण पढंतस्स तस्स पयाणुसारिणा दुत्ति लद्धं पयं कुमारेण । तओ लद्धमहानिहिणा दरिहेण वियामंदाणं विंदुसंदिलोयणेण जंपियं खयरेण 'सुट्टु जीवाविओ म्हि पुरिसरयणसारेण कुमारेण, सव्वहा सफलओ उत्तमजण 15 मीलओ, अवियण्हो य तुम्ह दंसणस्स, किंतु कालक्खेवाऽखमं मे विक्खणयं, ता ममाणुग्गहेण गिण्हउ कुमार पडियसिद्धं वेउव्वियविज्जं जेण तम्मिसेणावि कुमारेण संभरिज्जंतो कयत्थो भवामि' । चि सोऊण कुमारो भावगरुयतदुल्लावावज्जिओ अहिज्जिओ तं विज्जं । तओ सपरितोसो कयसंभासो सुमेहाणुमग्गेण पहाविओ चदगई

देवरहकुमारो वि तयावयावहारहरिसिओ संपत्तो पुव्वागयाणेगनरवइविसरं सुण्हदुपुरवरं । असमसम्माण महग्घमावासिओ य सुरागारसुंदरे विसालमंदिरे । एत्थंतरे रायनिउत्तसुत्तहारेहिं निम्माविओ ठाणे ठाणे पारदु 20 हामतंडवो सयंवरामंडवो । अवि य—

मणि-कणयखंभउव्विभयसुमंचपासायपंतिपरिखित्तो । लवंतेरिणंपंरुयमालामणिमोत्तिओऊलो ॥ ४१ ॥ मणितारियपरिगयचंदलेहजुत्तेण नीलनेत्तेण । पडिमंडवेण कयनियडपत्तनहमंडंवासंको ॥ ४२ ॥ पयडपडिपट्टचीणंसुयाइसंघडियरूवयवियाणो । विम्भियउम्मुहमाणवसमूहदीसंतवहुचित्तो ॥ ४३ ॥ नचंतजंतधीउल्लियार्हिं जुज्जंतजंतपक्खीहिं । जणियच्छेरो पेच्छयजणाण सो मंडवो रुंदो ॥ ४४ ॥ 25 अह पत्तम्मि पओसे निवेण घोसावियं समंतेण । आगंतव्वं गोसम्मि मंडवे रायकुमरेहिं ॥ ४५ ॥ पायडियरिद्धिविहवा संचल्ला पत्थिवा पए तत्थ । देवरहकुमारो उण परिभाविउमेवमाहत्तो ॥ ४६ ॥ 'पुन्ना-ऽपुन्नपरिन्नाहेऊ अज्जऽम्ह रायवरकन्ना । ता किमिह भूसणाडंवरणे इमिणा निरत्थेण ? ॥ ४७ ॥ रायसुयाए नियमा वरियव्वो रायनंदणो एगो । कयवेसा वि न सेसा के हरिस-पराभवा तत्थ ? ॥ ४८ ॥ जइ पागयम्मि वाला मालं पक्खिवइ ता स पुन्नडवो । संभाविज्जइ नियमा सेसाणं परिभवो तत्थ ॥ ४९ ॥ 30 साहारणो परिभवो, पुन्नपरिन्ना धुवा उ एगस्स । नियपुंन्ननिच्छयत्थं करेमि ता विडुयं किं पि' ॥ ५० ॥

१ सङ्केतः—“मिहुणी(णि)गं ति मातृष्वस्त्रीया भगिनीम्” ॥ २ सङ्केतः—“मोरकुल्लाए ति सुधा” । मोरउल्लाए जे०  
३ सङ्केतः—“विक्खणयं ति कार्यम्” ॥ ४ सङ्केतः—“ईरिण ति सुवर्णम्” ॥ ५ मंडलासंको जे०विना ॥ ६ सङ्केत  
“धीउल्लियार्हिं ति पुत्रिकाभि” ॥ ७ “प्रगे” जेटि० ॥ ८ पुन्ननिन्नयत्थ ख१ आ० ॥

इय चित्तिय नियमित्ते कयनियरूवे ठवित्तु नियनामं । किंचि कुरूवो होउं पुरओ वीणाकरो चलिओ ॥ ५१ ॥  
 अह मंडवे कुमारा पविसंता हरिसनिभरा केई । जंतपडिहाररुद्धा रुसियनियत्ता हसिज्जंति ॥ ५२ ॥  
 अन्ने तोरणसंठियजंतपवंगेहिं हरियसिरवत्था । कोऊहलाउला नो मुणंति हसियं पि अप्पाणं ॥ ५३ ॥  
 अन्ने थंभोट्टंभियमरूवं सालभंजियं दट्टुं । ' एसा सा मो ! रयणावलि ' त्ति दावित्ति अन्नोन्नं ॥ ५४ ॥  
 जंतपओगा इतिं समालधीउल्लियं पलोयंता । ' रयणावलि ' त्ति अन्ने धरति खंधं नमियसीसा ॥ ५५ ॥ 5  
 अहवियइडुडुणीणे पेच्छंता जंतपत्तिणो केई । निवडंति उड्डनयणा फालियसोवाणपंतीसु ॥ ५६ ॥  
 इय जणियचित्तचोज्जा निउत्तपडिहारभणियमंवेसु । उवविट्ठा सुपहट्ठा नरिंदतणया जहाजोगं ॥ ५७ ॥  
 कुमरो वि अणक्खित्तो नियपयनिक्खित्तमित्तमंचग्गे । वीणाविणोयमणहं अविम्हओ काउमारद्धो ॥ ५८ ॥  
 अह पवररहारूढा कागल्लिमीउज्जयाल्लिगणकलिया । रंभ व्वञ्चरैसद्विया समागया तत्थ सा कम्मा ॥ ५९ ॥  
 पडियाओ सयराहं तीसे मुहंपकए विसट्टम्मि । रायकुमारविलोयणविलोलफुल्लंधुओलीओ ॥ ६० ॥ 10

तथो—

दिन्नं जं न सई-रईण विहिणा गोरीए लच्छीए वा, पच्छन्नं धरियं चिरं तमहुणा लायन्नपुन्नामयं ।  
 मन्ने दिन्नमणन्नतुल्लविणया जायप्पसाएणऽहो !, एईए कहमन्नहा असरिसं अंगस्स चंगत्तणं ? ॥ ६१ ॥  
 अहह ! मुहंसरोए नेत्तपत्ताण दित्ती, अहह ! अहरमुद्दा विद्दुमुद्दामकंती ।  
 अहह ! सिद्धिणभारोणामिओ मज्झमाओ, अहह ! पिहुनियंवे मेहलाए विराओ ॥ ६२ ॥ 15  
 इय मयणरसुल्लासियभासियसाराण निवकुमाराण । तिक्खकडक्खंखगगेहिं हिययलक्खेसु पहरंती ॥ ६३ ॥  
 गुण-नाम-गोत्तकित्तणपुरस्सरं धाइदंसियनिवाण । हरिस-विसाए दिती दिट्ठी-पट्ठीण दाणेण ॥ ६४ ॥  
 उभयकरधरियसंठंतेभमरसंवलियसरलवरमाला । मंडवतलम्मि तत्तो चंकमिया सा कुरगच्छी ॥ ६५ ॥  
 वीसमइ न से कम्मि वि पणिट्टदिट्ठे वि पत्थिवे दिट्ठी । गिम्हायवतविया परहुय व्व दवज्जाभिए विविणे ॥ ६६ ॥  
 जाया संदिद्धमणा वरलाभे जाव सा कुरंगच्छी । पेच्छइ य ताव सहसा वीणागारागिइं कुमरं ॥ ६७ ॥ 20  
 तो पुव्वभववभासा भुरुट्टकंटो व्व कंवले एसो । तीए मणे चहुट्टो अदिट्टदिट्ठिप्पसाओ वि ॥ ६८ ॥  
 अह उल्लसंतपुव्विच्छपेमरसपेल्लिण तेषावि । लीलुन्नामियसीसं तं पड संपेसिया दिट्ठी ॥ ६९ ॥  
 तदिट्ठिवारिथाराउग्गयरोमंकराभिरामंगी । पाउसमहि व्व सहसा विराइया सा तओ अहियं ॥ ७० ॥  
 खित्ता य खणेण वियक्खणाए संभमखलंतहत्थाए । वड्डुकंठं कंठे वरमाला तस्स सुहयस्स ॥ ७१ ॥

एत्थंतरे समुच्छलिओ तालारवसंवलियो ' सुवरियं सुवरियं ' ति वहलमलहरो, पवज्जियाइं पयासियतोसाइं 25  
 गंभीरयोसाइं भुयंणोदरापूराइं तूराइं । रवितेयराया वि कुमारं वरमालालंक्रियमवल्लोइय ' पागयपुरिसो ' त्ति मणयं  
 सविसाओ चित्तिउमारद्धो ' अहो ! सच्चो लोयप्पवाओ—

-रुवं कुलं कलाओ परक्कमो संपया वि न पमाणं । सो अन्नो को वि गुणो जत्तो पेम्मं पवित्थरइ ॥ ७२ ॥

तहा—

उत्तमकुले वि जाया महिला पायं अणुत्तमे रमइ । कुलसेलया वि सरिया नीयं नीययरमणुसरइ ॥ ७३ ॥ 30

१ फालिहसोवां भ्रा० ॥ २ रकलिया जे०विना ॥ ३ सड्ढेतः—“फुल्लधुय त्ति भ्रमरा ” ॥ ४ “वाण” जेटि० ॥  
 ५ सड्ढेतः—“संठ रुट्टं” त्ति गुज्जत्त ” ॥ ६ संकेतः—“मलहरो त्ति कोलाहल ” ॥ ७ भुवणोवरावूराइं ख१,  
 भुवणोयरावूराइं ख२ भ्रा० ॥



अहवा—

- उत्तमचरिया एसा पागयमणुए मणं कहं काही ? । न कयाइ रायलच्छी ओइच्छइ तुच्छपुन्नघणं ॥ ७४ ॥  
 ता होयव्वं नियमा इमिणा कल्लाणभौइणा वाढं । जं एत्थ रमइ कन्ना रयणावल्लिसुविणसंपन्ना ॥ ७५ ॥  
 सव्वहा कम्मपहाणवुद्धिणो पाणिणो, ता जो एयाए अभिरुइओ सो चेव अम्ह गोरवपयं, एयं चेव फलं  
 5 सयंवरपसायस्स' । त्ति कयनिच्छएण सम्माणिओ दहमणेण कुमारो । ताव य 'गंधव्विओ वरिओ' त्ति सोऊण  
 सामरिसं सौमत्थिऊण सन्नद्धा समुन्नद्धसुहृदपरिवारा सेसनरिंदा उवट्टिया संगामेण, भणिउं च पँवत्ता कुमारमित्तं  
 रवितेयं च 'जइ कह वि अन्नाणपाहणाओ न परिन्नायं कन्नयाए सुपत्तं ता किं तुम्हाणं पि तं चेव पमाणीकाउं जुत्तं ?  
 किं नाणुकंपियव्वा कूव-कंटया-ऽनलाइसु निवडमाणा अंधा ?, न निवारियव्वा वम्मीकूडविवराइसु करक्खेवपरा  
 वालया ? न दायव्वो जलप्पवाहविच्छोलियाण चिकणचिक्खल्लपल्लुसणायल्लाण वा करालंओ ? सव्वहा नऽज्ज वि  
 10 किं पि विणट्ठं, संवोहिऊण कुमारी कारिज्जउ रायंगयपरिग्गहं । किंच—

- जइ दिच्छिया कुमारी पागयपुरिसस्स ता किमेएसिं । रायसुयाणं जणिओ परिस्समो माणभंगो य ? ॥७६॥  
 निक्कित्तिऊण नासा घट्टा वरमेसि इट्ठखंडेण । न उणो एवं काऊण मीलयं परिभवो एसो ॥ ७७ ॥  
 ता परिभावह तत्तं, करेह ज कालपत्तमेत्ताहे । अन्नह उइन्नकोवा न पत्थिवा जंति वीसामं' ॥ ७८ ॥  
 इय तव्वयणं सोउं भणियं रवितेयमेइणीसेण । 'अत्थाणे वो कोवो अविणिच्छियव्वत्थुत्ताणं ॥ ७९ ॥  
 15 ठाविज्जइ जइ रज्जे पंचहिं दिव्वेहिं पागयमणुस्सो । कन्नाए वि वरिज्जइ सयंवरे पिइपसायाओ ॥ ८० ॥  
 को तत्थ माणभंगो सयन्नविन्नाणयाण सेसाणं । एव ठिए जं कुप्पह विग्गुप्पह तं फुडं तुम्हे ॥ ८१ ॥  
 अह उप्पन्नो घोरो कोवजरो तुम्ह इय अजिन्नेण । ता लंघणं निवायं उचियं मन्नामि सव्वेसिं' ॥ ८२ ॥

- कुमारमित्तेणावि संलत्तं "भो ! मा मुढाऽवमाणकलंकमंके आरोवेह जओ एस मुत्तामणि व्व विर्मलवित्तो,  
 हारो इव गुरुगुणाहारो, कुंलीररासि व्व अँस्सेसाणुगओ, सीहरासि व्व मैहासारो, कन्नारासि व्व सँहत्थो, तुलरासि  
 20 व्व सौइप्पवरो, विच्छुररासि व्व पँगिट्टजिट्ठो, धणुरासि व्व पँरमूलकासी, गयणंगणाभोगो व्व मैहासूरकित्तिया-  
 सओ, पलयभाणु व्व दुस्सहपयावो, केसँरिकिसोरो व्व उस्सिखलचारिर्मयदलणपच्चलो य, अओ चेव दहं वल्लहो  
 अम्ह सामिसालस्स, ता एयवरणे महंतो अम्ह परितोसो, अओ तुम्हाणं पि न जुत्तो एत्थ अक्खमादुक्खवऽक्खेणओ,  
 पुन्नसज्जो हु पुहइ-पुरंधीण लाभो, अओ चेव पुन्नज्जणप्पहाणा पहाणपुरिसा भवंति । किं बहुणा ?

- एएण सह विरोहो मन्ने अचंतदुस्सहो होही । निक्कित्तयट्ठनासासु तुम्ह खारो व्व अइउग्गो" ॥ ८३ ॥  
 25 पयडियदप्पमणपं सोउमिणं कन्नकडुयमुल्लावं । नियवल्लसुसमुन्नद्धा सन्नद्धा ते खणद्धेण ॥ ८४ ॥

१ 'शुद्धाति' जेटि० ॥ २ 'भायणं षाढ जे० ॥ ३ सङ्केतः—'सामत्थिऊण त्ति पर्यालोच्य' ॥ ४ पयत्ता ख२ ॥  
 ५ जंति उवसामं जे०विना ॥ ६ तुव्वे जे०विना ॥ ७ सङ्केतः—'लघन निवात च प्रतीतम्, अन्यत्र तु सर्वेषामुल्लङ्घन निपात च-  
 विनाशम्" ॥ ८ संकेतः—'विमलश्चासौ वृत्तश्च, विमल च वृत्तम्-आचारो यस्य" ॥ ९ "कर्कराशिः" जेटि० ॥ १० सङ्केतः—  
 "अच्छेपया, अश्वेशैश्च-महासाधनिकै, यदि वा अश्वै इशैश्च-नायकै, अनुगत" ॥ ११ संकेतः—'मघया सार, महाश्च सार-वलमस्य" ॥  
 १२ संकेतः—'सह हस्तेन, अर्थेन, वर्तते य, 'सहस्य सो विकल्पेन' [ ]" ॥ १३ संकेतः—'स्वाया, सादिभिश्च-अश्ववारै,  
 प्रवर" ॥ १४ संकेतः—'प्रकृष्टा ज्येष्ठा यत्र, प्रकृष्टाना ज्येष्ठश्च" ॥ १५ संकेतः—'परमूलेन काशते-शोभते, परेषा-शत्रूणा मूलानि  
 कपति इत्येवशीलश्च" ॥ १६ संकेतः—'मघाया सूरस्य कृत्तिकाना च आ[श्र]य, महत्याश्च सूरकीर्तौराश्रय" ॥ १७ केसरिकिसोरओ  
 व्व जे०विना ॥ १८ संकेतः—'मृगो मदश्च" ॥ १९ संकेतः—'अक्खणओ त्ति आयत्ता" ॥

रवितेयाइणो वि गुरुमडप्परफुरंतफारकोवानला वेयाला इव समुट्टिया तयभिमुहं । एत्थंतरे देवरहकुमारो  
‘निहालेह ताव खणंतरं जावाहं रणकीलोकोऊहलमप्पणो पूरेमि’ ति भणंतो तुरियतुरयरहवरगतो कोदंडवा-  
णहत्थो समारद्धो तेहिं सद्धिं जुज्झिउं । कहं ?—

समकालं पि विमुक्कं सरविसर वारिऊण सयराहं । पाडइ धय-छत्ताडं खंडइ गंडीवदंटे वि ॥ ८५ ॥

तोडइ तणुताणाइं सिरताणाइं च अद्धयंदेहिं । दरमुंडियसिरकुच्चे मुच्चइ केई गण भूमिं ॥ ८६ ॥

5

तस्साइसिग्घवेह्तिमुक्कसरधोरणी अहिवडंती । दीसइ रिवूहिं गयणे दुव्वारा वारिवुट्टि व्व ॥ ८७ ॥

सो नत्थि करी तुरयो नरो व्व जुज्झंतसत्तुसेन्नम्मि । जो लंछिओ न सच्छंदमुक्कवाणेहिं कुमरस्स ॥ ८८ ॥

एवं चाभग्गमाणे कुमारपंचाणणे, मुक्कल्लकूपोक्कं पलायमाणेसु सुहडेसु, भज्जमाणेसु पहारविहुरतुरंगमुप्प-  
हायडिहएसु पडंतेसु संदणेसु, परम्महपयट्टेसु दुरयतुरयथट्टेसु, वारं वारं विरलीकया वि ‘कहमेगेण विणिज्जिया  
मो?’ ति लज्जामरिसुप्पेह्णडिया पुणो पुणो पारयकणा इव एगीहोऊण जाहे ते समरत्तरंभं न मुंचंति ताहे 10  
कुमारेण विउव्वियनागपासेहिं समकालं संजमिया पसुत्ता सव्वे वि पुहइसेज्जाए । तं तारिसमवैयाणमालोइय  
विम्हयरसाइसएण ‘भो! को एसो?’ ति जंपंतेण रवितेयाइणा निज्जाइयं कुमारमित्तवयणं । तेणावि भणियं  
‘देव! एस पैकलपडिउव्वकालो अहं सामिसालो अर्चितसत्तिजुत्तो विनलकित्तिपुत्तो पुरिसरयणसारो देवरहकुमारो,  
अहयं पुण इमिणा कयरुवंतरेण किंचि कज्जमासज्ज नियठाणे निउत्तो म्हि’ ।

इय परियाणिय ततो राया त्रियसंतत्रयणसयवत्तो । रोमंचंचियगतो कुमरं पड भणिउमाढत्तो ॥ ८९ ॥

15

‘भो! साहु रणे रमियं पयासियं विमलकित्तिकुलगयणं । नासियमग्गण तमं देवरहकुमार ! सूर! तुमे ’ ॥९०॥

एत्थंतरे पवज्जियाइं वद्धावणयतूराइं, पघोसिया उदामसइं वंदिणो, नायपरमत्था य विम्हिया सव्वे राय-  
कुमारा मोइया वंधणाओ कयसाहावियागारेण कुमारेण । ते वि ‘सोहणमिणं, जं विमलकित्तिअत्तयम्मि निवडिया  
वरमाल’ ति जंपंता पहट्टमुहपंकया पणमिऊण खाभिऊण य कुमारं तग्गुणुक्कित्तणेकवावारा पडिगया सट्टाणेसु ।  
रयणावली वि परिओसरसमउव्वमणुहवंती कुलकमागयविहिणा विवाहियां कुमारेण ।

20

उव्वभूयपुव्वपेमो तुट्टो कुमरो वि तीए लाभेण । कस्स न जायइ तोसो अहवा रयणावलीलाभे ? ॥ ९१ ॥

रवितेओ वि पमुइओ अणुरुव्वरेण निययधूयाए । देवरहे रयणावलिसंजोगो कं न तोसेइ ? ॥ ९२ ॥

‘अणुरुव्वो संजोगो, धम्मा कम्मा, वरो वि कयपुत्तो । सोहग्गकप्परुक्खो इमेहिं चिन्तो तवो नूणं ॥ ९३ ॥

सव्वंगसुंदरो वा सम्मं आराहिओ तवो पुव्वि’ । इयउल्लावज्जवणिओ जाओ नायरजणो सव्वो ॥ ९४ ॥

जणमण-लोयणसुहओ सुहमच्छिय तत्थ वासरे केइ । लद्धाणुत्तो कुमरो चलिओ नियपुरव्वरित्तेण ॥ ९५ ॥

25

रयणावली वि रयणावलीहिं विविहाहिं मंडियावयवा । वहुकिं करीसमेया त्रिदिन्नगय-तुरय-रहवूहा ॥ ९६ ॥

विविहपडिउव्वत्तिनिउणं विसज्जिया पत्थिवेण संचलिया । वाहजलोल्लकवोला मुहु मुहु नयरं निहारिंती ॥९७॥

अह वच्चंतो कुमरो दइयाए सोयजलणसमणत्थं । दावेइ कोउयाइं विविहाइं रन्नमज्जम्मि ॥ ९८ ॥

कत्थइ पुंल्ली आरूढपहियतरूमूलखणणअक्खणितो । रोसंथो न हि लक्खइ सेन्न आसन्नपत्तं पि ॥ ९९ ॥

कत्थइ अवच्चनेहेण हरिणओ गहियसावयं वग्गं । रोसुंत्पित्थो सिंगेहिं हणइ वेगेण वच्चंतं ॥ १०० ॥

30

१ ‘लाकुऊहल’ जे०विना ॥ २ कोयड’ जे०विना ॥ ३ ‘कवोक्कं वग ॥ ४ संकेत-“उप्पेह्णड ति उद्धयस्वम्” ॥  
५ संकेत-“अवयाण ति अवदानम्-अद्भुत कर्म” ॥ ६ सद्धेत-“पक्कल ति समर्थ” । पञ्चलं भ्रा० ॥ ७ सद्धेत-  
“अक्खणिओ ति व्याकुल” ॥ ८ वत्तिनूण जे० ॥ ९ संकेत-“पुट्टि ति व्याघ्र” ॥ १० सद्धेत-“उत्पित्तयो ति विधुर” ॥

कथइ सवरीगीए अवहियकन्नं कुलं कुरंगाणं । हणिउमणा सवरगणा कडयभयऽत्ता पलायंति ॥ १०१ ॥

कथइ साहोलंविपम्हुट्टं पंथियाण वरसुरवं । वायंता कंविलीवा भेसंति पुलिदसंदोहे ॥ १०२ ॥

कथइ कंठीरवरवतत्थो वणवारणो पलायंतो । खलइ सुणंतो पुरओ गहिरं कडणो वि वुंकारं ॥ १०३ ॥

इय त्रिविहपयाराइं वणयरचरियाइं विम्हयकराइं । दंसितो दइयाए वच्चइ कुमरो सलीलाए ॥ १०४ ॥

5 तओ वणे वणे परिब्भमंतो, सरे सरे अभिरमंतो, पुरे पुरे पलोडजंतो, गामे गामे गोरविजंतो, दीणे दीणे वियरंतो, दुहिए दुहिए उवयरंतो पत्तो कमेण नियनयरीए ।

जाया य तयागमणे पयट्टपरमूसवा समतेण । उज्जलललंतलोया नयरी रम्मा वि रम्मयरी ॥ १०५ ॥

चंदणजलसित्तं पिव सीईभूयं वणणेण जणयाणं । अणुरुववहूसंगयकुमरनमिज्जंतचलणाणं ॥ १०६ ॥

जणयविदिन्ने रम्मे गयणगए विमलफलिहपासाए । सुहमच्छिउं पयत्तो कुमारचंदो जणाणंदो ॥ १०७ ॥

10 आयन्नियसुयचरिओ राया वि पमोय-विम्हयरसड्ढो । बहुपुव्वलक्खसंखं जहत्यनामो गमइ कालं ॥ १०८ ॥

अन्नदिणे दिणेसो इव अप्पडिहयप्पयावो पयावोहजणगो य, गोयमो इव दुवालसंगपारगो पारगोवट्ट-किरियापरमो य, परमोयदाणदच्छो विसालवच्छो य समागओ तीए नयरीए धम्मवसू नाम धम्मायरिओ । जो खमासीलो वि न कुसीलो, मयारी वि अणहचरणो, माणमहणो वि बहुमाणट्ठाणं लोयाणं, अयलो वि कूडविरहिओ धम्माणट्ठाणे, सरलो वि अमग्गणासणो, पडिवन्नसंजमो वि निद्धयबंधणो । किंच—

15 कैयविविहसत्तवोहो सुचरणकरणो पसन्तवहुलोहो । अप्पमओ सुहजणओ दुहा दुहा अप्पमाओ य ॥ १०९ ॥

विन्नायतयागमणो राया मेहागमे सिंहंडि व्व । उद्धवरसुद्धुमाओ सयराहमईव संजाओ ॥ ११० ॥

चलिओ य वंदणत्थं सुरंसोहियपरियरो वरगइंदो । कुमरसहिओ सहंतो सजयंतो तियंसराउ व्व ॥ १११ ॥

दूराउ च्चिय वज्जियनिवर्चिओ कयपयाट्ठिणो विहिणा । गुरुभत्तिभारितो इव पणओ पुरओ मुणिवरस्स ॥ ११२ ॥

‘सिवनयरसरणिदंसण ! कयवट्ठण ! मुणि-नरिदविदेहिं । दुहत्तजंतुचंदण ! जणयाणंदण ! नमो तुज्ज ॥ ११३ ॥

20 तुज्ज नमो जयबंधव ! बंध-वट्ठा-ऽलियविरत्त ! दढसत्त ! । सत्तहियधम्मसासय ! सासयसुहसिद्धिगयचित्त ! ॥ ११४ ॥

इय वित्थरओ थोऊण मुणिवरं नरवरो सपरिवारो । सिरकयकरकयमउलो उवविट्ठो सुद्धधरणीए ॥ ११५ ॥

अह पारद्धा मुणिणा जलहरद्धुणिणा जओवयाराय । संसारमोहहरणी सिवपयसरणी सुधम्मकहा ॥ ११६ ॥

भो भो भन्वा ! भावेह भीसणमिण संसारपिउवणं, इह खलु पणट्टसन्नाणचेयणा मडयायंते पाएण पाणिणो, डज्जंति सारीर-माणसाणेगतिकवहुक्खचियासु, भिज्जंति कसायनिसियसुल्लग्गेषु, ओलंविज्जंति दुरासारज्जुसंज-  
25 मियमुत्तिणो कुव्वसायपायवेषु, रोलंति चुलसीडलक्खसंखजोणिकुडंगसंकडेसु । तहा चंमडिज्जंति विसएहिं, कय-

१ संकेतः—“कविलीव त्ति कपिपात(वाल)का ” ॥ २ वुक्कारं आ० ॥ ३ संकेतः—“खमा पृथिवी धान्तिश्व, को-पृथिव्या कुत्सित च शीलमस्य । मृगारिमंदाश्च । अनखाश्चरणा यस्य, अनघ चरण यस्य । बहोमानस्य-अहङ्कारस्य बहुमानस्य च-अन्तरङ्गभक्तेः स्थानम् । अचल-पर्वत प्रतिज्ञातपापापरेखश्च, कूटानि-शिखराणि छद्मानि च । शरान् लाति-गृह्णाति शरल, अवकथ, न मार्गान्-वाणान् अस्यति, न मार्गनाशनश्च । सयम-बन्धन चारित्र च बन्धन-सयमन कर्मबन्धश्च” ॥ ४ संकेतः—“कृतो विविधसत्त्वाना बोधः विविधसत्तपभोधश्च येन । शोभना चरणकरण-मूलोत्तरगुणा यस्य, शोभनानि चरणौ-पादौ करणानि-इन्द्रियाणि करण वा-शरीरं यस्य । प्रशान्तबहुलोभ, प्रशान्तश्चात् प्रशमसमन्वितत्वात् बहुलोहश्च बहुवितर्कत्वान् । अप्रमदोऽल्पमदश्च सज्वलनमानत्वात् । सुखस्य शुभस्य जनकः । अप्रमदोऽल्पमायश्च” ॥ ५ संकेतः—“उद्धवेण उत्सवरसेन च आपूर्ण । सयराहं ति क्षीघ्रम्” ॥ ६ संकेतः—“सुरं शोभितं परिकरोऽस्य, सुरस-शोभनवदनाभिःप्रकृतवान् हित परिकरश्च” ॥ ७ तियसनाहो व्व खर ॥ ८ मुणिवरिदं जे० ॥ ९ संकेतः—“चमडिज्जंति विसएहिं ति भक्ष्यन्ते बीना शतं, कदर्थ्यन्ते च विषयै । कुत्सिता मृगधूर्तका-भृगाला, कुत्सितमता धूर्ताश्च । इहा-मृगा-वृका, इहा-मदाश्च-चेष्टा-ऽहङ्कारा । धारः-भस्म मत्सरश्च । गृद्धि-लौल्यम्, गृध्री-गृध्रस्त्री । काका-वायसा, कायश्च-शरीरम्” ॥

त्थिज्जंति कुमयधुत्तएहिं, विलुप्पंति दुद्धईहामएहिं, मइल्लिज्जंति महाखारेण, विनडिज्जंति दुद्धगिद्धीहिं, सहंति नाणा-  
विहकायकयत्थणाओ । किं बहुणा ? महासत्तो कोइ एत्थ अपरिचत्तसन्नाणचेयणो अखलिज्जंतो जुवइविभीसियाहिं,  
अवेळविज्जंतो कुमित्तवेयालेहिं, अवाहिज्जंतो कुदेसणारक्खसट्टहासेहिं साहेइ सयलसुहसिद्धिनिवंधणं धम्मचरण-  
महाविज्जंति । अवि य—

पत्तो वि देवजोया सचेयणो एत्थ पुर्वभणियाओ । न लहइ कयत्थणाओ सुहं च वच्चइ सिवपुरीए ॥ ११७ ॥ 5

सन्नाणाओ नऽन्ना मन्निज्जइ चेयणा वि जीवाणं । तं पुण न अत्तवयणा अन्नं छप्पन्नया विति ॥ ११८ ॥

रागाईहिं विउत्तो अत्तो सत्तोवयारउज्जुत्तो । सो पुण सत्तसरन्नो जिणनाहाओ धुवं नऽन्नो ॥ ११९ ॥

तस्संगमे उवाओ तव्वयणठिएसुं तिव्वमणुराओ । सरणं परमेद्वीणं सुहमहिरुहमेहवुद्वीणं ॥ १२० ॥

एएसु जस्स भत्ती तेणादिट्ठो वि सो फुडं दिट्ठो । दिट्ठो वि न दिट्ठो खलु एयाभत्तेहिं सत्तेहिं ॥ १२१ ॥

किं बहुणा ?

10

सद्धम्मकप्पपायवपारोहवक्खंवरारसिच्छमिणं । परमेद्वीणं सरणं जीवाणमसेसदुहहरणं ॥ १२२ ॥

ता जइयव्वमवस्सं बुहेहिं परमेद्विसंथवे एत्थ । जिणदंसणाइकल्लणमालिया होइ धुवमेत्तो ॥ १२३ ॥

एत्थ अत्थे निसामेह दिट्ठंतमेगं । तओ 'महंतो अणुग्गहो' त्ति रायाईहिं भणिए साहिउं पयत्तो फुरंतदंतमणिव्वं-  
भयवं धम्मवसू—

### [ ४. रयणसिहकहाणयं ]

15

अत्थि इहेव जवुदीवे भारहे वासे अद्धचक्की व सहलहरो, हलहरो इव सगोविंदो, गोविंदो इव गरुडासणमुत्थिओ  
सुग्गामो नाम गामो । तत्थ य पयइभद्दगो विणय-ऽज्जवाडगुणसंगओ सगओ नाम पामरो अहेसि । तेण य कयाइ  
कहंचि तत्थागयाणं मुणीणं सबहुमाणं दिन्नो रयणिनिव्वाहणत्थमुवस्सओ, कया य सहरिसेण पज्जुवासणा । साहूहि  
वि कया से अक्खेवणी धम्मदेसणा । कहं ?

'मायंगा गिरिसिगतुंगतणुणो दाणंभुसित्तंगणा, निच्चं कंचणसंकलच्चियगला नाणा हरीणं गणा ।

20

सामंता पणयप्पणामपवणा सेवाविहाणुज्जया, देसा पट्टण-गाम-कव्वडघणा लब्भंति धम्मेण भो ! ॥ १२४ ॥

पासाए वसही मही वसगया तारं तहंतेउरं, कोसो सुट्टु अणिट्ठिओ मणहरं गंधव्व-नट्टाइयं ।

दिव्वा देहजुई जसो ससिसियं सारं वलं पोरुसं, जं जं वा भुवणे सुह सुहयरं धम्मेण तं लब्भए ॥ १२५ ॥

जं पट्टंसुय-देवदूस-तसरीसारं विचित्तवरं, मुत्ता-हीरयहारि जं च विविहं तेउज्जलं भूसणं ।

कप्पूरा-ऽगुरु-कुंकुमाडसुहया भोगगभूर्इ वि जं, जीवाणं सयलं तमव्वुयगुणं धम्मस्स लीलाइयं ॥ १२६ ॥ 25

ता महाभाग ! करेहि किंचि धम्मकम्मं जेण जम्मंतरे सुहभायणं होहि' । त्ति मुणीहिं भणिएण चित्तियं संग-  
एण 'को धम्मो ? कह वा कीरइ ? त्ति विघ्नाणं पि मे नत्थि, दूरे ताव तक्करणं, वच्छला य ममेगंतेण भगवंतो ता  
करेमि उच्चियमेयाएसं' त्ति; भणियं च 'भयवं ! कुवासदूसिया अम्हे अणभिन्ना धम्मसरुवस्स, तहा वि आणवेह  
जमम्हाणमुच्चियं' ति । तओ साहूहिं जोगत्तमव्वगच्छिय उवडट्ठो पंचनमोकारो । 'भइ ! पावभक्खणो एस मंतो, ता

१ दुद्धईयां जे०विना ॥ २ संकेतः—“अवेळविज्जंतो त्ति अविप्रतार्यमाण” ॥ ३ सङ्केत—“छप्पन्नय त्ति विद्वास” ।  
“पट्टस्वयंपु प्रज्ञा-प्रकृतविज्ञान येपा ते पट्टप्रज्ञा-विदग्धाः, तथा चोक्तम्—‘धम्मे १ अत्थे २ कामे ३ मोक्खे ४ लोए ५ य लोयजत्तासु  
६ । छासु इमेसु जेसि पज्ञा ते हुति छप्पन्ना ॥’ इति” जेटि० ॥ ४ 'सु निच्चमणु' जे०विना ॥ ५ सङ्केतः—“उव्वर त्ति  
सर्वसत्त्याढया भूमि” ॥ ६ पवत्तो ख१ आ० ॥ ७ संकेत—“वसु त्ति वसव-किरणा” ॥ ८ सङ्केतः—“हलघर-चलदेव”,  
हलघराक्ष-कृषीबला । गोविन्द-विष्णु गवा वृन्दानि च । गरुडासन-ताक्ष्यारोहण व्रीहिमेदभक्षण च ।”

सन्वायरेण तुमए तिसंज्ञं तओ पंच अट्ट वा वारे नियमओ पढियेव्वो, विसेसओ भोयण-सयणेसु न मोत्तव्वो खणं-  
पि एत्थ बहुमाणो' त्ति बहुविहमणुसासिऊण सुए गया अन्नत्थ साहुणो ।

इयरो वि भावसारं गुरुवयणं चिरमणुचरिऊण समाहिणा काऊण सरीरपरिच्चायं पंचनमोक्कारसरणनिच्छ-  
ओवज्जियपुण्णपभावेण समुप्पन्नो पुह्वीवरंगणातिलए सयलसिरिकुलनिलए सडिब्भविसयसुंदरे नदिपुरे नयरे पोरुसो-  
वहसियपंचाणणस्स पडमाणणस्स नरवइणो पियपणइणीए कुमुडणीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए । रयणरासिसुविणं-  
सुइयत्तेण कययणसिहाभिहाणो सुहेण पत्तो सुकयकलाकलावोवलंभं जोव्वणारंभं । परिणाविओ य पिउणा कुमार-  
कलाकोसलाइसयसवणाणुरंजियं सुकयायडिदयं लच्छि पिव सयंवरमागयं सुकोसाहिहाणं कोसलाहिवधूयं । अन्नया  
देवीदंसियसियसीसकेसुप्पाइयवेरगो तस्स रज्जं दाऊण पियासंगओ गओ वणवासं पडमाणणनिवो । इयरो वि  
कोमुइमयंको व अखंडमडलालंकिओ, अणुरत्तमंति-सामंतंविदो जाओ महानरिंदो । अइकोउगं च एयस्स अक्खाइ-  
यासु, अओ देड वित्ति कहगभट्टाणं, निसामेड अउव्वाउव्वकहाओ, हरिसिज्जइ बहुकोउगभरिएहिं महासत्तचरिएहिं,  
वियरइ तेसिं तुट्टिदाणं । अन्नया पारद्धं कहगभट्टेण वीरगय-सुमित्तमित्तजुयलकहाणयं । कहं ?—

[ २. वीरंगय-सुमित्तनाममित्तजुयलकहाणय ]

अत्थि समुद्धम्मि व महालच्छिनिवासे मँहोदयभरसुंदरे य विजयउरे नयरे सूरस्स व बहुतमारिविद्धंसणो-  
वल्लपसिद्धिणो सूरंगयनरिंदस्स पुव्वोवज्जियपुण्णोदओवणीयरूवाइगुणसंगओ वीरगओ नाम कुमारो । सो उण  
चिंतामणी अत्थिसत्थस्स, वज्जपंजरं सरणागयाणं, अम्मापियरं दीण-दुहियाणं, ऊसरधरणी दुन्नयधन्नाणं । तस्स  
य महामंतिपुत्तो सुमित्तो नाम मित्तो । तेण य सव्भावसिणेहनिव्वरेण सद्धिमभिरममाणस्स कुमारस्स कयाइ  
जाओ संलावो 'गंतूण देसंतरं करेमो नियपुण्णपरिच्छं' । 'कहं पुण जणयाणि सुच्चिस्संति ?' त्ति उवायमभाणुज्ज-  
याणमन्नया उज्जाणे कीलावाउलाणं 'सरणं सरणं' ति भणंतो निवडिओ वीरगयकुमारस्स चलणेसु कयवज्जमंडणो  
कोड चोरपुरिसो, पत्ता य तयणुमग्गेण डंडवासिगा, भणिउं च पवत्ता 'कुमार ! एस पावतकरो सुदत्तसेट्टिमंदिराओ  
खत्तमुहेण निग्गच्छंतो अम्हेहिं गहिओ, देवसासणाओ य सलारोवणनिमित्तं वज्जभूमिसुवणीओ पलाइऊणेत्था-  
ऽऽगओ, ता अणुजाणउ कुमारो जेण संपाएमो देवसासणं' ति । तओ 'न जुत्तं सरणागयसमप्पणं तकररक्खणं  
पि' त्ति किंकायव्वमूढेण सरणागयपालणपक्खवायाओ भणियं कुमारेण 'भो ! न एस मइ धरंते वावाडुं तीरइ,  
ता सुयह एयं कहेह वा तायस्स । अवि य—

को किर कुलाभिमणो ? माहप्यं पोरुसं च किं तस्स ? । जस्स सरणागओ मयगओ व्व नो भमइ सच्छंदं' १२७  
विन्नायनिच्छएहिं निवेइयमिणं राइणो दंडवासिएहिं । तेणावि गाढरुट्टेण समाइट्टो निव्विसओ कुमारो ।  
तओ 'मणोरहाणुऊलो तायाएसो' त्ति सहरिसो निवारियसयलपरियरो सुमित्तदुट्टओ पयट्टो देसंतरं । लंघियाणे-  
गरज्जो य परिवर्भमंतो एगत्य महारन्ने परिस्समविणोयणत्थं पसुत्तो नग्गोहगंधिळीए । सुमित्तो वि अप्पमत्तो  
पमट्टिओ से जंघियाओ ।

एत्थंतरे नग्गोहवासिणा जक्खेण तेसिं रूवाइसयरंजिएणं दिव्वनाणोवल्लगुणाइसएण य 'करेमि किं पि  
एएसिं महासत्ताणं पाहुअंयं'ति चित्तिय दिच्चं दसणं सुमित्तस्स । तेणावि 'देवो' त्ति तुट्टेण अब्भुट्टिओ पणमिओ य

१ 'यव्वओ, वि' जे०विना ॥ २ "य-कल्ये" जेटि० ॥ ३ कोमुइयमियंको जे०विना ॥ ४ संकेतः—'महोदय त्ति महय तदुदक च, महाधासावुदयध' ॥ ५ सद्धेतः—'बहुतमारि त्ति बहु च तत् तमश्च [त]दिवारि, बहुतमाश्च तेऽर्यश्च' ॥ ६ सद्धेतः—'गंधिळीए त्ति छायायाम्' ॥

एसो । तओ जक्खेण भणियं 'भो महा अतिहिणो ममं तुव्भे, ता भण किं भे पाहुन्नयं करेमि ? सुमित्तेण भणियं 'दंसणदाणाओ चेव कयं मणोरहाइयमम्ह सव्वं, न एत्तो वि दुल्लहमन्नमत्थि । जओ—

तप्पंति तत्रमणेगे जवंति मंते तद्वा सुविज्जाओ । त्रियरंति दंसणं पुण देवा धन्नाण विरलाणं' ॥ १२८ ॥

जक्खेण भणियं—

“अंगुट्टिय गुण सज्जणहं जं पत्थणु न मुणंति । अगणियजीत्रिय त्रिहववय विहल्लद्वरणु कुणंति ॥ १२९ ॥ 5  
तद्वा वि देवदंसणसहलीकरणत्थं गिण्हाहि एयं मणिदुगं, एत्थ 'एस नीलमणी तिरत्तोववासेण पूइओ विसिट्ठरज्जं पयच्छइ' ति रायसुयस्स उव्वउंजियव्वो, एस उण सोणकंती पणत्र-मायावीयाभिमंतिओ तुह चेव मणोरहाइरित्त-वित्तसंपायगो भविस्सइ” ति । तओ सुमित्तेण त्रिम्हयसारं 'जमाइसह' ति त्रित्तेण कयप्पणामं पडिच्छिया करसंपुडेण मणिणो, चित्तियं च 'अहो ! सच्चमेयं—

पहरइ रणे पुरत्थं, होइ सहायं वणे समंतेण । अइसुत्तस्स वि जग्गइ नरस्स पुव्वज्जियं पुन्नं ॥ १३० ॥ 10  
सव्वहा महापुद्गभंडारमेस कुमारो जस्स देवा वि एवमुव्वगरति' ति ।

एत्थंतरे तिरोहिओ जक्खो । तओ त्रिउद्धे कुमारे पुणो वि पत्थिया । वारिओ सुमित्तेण फलाइभक्खणाओ कुमारो । तिरत्तोववासेण पत्ता महासालनयरुज्जाणं । ताहे दंसिय नीलमणिं सुमित्तेण भणिओ कुमारो 'पूएहि एयं मणिरयणं, जेण राया भवाहि' । त्रिम्हिण्ण भणियमणेण 'मित्त ! कुओ पुण इमं ?' ति । सुमित्तेणावि 'सामन्नेण ताव तुह पुन्नाणुभावो, त्रिसेसं पुण पत्तरज्जस्स पिसुणिस्सामि' ति बुत्ते कयमणिरयणपूओ 'कहमिवेदाणि 15  
मित्त ! रज्जलाओ भविस्सइ ?' ति सत्रिम्हओ निसन्नो सहयारवीहियाए रायउत्तो । इयरेणावि लयामंडवम्मि पूइज्जण विहिणा चिंतामणी पत्थिया सरीरट्टिइसामग्गि । अर्चितसामत्थओ य रयणस्स तक्खणा चेव तत्थाऽऽगया अंग-महया, सत्रिणयमव्वंगिय सम्महिया दो वि तेहिं । तओ समागया सुगंधुव्वट्टणसणाहपाणिपल्लवाओ तरुणरम-णीओ, ताहिं उव्वट्टिया दो वि । तओ उव्वट्टिओ मज्जणविही, तओ तक्खणुप्पन्नेसु विचित्तवियाणगेसु मज्जण-मंडवेसु मणिरयणकिरणचक्कवालोव्वदंसियसकसरासणेसु कणयमयपव्वरासणेसु सुगंधनीरभरियभूरिभिगारेहिं मणह- 20  
रगीया-ऽऽउज्ज-नट्टसारं ण्हाविया दो वि दिव्वंगणागणेहिं, परिहात्रियाँ वग्गुदेवंगाइं । कयपुप्फ-विळेवणोव्वयाराण य उव्वट्टिओ सव्वकामगुणोवेयखज्ज-पेज्जाइसंगओ भोयणवित्थरो । तओ पुहइपाललीलाए जिमियाण इंदयालमिव तिरोहियं खणेण सयलं ण्हाण-भोयणोव्वगरणपरियणं । ताहे त्रिम्हिण्ण संलत्तं रायनंदणेण 'वयंस ! किमेयमच्छ-रियं ? कि नीलमणिपभावो एस ?' । मित्तेण भणियं 'कुमार ! नेव्वमेयं, किंतु अन्नो एत्थ परमत्थो, तं पुण पत्थावे तुम्ह साहिस्सं' ति । तमायन्निय सुट्टुयरं त्रिम्हिओ वीरगयकुमारो । 25

इओ य तम्मि नयरे अपुत्तो राया कयंतातिहित्तं पत्तो ति अहिवासियगय-तुरयाइपंचदिव्वयं परिव्वमंत्त-मागय तं पएसं । तओ गुल्लुगुल्लतेण दंतिणा कयाहिसेयमारोत्रिओ निययकंधराए रायसुओ, अलंकिओ छत्त-चामराहिं, 'जयइ महाराओ' ति भणंतेहिं पणमिओ मंति-सामंतेहिं विन्नत्तो य नयरपवेसं पइ । सो वि असंभाव-णिज्जसंपत्तिविम्हिओ पव्वत्तो मित्तसुहमव्वलोइउं । मित्तो पुण 'सुत्थीहूओ ताव मम पियवयंसो, अहं पि जहिच्छ-मच्छामि पच्छन्नो इमम्मि चेव नयरम्मि एयसुहकमलं पलोएमाणो' ति संपहारिज्जण तुरियमूसरिओ तओ विभा- 30  
गाओ, पत्रिट्ठो य नयरव्वंतरं । अओ तयदंसणतरलियनयणारविंदो नरिंदो पुणो विन्नत्तो मंतिणा 'आइसउ देवो,

किमाणेमो ? किं वा संपाणमो ?' त्ति । रक्षा वि 'एत्थ मम सुही हुंतो, न य दीसइ, ता तं लहुमन्निस्सावेह' त्ति समाणत्ते गविट्ठो सव्वायरेण । जाहे न लद्धो ताहे सव्वत्तो निउत्ततयन्नेसगेहिं मंतीहिं पवेसिओ राया नयरव्भंतरं, परिणाविओ पुव्वपत्थिवतणयाओ अट्ट कन्नयाओ । एवमेस ताव अखलियसासणं रज्जमणुहवंतो चिट्ठइ ।

सुमित्तो वि परिब्भमंतो दिट्ठो पुरिसदेसिणीए रइसेणाभिहाणाए पन्नंगणादुहियाए, ससिणेहं च निज्जाइओ सुइरं, तथो विन्नायतयाक्याए सगोरवमाहूओ से मयहरिगाए, चित्तियं च 'सुंदरागिई एस महाधणो य लक्खिज्जइ । अवि य—

जइ वि हु पत्थिति परं जइ वि तविज्जंति तिव्ववसणेण । तह वि सतेया दिट्ठी वाणी वि थिरा धणड्ढाणं ॥१३१॥ तहा—

जइ वि न दीसइ पयडा तहा वि लीलाइएहिं अंगस्स । नज्जइ लच्छी ललियंगणा य पुरिसाण साहीणा' ॥१३२॥ एवं संपहारिय तीए कया सुमित्तस्स पवरा पडिवत्ती । इयरेणावि रइसेणारूत्रालोयणुदीवियमित्तलानलेण चित्तियं—

'गैज्जंकुरगोराणं पयामैथोरोरुयाणमह दोसो । वेसाण तंवटंकारिरायसरिसीओ जं हुंति ॥ १३३ ॥ रज्जंति धणेषु पणंगणाओ, न गुणेषु कुंदधवलेसु । सज्जंति विलीणे' मच्छियाओ घणचंदणं मोत्तुं ॥१३४॥

जाणामि अहमिणं तहा वि मम मणो वला एयं तरुणिमणुसरइ, ता चिट्ठामि किंचि कालमिहेव' । त्ति संप-  
हारिय ठिओ एसो । जाओ रइसेणाए पेमनिबंधणं । परितुट्ठा कुट्टिणी । नवरं 'न किंचि वियरइ' त्ति संदिद्धघणा-  
साए जाइओ तीए किं पि अंगभोगोचियं । तओ 'भारतुला इव लोहंगला वराई न एसा थोवदाणेण नमिहि' त्ति कलिउण विवित्ते विट्ठिणा सुमरिओ णेण चिंतामणी, तप्पभावेण दिन्नं से महामोळं वत्थाभरणं । तुट्ठा कुट्टिणी ।  
तहा वि लोहदोसेण पुणो पुणो जाएइ, सुमित्तो वि पयच्छइ । अन्नया विम्भियाए चित्तियमणाए 'नूणमत्थि एयस्स चित्तारयणं परिग्गहे, कहमन्नहा एरिसदाणसत्ती ?, ता गिण्हामि तयं' ति । ताहे ण्हाणोवविट्ठस्स तस्स कुंप्पासख-  
ल्लयाओ गहिओ तीए मणी । पुणो किंपि जाइएण निहालियमणेण खल्लयं, अपिच्छंतेण य पारद्धा गवेसणा ।  
तओ भणिओ कुट्टिणीए 'पज्जत्तं तुह दाणेण, मा मम परियणमव्वक्खाणेण दुम्मिहिसि । तओ 'नूणमणाए गहिओ, कहमन्नहा सिद्धपओयण व्व निदक्खिन्नमुल्लवइ एस ?' त्ति संभाविय सामरिसो निग्गओ मंदिराओ । लज्जाए राया-  
णमवि विन्नविउमणिच्छंतो पत्थिओ देसंतरं, चित्तेई य—

'धी ! अन्नाणं खल्लोद्वियाए लोहज्जराभिभूयाए । जम्मगिाए वि दिन्ने सुहोदए वड्ढिया तण्हा ॥ १३५ ॥ असमिक्खियतत्ताए वीसासदोहदिन्नभावाए । अहयं न केवलं चिय छलिओ अप्पा वि पावाए ॥ १३६ ॥

जं अमुणियविहिमंतो संतो वि मणी मणिच्छियं तीसे । थेवं पि न वियरिस्सइ नूणं सामन्नसेलो व्व ॥१३७॥ को दोज्ज सो पयारो जेणाहं तीए विप्पियं काउं । दंसियनियमाहप्पो तं वररयणं गहिस्सामि ॥ १३८ ॥ उवयारं उवयारीण, वेरनिज्जायणं च वेरीणं । काउं जो न समत्थो धिरत्थु पुरिसत्तणं तस्स' ॥ १३९ ॥

इय विविहवियप्पकल्लोलालहियओ परिब्भमंतो पत्तो केयावि विचित्तपासायपंतिदंतुरियं नंदणवणाणुगारि-  
पवरूज्जाणमंडियं पवरपायारवलयालिगियमेगं नयर । 'अइरमणीयमजणसंचारं च' त्ति सविम्हओ पविट्ठो नयर-

१ सद्धेतः—“मित्तलानलेण त्ति मन्मथानलेण” ॥ २ संकेतः—“गुज्जंकुर त्ति यवाङ्कुरा” ॥ ३ मथोरूठं ख१ भ्रा० ॥

४ सद्धेतः—“तंवटंकारि त्ति शेफालिका” ॥ ५ “अशुचौ” जेटि० ॥ ६ संकेतः—“लोहंगल त्ति लोहेन लोमेन चार्गला अधिका च” ॥ ७ संकेतः—“कुंप्पासखल्लयाउ त्ति चोलकगुरुकान्( शुभकात् )” ॥ ८ दुम्मिहसि जे० ॥ ९ चित्तइ जे० विना ॥

१० सद्धेतः—“ओद्वियाए त्ति कुट्टिया । शुभोदके, शुभ उदये, यस्मान्मार्गितात् तस्मिन्” ॥ ११ कयाइ जे० विना० ॥

अंतरं । पेच्छंतो य किलिकिलितकइकुलालंकियाइं देवकुलाइं, घोरंतघोरवग्घाइं घरोयराइं, लवंतभुयंगकंचुयाइं तोरणाइं गओ रायमंदिरं । तत्थ वि अपेच्छंतो मणुस्सरुवं रम्मयावलयणवाउलो समारुढो संत्तमं भूमितलं । पेच्छइ य तत्थ कुंकुमरायपिजरियसरीरं कप्पूररेणुध्वलियुत्तमंगं सुरद्विक्सुममालुम्मालियसरलग्गीवं गुरुलोहनियलसंदाभिय-  
चारुचरणं करहजुवडजुयलं । तओ 'कहमेत्थ सुन्ननयरे करहीओ ? कहं वा एत्थारुढाओ सोवभोगसरीराओ च' 5  
त्ति वियकंतो पेच्छइ गवक्खसंठियं समुग्गयदुगं । तत्थ वि एगत्थ धवलमंजणं इयरम्मि कसिणं । सलागादंसणाओ  
'जोगंजणमिणं' ति कयनिच्छओ नियच्छइ धवलियपम्हलाइं करहीलोयणाइं । तओ 'नूणं माणुसीओ एयाओ  
धवलंजणेण करहीओ कयाओ, संभवइ य कयाइ कसिणेण पयइभावो एयासिं' ति पाउव्भूयमइपसरेण अंजियाइं  
कण्हंजणेण तयच्छीणि सुमित्तेण । ताहे ठियाओ पयइरुवाओ तरुणरमणीओ । 'कुसलं तुम्हाणं ?' ति ससिणेह-  
मालत्ताहि य भणियं ताहिं "संभवइ कुसलं संपयं तुम्हाणुभावेण" । 'को पुण एस असंभावणिज्जवइयरो तुम्हं ?' ति  
पुच्छियाहिं ताहिं साहिओ नियवुत्तंतो— 10

किर अत्थि इओ उत्तरदिसाए गंगाए महानईए परकूले सन्निहियसयलभदे सुभदे नयरे अणिंदियक्खिओ गगाइच्चो  
नाम पहाणसेट्ठी । तस्स य सयलकुलंगणागुणाहाराए वसुहाराए घरणीए नीसेसगुणसंपउत्ताणमट्टण्ह पुत्ताणं उवरिं  
संभूयाओ अम्हे जय-विजयाभिहाणाओ जमलभूयाओ । जणणि-जणयमणोरहेहिं सद्धिं पवइढमाणीओ जायाओ  
जोव्वणनरिंदरायहाणीओ । तत्थेव गगासन्नवणसंढे नियकिरियासुद्धिओ पियाभासी पत्थावकहाणगाइनिउणो किंचि-  
निमित्तवेज्जयकुसलो दंसणीओ पयासियमज्जत्थभावो बहुजणसम्मओ सुसम्मो नाम परिव्वायगो होत्था । सो य 15  
एगया अम्ह पिउणा भोयणत्थं सगोरवमाहूओ कयचलणाइसोओ निवेसिओ अग्गासणे । पवत्तं कलमकूराइ-  
परिवेसणं । तव्वेलं च तस्स तायस्स य पारद्धमम्हाहिं वीयणणेण पवणदाणं । तओ सो परिव्वायगो अम्ह रूवं  
निरुवित्तो 'अजुत्तकारि' ति व कुविणण पढओ सव्ववाणेहिं वम्महेणं । तओ चित्तिउं पवत्तो—

'डज्जउ वयपासंडु चंडु धिसि धिसि ज्ञाणग्गहु, जिज्जउ सिवपुरि पडउ वज्जु वइ कुंतह सग्गहु ।

जइ एरिसतरुणिहि सणाहु रइसोक्खु न माणउं, ता मन्नउं मयनिव्विसेसु निच्छइ अप्पाणउं ॥ १४० ॥ 20

तहा—

जइ अच्छराहिं वंभो, गंगा-गोरीहिं खोहिओ हीरो । गोववहूहिं गुंविंदो को वयमाणो तओ मज्ज ? ॥ १४१ ॥

इय कयविविहवियप्यो परिकप्पियपियलाभोवाओ अवहीरिउण भोयणं ठिओ किं पि ज्ञायमाणो । संभंतेण य  
भणिओ सेट्ठिणा 'भुजह ताव, किमियाणिं चिंताए ? न हि सीयभत्तं सुहपरिणामं होइ' । तओ पुणो पुणो भन्न-  
माणेण 'किमेरिसदुक्खियाण भोयणेणं ?' ति भणिउण कयं कइवयगासग्गहणं परिव्वायगेण । भुत्तत्तरं च पुच्छिओ 25  
सेट्ठिणा 'महरिसि ! किं पुण तुममेवं दुक्खिओ सि ?' ति । दिट्ठतायनिव्वंथेण भणियमणेण 'चत्तसंगाण वि अम्हाणं  
तुम्हारिसमुयणसंगो उव्वेवकारणं, जओ न तरामो तुम्हाकुसलत्तं सोढुं' । एत्तियमेव कहिउं 'तरामि' ति भणंतो  
गओ नियठाणं परिव्वायगो । 'इंत ! किमेयं ?' ति आउलमणेण तत्थ वि गंतूण सविसेसायरसारमेगंते पुच्छिओ  
ताएण । ताहे तेणं भणियं "किं करेमि ?, एगओ वग्घो अन्नओ दुत्तडी, जओ अलंघणिज्जो तुमं अवत्तव्वं च एरिसं  
मुणिजणस्स, तहा वि गोरवट्ठाणं तुम ति निसामेहि तत्तं-तत्थ भोयणावसरे उव्विट्ठेण दिट्ठा मए तुह दारियाण 30  
लक्खणपंती 'जणगपक्खक्खयकारिणि' ति लक्खिया य, एयसल्लायल्लिणण परिचत्तं भोयणं, तुहोवरोहेण भुत्तं

१ सत्तमभूमिं जे०विना ॥ २ 'धवलित्तं' जे०विना ॥ ३ घरिणीए ख१ आ० ॥ ४ अजुत्तगारि ख१ आ० ॥

५ "शम्भु" जेटि० ॥ ६ उर्विंदो जे०विना ॥ ७ तह वि जे०विना ॥



किंचिमेत्तं' । एयमायन्निय 'महानाणी अविसंवाइवयणो य एस' त्ति भयाउरेण भणियं ताएण 'भयवं ! किमत्थि एत्थ कोइ उवाओ?' । तेण भणियं 'अत्थि किंतु दुक्करो, जओ कुलक्खणं वत्थु परिचत्तमेव न पीडेइ, पाणपियाओ य ताओ सव्वक्केडुम्बस्स, जइ पुण कुमारिगाओ चेव सव्वालंकारकलियाओ कट्टमंजूसाए छोट्टण पच्छन्नमेव गंगाए पवाहिज्जंति संतिकम्मं च कीरइ तओ सव्व सुत्थं हवइ' । एयं तस्स पावपलवियमवितह मन्नमाणेण ताएण कुल-  
 5 रक्खानिमित्तं कारिया महई मंजूसा, ण्हायविलित्तालंक्रियाओ सोवियाओ वयं तत्थ, ठइऊण मीणसारियाइ से छिड्ढाई, तओ अपिसुण्णिऊण परमत्थमवाईण 'अम्ह कुले कुमारिगाहिं एवं गंगा दट्टव्व' त्ति भणंतेण पभाए गंति-  
 यारोवियाओ नेऊण परिव्वायगट्टुइएण कयसंतिकम्मं पवाहियाओ अम्हे गंगाजले । गओ ताओ सविसाओ य, 'वला नईए नीयाओ' त्ति रुयंतेण पारइ संयकिच्चं । परिव्वायगेण वि मढियं गंतूण भणिया नियसीसा 'हरे ! अज्ज गंगाए भगवईए हिमवताओ मम मंतसिद्धिनिमित्तं पूओवगरणपडिपुच्चा मंजूसा° आणीया तं तुरियं गंतूण  
 10 हेट्ठिमत्तित्थे पडिच्छह, अणुग्घाडियं च आपेज्जह, जेण मंतविग्घो न होइ' त्ति । ते वि 'अहो ! अम्ह गुरुणो माहप्पं' त्ति सविम्हया गया दुत्ति दुगाउयमेत्तसंठियं भणियत्तित्थं, निउणं चोवरिहुत्तं नइं निहालिउं पवत्ता । इओ य सा मंजूसा इमस्स महापुरनयस्स सामिणा सुभमेण नावाकडएण तत्थ नइजले कीलंतेण दिट्ठा, सा कट्टपेडा सकोउ-  
 गेण गहिया उग्घाडिया य । तओ—

दट्टूण अम्ह रूवं सविम्हयं मयणगोयरगएण । मंति पइ संलत्तं 'भो भो ! अच्छेरयं पेच्छ ॥ १४२ ॥

15 पायालकन्नयाओ किं वा विज्जाहरीओ एयाओ ? किं वा सग्गवहूओ ? किं वा नरनाहधूयाओ ? ॥ १४३ ॥  
 'का भोईओ ! तुव्वे ?' इय साणुणयं वहुं पि भणियाहिं । दुहनिव्वभराहिं न हि किं पि जंपियं तत्थ अम्हाहिं १४४  
 एत्थंतरे विन्नायनरिंदाक्कएण जंपियं मंतिणा 'देव ! न एवमलंक्रियकन्नयाओ कोइ कारणं विणा परिचयइ, ता इट्ठिसिद्धिनिमित्तं केणइ सुरसरियाए उवहारीकयाओ एयाओ, ता तत्थ मंजूसाए अन्नमित्थिदुगं पक्खिविय एयाओ  
 वेप्पंतु' । अन्नेण भणियं 'कओ इह अन्ननारीओ ? एत्तो तीरवणसंडाओ वानरीदुगमेत्थ छुब्भउ' । 'अहो !  
 20 सुंदरं' ति भणमाणेण नरिंदेण पक्खित्तदित्तमकडीजुया तहेव ठइऊण पवाहिया पेडा । तओ विदत्तरज्जंतरो इवामंदाणंदरसाणुगओ अम्हे गहायागओ इमं नयरं ।

तेहि वि परिव्वायगसीसेहिं 'न अन्नहावाई गुरु' त्ति कयनिच्छयं नियच्छमाणेहिं चिरेण दिट्ठा कट्टपेडा, गहिऊण तुरियमुवणीया तस्स पावगुरुस्स । तस्स वि अउकंठियस्स कह कह वि अत्थमिओ दिवसनाहो । तयणु भणिया तेण विणेया 'भो ! अज्ज तुव्वेहिं मढियाकवाडेसु तालयं दाऊण दूरे ठाइयव्वं, पउरपोकारियं  
 25 पि सोऊण नागंतव्वं जाव न भाणुदंसणं, सव्वहा न मम मंतसिद्धिविद्धंसणेणावयारकारएहिं होयव्वं' । ति अप्पाहिय पिहियं मढियादुवारं । तओ 'सुंदरीओ ! सुट्ठ तुट्ठा भे गगादेवी अओ सग्गवासी अहं तुम्ह भत्ता दिग्घो, जौडिय-  
 करस्स किंकरस्स न मे माणभंगो कायव्वो' त्ति समुल्लवंतेण तेण उग्घाडिऊण मंजूसं छूढा तग्गहणत्थं दो वि हत्या, ताव य निरोहकुवियाहिं गहिओ सहसा दुट्टमकडीहिं । अवि य—

खरनहरदारियंगो तोडियक्कओ विदारियक्कओलो । दंतग्गभग्गनासो कओ हयासो पवंगीहिं ॥ १४५ ॥

30 'हा हा ! धावह सीसा ! एसो इं रक्खसीहिं खज्जामि' । इय विलवंतो तिव्वं पडिओ सहस त्ति धरणीए १४६  
 सीसा वि तस्स लल्लक्कपोकियं दुस्सहं सुणंता वि । नाऽऽयाया विग्घमया 'किर गुरुणा वारिया मो' त्ति ॥ १४७ ॥  
 तो सो वि सव्वराइं चडप्फडंतो पुणो पुणो ताहिं । निव्विन्नकुच्छिच्च्छो मुक्को पावो त्ति व अस्सहिं ॥ १४८ ॥

भवियव्वयानिओया जाओ सो रक्खसो महारोदो । नाणोवलद्धनियमरणकारणो दारुणायारो ॥ १४९ ॥

‘एएण मह पियाओ हरियाओ मक्कडीपओगेण । वावाओ य अहयं’ ति आसुरुत्तो सुभीमस्स ॥ १५० ॥

पत्तो इमम्मि नयरे वहिऊण य तं नरिंदमह तेण । निव्वासियं पुरमिणं दो चिय अम्हे पमोत्तूणं ॥ १५१ ॥

संजोओ य एसो रूवपरावत्तिकारओ दुविहो । अंजणजोगो सयमेव लक्खिओ जो तए सुहय ! ॥ १५२ ॥

एसो पुण वुत्तंतो एएणऽम्हं जहट्ठिओ सिट्ठो । नेहग्गहं महंतं नियहिययत्थं कहंतेण ॥ १५३ ॥

ता महासत्त ! एस अम्ह वुत्तंतो, निव्विन्नाओऽम्हे संपयं सुन्नारन्नवासाओ एयाओ, मोएहि कहंचि एत्तो कयंतघोराओ जाउहाणाओ त्ति ।

तमायन्निऊण पत्थणभंगभीरुणा कारुन्नसारयाए तंल्लावन्नल्लासियसौउल्लेण भणियं सुमित्तेण ‘कत्थ पुण सो गओ ? केत्तियदिणंते तुम्ह समीवमागच्छेइ ?’ । तार्हि च भणियं ‘सो रक्खसदीव गत्तूण दोहिं तिहिं वा दिणेहिं इच्छाए आगच्छइ, तुरियमाहूओ विवरीयत्तेण पक्खमासे वि चिट्ठइ, अज्ज पुण नियमेण निसाए आगमिस्सइ, ता तुमए हेट्ठिमभूमीए रयणवक्खारगएण जीवियरक्खा कायव्वा, सुए जहाजुत्तमायरेज्जा सि’ त्ति । ताहे ‘तो<sup>३</sup> खाइं तुरियं वाहरियव्वो’ त्ति भणंतो पुणरवि ताओ उट्ठीओ काऊण निल्लुक्को सुमित्तो । रक्खसो वि पओसपत्तो सहावत्थाओ ताओ काऊण ‘छी छी ! कहमज्ज माणुसगंओ ?’ त्ति वाहरंतो ‘नणु अम्हे चेव माणुसीओ’ त्ति विंतीहिं पच्चाओ एयाहिं । तओ रयणिमच्छिय वच्चंतो ‘देव ! वीहामो एगागिणीओ ता तुरियमागंतव्वं’ ति भणिओ गओ अभिप्पेयट्ठाणं ।

सुमित्तेण वि गहिया अंजणसमुग्गया, माणुसीओ काऊण ओयारियाओ ताओ । पुणो वि कयकमेल्गीभावाओ आरोवियरयणभारयाओ गहाय चलिओ महासालाभिमुहं । कइवयदिणंते य मिलिओ एगस्स भूयततनिउणविज्जासिद्धस्स । साहियसव्भावो य धीरविओ तेण । ताव य कयल्लक्खुवो घोरट्ठहासुत्तासियगयणचारिपोक्काचमक्कियतेलोक्को पच्चासन्नमागओ सो दुट्ठरक्खसो । तओ अचित्तयाए मंतमाहप्पस्स ‘रे रे ! पाविट्ठ ! दुट्ठ ! नट्ठो सि अणज्ज ! अज्ज’ ति भणंतेण थंभिऊण थाणु व्व निच्चलो धरिओ सो मंतसिद्धेण । विन्नायतम्माहप्पो य भणिउमारदो “अज्ज सच्चविओ तए ‘हुंति रक्खसाणं पि भेक्खस’त्ति जणप्पवाओ, ता मुंच संपयं, जमाणवेसि तं सव्वं करिस्सामि” । सिद्धेण वुत्तं ‘जइ एवं ता परिच्चय इमम्मि वेरभावं’ । सो आह ‘एवं, नवरमप्पावेहि मम पिययमाओ’ । तओ ‘नणु परवहूपत्थणाओ तवभंसं दारुणमरणं च पत्तो वि कह न मुंचसि एयासु अणुवंधं ? किं न तुट्ठो सि एरिसदोग्गईए ? जमणुचिए देवभावस्स, निवंधणे नरयानलसंतावस्स कुच्छियमणुस्सीसंगे अभिरमसि, सव्वहा विसज्जेहि एयाओ । एयं चेवाहमाणवेमि’त्ति सिद्धेण भणिए ‘एवं’ ति पडिवज्जिय दिन्नवायातिओ ‘वसउ संपयं महापुर’ति भणंतो गतो निसायरो । ततो सहरिसेण ‘अहो ! महासत्तो महासाहसिओ महाकारुणिओ य तुमं जेण परत्थसाहणवद्धवुद्धिणा एस दुट्ठो वि रोहिआं’ त्ति सलाहिओ मंतसिद्धो सुमित्तेण । तेणावि भणियं ‘सुपुरिस ! तुममेव पत्थुयथुडवायस्स उचिओ, जेण मंताइरहिणावि अगणियभएण एरिसं महासाहसमणुट्ठियं, महासुकयसंगओ य तुमं, कहमन्नहा एरिसावसरे मए सद्धिं समागमो ?’ त्ति । एवमाइ सुयणोचियसंलावमच्छिऊण गओ सकजेण विज्जासिद्धो । सुमित्तो वि सुहंसुहेण पत्तो महासाल । कयप्पहाणगिहपरिग्गहो तार्हि सद्धिमभिरमतो चिट्ठइ ।

इओ य सा रइसेणा सुमित्तमपेच्छंती परिचत्तभत्तवत्ता ठिया तिरत्तं । तओ कुट्ठीणए वराडियामेत्तं पि तओ रयणाओ अलहंतीए महाणुतावतवणतवियचित्त-गत्ताए विचित्तजुत्तिपडिवत्तिसारं भणिया तथा वि न मुयइ तयग्गहं ।

१ तल्लाभुल्लासियं जे०विना ॥ २ सङ्केतः-“साउल्लं प्रेम” ॥ ३ संकेतः-“तो खाइं ति आगमिकभाषाया तत व(ख) त्त्वित्यर्थ” ॥ ४ संकेतः-“निल्लुक्को त्ति प्रच्छन्नीभूत” ॥ ५ सङ्केतः-“लल्लक्क त्ति मीपण” ॥

भणइ य—

‘अवि दारुहि हुयासो तिप्पइ रयणायरो सवंतीहिं । न य तं तिप्पसि पावे ! तहाविदिंतेण दइएण ॥१५४॥

अवि आलिंमइ अंगं भयवं धूमदओ धुवं मज्झ । न उण सुमिक्ता अन्नो पुरिसो सरिसो वि मयणेण’ ॥१५५॥

एवं च कयनिच्छयं तं बहुप्पयारसवहेहिं काराविऊण पाणवित्तिं जाया सुमित्तमगणेकमणा बुद्धा । अन्नया

5 दिट्ठो कयसिगारो वरासन्नरच्छाए वोल्लितो । तओ तुरियं गंतूण सविणयमाणीओ निहेलणं, काऊण महंतपडिवत्तिं भणिओ य, ‘पुत्त ! जुत्तं किं नोम मह अकहिऊण पवसणं । अवि य—

जलपाणत्यनिविट्ठो उट्ठितो कहइ पंथिओ वत्तं । तं पुण दंसियनेहो कहमकहंतो पउत्थो सि ? ॥ १५६ ॥

किर कत्थ कत्थ न मए पुत्त ! गविट्ठो सि एत्थियं कालं ? । न य दंसणढाणेण वि कओ पसाओ तए अम्ह ॥१५७

एसा य मज्झ दुहिया संपत्ता पेच्छ पाणसंदेहं । न य निम्नेहा जाया मुक्का अवराहविरहे वि’ ॥ १५८ ॥

10 तओ सुमित्तेण ‘अहो ! धुत्तीए धट्टया जमेद्वहेत्तं पि अवराहं निण्हवेइ, तहा वि ‘न अन्नो चिंतामणिलहणो-  
वाओ’ त्ति भाविंतेण अदंसियवियारं भणियं ‘मा एवमन्नहा संभावेह, अहं खु उत्तालपओयणेण देसंतरं गओ अज्जं  
चेवागओ, विक्खणयक्खणयाओ य नेह पत्तो म्हि’ । एवमायन्निय ‘पम्हुट्ठविलीओ’ त्ति तुट्ठा कुट्टिणी, तहा वि  
‘चप्फलिया भविस्सामि’ त्ति न समप्पेइ चिंतामणिं ।

तओ कयाड वीसत्या भणिया णेण रइसेणा ‘पिए ! दंसेमि ते किं पि कोउयं जइ न रूसिहिसि’ । तओ  
15 ‘दंसेहि’ त्ति भणिए पुवंजणेण तं उट्ठवामं काऊण गओ समंदिरं । इयरी वि भोयणावसरे वाहरिया वाइगाए  
‘अट्ठिन्नपडिययण’ त्ति संभमाओ सच्चविया य । दट्ठूण य तहारुवं ‘किं मन्ने एयाए खइया होही ? नूणं रक्खसी  
एसा, कहमन्नहा एत्य पासायतले आरुह ?’ त्ति भीयाए सहसा उकूइयं वाइगाए । ताहे धाविओ परियणो  
सेसजणो य । जाओ सव्वेसिं विम्हओ । ‘को पुण तुह सुयाए भुयंगो ?’ त्ति पुच्छिए साहियं तप्परियणेण ‘अन-  
ज्जमाणगो देसंतरिओ को वि’ । तओ लोगो ‘सव्वन्नू होइ’ त्ति भणिउं पवत्तो ‘भदे ! एसा तुह धूया चेव, नूणं  
20 तेण टमालिएण कुओ वि विप्पियाओ एवं कया, ता जाव सो दूरं न वच्चइ ताव तुरियं रन्नो निवेएहि’ त्ति ।  
तओ कुट्टणीए सिग्घं गंतूण निवेइयं वीसयनिव्वस । तेणावि ‘न एरिसमव्भुयं मम मित्तादन्नस्स संभावीयइ’ त्ति  
संक्रिएण भणिया एसा ‘भदे ! केवइयकालो तुम्ह तेण सह समागमस्स ?’ । तीए भणियं ‘जम्मि दिणे देवेण  
नयरमेयं सणाहीकयं तओ आरव्व, नवरमंतराले चेव सो कहिंचि गतो आसि, अओ संपयं पक्खमेत्तो चेव’ । त्ति  
सोऊण संभंतेण निउत्ता राइणा नयरारक्खिया तदन्नेसणे, भणिया य ‘देवं व विणयसारं तं लहुमागमेह’ ।

25 तओ तं कुट्टिणचेडीढावियमणिच्छमाणं पि पेसलालावपरा वेत्तूणागया दंडवासिया । दूराओ चेव परिन्नाओ  
अव्वुट्टिऊण गाढमालिंगितो सो राइणा, भणियं च ‘सागयं महाधुत्तस्स मम मित्तस्स’ । तेणावि कयप्पणामेण  
भणियमोणउत्तमंगेण ‘देवपायप्पसाएणं’ त्ति । राइणा भणियं “चिट्टउ ताव सेसवुत्तंतो, कहेहि संपयं ‘कीस पुण  
एयाए वराइए कुट्टणीए दुहिया उट्टीकया ?” । सुमित्तेणं वुत्तं ‘जेण सयं चेव तरुपल्लवे चरइ, एइए भोयणव्वओ न  
होइ, वाहणंतरकओ य न संभवइ’ । ताव वाइगाए भन्नइ ‘होउ कवोलवाएण, पउणीकरेहि तं, दिट्ठं तुह जाउंड-  
30 विन्नाणं’ । नुमित्तेण संलत्त ‘पावे ! केत्थियमेत्तमेयं जाउंडं ? तुमं पुण महोयरिं रासहिं काऊण सयलनयरविट्ठाओ

१ नाम तहापवसणं जे०विना ॥ २ ‘द्वमेत्तावराहं पि निं’ जे०विना ॥ ३ सद्धेतः—“विक्खणयक्खणयाउ त्ति कायव्याकुलरगत” ॥ ४ पयमां जे०विना ॥ ५ चिंतामणी ध्रा० ॥ ६ सद्धेतः—“टमालिउ त्ति कोउकेन्द्रजालादिकर्ता” ॥ ७ कहेइ जे० ॥ ८ ण भणियं जेण जे०विना ॥ ९ संकेतः—“जाउंडविन्नाणं त्ति मन्त्रादिकृत कार्यम्” ॥

चारिस्सामि, जेण मम सामिसालनयरे असुहगंधो न होइ, समप्पेहि वा तं महारयणं' । राइणा वुत्तं 'मित्त ! केरिस्सं रयणं ?' । सो आह 'जस्स पसायाओ मए देवस्स तथा मज्जण-भोयणाइपडिवत्ती कया' । तओ कोवारुणलोयणेण राइणा 'धट्ठे ! पच्चक्खतकरि ! मम मित्तं मुससि ?' त्ति वुत्ता य भयसंभंता दंतग्गेहिं अंगुलीओ गहाय 'सरणं सरणं' ति भणंती निवडिया चलणेसु सुमित्तस्स कुट्टणी । तेणात्ति उव्वसामिओ नराहिवो, लद्धरयणेण पउणीकया रइसेणा । सा य विन्नायजणाणिचरिया जाया एगंतरत्ता सुमित्ते, त्तिट्ठपभावा य समणुकूलीभूया वुड्ढा, ओगणिया 5 सयरसारा दारिया, एवं जाया सव्वेसिं निव्वुई ।

अन्नदिणे नरवइणा वुत्तो मित्तो 'वयंस ! मं मोत्तुं । कत्थ गओ सि किमत्थं ? सुह-दुक्खं किं व पत्तो सि ? ॥१५९ कदसु य पुव्वुद्धिं मणिजुवल्लयलाभवइयरं तुरियं । कोऊहल-विरहेहिं चिरमाउलियं मणो मज्झ' ॥ १६० ॥

तओ सुमित्तेण साहिओ जहट्ठिओ मणिलाभवइयरो । तहा "किर मम मित्तो सुकयफलमणुहवंतो जाव सुहं चिट्ठइ तावाहं पि एयाणुभावलद्धेण इमिणा चिंतामणिणा विलसंतो मित्तमुहं च पइदिणमवल्लयंतो इहेव इच्छाचार- 10 सुहमणुभवामि किंचि कालं' ति कयसंपहारो गणियागिहे ठिओ म्हि, पुणो वि सेहेलीवंचणाओ देसंतरं गओ म्हि" इच्चाइसंजोगावसाणो सीसिओ सव्ववइयरो त्ति । एयमायन्निऊण विम्हिण्ण भणियं नराहिवेणं 'सुट्ठु ते ववसायसारया, सव्वहा सच्चमेयं—

विणयाओ गरुयत्तं, ववसायाओ मणिच्छिया लच्छी । पत्थातो आरोगं, सग्गो मोक्खो वि धम्माओ' ॥१६१ सुमित्तेण भणियं 'देव ! किं ववसाएण ? पुन्नमेव पहाणं जं ववसायं विणा वि सुहमावहइ, जेण य विणा ववसाओ 15 तिलैर्पिजो इव निप्फलो चेव हवइ । भणियं च—

जं दुल्लुहं जं जं जि दूरि जं दुग्गमि संठिउ, जं परवसु चिरकालसज्जु दुज्जणिहिं अहिट्ठिउ ।

तं सुहु चित्तियमित्तु जणह लीलइं संपज्जइ, जइ पुव्वज्जिउ धम्मलेसु सुंसहिज्जउ विज्जइ ॥१६२॥

पुन्नवहिओ य देवो जस्स लीलाए ललियंगणा इय सयमुवागया एसा रायलच्छी । अन्नं च जइ देवो चित्तं करेइ ता तं पि महापुर वसाविय समंडलमायरज्जे पवेसेइ' । एमाइ परोप्परं वन्नमाणाणमगाहसुहसायरनिव्वुड्ढमाणाण 20 ताण कालो वच्चइ ।

अन्नया कोउगवसेण गओ राया महापुर, तन्निससाए मिलियाओ तप्पयईओ ठियाओ नियनियगिहेसु । ततो ठाविऊण पुव्वनीईओ निरुविऊण य तयारक्खगे पडिगओ महासाल । परिवालिउं च पवत्तो सयलजणसला- हणिज्जं महारज्जं ।

[ वीरगय-सुमित्तनाममित्तजुयलकहाणय समत्त २ ]

25

❀

ता देव ! एस कहाणगपरमत्थो—

वच्चउ जत्थ व तत्थ व जं वा तं वा करेउ ववसायं । पुन्नाहिओ सुहाइं पावइ वीरगयाय व्व ॥ १६३ ॥

सोऊण भट्टकहियं कहियं एयं नराहिवो सहसा । चित्तइ "सुइसुहयाइं अव्वो ! चरियाइं धीराणं ॥ १६४ ॥

अवि य—

30

आवइसहस्सकसवइएसु धणियं कसिज्जमाणस्स । पुरिसस्स सुवन्नस्स व माहप्यं पायडं होइ ॥ १६५ ॥

१ सङ्केतः—“सेहलि त्ति गणिका” ॥ २ सङ्केतः—“तिलैर्पिजो त्ति निप्फलतिल” ॥ ३ इं जं जम्मि दूरि जे० ॥

४ सुसहेज्जउ ख१ आ० ॥

पु० १३

को नाम नरकुरिंटयपसवं संसइ सुखकलियं पि । अब्भुयभूओ भुवणं भमेइ जत्तो न जसगंधो ? ॥ १६६ ॥  
को उत्तमाण माणो कुलकमेणाऽऽगयाए भूईए ? । खायंति आमिसं कुकुरा वि तुट्टा पहुविदिन्नं ॥ १६७ ॥  
उव्वहउ पुरिसवायं एको पंचाणणो पयडगव्वं । नियविकमेण पत्तो मइदसदो जए जेण ॥ १६८ ॥

ता सव्वहा देसंतरं गंनूण करेमि नियपुन्नपरिक्खं” । ति संपहारिय निवेइओ णेण नियाभिप्पाओ पुन्नमदसचि-  
5 वस्स । तेणावि भणियं’ देव ! को तुम्ह इच्छाभंग करेइ ? तहा वि विन्नवेमि—दुग्गमाइं देसंतराइं, वहुअवाया मग्गा,  
छिद्वन्नेसिणो पच्चत्थिणो, अणायाससहं च देवसरीरं, अओ पालेह पत्तरज्जं, एयं चैव महापुन्नफलं, किं फलंतर-  
समीहाए ?’ एमाइ वहुं पि मंतिणा भणिओ न ठिओ राया । काऊण य मंतिगुत्तं पच्छिमनिसाए खग्गसहाओ  
निग्गओ नयराओ, चलिओ उत्तराभिमुहो । कइं ?—

उच्छाहरहारूढो अंगीकयपुन्नसेन्नसन्नेज्जो । परिओसनिव्वरो रायवाडियं काउकामो व्व ॥ १६९ ॥  
10 पेच्छंतो नाणाकोउगाइं गुरुगाम-नयर-निगमेसु । दीसंतो विम्हयरसफारियनयणाहिं तरुणीहिं ॥ १७० ॥  
जस्सेव गिहे पविसइ देवो इव निद्ववंधुवुद्धीए । कयसम्माणो सव्वेण तेण धणियं धरिज्जंतो ॥ १७१ ॥  
अकुणंतो पडिवंधं कत्थइ सुणिपुंगवो व्वऽणुविग्गो । पत्तो कयाइ वियडं नरवसहो भीसकंतारं ॥ १७२ ॥  
सज्जा-ऽऽरवंज-वंजुल-वड-वेडसि-कुडय-कडहपडहत्थं । अंकोल्ल-विल्ल-सल्लइ-कयमाल-तमाल-सालड्हं ॥ १७३ ॥  
निवंव-उंव-उंवर-काउंवेरि-वोरि-केर-खइरघणं । पिप्पल-पलास-नल-नील-झिल्ल-भल्लायइकैडिल्लं ॥ १७४ ॥  
15 जंबु-कयंवंविलिया-कवित्थि-कंधारि-थोहरापउरं । टिंवरुणि-वरुण-अरहुय-सिरीस-सीवन्निंसकिन्नं ॥ १७५ ॥  
हिंताल-ताल-सीसम-समि-सिंवलि-लग्ग-सग्ग-वव्वूलं । धव-धम्मण-घणवेणुय-पालेइ-हलिह्दुयाइं ॥ १७६ ॥  
तडवडय-अक-कंकइ-कंटिय-खिरि-भिडियालिदुग्गम्मं । घणसेलि-सेल्ल-झिंझिणिविणिवारियचलणसंचारं ॥ १७७ ॥

ततो—

अगणितो पंचमुहे गुंजंते गरुयगिरिनिगुंजेसु । निज्झायंतो निहुयं पमुत्तवैग्घे घुरुकंते ॥ १७८ ॥  
20 केसरिल्लिप्पायंपियतरुत्थविहंगविरुयतुमुलेण । मुहलियमासाचकं निव्वन्धितो समंतेण ॥ १७९ ॥  
जा केत्तियं पि पत्तो वणभूमिं ताव पेच्छइं पुरओ । कंठत्थकणयदोरं सविज्जुयं पाउसघणं व ॥ १८० ॥  
सवणगयसंखमालं गयणं व वलायपंतिसंजुत्तं । लंबंतवाल्लगहवइसच्छहपवरंकुसक्खधं ॥ १८१ ॥  
मंजुलघंटासिंजियउग्गीवीकयकुरंगसच्चवियं । वरवारणमइसयचोच्चकारणं नियइ नरनाहो ॥ १८२ ॥  
‘कह पुण एत्थारन्ने एवसरूवो करि ?’ ति चिंतंतो । करिणा वि ज्ञत्ति दिट्ठो हरि व्व भयविरहिओ एसो ॥ १८३ ॥  
25 ऊसियमुंडादंडो पत्तो तत्तो निवंतिय दंती । अभिरामिऊण सुइरं वसीकओ पत्थिवेणावि ॥ १८४ ॥  
अह गयणमंडलाओ रन्नो कंठम्मि निव्वडिया जत्ति । ‘रुंटिररसाउजाला अउव्वगुंफा सुमणमाला ॥ १८५ ॥  
विम्हयवसेण सहसा निज्झायंतेण नहयले निमुयं । वच्चंतीणं जुवईण जंपियं ‘साहु वरियं’ ति ॥ १८६ ॥

ततो विम्हयरसमणुहवंतो कयथिरासणवंथो कुसुमदामोवसोहियखंधो मणपवणवेगेण महानागेण पसंत-  
परिस्समदुहो पत्थिओ उत्तराभिमुहो । दूरंतरपत्तो य मगयमुप्पन्नतण्हायवसंतावो पेच्छइं पुरओ विविहविहंगकोला-  
30 हलमुहलं वेळंतमहल्लकल्लोलमालियापणोल्लणापयइविसइकंदोइनइविमलजलं सिणिद्धवणराइरायंतमहंतपरिसरं एगं  
महासरं । ततो—

१ ‘उंवरि-वोरि-कइर’ आ० ॥ २ सङ्केतः—“कडिल्लं ति गहनम्” ॥ ३ ‘वग्घे उ घोरंते जे०विना ॥ ४ सङ्केतः—“ल्लिप्यं ति पुच्छम्” ॥ ५ सङ्केतः—“रुंटिररसाउ ति गुञ्जमरा” ॥

चिरविरहियं व वंधुं दट्टूण पढट्टवयणकमलेण । रयणसिहवसुहवइणा तयहुत्तं चोइओ दंती ॥ १८७ ॥

सो वि उदन्नास्दिन्नो ओइन्नो तुधमेव तस्संतो । पीयजलो परिकीलिउमारद्धो तह सइच्छाए ॥ १८८ ॥

राया वि तं मोत्तूण महामच्छो इवालोडियजलुप्पीलं खणं मज्जिऊण समुत्तिन्नो सराओ । ताव य उवणी-  
याडं से वणदेवयाणुगारिणीए तरुणीए महग्घमुल्लाइ दुगुल्लाई, तयणु समप्पियं सव्वंगोवंगपसाहणं पज्जत्तमाहरणं,  
पुणो ढोइयं पुप्फविलेवणाणुगयं सकप्पूरेला-कंकोलं तंवोळं, भणियं च 'सागयं अउव्वदेवस्स' । राइणा भणियं 5  
'भद्रे ! कइमउव्वदेवो हं ?' । तीए बुत्तं—

'आराद्धिया वि सुइरं दिंति न वा निव्वुडं सुरा सव्वे । दिन्ना अम्ह सहीए तुमए जं दिट्ठमेत्तेण' ॥ १८९ ॥

ताहे 'का एसा तुह सही ? कइं कया वा हं तीए दिट्ठो ?' ति राइणा पुच्छिए पकहिया एसा—

अत्थि इओ उत्तरदिसाए पुहइमंडलमाणदंडमिन्न पुव्वान्-उवरोयद्विपत्तपेरंते वेयइणाभिहाणसाणुमंते सुररायहाणी-  
रमणीयं सुरसंगीयं नाम नयरं । तत्थ य सयलमाणिणीमाणमूरणो सुपक्कपरचक्कचूरणो समत्थअत्थिसत्थमणोरहपूरणो 10  
सूरगो नाम राया होत्था । तस्स य सयमभा-महापमाण पियपणइणीणं ससिवेग-भूरवेगा विसिद्धविज्जा-वलजुत्ता दुवे पुत्ता ।

अन्नया रवितेयचारणमुणिसमीवे सुयधम्मो ससिवेगं नियपए निवेशिय पव्वइओ सुरणराया । ससिवेगो वि  
रज्जमणुवाल्लिउं पव्वत्तो । तल्लीलावलोयणाओ रज्जकामी जाओ सूरवेगो । तओ महासाहणं सुवेग माउलंगं सहायं  
काऊणमुव्वट्ठिओ सगामेण ससिवेगस्स । सो वि 'असमाणविग्गहो' ति कलिय मंतिवयणाणुवत्तीए सवल-वाहणो  
निग्गंतूण इमीए त्रियडाडवीए, इओ सुगिरिपव्वयाओ परेण नवनिव्विद्धनयरे ठितो । अत्थि य तस्स नयणनिमेस- 15  
मेत्तुव्वासियसुरवहुवेहम्ममा चदप्पभा नाम दुहिया । तं च दट्टूण समाइट्ट नेमित्तिणा 'जो एयं वीवाहिस्सइ तओ  
तुम्ह मरज्जसंपत्ती भविस्सइ' । 'कइं पुण सो नायव्वो ?' ति पिउणा बुत्ते भणियं तेण 'सुग्गीवपुरसामिगंधसिंधुरं  
महादप्पुद्धरं इहारन्ने परिव्वमंतं जो वसे धरिस्सइ' ति । तओ तद्विदसाओ आरव्व निउत्तविज्जाहरेहिं पडियरिओ  
अणुदिणमेस गंधहत्थी जाव दिज्जो कुवुरिसो व्व कुलमेरमालाणं मोत्तूण पट्ठिओ उम्मग्गेण गालियमिंठो पविट्ठो  
एत्याडवीए । अओ अज्ज जणयाएसागयाए सहीसंगयाए नहगामिणीए अम्ह सामिणीए दंतकंतिउज्जोइयनहाए 20  
तीए चंदप्पभाए वसीकयकरिरायाणं देवपायाणं सउकंठं कंठमारोविया वरमालिया, एयं च वत्थाइयं समत्थं तीए  
चेव देवस्स पेसियं' ति । जाव खेयरी तस्स एत्थियमाउक्खइ ताव उम्मगलग्गजलहिवेलाविव्वमं समंतओ पस-  
रंतमागयं कुओ वि तुरियवेगं तुरंगसाहणं । तं च सव्वियकं पलोयंतो राया 'देवो' ति मन्नमाणेण पणामपुव्वं विन्नत्तो  
एगेण अस्सवारेण 'पसायं काऊण साहेउ देवो,

जो एयं मत्तगयं अहिरुद्धो आगओ नरो नणु सो । कत्थ गओ चत्तगओ ? अवि कुसलं तस्सरीरस्स ?' ॥ १९० ॥ 25

तो भन्नइ खयरीए 'हत्थि हरिऊण आगओ किं सो । जं एवमन्निसिज्जइ ?' आह तओ 'न खल्ल एवं तु ॥ १९१ ॥

मन्ने साहसतुट्ठो अम्ह पहू तस्स दसणं महइ । को पुण जाणइ तत्तं हिययगयं गुरुगभीराणं ? ॥ १९२ ॥

ता काऊण पसायं भैणह फुडं तप्पउत्तिमेत्ताहे । तयउदंसणे अव्वसं न सामिणो निव्वुई होइ' ॥ १९३ ॥

तो भणइ तयं खयरी 'कयंतभीमो महाकरी एस । किं माणुंसेण दम्मइ ? दंतो देवेण खल्ल इमिणा ॥ १९४ ॥

ता एयं तुह सामी पेच्छउ एत्थेव संठियं हँच्छं । जइ निव्वुईए कज्जं, सुंदर ! एसेत्थ परमत्थो' ॥ १९५ ॥ 30

एयमायन्निय सविम्हयं साहियमणेण नियसामिणो वसुतेयरायस्स । तेणावि 'अर्चितणीयाइं पुण्णविलसियाइं,  
अमोहाडं च मुणिवयणाइं, ता होयव्वं तेण पुरिसोत्तिमेणं' ति भाविऊण पेसिओ तस्समीवं पहाणमंती । एत्थंतरे

पडिगया सद्वाणं विज्जाहरी । तओ विविहविणयपडिवत्तीहिं आवज्जिऊण मंतिणा नीओ रायसमीवं रयणसिहो । गयवरो वि ओयोरिओ सराओ महामिंठेण । तओ 'सिद्धपओयण' ति सहरिसं पत्तो सुग्गीवनयरं वसुतेओ । तओ वि अणेगभंगसम्माणमहग्घं परिणाविऊण अट्ट कन्नयाओ ठाविओ णेण नियरज्जे रयणसिहो, भणिओ य 'महाभाग ! भगवओ सुमंगलकेवलिसस वयणेणावगयसंसारासारभावो निव्विन्नो म्हि दढमिओ नरयनिवासनिबंधणाओ रज्जवं-  
5 धणाओ, अविज्जमाणरज्जारिहपत्तस्स य तेण चेव भगवया गंधहत्थिगहणचिंधेण तुमं ममोवइट्ठो सि, ता इह-परलो-याविरुद्धववहारेण वट्टेज्जासि, अणुजाणाहि य मं संपइ पव्वयामि' ति । रयणसिहेणावि दक्खिन्नसारयाए पडिवन्ना तयव्भत्थणा । चित्तियं च—

'साहीणा रायसिरी मुच्चइ जुभं तणं व सहस ति । अवो ! साहसभरियं उत्तमचरियं महच्छरियं ॥ १९६ ॥

अहवा—

10 मुंचंति सिरिं तुरियं विरत्तचित्ता नर ति किं चोज्जं ? । उप्पन्नविलीया खल्ल वमंति भुत्तं मणुभं पि ॥ १९७ ॥  
तओ पसत्थे तिठ्ठि-करण-मुहुत्ते विहिणा गुरुसमीवे पवन्नो धन्नो सामन्नं वसुतेओ । रयणसिहो वि पत्तसम्मत्तो जाओ महाराओ ।

अह विन्नायपउत्ती ससिवेगो सयलवलसमिद्धीए । आगंतूण पयच्छइ चंदप्पहदारियं तस्स ॥ १९८ ॥

अवराइय च विज्जं अणेगविज्जासहस्सपरिवारं । वियरइ विहाणसाहणसारं कयकामियविहारं ॥ १९९ ॥

15 नाऊण वइयरमिणं सुवेगविज्जाहरो बलुम्मत्तो । कयगयरुवो पत्तो सुग्गीवपुरंतियवणंते ॥ २०० ॥

कोउगवसेण तग्गहणलालसो अप्पसाहणसमेओ । संपत्तो रयणसिहो सीहो इव तं वणं तुरियं ॥ २०१ ॥

कीलाविऊण मुइरं विचित्तकरणेहिं जाव सो तहियं । आरूढो ता सहसा उप्पइओ नहयले एसो ॥ २०२ ॥

तओ असंभंतेण ताडिओ णेण वज्जडंडचंडेण मुट्टिणा मत्थयपएसे । तओ महापहारविहुरो पम्हुट्टमंत-  
चित्तणो सहावरुवत्थो निवडिओ धरणीए । 'को पुण एसो ?' ति सविम्हयं सच्चवित्तेण य 'नमो अरहंताणं' ति  
20 भणंतो सुओ रयणसिहेण । ताहे 'अहो ! साहम्मिओ आसाइओ' ति संभंतेण सिंचाविओ नीरेण, पवणाइपओगेण सत्थीकाऊण भणिओ य 'महासत्त ! साहु साहु ते सम्मत्तं, जमावइकाळे वि नमोकारं करेसि, खमसु ममावराहं जमन्नायतत्तेण दढं पीडिओ सि' । तेण भणियं "सुसावग ! को तुहाविन्नायतत्तस्स दोसो ? अहं चेव महापावो जो जाणंतो वि भवओ महासाहम्मियस्स पावं ववसिओ म्हि । अवि य—

भोगग्गहग्गहिया कज्जा-ऽकज्जं जिया न याणंति । चेयंति न अप्पाणं विलीणवग्गं विगुत्तं पि ॥ २०३ ॥

25 पेच्छइ लुद्धो दुद्धं मुद्धो मज्जारपोयओ पुरओ । न उणो चंडं डंडं झड ति निवडंतयं सीसे ॥ २०४ ॥

एसो य एत्थ परमत्थो—चक्कउरनयरनाहो सुवेगो नाम अहयं, निव्वासिओ य मए भइणिनंदणपक्खवायाओ जणयविदिभरज्जो ससिवेगखेयरो, 'तस्स पुण जामाउगाओ सरज्जलाभो होहि' ति सोऊण तुह वहपरिणओ करि-  
रूवेणाहमेत्थागओ म्हि, वोहिओ य तुमए साहम्मियवच्छलेण ।

दढताडणं पि मुहयं जायं मम वोहिहेउभावेण । तित्तकडुयं पि पत्थं ओसहमिह सन्निवाइणं ॥ २०५ ॥

30 पायच्छित्तमिणं चिय मन्ने साहम्मियप्पओसस्स । जं गंतुं गुरुमूले कीरइ मुद्धं तवच्चरणं ॥ २०६ ॥

ता सव्वहा पडिच्छाहि तं मम रज्जं, अहं पुण ससिवेग खामिऊण साहेमि नियसमीहियं" । एवं भणंतस्स चेव तस्स चरखयराओ नायवुत्तंतो समागओ तत्येव ससिवेगो । खामिऊण य बहुविहं भणिओ सुवेगेण 'सव्वहा एयं मम

बंधवं मम रज्जे निवेसिज्जासि' । सो वि भणिओ रयणसिह-ससिवेगेहिं 'महासत्त ! भुंजाहि ताव कुलकमागयं रज्जं, पच्छा परिणयवओ तवोवज्जणे जएज्जासि त्ति, जओ दुज्जओ इंद्रियग्गामो, दुरहियासा परिसहोवसग्गा, पवणुद्धु-यथयमाचंचला मणोत्रिती, महाणत्थनिबंधणं च वयभंगो' । त्ति भन्नमाणो वि महावेरग्गजोगतो गओ सुगुरुसगासं सुवेगो, पव्वडओ य । इयरे वि रज्जमुत्थं काऊण गया चक्कउर । कमेण य जाओ विज्जाहरसेढिसामी रयणसिहो । सूरवेगो वि अत्रगयमाउल्लुत्तंतो समुग्गाउग्गसंवेगो धरिज्जमाणो वि भाउणा पवन्नो मोक्खमग्गं ।

अह दिट्ठउत्तरुत्तरमुहसंताणो सपुन्नमप्पाणं । मधंतो रयणसिहो सुत्थीकयसयलसुहि-सयणो ॥ २०७ ॥

जिण-गणहर-केवलिणो वंदंतो सयलमणुयलोगम्मि । जड-चेइयकयमहिमो पालइ सम्मत्तवररयणं ॥ २०८ ॥

एवमणेगे लक्खा वासाणमइच्छिया अह कयाइ । पिच्छइ सागेयपुरे ओसरियं जिणवरं सुजस ॥ २०९ ॥

तत्तो भत्तिवसुग्गयरोमंचंचियतणू विणयपणओ । भालकयपाणिपंकयसंपुडमह थोउमाढत्तो ॥ २१० ॥

जेय जय जयजणवच्छल ! छलजलहरपत्रण ! वणयसमनयण ! ।

नयण-मणपमयवद्दण ! धण-कण-कणयक्खणयसमण ! ॥ २११ ॥

समणमणभसलजलसय ! सयत्थसत्थत्थपयडणसमत्थ ! । मत्थयनमंतनरवरवरवरय ! वरग ! गयसंग ! ॥ २१२ ॥

संगरगररससयगय ! गयमच्छर ! मयणमयणदढजलण ! । जलण-जल-सप्पभयहर ! हरहसधवलयरजसपसर ! २१३

सरणपवन्नसरभय ! नयसय-गमरम्मसम्ममयसमय ! । मयमयगलनहपहरण ! रणरणय-भय-वभमसवत्त ! ॥ २१४ ॥

वत्तसयवत्तगहवर ! वरकलस-लसंतसंख-चक्कं ! । कंकफलसरलनयणय ! नयपमयअसत्त ! अपमत्त ! ॥ २१५ ॥ 15

मत्तगयगमण ! गयमण ! मणगयसंसयसहस्सतमतवण ! । तवणप्पहपहपहयर ! पहयर ! परमपयनयरस्स ॥ २१६ ॥

इय पढमसरनिवद्धं घणक्खरं गहियमुन्नयपयड्ढं । काऊण संथवं भत्तिनिवभरो नरवरो पणओ ॥ २१७ ॥

नमिऊण य मुणिवग्गं सेसं पि महीयले सुहनिसन्नो । सिरकयकरयलमउलो जिणवयणं सोउमारद्धो ॥ २१८ ॥

अवि य—

एत्थ णं भवकंतारे कम्मायत्ता सरीरिणो । निन्नुन्नएसु ठाणेसु संचरंति निरैतरं ॥ २१९ ॥

एगया नरयं जंति, देवलोगमहेगया । माणुसत्तं समायंति, तेरिच्छं पि पुणो पुणो ॥ २२० ॥

पुढवी-आउ-तेऊसु वाउकाय-वणेसु य । वेइंदियाइभावेण संभवंति मुहु मुहुं ॥ २२१ ॥

रायाणो होंति रंका य, वंभणा य जणंगमा । दरिहा य धणड्ढा य गुणड्ढा निग्गुणा वि य ॥ २२२ ॥

सुरूवा रूवहीणा य, महासुक्खा वियक्खणा । काणा कुंटंथ-पंगू य, कल्ला वहिर-मूयगा ॥ २२३ ॥

सुभगा दुवभगा, सूरु कायरा, रोगि-नीरुया । सुस्सरा दुस्सरा, पुज्जा निंदिया, वलिणोऽवला ॥ २२४ ॥ 25

भोगिणो भोगहीणा य, दुक्खिया सुहिया सया । अकलंकसमायारा हीणायारपरायणा ॥ २२५ ॥

एवं जीवा भवारत्ते अणाईए निरंतए । पुन्न-पावस्सहावेण भामिज्जंति सकम्मणा ॥ २२६ ॥

मिच्छावोहदिसामोहा मूढा मोत्तूण वत्तिणिं । कुजोणिकंटिगुम्मेसु विलग्गंति अणंतसो ॥ २२७ ॥

चित्तपासंडिधुत्तेहिं पेड्डिया वि पडिप्पहं । चेयंति नेव अप्पाणं पाणिणो पावमोहिया ॥ २२८ ॥

१ संकेतः—“जय जयेत्यादिस्तोत्रे घणयं [ गा २११ ] ति वनज कमलम्, पमय [ गा २११ ] ति प्रमद-हर्ष । जलसयं [ गा २१२ ] ति कुशेशयम् । सयगय ! [ गा २१३ ] ति सदगदा-सदौषध । सम्ममय [ गा २१४ ] ति सम्यमत, सवत्त ! [ गा २१४ ] ति सपत्न-शत्रो ! । वत्त० [ गा २१५ ] ति जनानां वक्त्राण्येव शतपत्राणि तत्र प्रहवर !, नयपमयअसत्त ! [ गा २१५ ] ति कामार्थनाया नतास्वपि प्रमदासु असक्त !-असम्बद्ध ! । तवणप्पहपहपहयर ! [ गा २१६ ] ति तपनप्रम-रविसम-प्रमापहकर-प्रमासमूहो यस्य” ॥ २ मिच्छामोहदिसां जे० ॥



जया उप्पन्नजोगेण नाणिणं मग्गदेसयं । पाउणंति तथा धन्ना मग्गे लग्गंति केइ वि ॥ २२९ ॥

एयं नाऊण भो भव्वा ! पुन्न-पावत्रियंभियं । पावहेउपरिच्चाया पुन्ने कुणह उज्जमं ॥ २३० ॥

एयमायन्निय सकोउगेण भणियं राइणा 'भयवं ! केरिसं पुण पुरा पुन्नमुत्रजियं मए जस्स फलं संपयमणु-  
हवामि ? । भगवया भणियं 'पंचनमोकारसरणनिच्छयमाहप्पणिणं' ।

5 अवि य—

भद्वयभावो भव्वो ऐत्तो पावेइ सुद्धसम्मत्तं । सम्मद्धिद्वी विरइं, विरओ सिवसंपयं खिप्पं ॥ २३१ ॥

जे पुण सुह-सोहग्गं रूवं लच्छी पहुत्त-देवत्तं । एयं पलालकप्पं पसंगपप्पं अणप्पं पि ॥ २३२ ॥

इय सव्वगुणट्ठाणगकारणमेसो महापभावो य । इह-परभवसुहजणओ पहाणमंतो नमोक्कारो ॥ २३३ ॥

एमाइगुणविसिट्ठे सिट्ठे भगवया जिणनमोकारमाहप्पे निसामियनियपुव्वभवो भवविरत्तचित्तो सुयस्स रज्जं

10 दाऊण काऊण य विसुद्धं संजमं समुप्पन्नदिमलकेवल्लो पाविओ सिवपयं रयणसिहो महारिसि ति ॥

[ रयणसिहकहाणयं समत्तं ४ ]

\*

रयणसिहचरियमेयं आयन्निय विमलकित्तिपुहईसो । भववासपासविमुहो सिवसुहसंगे कउच्छाहो ॥ २३४ ॥

देवरहम्मि रहम्मि व अरिक्कलिए निद्धवंसकयसोहं । रज्जझयं आरोविय निक्खंतो धम्मवसुमूले ॥ २३५ ॥

15 देवरहो वि नरिंदो सहिओ रयणावलीए देवीए । सम्मा-ऽणुव्वयधारी तिवग्गसारं कुणइ रज्जं ॥ २३६ ॥

जिणमयरत्तो मुणिजणभत्तो, चेइयपूयामद्धिमपवत्तो । जिन्नुद्धारे रम्मविहारे, कारइ तत्तो दढसम्मत्तो ॥ २३७ ॥

रहजत्ताओ पज्जत्ताओ, वारियमिच्छो कुणइ महिच्छो । जिणपडणीए कुणइ विणीए, सयले रज्जे सिवसुहकज्जे ॥

तहा—

नाएण जणे, चाएण दुत्थिए, पंडिए विथारेण । सरलत्तेण य सुयणे हयहियए सो सया कुणइ ॥ २३९ ॥

20 कालेण समुप्पन्नो पन्नोहामियगुरू गुरुपयावो । रयणावलीए पुत्तो जणमणहरसयलगुणजुत्तो ॥ २४० ॥

जाए तेयवभहिए रज्जभरसहे वि तम्मि वरकुमरे । भावियजिणवयणस्स वि न संजमे अत्थि से विरियं ॥ २४१ ॥

जाहे न चयइ छेतुं पुत्त-कलत्ताइनेहसंदाणं । ताहे करेइ पूयं विसेसओ सयलसंघस्स ॥ २४२ ॥

पुंवि पिव रज्जधुराधरणे विणिओइऊण सुयधवलं । उज्जुत्तो संवुत्तो सामाइय-पोसहाईसु ॥ २४३ ॥

कालेण तिव्वतवसोसियसव्वदेहो, मंदायमाणधण-माणिणि-मित्तनेहो ।

25 सव्भात्रणागयमणो मरणं अक्कासी, जाओ सुरो तयणु आणयकप्पवासी ॥ २४४ ॥

रयणावली वि तन्नियमभाविया साविया विरं होउं । भत्तपरिन्नाविट्ठिणा पत्ता तत्थेव देवत्तं ॥ २४५ ॥

एगम्मि सुरविमाणे वुत्था ते नेहनिव्वरा दो वि । एगूणवीस सागरनामाइं किंचि अहियाइं ॥ २४६ ॥

इय पुहइचंदचरिए देवरहसमणोवासगचरियं चउत्थं भवगहणं समत्तं ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-८४५ ]

## [ पंचमो पुण्यचंद्र-पुष्पसुंदरीभवो ]

अह अस्थि जंबुदीवे सुपुक्खले पुक्खले वरे विजए । नयरी दुहा विसाला तिहा सुसाला सिवी नाम ॥ १ ॥

जीए परिओ सराइं सहंति परिओसराइं लोयस्स । कयतियसामोयाइं सामोयाइं च विविणाइं ॥ २ ॥

निसिचंदमणिजलडुहं रविमणिजलणुम्हसोसियं दिवसे । वासा-गिम्हरणं पिच पयडेइं घरंगणं जत्थ ॥ ३ ॥ 5

जत्थ य अणिट्टसंपओगा इट्टसंपओगा, अणिदियाइं इंदियाइं नर-नारीणं । तथा अमाणधणा माणधणा, अधम्मधारिणो धम्मधारिणो, असावया सावया, अप्पमयाओ पमयाओ, अगणियाओ गणियाओ । किंच—

अहणो मुणिवग्गो च्चिय, नाराओ च्चिय निरक्खरो तत्थ । गयणेहो विहगगणो, बहुलोहो कइयणो चेव ॥४॥

सूरा सुहया विउसा धणिणो वि न दूसिया मयलवेण । चित्तं जं गयराया भमंति मयविम्हला तहियं ॥ ५ ॥

ताए पवरपुरीए पट्ट पट्टयत्थविणिमए निउणो । पूरियपणइजणासो पच्चक्खो धणयजक्खो व्व ॥ ६ ॥ 10

नामेण सीहसेणो पुरुसेणो रिउक्खोयगणसेणो । नीसेसमहामहिहरगुणगणंटिविडिक्किओ होत्था ॥ ७ ॥

तद्वाहि—सो मंदरो इव सयलगोत्तुंत्तमो, हिमसिहरि व्व तुंगसरलुत्तरो, उदयाचलो इव उदयहेज्ज मित्तमंडलस्स, सज्जगिरि व्व आलिंगिओ नम्मयाए, विज्जेपव्वओ व्व पसाहिओ महामयारिकलहवणराईहिं ति । तस्स य गिरिचूल व्व कल्लौवियडुहा, लवणजलहिवेल व्व अट्टियसलोणभावा, कोउल व्व महुरघोसा, सरयसिरि व्व मयलंछणुज्जलासा पियगुमजरी नाम महादेवी । जा य किर—

15

गंग व्व सेंत्तरंगा, बहुविणया फल्लिणसाहिसाह व्व । सुययासगुणा दिगमणितणु व्व, सरसीव सुविलासा ॥८॥

तीए रज्जसिरीए व सुंहयाए समणुरत्तपत्तीए । जणियाणंदो सययं गमेइ कालं स भूवालो ॥ ९ ॥

अह सो देवहजिओ अइवाहिय सुरभवं सुहुत्तं व । पुन्नावसेसपवणप्पणोल्लिओ आणय मोत्तुं ॥ १० ॥

पत्तो पियगुमजरिदेवीए उँयरुमंदिरे विमले । संपुन्नचंद्रसुविणयपुरस्सर पुत्तभावेणं ॥ ११ ॥

देवय-गुरुगुरुपूयादोहलसंपत्तिपत्तपरिओसो । जाओ पसत्थजोए मणोहरो पुन्नरासि व्व ॥ १२ ॥ 20

कयचारयाइमोक्खं सोक्खं नायरजणस्स जणयंतं । कारावियमह पिउणा वद्धणयं पमयवद्धणयं ॥ १३ ॥

१ इत् पूर्व जे० प्रतीं लुं नमो जिनाय ॥ इति पाठ उपलभ्यते ॥ २ संकेतः—“विसाल ति विस्तीर्णा, विशेषेण च शालते विड्भिर्वा-वैश्यैर्युक्ता । शोभन सालः-प्रकार, शाला -गृहैकदेशा वृक्षाश्च यस्याम्” । “सुप्राकारा, सुचित्रवृक्षादिशाला, सुलक्ष्मीवती मत्वर्याय आलप्रत्यय ।” ख २ टि० ॥ ३ सङ्केतः—“परित सरासि, परितोप रान्ति-ददतीति । कृन्त्रिदशानामामोद-प्रमोदो ये, सामोदानि च-सपरिमलानि ॥ ४ जलहं रं जे० ॥ ५ सङ्केतः—“अनिष्टया-अनन्तया सम्पत्तिसम्प्रतिपत्त्या योगो येषु । न निन्दितानि अनिन्दितानि । धमान-मानातिक्रान्त धन येषाम् । धर्म-धनुर्न धारयन्तीत्येवशीला” । न शापम्-आक्रोश ददति, यद्वा सह आपदाभिर्वर्तन्ते ये, तन्निषेधाद् असापदा । अल्प अप्रवृष्टो वा मदो यासाम् । न गणिता अनल्पा इत्यर्थ” ॥ ६ सङ्केतः—“गगने ईहा-चेष्टा यस्य । बहुल ऊह-वितर्को यस्य” ॥ ७ संकेत -‘गतरागा गजराजाश्च” ॥ ८ पुरिसेणो भ्रा० । सङ्केतः—“पुरिसेणो ति पुरुषाणाम् इन-स्वामी” ॥ ९ सङ्केतः—“टिविडिक्किओ ति मण्डित” ॥ १० सङ्केतः—गोत्रा-पर्वता, गोत्र च वश । तुन्ना सरला-देवदारवो यत्र स तथा, उत्तरश्च-उत्तरदिगाश्रित, तुङ्गसरलेषु नरेषु उत्तर-प्रवानम् । नर्मदया नम्रतया च । महान्तो मृगारय कलभाश्च यासु वनराजिषु तामि, महामदानामरीणा कलहे-सङ्ग्रामे या व(त्र)णराजयस्ताभि” ॥ ११ पव्वओ इव पं ख १ भ्रा० ॥ १२ संकेतः—“कलापिभि-मयूरैराढया, कलापिश्च विदग्धा । मृगलाञ्छनेनोज्ज्वला आशा-दिशो यस्याम्, मृगलाञ्छनवदुज्ज्वलम् आस्य-मुख यस्या” ॥ १३ संकेतः—“सन्त - शोभनास्तरङ्गा यस्याम्, सत्तराणि च-शोभनतराण्यङ्गानि यस्या । बहुविनता, बहुविनया च । शोभनप्रकाशगुणा, सुपदा सगुणा च । शोभन वीनां लास्य यत्र, [ सुविलासा च ]” ॥ १४ रज्जसिरीय च ख २ ॥ १५ संकेतः—“सुट्ट हया-अथवा यस्यां तथा, सुखदया च । समनुरक्ता पत्तय-पदातयो [ यस्याम् ], समनुरक्ता चासौ पत्नी च” ॥ १६ उदरं जे० विना ॥

ठवियं च तस्स सुविणाणुसारओ सम्मएण वंधुणं । नामं जणाभिरामं सुवासरे पुत्तचदो त्ति ॥ १४ ॥  
सयलकलासिरिकलियं तारुन्नमहन्नवं पि ओइन्नो । न हि वाहिज्जइ धन्नो जेल्लप्यारेण थेवं पि ॥ १५ ॥  
तद्वाहि—

वसणी कलाकलावे कीलइ पण्होत्तराइकव्वेहिं । कुणइ विणोयं गंभीरभावपत्थावपाढेण ॥ १६ ॥

५ लज्जइ जूयकहाए, उव्वियड विलासिणीण वत्ताए । न सहइ नामं महु-मज्ज-मंस-पारद्धिगिद्धाणं ॥ १७ ॥

अह रयणावलिदेवो दीवो इव पवणपेल्लिओ सहसा । चत्तसरूवो चविउं तत्तो किर देवलोगाओ ॥ १८ ॥

तत्थेव पुरवरीए देवीए भाउणो विसालस्स । सामतस्स पियाए जयाए दुहियत्तमणुपत्तो ॥ १९ ॥

सुविणम्मि पुष्फमालोवलंभओ पुष्फसुंदरी नाम । उव्वहमाणी एसा वि पाविया जोव्वणारंभं ॥ २० ॥

नवरं अपावचरियं न पावचरिओ तमीसैरो सरइ । कह वा विसमसहावाण होइ एगत्य संवासो ? ॥ २१ ॥

१० मिय-मंजुल-ललियगिरा थिरा सलज्जा अरोसणा सरला । विणय-नयनिउणचरिया कुसला य कलासु सा वाला ॥  
अवि य—

भुवणभमणपरिसंतो चिरस्स लहिकण तं वरावासं । विस्समहेउं सयलो तमासिओ गुणगणो नूणं ॥ २३ ॥

अह सिसिरे अँवसंते माणे माणिणिजणस्स पँवसंते । सोसियविरहिवसंते संपत्ते अहिणववसंते ॥ २४ ॥

जणणी-जणयाएसा पत्ता सहिवग्गसंगया एसा । माहवसिरिरेहिं नयरुज्जाणं दुरेहिं ॥ २५ ॥

१५ तत्थ वियड्हसहीओ तीसे सिंगारहारिवयणेहिं । दाइउमारद्धाओ उज्जाणसिरिं समंतेण ॥ २६ ॥

अवि य—

“उय सामिणि ! वणराई स च्चिय महुणाऽहियं कया रम्मा । पइसंगमेण नूणं भुवणे रेहंति रमणीओ ॥२७॥

कुसुमच्छलेण एसो दावेईवाऽणुरायसव्वस्सं । रत्तासोओ माहवसिरीए चिरकालमिलियाए ॥ २८ ॥

पूगेण नागवेल्ली सोहइ, तीए विरायए पूगो । पियसहि ! नर-नारीणं सोहा अन्नोन्नसावेक्खा ॥ २९ ॥

२० दाहिणपवणंदोलियमल्लियलंयणी उव्वेतभसलस्स । सयमेव मुहं चुंवइ मन्ने महुणा कँयुकंठा ॥ ३० ॥

एक्केकमहुव्वयपिज्जमाणमयरंदगुंदिसंदोहा । पियपरिगयदारा इव सहंति चूयदुमे पेच्छ ॥ ३१ ॥

उज्झियकुसुमाभैरणा पउत्थवइय व्व जाऽऽसि महुविरहे । कुलवालिय व्व नवमालिया वि महमहइ सा इहिं ॥३२

पेच्छ इमा पसयच्छी ! गोत्तकवलणेण कोविया सुहया । मयणाउरेण पइणा अणुणिज्जइ पायवडिएण ॥३३॥

एसा वि सही ! लज्जं मोत्तुं माणं च मयणवाउलिया । सयमालिंइ दइयं परिकुवियं पेमकलहेण ॥ ३४ ॥

२५ इहे पेच्छ मिहुणयाइं कुणंति पेम्मम्मि कोसकिरिय व्व । अन्नोन्नसुहपणामियमइरागंइसपाणेण ॥ ३५ ॥

एयाओ सकंताओ उम्मुह-ओमुहकडक्कलक्खेहिं । सुर-असुरसुंदरीओ हसंति अंदोललीलाए” ॥ ३६ ॥

हिययस्स अरोयंतं सोडमिणं पुष्फसुंदरी तासिं । भणियं भणइ सुभणिया ‘पियसहि ! गेहं पइ वयम्मह ॥ ३७ ॥

दिट्ठं जं दट्ठव्वं, निसुओ तुम्हाण वयणविन्नासो । संपाइया य आणा जणयाणमओ किमन्नेण ?” ॥ ३८ ॥

ताहे ‘कुविय’ त्ति संभमुव्वंतनयणसयवत्ताए पणामपुव्वसुल्लवियमसोगदत्ताए ‘मा मेवमाणवेउ कलहंसलील-

१ संकेतः—“जलस्य जला( ? डा )ना च-अज्ञाना प्रचारेण” ॥ २ तद्वाहि इति पाठो जे० प्रतावेव ॥ ३ सङ्केतः—“ईसरो त्ति मन्मय” ॥ ४ “सङ्केतः—“अवसते त्ति निवृत्ते” ॥ ५ संकेतः—पवसंते त्ति दूरं गच्छति” ॥ ६ संकेतः—“सोसियविरहिवसंते त्ति शोपितविरहिवशात्ने ( ? वगान्त्रे )” ॥ ७ “द्विरेफवत्” ख २ टि० ॥ ८ नागवल्ली ख १ आ० ॥ ९ संकेतः—“लयणि त्ति शाखा” ॥ १० कडकंठा जे० विना ॥ ११ सङ्केतः—“गुंदि त्ति लुम्बी” ॥ १२ माहरणा जे० विना ॥ १३ इय पें ख २ ॥

गामिणी सामिणी, पेच्छामो ताव उज्जाणमज्झभायं, विस्समामो दक्खामंडवेसु, कीलामो कयलीवणेसु, पेच्छामो वडल-तिलयाइपायवलच्छि पि' त्ति । तओ अलंघणीययाए सद्दीयणस्स दक्खिन्नपाहन्नओ य पडिवन्नमेईए । कमेण पत्ताओ माहवीलयामंडवं, पारद्धो तत्थ वीणाविणोओ ।

एत्थंतरे सलीलोलोयणक्खेवक्खित्तमित्तचक्रालेण परिगओ, गओ इव करुक्खेवलीलामणहरो, हरो इव पभूय-भूइभूसियंगो, सियंगो विहंगो इय मणोहारिगमणो, ईसिहसियपयासियदंतपंतिकंतित्तिदुमियदुमगहणो समागओ तथा- 5  
सन्नपरियायवीहियं कुमारपुन्नचदो, पत्तो य नयणगोयरं रायदुहियाए । तओ मयणुक्कोवणपडुत्तणओ वसंतस्स, विया-  
रकारित्तणओ जोव्वणस्स, पोढत्तणओ कुमारखुंवालंवरणस्स, भूरिभव्वभत्थतयणुरायत्तणेण य चिरोवलद्धावसरविस-  
मसरावेसविसज्जियनिसायसायगो व्व चड त्ति चहुट्टो सो तीए कमलकोमले वच्छयले । तयणु मउलित्तनयणकमला  
ऊससंतसिह्णिमंडलायडिहयत्तुंत्तकंचुयगुणा उब्भिन्नरोमहरियंकुरग्गलग्गतुसारसीयरायंतनिरंतरसेयविंदू सिहिलिय-  
वीणावायणवेविरकरवियलियक्कोणदंडा विचेयण व्व ठिया मोणमवलंबिय खणमेसा । विन्नायभावाहि य महुरक्खरं 10  
भणिया वयंसीहिं 'हा ! किमेयमयंटे सामिणीए सरीरस्स अन्नहाभावो ? किं परिस्समाइरेगो गिम्हुम्हच्छुहत्तण्णाइरेगो वा  
एवं वियंभइ ?' । तओ सविलक्खं कडक्खिय रायसुयाए नीससिऊण भणियं पुष्फसुंदरीए "हला ! न कयाइ मए  
समणुभूयमेरिसमवत्थंतरं, तथा वि वियरेह ताव मंदं मंदं मारुयं, अन्नं च साहेह भो !—इओ को एस नरलोया-  
संभविखुंवावन्नपुन्ननिहेल्लं तरुणितरट्टिमरट्टवट्टणघरट्टो जुंवापुरिसो पुरओ निरुविज्जइ ? किमेस 'वसंतमित्तरज्जं'  
त्ति पमुइयमणो सच्छंदचारसुहमणुभवइ भयव मयरकेतणो ? किं वा उज्जाणरमणिज्जयावज्जिओ विज्जाहरपहू ? उय 15  
गयणमंडलुंघणघणक्खेयखिन्नो वीसमणत्थमोइधो एस अंसुमाली ? तियसवइसावनिवाडिओ वा कोइ सुरवरो ?"  
त्ति । तओ ईसि हसिऊण जंपियं पियंगुदत्ताए "सामिणि ! मयरकेयणाईहिं कहमेस तोलिज्जइ ? अवि य—

रईसुहकामी न इमो, न य विसमसरो, न इट्टमहुमासो । कह णु सुवयणे ! मयणो ता अह पच्चक्खरुइरंगो ? ॥

एयस्स खुवलायन्नसंपयं संपयं निहालित्ता । न कुणंति लज्जिया इव इहइं विज्जाहराऽऽगमणं ॥ ४० ॥

वेल्लहलकरो कक्खवडकरेण दुइंसणेण सुप्पेच्छो । सुरेण समो सुंदरि ! न हु भन्नइ एस पन्नेहिं ॥ ४१ ॥ 20

पवणंदोलिरकुवलयलसंतलोयणजुयस्स एयस्स । अग्घइ कलं पि कह सुयणु ! सुरवरो थड्ढदिट्टिल्लो ? ॥४२॥

किंच—

ससि सोमत्तु दिण्णिद तेउ सायर गंभीरिम, नह वड्ढिम सुरपहु पहुत्तु नगनायग धीरिम ।

मयवइ विकसु मयण खुवु धणवड चाइत्तणु, हरिवि पयावइ सुयणु ! नूणु निम्मिउ एयत्तणु ॥ ४३ ॥

अहवा—

जं मयलंछणि कमलसंडि चंदणि नंदणवणि, पंचमराइ विलासिलासि नारिहिं नवजोव्वणि ।

पिडिवि त लायन्नु सयलु अमईण कल्लाविउ, तो सुंदरु नररयणु एउ दिव्विण निम्माविउ ॥ ४४ ॥

अकलंककलानिलओ कुलनहयलमंडणो नयणसुहओ । तुह अत्ताए तणओ एसो नणु 'पुन्नचंदो'त्ति ॥ ४५ ॥

रायरसपमत्ताए भणियं तो पुष्फसुदरीए वि । 'अडसुंदरनररयणं पियसहि ! सच्चं इमो जेण ॥ ४६ ॥

सत्तासो तरणी जडोऽमरगिरी चंदो कलंकंकिओ, खारो नीरनिठी मेई सुरकरी चिंतामणी निट्टुरो । 30

१ सङ्केत-“दुमिय त्ति धवलित” ॥ २ “खुयालं जे०विना ॥ ३ “लायन्नपु” जे०विना ॥ ४ संकेत-“निहेल्लण त्ति रहम्” ॥ ५ जुवपु” जे०विना ॥ ६ सङ्केत-“रति-मदनभार्या मदनकीडा च । विपमघारो विपमस्वरथ । मधुमान-चैत्र, मधु-माक्षिक मास-पिहितम्” ॥ ७ अमपण ख१ च२ ॥ ८ सुंदरि ! नं जे०विना ॥ ९ सङ्केत-“सत्तासो त्ति सत्ता(प्रा,स सत्ताधथ” ॥ १० संकेत-“मइ त्ति मदी-मदवाव” ॥

कंकेली वि जलपिओ मयरसो रिट्टेहिं विट्टालिओ, सव्वं दोसजुयं जए सुरयणं मोत्तूण एक्कं इमं' ॥ ४७ ॥  
तओ ईसिहसियसारं वज्जरियं सुदत्ताए—

'कह नेस गुणीण धुरे समंतओ जस्स अंगुवंगाइं । धोयाइं अज्ज पियसहिक्कडक्खवीरोयनीरेहिं ?' ॥ ४८ ॥

5 'तओ विन्नाया हं' ति लज्जियाए तहंसणावियण्हाए वि वामयाए भयणसहावस्स भणियमणाए 'हला ! चिर-  
मिहागयाणं, कलहिस्सइ णो' अंवा, ता संचल्लह निहेलणंतेण ।

एत्थंतरे पच्चासन्नपत्तं कुमारमवल्लोइय पडिवुत्तमेयाहिं 'पाणवल्लहे ! न जुत्तमेत्ताहे सयल्लगुणसंपउत्तं रायपुत्तं  
पिउच्छाकुच्छिसंभूयं सयल्लोयकयपूयं पढमागयाणमम्हं गोरव्वातिहिभूयं समासन्नमागयमन्नगन्निज्जण गमणं, कीरउ  
ताव कालोचियं पसत्थमातित्थमेयस्स, अन्नहा संभाविस्सइ एसो सामिणीए अणुचियन्नुत्तणं' ति । तीए वि मय-  
णावत्थासरूवओ सज्झसभरखलंतक्खरमोमंथियमत्थयाए संलत्तं 'तुब्भे चेव करेह जमेत्थ जुत्तं' ति । तओ पयासिय-  
10 संभमाए तुरियं गंतूण वुत्तो रायपुत्तो वियसंतनेत्तवत्ताए असोगदत्ताए 'भट्टिदारया ! करेहि इह माहवीलयामंडवे  
खणमासणपडिग्गहेणाणुग्गहं पयासियपउरपणयाए नियमामयतणयाए पुष्फसुदरीए' । तओ उवरोहसीलयाए पत्तो  
तयंतियं कुमारो, अब्भुट्टिओ कुमारीए, सम्माणितो य कालोचियं । कयासणपरिग्गहो य पुव्वभवब्भासवसुच्छल्लिं-  
यातुच्छपेममइरारसपरव्वसो पपेच्छिओ तमद्दच्छिपेच्छिरिं मयच्छि, चित्तिउं च पवत्तो—

'रूवं रूवस्स इमं, लायन्नस्सावि परमलायन्नं । गुणगणसंकेयनिकेयणं खु एयं जुवइरयणं ॥ ४९ ॥

15 एयारिसीए सद्धिं विसयसुह होइ नूण विसयसुहं । इहरा उ विसंभं पिव विसन्नभावं पयासेइ' ॥ ५० ॥

इय चिंताविहुरेण वि पढमाभासित्तगुणगरिट्ठेण । भणिया इमेण कुमरी 'सुयणु ! पत्राएहि ता वीणं' ॥ ५१ ॥

ततो तं लज्जोणयं संखोहुक्कंपियपाणिपल्लव चादिन्नपडिवयणं पलोइज्जण पणयभंगभीरूयाए भणियमसोगाए  
"न संपयं 'सा रेपरिवाइणि' ति लज्जइ तुम्ह पुरओ एसा, अओ न भट्टिदारएहिं 'अविणीय' ति कलियव्वा" ।  
ततो कुमारेण 'पेच्छामि ताव केरिस ?' ति जंपिरेण पसारिओ वीणं पइ पाणी । समप्पिया असोगाए वीणा ।  
20 'एइए पाणिपल्लवेहिं परिमलिया एस' ति सायरं गहिज्जण ससिणेहं तं पलोइउं पवत्तो । एत्थंतरे ईसि हसिज्जण  
भणियमसोगाए—

'सरला गरुयगुणइढा विसुद्धवंसुब्भवा महुरघोसा । रेहइ करगगलग्गा अहियं एसा तुह कुमार !' ॥ ५२ ॥

एत्थंतरे विन्नायतयाकूएण भणियं कुमारंतरंणेण चारायणवहुएण 'भदे ! अवज्झा नारी होइ, ता भणाहिं जं  
ते रोयइ, जइ पुणाहमेरिसं जंपेमि तो दुत्ति निग्गाहिज्जामि' । असोगाए भणियं 'नणु वंभणो वि अवज्झो चेव ता  
25 किं न पूरेसि नियजीहाए दोहलयं' । तओ भणियं वहुएण—

'एयं उच्छंगगयं कंठोसत्तं करेहिं गहिज्जण । उल्लावंतो अहियं रेहइ एसो वि एसा वि' ॥ ५३ ॥

अधुत्तित्तविउणा वुत्तो वहुओ तओ कुमारेण । 'किं डोड्डय ! मुहकंइ नट्टा ते एत्तिएणावि ? ॥ ५४ ॥

जाइए पच्चएणं विप्पो जंपेच्छओ हवइ पायं । लाभा-उलाभविभागं विहाय मणडोहले कुणइ' ॥ ५५ ॥

अह भणियमसोगाए 'लाभो तुम्हं इमीए साहीणो । मा वंभणस्स रूसह संभविभावं भणंतस्स' ॥ ५६ ॥

30 एवमाइच्छेउत्तिवावडाणं समागया कुमारीए धाई । 'अहो ! सोहणो संजोगो, अहो ! विसिट्ठा गोट्टि' ति  
भणंतीए अहिणंदिओ तीए कुमारो, भणिया य पुष्फसुदरी 'वच्छे ! चिरमच्छिया सि ति संभंताए पेसिया हं

१ णे अंवा जे० ॥ २ सद्धेतः—“विसयसुहं ति विपये-सद्रोचरे सुखम्, यद्वा विशद च तत् शुभ च” ॥ ३ सद्धेतः—  
“विसन्नं पिव ति विपाप्मिव” ॥ ४ उल्लावित्तो भ्रा० ॥

जयादेवीए, ता एहि तुरियं, न तुह सुहयंदालोयणं विणा देवी गासग्गाहणं करेइ' । त्ति सोऊण 'जमाणवेइ अंव' त्ति भणंती अकामा वि सरीरमेत्तेण पत्ता मंदिरं । तत्थ वि 'सुन्नभाव' त्ति कलिऊण विघ्नायनिमित्ताए निउत्ताओ से जणणीए सहीओ मणसंतावहरणे । तओ तार्हि दंतवल्हियापल्लंके निवज्जाविय साणुणयं भणिया एसा—

'पियसहि ! चंदकलं पि हु पेच्छंताणं अवेइ संतावो । कह तुह पवडिठओ सो पलोइए पुन्नचंदे वि ?' ॥५७॥

अन्नाए भन्नइ—

'पसमेइ न संतावं, दंसणमेत्तेण पुन्नचंदो वि । अवि य फुसंतो अंगं समंतओ कोमलकरेहि' ॥ ५८ ॥

छेयभणियाणि तार्सि निसुणंती पुष्पसुंदरी एवं । ईसिअवेयहिरिया विलक्खहसिरी तओ भणइ ॥ ५९ ॥

'द्वैयरो वि पडिछल्लिज्जइ, अवि वंचिज्जइ जमो वि निउणेण । गोवंती वि हु भावं तरामि न हि वंचिउं तुब्भे ॥

सयला वि मणोवित्ती पच्चक्खा तुम्ह जोगिणीणं व । ता कहइ इहोवायं एणेण वि अक्खवत्तेण' ॥६१॥

इयरीहिं तओ बुत्तं "मडपसरो अम्ह केरिसो मुद्धे ! । सहपंसुकीलियाए जइ तुह चित्तं न लक्खेमो ? ॥६२॥ 10

जं पुण पुच्छसि सुंदरि ! मणसंतावस्स पसमणोवायं । तत्थ वि सुणाहि तत्तं पच्चक्खं अम्ह जं वित्तं ॥६३॥

कल्लं खु पियगुमजरीदेवीए तुह तायस्स संलावो संवुत्तो 'कह नाम पुष्पसुंदरी कुमारपुन्नचंदेण संजोइयव्व ?'त्ति ।

तओ भणियं तुह जणएण—

'उच्चिओ डमीए कुमरो मडडो इव्व भडणि ! उत्तममणीए । चूडामणि व्व प्हुमत्थयस्स एसा वि से उच्चिया ॥

वंग्गाहरणनिउत्ता कणयाहरणारिहा व्वरमणि व्व । अन्ननिउत्ता एसा जणेइ जणयाण उव्हासं ॥ ६५ ॥ 15

एसो वि अन्ननारीनिओइओ पाउणेइ न च्छायं । मज्जारिगलपिणद्धो नवघडिओ कणयदोरो व्व ॥ ६६ ॥

किंतु न दीसइ एसि रागविगारो मणे मणागं पि । न सहंति जेण दोन्नि वि वीवाहकहं परेसिं पि ॥ ६७ ॥

न हसंति पयडदंतं, सिंगारकहार्हि न य रसिज्जंति । न कुणंति केलिकलहं, जंपंति न विद्धव्वयणाइं ॥ ६८ ॥

तो न हि नज्जइ एसि होज्ज न वा निविडनेहसंबंधो । तेण उ विणा विवाहो तवइ सया नद्धसल्लं व ॥ ६९ ॥

अत्थि य जणे पवाओ सरिससहावाण होइ किर पेमं । इय एयाण वि कइया वि होज्ज जम्मंतरनिमित्ता ॥७०॥ 20

ता कीरंतु डमेसिं परोप्परं ताव दंसणुल्लावा । जेहिं कलिज्जइ सज्जो सुनिच्छिओ कज्जपरमत्थो' ॥ ७१ ॥

तो देवीए भणियं 'एवमिणं भाइ ! जं तुमं भणसि । जह नामेण तहेव हि बुद्धीइ वि तं विसालो सि' ॥७२॥

कहिऊण तत्तमम्हं जणणी-जणएहिं अज्ज दोहिं पि । उज्जाणदंसणत्थं दिण्णो तुम्हाणंमाएसो ॥ ७३ ॥

सहि ! संपुन्ना अज्ज मणोरहा तुम्ह जणणि-जणयाणं । पुज्जिस्संति लहुं चिय तुज्ज वि, वद्दावणं देसु' ॥७४॥

एयं सहीवयणमायन्निऊण जाया मणागं निव्वुयहियया रायदुहिया । एवं चिय-कुमारो वि निव्वुईकओ 25

नियमित्तेहिं । अन्नोन्नकोसल्लियपेसणाविणोएण य पवोलिया वासरा । दिन्ना य पसत्थतिहि-करणसुहुत्ते विसालसामं-  
तेण सवहुमाणं पुष्पसुंदरी पुन्नयंदकुमारस्स । सीहसेणराइणा वि कारिओ पुरवरीए परमाणंदो । तओ—

गुरुमुरवगहिरगुंजियनचंतसिहंडिरुइरघरसिहरं । सिहरारूढपुरंगणमुहपंकयमहियसुरभवणं ॥ ७५ ॥

भवणंगणपउरगणनिउरुंविहिज्जमाणवरनट्टं । नट्टावज्जियनरवरदिज्जंताहरणकयसोहं ॥ ७६ ॥

सोहोहामियसुरवहुवहुमंगलगीयरोलसुडसुहयं । इयरोरवमागहगहिरघोसथुव्वंतनिवगोत्तं ॥ ७७ ॥ 30

१ संकेतः—“द्वैयरो त्ति पिशाच” ॥ २ सयपसुं जे० ॥ ३ संकेतः—“वगाहरण त्ति त्रपुस्तकाभरणम्” ॥ ४ “कुटिल”

खरटि० ॥ ५ बुद्धीए वि जे० विना ॥ ६ ण माएसो जे०विना ॥ ७ सङ्केतः—“रोरव त्ति दारिद्रयम्” ॥

गोत्तायारपहाणं पहाणगुंधुद्धुमायदिसियकं । दिसियकपसिद्धगुणं कमेण वारेज्जयं वित्तं ॥ ७८ ॥

तथो—

मणमेइणीपरूढा मणोरहा पायव व्व सुविसाला । अम्मा-पिऊण फलिणो जाया तह बहु-वराणं पि ॥ ७९ ॥

‘सुविवाहो सुविवाहो’ त्ति घोसिरो पुरवरीजणो सव्वो । बहु-वरवरधन्नाउंसदाणक्खणियाणणो जाओ ॥८०॥

5 एवं पमोयसारे वित्ते वारिज्जे पियासहिओ । वसइ सुही सो कुमरो सुरहम्मियरम्मपासाए ॥ ८१ ॥

अन्नया सीहसेणनरिंदस्स महंतसामंतमउल्लिमहुव्वयनिउरुंवचुंविज्जमाणपायारविंदस्स भत्तिभरोणामियभालेण निवेइयं उज्जाणवालेण ‘देव ! समागओ अज्ज पुष्कसालवणे निज्जियमयरैद्धओ गत्तेण चित्तेण य, सरणभूओ धम्म-  
धणस्स दुहियजणस्स य, पावओ पावपायवोहस्स सुद्धवोहस्स य, महागओ गुणमुत्ताहलाणं रागाइहालाहलाणं च,  
पसाहगो वसुमईए सिद्धिगईए य, चंदो इव सोमो, सूर्रा इव पयावी, सायरो इव महोदओ, मंदरो इव सुधीरो,  
10 सव्वहा रुवं पिव रुवस्स, लायन्नं पिव लायन्नस्स, सुंदेरं पिव सुंदेरस्स, मुत्तिमंतो इव विसुद्धधम्मो सुरसुंदरो नाम  
मुणिवइ’ त्ति । तमायन्निऊण परिओसवसुल्लासियसरीरो राया दाऊण तस्स पारिओसियं सव्वसामग्गीए कुमार-  
इपरियणसमेओ गंतूण कयमुणिंदचलणारविंदवंदणो कयंजली गुरुमुहंपंकयाओ विणिग्गच्छंति लच्छिं पियातुच्छपमोय-  
संपाइणिं देसणावाणिं पडिच्छिउं पवत्तो । अवि य—

भो भव्वा ! जम्म-जरा-मच्चू-भय-रोग-सोगसंतावा । पियविप्पओग-अप्पियसमागमा कुगइगहणम्मि ॥ ८२ ॥

15 कालमणाइमणंतं अणंतसो पाविऊण पावेण । निव्विज्जह किं नऽज्ज वि ? निरुज्जमा जेण धम्मम्मि ॥ ८३ ॥

मा मा मा हु पमायह, करेह सव्वायरेण जिणधम्मं । न पमायसमो सत्तू, न य मित्तो धम्मसारिच्छो ॥८४॥

ईसिं पि लद्धपसरो कुवियपुंयाइ व्व पीडइ पमाओ । चिंतामणि-कप्पमहातरु व्व धम्मो सुहं देइ ॥ ८५ ॥

पडिओ अगाहनीरे डज्जंते मंदिरे व जो सुंयइ । भवदुहसंकडपडिओ सो खलु धम्मे पमाएइ ॥ ८६ ॥

पहरंते सत्तुगणे तेणेहि व मंदिरे मुसिज्जंते । जो सुवइ सुवीसत्थो सो खलु धम्मे पमाएइ ॥ ८७ ॥

20 विहडंति निविडघडिया पुरिसत्था नियमओ पमाएण । चिरविहडिया वि लहु संघडंति सुविढत्तधम्माणं ॥८८॥

संप्पाकणंतकिंकिणिमणि-नेउररणियंमुहलदिसियकं । उररुहरुलंतहारं तारं अंतेउरं धम्मा ॥ ८९ ॥

मयलद्धमुद्धमहुयरकंयंवचुंविज्जमाणगंडयलं । दीघट्ठथट्ठमुद्दामंगणे रमइ धम्मेण ॥ ९० ॥

धम्मेण एगच्छत्तं पुहइं पालिति अप्पयासेण । लीलाए जयंति रणंगणे वि देरियारिसंदोहं ॥ ९१ ॥

वचंति सिवं तिदिवं व दुत्ति चिन्नेण जेण जंतुगणा । तं धम्मं सम्मं कुणह भो जणा ! वज्जियपमाया ॥९२॥

25 एमाइ अमयविंदुनिसंसंदमुंदरं मुणिंददेसणं सुणमाणो मुणिवइसरीरखुवलायन्नविम्हयाओ लद्धावसरो पवुत्तो  
पुनचंदकुमारो ‘भयवं ! सुट्ठ उवइट्ठं, सुट्ठ दिट्ठो भयवंतेहिं भवस्सहावो, तथा वि अच्छउ.ताव अन्नं, पसायं काऊण  
कहेह—किं पुण रुवलायन्नाडसयपिसुणियपहाणसंपयापवंचाणं पूयपायाणं दुकरतवचरणंगीकारकारयं वेरगकारणं ?’  
ति । गुरुणा भणियं “धम्मसील ! किमेत्थ पुच्छियव्वं ? पिच्छेसि चेव पए पए वेरगानिवंधणाणि । अवि य—

१ “पुणं” खंरटि० ॥ २ वारिज्जयं वत्तं जे०विना ॥ ३ सङ्केत—“धन्नाउसदाणक्खणिओ( गियाणणो ) त्ति आशीर्वाददानव्याकुलं व्याकुलाऽऽनन )” ॥ ४ वत्ते वारेज्जे जे०विना ॥ ५ सङ्केतः—“मकरध्वज—मदन समुद्रश्च, शरण—ग्रह भयत्राण च, पावको—वह्नि प्रापकश्च—प्रापणहेतु, महागजो महाऽऽगदश्च, प्रसाधक—मण्डयिता वशीकर्ता च, महोदको महोदयश्च” ॥ ६ संकेतः—“भू(पु)याइ त्ति पिशाच” ॥ ७ सुवइ ख० ॥ ८ सङ्केतः—“सप(सप्प) त्ति कावो” ॥ ९ ‘यमुहलियदियंतं । उर’ जे०विना ॥ १० ‘वन्द’ खंरटि० ॥ ११ सङ्केत—‘दरियारि त्ति हत्तारि” ॥ १२ पेच्छसि जे०विना ॥

कि वि भुंजहि वररायलच्छि कि वि सुहिय मढिडिढय, के वि कूणाहि भिच्चतु ताई जिह संकलकडिढय ।  
 कि वि पूरहि पणडिहि मणिच्छ कि वि घरि घरि भिक्खहि, कि वि तण्हा-लुहदुहकिलंत नट्टाई वि सिक्खहि ।  
 कि वि तरुणविलासिणि वसि करहि, कि वि दोहग्गदवग्गिहय ।  
 पेक्खंत परामवु एहु भवि, केई वि रमहि न कयसुकय ॥ ९३ ॥

तथा—

5

जहि जम्मण-जर-मरण-रोग-सोगानलु जग्गइ, जहि जीवहं दालिदुक्खु पुणु पुणु कुट्टि लग्गइ ।  
 जहि पियविरहू अणिट्टजोउ काराहरबंधणु, तहि भवि भद ! कहेहि किं न वेरग्गनिबंधणु ? ।  
 जो पुणु नरु नरय-तिरिक्खदुहु, जिणसासणि सवणिं मुणइ ।  
 खणु एक्कु वि विसयविसन्नि वुहु, सो किह सुंदर ! मणु कुणइ ? ॥ ९४ ॥

तथा वि अत्थि मे विसेसकारणं पि जइ ते कोउगं ता निसामेहि” । त्ति मुणिणाणत्ते ‘अणुग्गहो’ त्ति जंपमाणो 10  
 अवहिओ कुमारो राया नायरजणो य ।

अह वज्जरइ मुणिंदो इहेव विजयम्मि अत्थि सुपसिद्धं । बहुदिवसवन्नाणज्जं नयरं नामेण रयणउर ॥ ९५ ॥  
 तत्थ य वणिणो सुधणस्स नंदणो लच्छिकुच्छिसंभूओ । सुरसुंदराभिहाणो आसि अहं सयण-सुहिसुहओ ॥ ९६ ॥  
 अहमेव सुओ अइवल्लहो य इयःनेहकोडुवसएण । परिणाविओ म्हि पिउणा वत्तीसं कुलकुमारीओ ॥ ९७ ॥

अन्नया मरणधम्मयाए जीवलोगस्स, खणभंगुरयाए मणुयजम्मस्स पडिवन्नाणि कालधम्मणेण मम जणणि- 15  
 जणयाणि । अहं पि तव्विओयदुक्खानलत्ततो वि संसारववहारओ चेव पवत्तो म्हि गेहतत्तीए । भणियं च—

सुट्टु वि पियस्स विरहे न मरड पव्वयइ न य जए कोइ । कट्ठिणत्तमेइ हिययं दिणे दिणे पंक्किपिडो व्व ॥९८॥  
 घर-वरिणिवद्धराओ ववगयसोगो तओ अहं जाओ । ईसालुसहावाओ नवरं रक्खेमि जायाओ ॥ ९९ ॥  
 गेहा व्हि पयारो निवारिओ सव्वहा मए तासिं । तह गेहम्मि पवेसो सयणस्स वि पुरिसरुवस्स ॥ १०० ॥  
 वीहीववरणत्थं वयामि पोलीए तालयं दाउं । तत्थ वि न चिरं चिट्ठामि दुव्वियप्पाण वाहुल्ला ॥ १०१ ॥ 20  
 सुक्कवणं व महुव्वयकुलेहिं चत्तं तओ निरासेहिं । भिक्खागेहिं गिहं मे विसेसओ जिणमयमुणीहिं ॥ १०२ ॥  
 अन्नदिणे उत्तालो अपिडियदारो गओ म्हि वीहीए । पत्तो य देवजोगा आगंतुगमुणिवरो गेहं ॥ १०३ ॥

तओ ‘अहो ! अंकुरियमज्जमम्ह पुन्नपायवेणं’ति चित्तयंतीहिं वंदिओ सव्वार्हिं मम पैणइणीहिं, विन्नत्तो य  
 आसणपरिग्गहंमंतरेण । सो वि ‘अकप्पो’ त्ति भावयंतो वि सउणविसेसोवलक्खियगुणो निविट्ठो तदुवणीयासणे ।  
 पुणो वि सविणयं पुच्छिओ तार्हिं धम्मं । भयवं पि परहियकरणेकरसिओ साहिउं पवत्तो । 25

एत्थंतरे अह पि सुमरियदुप्पओगो समागओ दुवारदेसं । पच्छन्नो चेव निहालेमि मुणिसुहारविंदनिहित्त-  
 नेत्ताओ ताओ, नयजोव्वणुल्लासियलायन्नं मुणिवरं च । तओ हं गंसिओ कसायदंदसएहिं, मोहिओ मिच्छावियप्प-  
 धुत्तीरएहिं, कलिओ दुम्मइमहापिसाईए, वसीकओ असव्ववसायवेरिएणं चित्तिउं पवत्तो ‘अहो ! धट्टया दुट्टसमण-  
 गस्स जो मम महेलाहिं सद्धिं सच्छंडं संलावलीलमंयरइ, ता सहत्थेण मए दायव्वा अट्टसु वि अंगेसु पंच पंच  
 लउडप्पहारा, जेण एयस्स दुन्नयसाही ममावि कोवपायवो साहल्लयमुवेद, किंतु निमुणेमि ‘किमेस ताव मंतेइ?’ 30  
 त्ति संपहारिज्जण अवहिओ जाओ म्हि । एत्थंतरे जंपियं साहुणा—

१ के त वि जे०विना ॥ २ मम जणयाणि जे०विना ॥ ३ पणयणीहिं जे० खर ॥ ४ हवहुमाणेण । सो वि  
 जे० ॥ ५ गहिओ खर ॥ ६ धेट्टया खर २, धिट्टया आ० ॥ ७ माहरइ जे० ॥ ८ हारियमवहिओ जे०विना ॥



‘धम्मस्स ताव मूलं जीवदया वञ्चिया जिणिं देहिं । ता तत्थ चेव पढमं जइयव्यं धम्मकामेहिं ॥ १०४ ॥  
 तं दाणं तं च वयं तं च तत्रो सा य देव-गुरुपूया । जीवाणं जत्य दया, गयण्हाणं तं विणा सव्वं ॥ १०५ ॥  
 चिरजीवियमारोगं सोहणं कामभोगपियसंगो । कुल-रुव-जसो-सुपया दयामहासालफलमेयं ॥ १०६ ॥

किंच—

- 5 दया सग्गस्स सोवाणं, दया मोक्खस्स वत्तिणी । दया दोग्गइदारस्स पिहाणं विहिणा कया ॥ १०७ ॥  
 जीवाणं पुण घाओ कडुयविवाओ मुणीहिं अक्खाओ । जं दुहजणणसमत्थो, होति समत्था तओऽणत्था ॥ १०८ ॥  
 जं गव्वभग्या वियलंति केइ विहडंति जायमेत्ता वि । बाला तरुणा भोगंगसंगया अंगिघाएणं ॥ १०९ ॥  
 वहिरंध-काण-खुज्जा दोहग्गिय-रोग-सोग-गहगहिया । घोरनिरंतरवसणा होति नरा पाणिघाएण ॥ ११० ॥  
 एत्तो अविरत्तमणा कज्जा-ऽकज्जाइनाणपरिहीणा । जणयं तणयं पि हणंति निग्घिणा कोह-लोहिल्ला ॥ १११ ॥  
 10 तत्तो नरएस्स सहंति दारुणं दुहपरंपरं पावा । सत्तुंजय-सूरा इव पियं-पुत्ता मोहमलजुत्ता ॥ ११२ ॥  
 तओ ताहिं ‘भयवं ! के पुण ते पियं-पुत्त ?’ ति वुत्ते पवुत्तो मुणिवरो—

[ ७. सत्तुंजय-सूरकहाणयं ]

- इहेव विजए जयउरे नयरे सत्तुंजओ राया होत्था, पुत्ता य से सूरो चंदो य । पढमो ‘सुट्ठु इट्ठो’ ति ठविओ  
 जुवराया । ड्यरो वि ‘अलद्धजीवणो’ ति परिभवुवेविओ गओ देसंतरं, मिलिओ रयणउरे सुदसणमुणिस्स । सुय-  
 15 धम्मोवएसो पडिवन्नो सूरवित्तीओ अन्नत्थ निरवराइजीववहनिवित्ति । पारद्धो तंत्येव जयसेणरायमोलग्गिउं ।  
 जाओ विस्सासट्ठाणं । अन्नया एंगंते निउत्तो णेण पयंडवेरिणो कुमस्स अभिमरत्ते । साहियनियमवइयरो न पयट्ठो  
 सो तत्थ । तओ सुट्ठुयं विस्ससिएण ठविओ णेण अंगरक्खो, पडिवन्नो पुत्तो, परिणाविओ पहाणसामंतदुहि-  
 याओ, निउत्तो सयलरज्जकज्जेसु ।

- अन्नया तुरियसाहणेण कयदुग्गभंगमाणीओ तेण कुंभचरडो, उवणीओ राइणो । तेणावि पडिवन्नसेवो  
 20 सम्माणिय विमुक्को गओ सट्ठाणं । चंदो वि चंदो इव लद्धपसिद्धी सुहमच्छिउं पवत्तो ।

इओ य सो जेट्ठभाया सूरो जुवरायरिद्धीए असंतुट्ठो रज्जलोभेण जणयवहपरिणओ वंचिऊण जामड्ढे रयणीए  
 गओ रायवासभवणं । अन्नओसुहं च जणयं गाहप्पहारीकाऊण पडिनियत्तमाणो दिट्ठो देवीए, ‘हा ! अभिमरो  
 अभिमरो’ ति कओ कोलाहलो, नासमाणो गहिओ अंगवाहरिएहिं ।

- एत्थंतरे ‘कस्स संतिओ ?’ ति जाणणत्थं रक्खाविओ राइणा । पभाए पच्चभिन्नाओ रायभडेहिं निवेइओ  
 25 राइणो । तेणावि कोवग्गिधगधगितगत्तेणावि जणावन्नवायभीरुणा सव्वस्सहरणपुव्वं कओ निव्विसओ । भणिया  
 य मंतिणो ‘लहुं लहेह चडकुमारं’ ति । तेहिं वि चरनरेहिं तो विन्नायवुत्तंतेहिं कहिओ रयणउरवइयरो । ततो गहिय-  
 पहाणलेहा तुरियकरहवामाहिं पेसिया तयाणणत्थं पच्चइयपुरिसा । सो वि अवहारियलेहत्यो जणयदंसणुकंठिओ  
 जयसेणमणुन्नविय महया तुरियतुरयसाहणेण लहुं चेव समागओ जयउर । साणुणयं ठविओ पिउणा नियरज्जे ।  
 कयसाहुकारं पडिवन्नो मंति-सामंतेहिं ।

- 30 राया वि पद्दारदारुणयाए कडदिणे तिव्वं वेयणमणुहविऊण समच्छरो सूरम्मि देहं चइऊण जाओ एगत्थ  
 गिरिदुग्गे दीविओ । सूरो वि अरुज्जायरणकलंकपंककिओ पणट्ठोरुसो तहाविहकुक्कम्मजीवियाए कंचि कालं गमि-  
 ऊण भवियव्वयानिओगेण तमेवारन्नमागओ दिट्ठो दीविएण । तओ जाइकूरयाए पुव्ववेरपच्चयं च समुप्पन्नमच्छरेण

१ संकेतः—“सुपय ति सुप्रज्ञा-शोभनापत्यानि” ॥ २ या य गलंति जे० ॥ ३ हुन्ति जे० विना ॥ ४-५ पिउ-पुत्ता  
 जे० विना ॥

पलायमाणो वावाइओ मरिऊण समुप्पन्नो तम्मि चैव वणे सवरदारओ । पारद्धिनिमित्तं च परिब्भमंतो दिट्ठो पुव्व-  
दीविण्ण, तद्देव समच्छरेण वावाइओ, दीविओ वि सेससवरेहिं । दो वि तम्मि चैव वणे जाया महावराहा । तरुणभावे  
परोप्परालोयणुप्पन्नमच्छरा जुज्झंता विणिवाइया सवरेहिं । जाया अन्नत्थवणे दो वि कुरंगा, तद्देव जुज्झंता वावा-  
इया वाहेण । जाया एगम्मि चैव गयजूहे गयपोयया । तद्देव मच्छरंधीकया जुज्झंता भट्ठा जूहाओ गहिया वण-  
यरेहिं । परंपरेण पत्ता चंदरायस्स । तत्थ वि न सहंति अन्नोन्नदंसणं, जुज्झंता य दुक्खं निरंभंति । अन्नया समागओ 5  
तत्थ केवली, वंदिओ राय-नायरेहिं । कोउगवसेण पुच्छियं राइणा वारणाणं मच्छराइसयकारणं । सोऊण जह-  
द्वियं संविग्गो राया सुयस्स रज्जं दाऊण निक्खंतो, जाओ कालेण वेमाणियसुरसंपयाभायणं । इयरे वि अणु  
वद्धमच्छरा मरिऊण पत्ता पढमं नरयपुढविं । तत्थ परमाहम्मियसुरकयाइं परोप्परुप्पाइयाइं च दुक्खाइं चिरमणुहविय  
कुजोणिगहणे परिब्भमिहिनन्ति ।

[ सत्तुजय-सूरकहाणयं समत्तं. ५ ]

10

ता सावियाओ ! पाणिवहविरया-ऽविरयाणमेवंगुण-दोसपरंपरा पाउव्ववइ । एयं सोऊण संजायसंवेगाहिं  
पडिवन्नं ताहिं पढमाणुव्वयं ।

तओ कुमार ! मए चित्तियं 'सुंदरमिणं, संपय कुवियाओ वि एयाओ न ममाक्कुसलं ववसिस्संति, ता एके-  
क्कूणे चैव पंचपहारे दाहंति । एत्थंतरे पुणो भणियं साहुणा—

'भणियव्वं निच्चं सच्चमेव धम्म-ऽत्थ-कामसुहजणणं । सग्गा-ऽपवग्गसंगमनिवंधणं धम्मियजणेण ॥ ११३ ॥ 15

सव्वस्स सच्चवाई होइ पिओ तह य पच्चयट्ठाणं । चिट्ठंतु नरा, अमरा वि तस्स आणं पडिच्छंति ॥ ११४ ॥

वियरंति नावयारं जल-जलणाइणि दस वि दिव्वाणि । विमलं च कुणंति जसं सवियाइं सच्चवयणेण ॥ ११५ ॥

जे पुण चवंति अलियं दुगुंछणिज्जा जणम्मि ते होंति । मित्ताण वंधवाण य विस्साससुहं अवहरंति ॥ ११६ ॥

मूया अणिट्ठवयणा कुहियसुहा दुस्सरा अणाएज्जा । जीहाछेयाइक्किलेसभायणं होंति अलिण्ण ॥ ११७ ॥

वंचिज्जंति न केणइ धणो व्व सच्चरियसालिणो सच्चा । अप्पाणमप्पण चिय इयरे वंचंति धरणो व्व' ॥ ११८ ॥ 20

तओ ताहिं 'भयवं ! के पुण ते धण-धरण ?' त्ति विन्नत्तेण वुत्तं मुणिपुंगवेण—

[ ६. धण-धरणकहाणयं ]

इहेव विजए सुनदणे नयरे सुदत्तनेगमस्स धण-धरणनामाणो दुवे पुत्ता अहेसि । धणो निसग्गओ सुयणो  
सरलो पियंवओ सच्चसंधो य, धरणो उण तव्विवरीओ । अत्थि य तेसिं परोप्परं पीई, धणस्स निक्कवडा, कवडेण  
इयरस्स ।

25

अन्नया धणं सयणगणेण गोरविज्जमाणमालोडऊण 'न मम एयम्मि धरंते गिहे वि गोरवं' ति भावित्तेण  
पडरिक्के भणियो धणो इयरेण 'भोय ! पूरेहि मे पाणवल्हस्स भाउणो एगं कोऊहलं, गच्छामो भुयदंडमेत्तसारवणा  
धणोवज्जणत्थमन्नदेसं' । धणेण भणियं 'वच्छ ! कहां पुण तत्थ धणमज्जिणियव्वं ?' । इयरेण वुत्तं 'छिंदिस्सामो  
गंठीओ, तोडिस्सामो क्कन्ने, खणिस्सामो खत्ताइं, गिन्दिस्सामो वंदाइं' ति । तओ तेण ससंभमं ठइयक्कणेण वुत्तो  
एसो 'वच्छ ! मा एरिसं पावसुल्लवेहि, एरिसं खु चित्तियं पि पावनिवंधणं, भणियं पि नरयसंधणं, सुयं पि अणत्थ- 30  
वद्धणं ति, ता पडिहणाहि एयं पावं देव-गुरुनामग्गहणेणं, मा वीयं पि एवं जंपिहिसि' । 'न एस एवं संचल्लइ'  
त्ति कलिऊण ईसिहसियपुव्वं वुत्तं धरणेण 'भाइ ! मए तुह चित्तमेवमणुमाणियं, न उण एरिसं मणेणावि कामेमि,

१ भाइ ! जेव्दिना ॥ २ ण भणियं 'छिं' खर ॥

अथोवज्जणं पुण कं पि महाधणमाराहिय तन्नीवीए करीहामो' । एमाइवहुपत्तियाविण्ण नेहोवेरोहेण पडिवंणं धणेण । तओ अकहिऊण जणयाणं निग्गया गिहाओ नयराओ जणवयाओ य ।

- अन्नया 'कहं पुण एस न पडिनियत्तिहि?' ति चितणोवल्लद्धोवाएण भणिओ जेट्ठो कणिट्ठेण 'किं मन्ने भाट् । धम्मेण जणो नंदइ उय पावेण ?' । आह धणो 'वच्छ ! धम्मेण जओ, पावेण सओ' ति गोवाल-वालंगणाणं पय-  
 5 डमेयं, अहं पि एयमेव अब्भुवगच्छामि" । इयरेण संलत्त 'जणवायवाडलिओ तुमं पि तत्तं न परिभावेसि, संपयं पावेण चेव जओ दीसइ न धम्मेण' । एवं विचाए वट्टमाणे भणियं धरणेण 'करेमो समासन्नगामे ववहारं, परं जो मिच्छावाइ तस्सेगं लोयणं हरिज्जिही' । ताहे धणेण 'अवितहो चेव मम पक्खो, न याहमेयलोयणं हरिम्मामि' ति संपहारिऊण भणियं 'एवं होउ' ति । पत्तेहि य गामं पुच्छिया परिसागया गामीणमणुस्सा । तेहिं वि सदसा भणियं 'संपयं पावेण जओ, न धम्मेण' । तओ हरिसिओ धरणो । वीयदिणे वच्चंतेण पुणो पारद्धो विवाओ,  
 10 तहेव कयं दुइयनयणस्स जूयं । तं चेव भणियं गामीणेहिं । तुट्ठो धरणो । पुणो वच्चंता पत्ता एगं महाडविं । तहिं च वुत्त धरणेण 'पडिवज्ज भाउय ! मम पक्खं , देहि वा हारियपुव्वमच्छिजुयलं, अहवा भणाहि-न कयं चेव मए जूयं' ति । तओ सच्चवाइत्तेण 'वच्छ ! कयमेव जूयं, तुह संतियाणि य मे लोयणाणि, कुणसु जं ते रोयइ' ति धणेण वुत्ते इयरेण तहाविहतरुच्छीरपूरणेण विद्धंसियाइं से नयणाइं, अतरियाइं फुल्लयपडलएहिं । तहा वि 'वाल्लीलाइय-मेयं' ति मन्नमाणो मणागं पि न कुव्विओ धणो । इयरो वि कवडेण 'हा ! पावो असमिक्खियकारी अदट्टव्वजेट्ठो  
 15 अहं' ति विलवंतो कह कह वि निवारिओ धणेण हरिसियमणो वच्चंतो अन्नत्य 'भाड ! वग्घो वग्घो' ति वाहरिउ-मारद्धो । भणिओ धणेण 'वच्छ ! मा कुलक्खओ होउ लहुं पलायाहि पलायाहि' । ति भणिओ पत्ताइऊण संपुंन्नमणोरहो गओ सनयरं । धणो वि परिव्वमंतो, पत्तो एगं महीरुहतलं, तत्थ वि 'कत्थ गओ ? किमणुहवइ मे भाउओ ?' ति झूरंतो दिणसेसमइवाहिऊण रयणीए वि तहेव विलवंतो दिट्ठो सन्निहियवणदेवयाए । आभोइऊण य से महाणुभावयं इयरस्स दुज्जणसहावयं साणुकंपं जंपियं 'महासत्त ! अलं तस्स पाविट्ठगरिट्ठस्स चिंताए, दोहगो  
 20 खु सो तुज्ज, ता गिण्हाहि एयं सयलनयणरोगनिम्महणमंजणगुलियं' । ति जंपिरी करयले गुलियमारोविय तिरो-हिया देवया । णो वि तप्पओगेण पउणनयणो बहुमन्नमाणो देवयं पत्तो रन्नपेरंतसंठियं सुभइनयरं ।

तत्थ रायधूयाए रोगोवहयनेत्ताए वेज्जोवल्लभहेउं परिव्वमंतो पडहगे उग्घोसणं सुणेइ 'जो रायकन्नारयणं पउणनयणं करेइ तस्स राया कन्नमद्धरज्जं च देइ' । तओ साणुकोसयाए छित्तो णेण पडहगो, पउणीकया पुव्वं-जणप्पओगेण रायदुहिया । विमिहएण रन्ना परिणाविओ कन्नयं संविभत्तो अद्धरज्जेण सयलसामंतपहाणो सुह-  
 25 मच्छिउं पवत्तो ।

- अन्नया रायकुलाओ पडिनियत्तमाणो दिट्ठो सुनदणागयवंभणेण पच्चभिन्नाओ । 'ईसिकयसत्थिकारं च सुनदण-नयरवासिअउव्ववंभणस्स देह दक्खिणासणाहं निस्सावयं' ति वित्तेण पत्थिओ य । तओ 'सुनदणनयरागओ' ति सगोरवं भवणं नेऊण पुच्छिओ जणयाणं धरणस्स य कुसलवत्तं । साहियं च तेण 'जप्पभिइं तुमह वग्घसंपओगवइ-यरो निसुओ तप्पभिइं महामोयानलपलित्ताणि माया-वित्ताणि चिट्ठंति, धरणो वि नीरोगो वीहीए ववहरइ' ति ।  
 30 तओ 'पडिगओ खेमेण धरणो' ति तुट्ठेण कारिऊण सरीरट्ठिं दिन्नमहग्घवत्थजुयलो नाममुद्दादक्खिणापुव्वं सम-प्पियमुद्दियलेहो विसज्जिओ । पडिगओ माहणो । णिवेइयदिट्ठवइयरो दंसियनामंक्रियमुद्दादक्खिणो समप्पियं-लेहओ य पुत्तखेमाऽऽमोइएण सुट्ठु सकारिओ सुदत्तेण, कारियं च वद्धावणयं । आणंदिओ वंधुवग्गो । धरणो उण

‘हा ! कहमुत्तिओ रत्ताओ ? कहां वा पाविओ रायरिद्धिं सो मम पडिक्कलकारी ? आगओ वि सुट्टुयरं लहुत्तहेऊ मे भविस्सइ त्ति, ता तुरियं गंतूण करेमि उवायंतरं जेण सो न होइ’ त्ति चिंतिऊण ‘दढमुक्कंठिओ म्हि भाउणो’ त्ति जणयस्स निवेइऊण गओ सुमदं । आणंदिओ धणो । दूमिओ इयरो चितइ य ‘धम्माओ जओ त्ति सच्चवियमेएण एरिसरिद्धिलद्धीए, ता करेमि अज्ज वि विवरीयमेयं, पूरेमि नियमणोरहे लहुं’ त्ति ।

तओ लालिज्जमाणो वि अक्खंगभोगेहिं, पाविज्जमाणो वि रायसिरिसामित्तं, ढंसिज्जमाणो वि नरवडस्स, 5  
पूडज्जमाणो वि परिवारेण, कयग्घनिग्घिणमणो कुवियप्पवाउलो कालं गमेइ । ‘धणसहोयरो’ त्ति सम्मओ जाओ नरिंदस्स । लद्धपसरेण य कयाइ पट्टरिक्के भणिओ णेण नरिंदो ‘देव ! नरिंदा किर सहस्सक्खिणो भवति, ता कह-  
मिमिणा धणेण तुव्भे वि वंचिय ?’ त्ति । राइणा भणियं ‘कहमेयं ? ति न याणामि’ । तेण भणियं ‘जइ मं न उग्घा-  
डेह तो जहट्टियं साहेमि, अन्नहा वीहेमि इओ दाणवाओ’ त्ति । तओ ‘एवं’ ति पडिवन्ने राइणा सिट्टमणेण “एसो 10  
खु अम्ह नयरे चंडालो अहेसि, रायविरुद्धासेवणेण य निव्विसओ कओ इहागओ, कह नाम तुव्भेहिं अपरिच्छिओ  
वीवाहियो ? रायरिद्धिं च पाविओ ? त्ति, अहं पि इमिणा भेसिऊण पडिवन्नाजंपणो ‘भाइ’ त्ति पयासिओ परिवार-  
दाणेण सुरक्खिओ धरिज्जामि, ता मोयावेहिं मं, जेण कर्हिचि तित्थे गंतूण आयमुद्धिं करेमो, तुव्भेहिं वि  
जहाजुत्तमणुचिट्ठियवं” । तओ ‘सच्चमेयं’ ति मन्ममाणेण कोवाउरेणावि भणिओ सो राइणा ‘भइ ! धुत्तो मुट्टो  
सुट्टुयरं घोराइ, ता न तए एयमन्नस्स साहियव्व, अहं पुण तहा जइस्सं जहा तुममेयपए भविहिसि’ त्ति । तओ  
‘आएसो’ त्ति भणंतो गओ सट्टाणं धरणो । 15

राइणा वि पओसे वाहरिया पाणपुरिसा, आइट्टा य पच्छन्नं जहा ‘पच्चूसे एगागी वच्चहरगओ धणो वावा-  
इयव्वो’ त्ति । पडिवज्जिऊणाणागयमेव पविट्ठा ते वच्चहर । इओ य धणेण गाढसिरवेयणाविहुरिएण रायावसरे  
निउत्तो धणो । सो वि य गहियघणनेवत्थो सरीरमुद्धिकए गओ वच्चहरं वावाइओ पाणपुरिसेहिं । तओ उक्कूयं  
जलपरियारएण, जाओ हाहारवो, विन्नायत्ततो मुच्छिओ धणो । ‘कए वि उद्धदेहिए न देहट्टिइं कुणइ’ त्ति सोऊण  
जाओ सवियको नरिंदो ‘नूणं सरलसहावो, पुन्नाहियो य धणो, तेण पुण महापावपेल्लिएण आयवहाए चेव एवं- 20  
विहं वितहमुल्लवियं’ त्ति कयनिच्छओ गओ धणसमीवं । संबोहियो संसारसख्वसाहणेण, भणिओ य ‘न तए एत्थ  
कस्सइ कुप्पियव्वं, जओ समयमेव तेण मच्चू समायड्ढिओ’ । ‘एवमेवं’ ति वज्जरिओ पुव्वइयरो । तओ किच्छेण  
पवत्तो सरीरट्टिइकरणे धणो । ‘किं पुण तस्स एरिसववसायकारणं ?’ त्ति वियकंतो कालं गमेउमारद्धो ।

अन्नया पुच्छिओ णेण विजयकेवली तन्निबंधणं गइविसेसं च । सिट्टं केवलिणा ‘तुमं सच्चवाई धम्मसीलो  
सव्वजणवहुमओ विवरीयसख्वस्स तस्स पओसहेऊ संवुत्तो सि, न उण पुव्वभवियं विसेसकारणमत्थि । उव्वन्नो 25  
य सो वराओ इहेव नयरे चंडालदारिया नवलुव्वणा य अक्कोसमाणी जीवाछेएण विवाइया भत्तुणा जाया इहेव  
गणियादारिया, तहेव भुयंणेण विणासिया इहेव रयगदुहिया संजाया कुरूवा वंकरुगंधमुही मूया वहिरा य पामा-  
परिगयतणू जणणीए वि सुट्टुअणिट्टा कट्टेण संपयं चिट्ठइ’ त्ति । एयमायन्निय निव्विन्नो संसारकाराहराओ धणो  
पुत्तं नियपए ठविऊण पडिवन्नो सामन्नं । परिवालिऊण य चिरं गओ सुरलोयं, सुहपरंपरेण परिनेव्वाणं च । इयरो  
वि वराओ दुहसंतत्तगतो चिरं भवाडवीए परियडिस्सइ त्ति । 30

[ धण-धणयकहाणयं समत्तं. ६ ]



ता धम्मसीलाओ ! अलियवयणविरया-ऽविरयाणमेरिसा गुण-दोसा ह्वंति । तओ तहेव पडिवभा ताहिं सव्वाहिं अलियवयणनिवित्ती ।

अहं पि 'सुंदरमेयं, अओ परं न मं वंचिस्संति एयाओ' ति त्रिमुक्का मए एयस्स दो दो पहारा । 'तिन्नि तिन्नि चेव दाहं' ति भावयंतो तहेव चिट्ठामि । एत्यंतरे पुणो वि भणियं मुणिवरेण—

- 5 'न य वेत्तव्वं सव्वं परदव्वं जं न सामिणा टिंनं । जं पावमूलमेयं पि वन्नियं वीयमोहेहिं ॥ ११९ ॥  
जह पीडेइ हणंतो जीवं जीवो तहा हरंतो वि । तम्हा परिहरियव्वं परधणहरणं पयत्तेण ॥ १२० ॥  
कर-चरणल्लेयणं सुल्लभेयणं गुंवं-खोडयक्खेवं । वद्वंयणमुव्वंयणमिहडं पि ल्हंति हरणाओ ॥ १२१ ॥  
परलोयम्मि दरिदा दासा पेसा य वाहणा हुंति । पच्चंति चिरं नरए जीवा परदव्वहरणेण ॥ १२२ ॥  
परदव्वहरणविरया विस्सासपयं ह्वंति लोयस्स । किंत्तिं सुह च विउलं पावंति इहेव जम्मम्मि ॥ १२३ ॥
- 10 परलोए धणहाणी न होइ, सिज्जइ समीहियं सव्वं । चिंताईओ वि धुवं जायइ सुहसंपयालाओ ॥ १२४ ॥  
नायमिह सिद्धदत्तो कविलो भट्टो य आणुपुव्वीए । नियमा-ऽनियमसुद्धा-ऽसुहलाभफलुप्फालणे तुम्ह' ॥ १२५ ॥  
तओ कयंजलीहिं 'के ते सिद्धदत्त-कविल ?' ति पुच्छिओ मम पिययमाहिं पभणिओ महरिसी—

### [ ७. सिद्धदत्त-कविलकहाणयं ]

- इहेव विजए विसालच्छनयरे माडदत्त-वसुदत्तनामाणो वणियकुलुम्भवा दोघ्नि मित्ता अहेसि । पढमो मुणिसमी-  
15 वपडिवन्नयूलपरधणहरणविरमणो, न इयरो । पयणुधणा य दो वि विवणीसु ववहरंति । पढमो सुद्धववहारेण, वीओ  
कूडतुल-कूडमाण-तप्पडिरुवभंडेहिं । तहा वि न सुट्ठ लहइ वसुदत्तो ति । पयट्टा गहियतहाविहप्पमुल्लभंडा पुडडर ।  
इओ य तन्नयरसामिणा वसुतेयनराहिवेण अवंचयं कंचि भण्डागारियं लिच्छंतेणं परिच्छानिमित्तं निउत्ता  
पच्चइयमणुस्सा महग्घाभरणाणि मग्गेसु ठविज्जण पत्तलदुमसालानिलुक्का निहालंता चिट्ठंति । गहिउकामं च कंचि  
दट्टूण महया सहेण खंकारिंति । अओ न कोइ ताइं गिण्हइ । गिन्हंतं च 'तकरं' ति करिय दंडंति । तओ ते वि  
20 वणिणो एगत्थ सरयदिणयरभासुरं पुरओ मणिकुंडलं पासंति । तओ 'अहो ! सयंवरा सिरि' ति जंपंतो वलिओ  
तयभिमुहं वसुदत्तो । 'नणु हालाहलं विसमेयं' ति विंतेण वारिओ इयरेण नियत्तिज्जण य वदकंतो दूरेण । तस्स  
वोहणत्थं सिट्ठो दिट्ठवुत्तंतो माहदत्तेण, जहा—

### [ ३. देव-जसवणियद्विट्ठो ]

- किर अम्ह नयरे देवो जसो य दो वणिया साहारणववहारिणो अहेसि । देवो सावओ अदिंनं न गिण्हइ,  
25 इयरस्स नत्थि नियमो । अन्नया विचारभूमीओ नियत्तमाणेहिं दिट्ठं मग्गासन्ने निवडिय कणयकुंडलं । देवेण वय-  
भंगभीरुणा न निहालियं पि । जसेण तल्लज्जाए तथावहीरियं पि मग्गंतरेण गंतूण संगोवियं, चित्तियं च 'महाणुभावो  
देवो जस्सेरिसी अलोभया, तहा वि एयसाहारणमिणं करिस्सामि' ।

- अन्नया नयरंतराओ तं च अन्नं च साहारणभंडं विणिओइज्जणमाणियमणेण पभूयं पडिभंडं । कया देवेण  
आय-व्वयनिरुवणा । 'पभूयं पडिभंडं' ति सवियक्केण पुच्छिओ जसो । जाहे सो अन्नमन्नाइं वागरेइ ताहे सवहसा-  
30 विओ काज्जण सविसेसं पुच्छिओ । कहिए सव्भावे निद्धारिज्जण नीणियमात्रणाओ अहियं भंडं संगोवियं जसेण निय-  
मंदिरे । नवरं तीए चेव रयणीए खत्तं दाज्जण तं च अन्नं च अवहरियं तक्करेहिं । विसन्तो जसो भणिओ देवेण 'सित्त !

१ गुव्वं ख१, गुत्तं त्रा० ॥ २ यमेसु सुद्धा-ऽसुहप्फलुं ख१ ख२ ॥ ३ परदव्वहं ॥ ४ "लब्धुमिच्छता"  
ख१टि०, ख२टि० ॥

अन्नायागयधणमणत्थनिबंधणं चैव ढोइ, ता करेहि संपयं तन्निवित्तिं' । अब्भुवगयमिणं जसेण । दुइयदिवसे समागया देसंतरवणिया दिन्ने तेसिं तं विवणिभंडं । संपत्तो दुगुणो लामो । तुट्ठो जसो । जाओ सब्भावसावओ त्ति ।

[ देव-जसवणियदिट्ठंतो समत्तो. ३ ]

ता भइ ! नायुवज्जणे जइयव्वं किमेइणा परिणामविरसेण चोरंकारहेउणा परधणगहणेणं ? ति । एवमुत्तो वि वला नियत्तिऊण गिण्हंतो तं वसुवत्तो गहिओ निवभडेहिं, उट्ठालियं भंड । माइदत्तो वि विसन्नचित्तो भणिओ 5 तेहिं 'महासत्त ! मा विसायं गच्छ, एहि रायसमीवं, इमिणा सत्तेण करिस्सइ ते महापसायमवस्सं महाराओ' त्ति । माइदत्तेणं भणियं 'ममावि भंडं वेत्तूण मुयह ताव एयं, खमह एगं बुद्धिखूणं वालसहावस्स एयस्स, एसो चैव महा-पसाओऽम्ह, किं गामेल्लयाणं रायदंसणेणं ?' । तओ तेहिं 'तुह वयणेण चैव मुक्को अम्हेहिं एस, तुमं पि रायदंसणेण करेहि अम्ह पसाय' ति विंतेहिं सविणयं नीओ रायमंदिरं । दंसिओ नरिंदस्स । निवेइओ कुंडलदंसणाइवइयरो । राइणा वि पुच्छिओ माइदत्तो 'किं पुण तुममेवं निरीहो सि ?' त्ति । तेणावि 'गुरुपायपसाएणं' ति भणिऊण 10 कहिया नियमगहणवत्ता । तओ तुट्ठेण राइणा दिन्नेविउलजीवणो निउत्तो भंडागारे एसो, जाओ महिड्ढिओ सव्वजणसम्मओ ये । वड्ढंतगुरुवहुमाणो भदयभावमणुहविऊण समाहिणा कयदेहच्चाओ जाओ इहेव विजए चदा-माए पुरीए पुट्टरसेट्ठिणो सईए भारियाए कुच्छिसि पुत्तभावेण, निव्वत्तियसयलपमोयकिच्चो पइट्ठियसिद्धत्ताभि-हाणो समए संगहियकलाकलाओ वीहीए ववहरंतो चिट्ठ ।

इओ य सो वसुवत्तो तहा कूडतुलाइणा दुहजीवियाए जम्ममइवाहिऊण विचित्तयाए कम्मपरिणामस्स जाओ 15 वगालसन्निवेसे माहणदारओ, नामं च से कविलो त्ति । वड्ढंतेण य तेण झीणो जणयविहओ तहा वि तहाविहद-रिदुट्ठियाए गाहिओ पिउणा पाणिं । जायकइवयडिंभरुवस्स य कालगयाणि से जणयाणि । अन्नया दुत्थिओय-राए घरिणीए छणिज्जंतो निग्गओ धणज्जणनिमित्तं । नाणाविहकुक्कमेहिं किलिस्सिऊण बहुकालं मिलिओ कस्सइ कप्पडियस्स । भणिओ य तेण 'जइ धणत्थी ता किमेवं निरत्थयं किलिस्ससि ? गच्छ, चंदाभापुरीदेवयाए नामओ गुणओ य आसाऊरियाए पाडिच्चरणं करेहि, जेणं चित्तियत्थसिद्धी लहुं भवइ' । एयमायन्निय पत्तो कविलो चदाभं । 20 सुइभूओ कयसुरहिकुमुमपूओ पणामपुव्वं विन्नविद्य देवयाए पुरओ निवन्नो कुससंथारए । तइयरयणीए भणिओ देवीए 'भट्ट ! कीस लंवेसि ?' त्ति । तेण भणियं 'सामिसालिं दव्वं जाएमि' । 'केरिसं ? कया मम समप्पिय-मासि ?' त्ति बुत्ते देवयाए पुणो जंपियं विप्पेण 'किं भयवई पच्चक्खसयलजणमणसिया मं वरायमेवं विप्पियारेइ ? सव्वहा निन्नि हं जीवियव्वयाओ, वरं परमेसरीए चैवोवहारत्तं पत्तो म्हि' । तओ विन्नायत्तन्निच्छया 'जइ एवं ता मम पुट्टपएत्त.पो पोत्थियं गहाय नयरीए विक्किणेज्जासि, लभिस्ससि पंचरुवयसयाइं, न इओ परमं 25 मगियव्वं' । ति मंतिऊण तिरोहिया एसा । भट्टो वि पभाए पोत्थियाविक्रयनिमित्तं परिब्भमंतो रुवयमेत्तं पि अलभमाणो पत्तो सिद्धयत्तसमीव । तेणावि 'भट्ट ! केत्तिएण पोत्थिया लब्भइ ?' त्ति बुत्ते पडिबुत्तं विप्पेण 'पंचहिं रुवयसएहिं' । तओ 'किमेत्थ लिहियं ?' ति सकोउयमव्रलयंतेण दिट्ठो सिलोयपाओ "प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः" । परिभाविओ भावत्थो, 'अवित्तहमेयं' ति ठियं चित्ते । तुट्ठेण य दिन्नाइं से पंचरुवयसयाइं । तुट्ठो चलिओ सदेसंस्स कविलो । अंतराडवीए गहिओ भिल्लेहिं 'ईसरो' त्ति वंदिग्गहणेण चिरं कयत्थिऊण कंठगयप्पाणो 30 मुक्को निरासो चैव गओ नियमंदिर ।

सिद्धदत्तो वि दिवसंते पिउणा निरुत्रियाऽऽय-व्वएण पुच्छिओ रूवयवयट्टाणं । दंसिया सुएण पोत्थिया । तओ 'अत्थाणवयगो सि' त्ति कुविएण पोत्थियासहिओ चैव निच्छूढो, भणिओ य 'न रूवयरहिएण गिहमागतव्वं' ति । तओ अत्थमिए दिवायरे 'न एत्तियसहस्सेहिं विणा एमि' त्ति कयनिच्छओ निग्गओ सिद्धदत्तो । 'पिडियाइं नयरदाराइं' ति निसिगमणत्थं पसुत्तो विवित्ते जुह्मदेउले । 'पुव्वोवत्तनासो नत्थि' त्ति भावयंतो निव्विसाइणण 5 पाविओ सुहनिहं ।

इओ य तीए चैव पुरीए राय-मंति-सेट्ठि-पुरोहियकन्नयाणमन्नोन्नाणुरायनिव्वभराणं विप्पओगमीरूयाणं संलावो संवुत्तो 'किल वालभावप्पभावेण सुहमिच्चियकालमणुभूर्यं संपन्नोगसुहं, संपयं पुण पडिवन्नाओ वेरिणा जोव्वणा-रभेण, न याणिमो कहिं पि कहिं पि विहिपवणेण पणोल्लियव्वाओ ?' त्ति । ताहे रायसुयाए वुत्ताओ ताओ 'ह-ला ! जइ एवं ता जाव जणएहिं न कस्सइ वियरिज्जामो ताव करेमो सयमेव कं पि एगं वरं जेण न विउज्जामो' 10 त्ति । पडिवन्नमिणं सव्वार्हिं । तओ रायसुयाए देसन्तरागओ रायसेवओ 'महाकुल्लप्पसूओ' त्ति कलिय वाहरिज्जण पच्छन्नं विन्नत्तो पत्थुयत्थे । जाहे न पडिवज्जइ ताहे भणिओ 'जइ नेवं पडिवज्जसि तओ तुहोवरिमत्ताण घाएमि' । तओ 'न अन्नहा मोक्खो' त्ति पडिवन्नं तेण । 'अमुगरयणीए अमुगत्य जुह्मदेउले चउरो वि परिणोयव्वाओ' त्ति ठाविए सिद्धंते निग्गओ रायपुत्तो । तयणु 'अहो पिवील्लिय व्व एगग्गहा कन्नगहियवग्गि व्व अगह-मोक्खसुहा, पिसाइ व्व छलणसीला रमणी होइ, पेच्छ चउरो वि क्हमहं छल्लिओ एयाए ?' त्ति चिंतासायरगओ ठिओ निरुवियदिणं 15 जाव । तयंते पुण 'कहमहं सामिदोहेण छणमयलंछणुज्जलं नियकुलं कलंकेमि ?' त्ति कयसंकप्पो पओसे चैव निग्गओ नयरीओ सो महायसो । सा वि रायदुहियाऽभिन्नरहस्सचेडीसहाया गहियविवाहोव्वगरणा पढमपहरद्धे समागया तं देवउलं, दिट्ठो सुहपसुत्तो सिद्धदत्तो । संभंताए 'किं निच्चित्तो सुवसि ?' त्ति भणंतीए विवोहिज्जण गाहिओ करं । निव्वित्तिओ गंधव्वीवाहो । कओ कंकणवंधो, अगहियसंकेयत्तेण अणुलवंतो आसंधियपेमणुणं भणिओ तीए 'पूरिया मम मणोरहा, अन्नार्सि पि तिन्हमेवं चैव पूरियव्वा, कत्थ पुण वाहणाइं जेहिं पलाइस्सामो ?' । सो वि 'सव्वं सुंदरं 20 होही, संपयं ताव निदाइओ म्हि' त्ति वोत्तूण ठिओ सुत्तवेड्डएण । तीए वि 'किं मन्ने न होइ सो एसो ?' त्ति संक्रियाए पलोइओ पुव्व्राणीयसरावसंपुडपईवेण, सुहलालियं सुख्वं च तं निउणं निहालिंतीए दिट्ठा पोत्थिया, वाइओ सिलोगपाओ । तओ 'अहो ! सच्चमेयं' ति सुट्ठु तुट्ठा सेसियाण पचायणत्थं करयलवोलियकज्जलेण 'किं कारणं 'दैवमलंघनीयं' ति दुइयपायं लिहिज्जण गया एसा नियमंदिरं । एवं दुइयपहरे मंतिदारिया वि 'तस्मान्न शोको न च विस्मयो मे' इय तइयपायं लिहिज्जण पडिगया । तइयजामे सेट्ठितणया 'यदस्मदीयं न हि तत् परेपाम्' इति 25 सिलोगं पूरिज्जण गया सगेहं । एवं चउत्थपहरे उवरोहियसुया वि, नवरं लिहिओ तीए इमो सिलोगो—

व्यवसायं विद्यात्यन्यः फलमन्येन भुज्यते । पर्याप्तं व्यवसायेन प्रमाणं विधिरेव नः ॥ १२६ ॥

ताव य 'अम्हमेसावराहो भविस्सइ' त्ति नाऊण निवेइओ चेडीहिं तज्जणणीण एस वइयरो । ताहिं वि नियनियपईणं । तओ 'सो पडिओ पभाए न लव्विभिहि' त्ति संभंतेण राइणा तयाणयणकज्जे पेसिओ पहाणपरियणो । पडिवोहिओ य तेण गहिरतूरनिग्घोसेण सेट्ठिनंदणो । आरोविओ रायवारणं । महया विच्छड्डेण पाविओ रायभवणं 30 'पुरदग्गरुहो' त्ति परियणाओ वियाणिऊण हरिसिओ नराहिओ । पुरदरो वि सव्वरयणिं नयरतिय-चउक-चचरेसु तमन्नेसिऊण लद्धोदंतो तक्खणमेव पत्तो रायसमीवं, विन्नायतत्ता सेसकन्नाजणया वि । विम्हिया सव्वे वि कन्नानेहविलसिएण जामाउयपुन्नपगारिसेण य । ताहे रन्ना कारिओ महाविवाहपमोओ, दिग्गाइं पंचगामसयाइं

जामाउयस्स । एवं सो असंभावणिज्जसुहंसमिद्धिसमुद्धासिओ चिरंजीवियमणुवालिऊण गुणसेहरगुरुसमीवे विघ्नाय-  
पुव्वभवो भावसारं साहुचरियेमणुद्विऊण गतो सुरालयं, कमेण सिद्धालयं च ।

कविलो वि उयरभरणचिंतातिरोहियधम्मसओ अट्टवसट्टो कालं काऊण निवडिओ कुजोणिकडिछम्मि ।

[ सिद्धयत्त-कविलकहाणयं समत्तं. ७ ]

\*

5

ता धम्मिणीओ ! एवंविहा गुण-दोसा परधणहरणविरया-ऽविरयाण पाणिणं ति ।

एयसवणुव्भूयगुरुसंवेगाहिं जंपियं मम पणइणीहिं 'भयवं ! अम्हेहिं पि न वेत्तव्वं चोरंकारकारणं परधणं,  
नियघरगयं पि पइदिट्ठिवंचणेणं ति, पडिवन्नं तुम्ह समक्खमेयं पि तइयं वयं' ।

ताओ 'कल्लाणभायणीओ ! सोहणमिणं' ति साहुणाऽऽणत्ते अहं पि 'सुट्टु सुंदरमेयं नेदाणिमेयाओ मम  
गेहं वंचिस्संति' ति नियत्ततइयतइयपहाराभिप्पाओ तहेव सुणेमि । ताव य पुणो वि वज्जरियं निरवज्जचरिएण 10  
जइवरेण—

“महाओ ! सुणह अन्नं पुंनं कल्लाणमंगलं सेयं । सीलं सव्ववयाणं सिरोमणी मुणिजणाइट्ठं ॥ १२७ ॥

वारेज्जयपभिइं पि य कुलंगणाणं गणिज्जए एयं । 'परपुरिससंपओगो मणसा वि न कामियव्वो' ति ॥ १२८ ॥

एयं पालंतीणं विस-विसहर-वारि-वन्धि-वेयाला । पुंल्लि-गइंदा रुदा इहेव जम्मे न पहवंति ॥ १२९ ॥

छज्जइ माणो, तेओ वियंभए, फुरइ फारमाएज्जं । आससि-द्धरं पसरइ जयम्मि किच्ची सइजणस्स ॥ १३० ॥ 15

रुवं सोहग्गसिरी सुपुत्तसंपत्ति चित्तनेव्वाणं । सग्गा-ऽपवग्गसंगो जायइ सज्जो परे लोए ॥ १३१ ॥

सीलविउत्ता सत्ता इहेव नासोट्ट-सवण-करहरणं । धण-बंधुविप्पओगं हीलं निंदं च विंदंति ॥ १३२ ॥

परलोयम्मि नपुंसा दुरुवदोहग्गिणो भगंदरिणो । रंडकुरंडा वंझा निंदू य हवंति दुस्सीला ॥ १३३ ॥

नेलंछणमणुजम्मं नर-तिरियत्ते सहंति ते बहुसो । पच्चंति पुणो वि पुणो नरयहुयासे मलियसीला ॥ १३४ ॥

सीलेण सुहपवाहं संपत्ता सीलसुदरी पवरं । दुल्ललिया पुण दुस्सीलसालिणो निवडिया दुक्खे” ॥ १३५ ॥ 20

ताओ 'का सा सीलसुंदरी ? के वा ते दुल्ललिय ?' ति ताहिं पुच्छिओ वज्जरिउमारद्धो महामुणी—

[ ८. सीलसुंदरीकहाणयं ]

आसि इहेव विजए विजयवद्धणे नयरे वसुपालसेट्ठिणो सुमालाघंरणितणुरुहा सुंदरी नाम दारिया । सा य सय-  
लकलापत्तट्ठा जिणसासणे लद्धट्ठा सावयसामायारीनिग्घट्ठा रुव-लायन्न-गुणेहिं सुट्टुलट्ठा जाइज्जमाणी वि समाणकु-  
लविहवेहिं सेट्ठि-सत्थवाहप्पभवेहिं असंखसारेहिं वणिकुमारेहिं पिउणा न कस्सइ असाहम्मियस्स दिग्घा, दिग्घा उण 25  
तन्नयरवासिणो सुसंपत्तसावयगुणरासिणो समाणवयस्स सुभइसावयस्स । जूरंति य तयलाभाणुतत्तचित्ता तदन्ने पसं-  
संति सुभइपुन्नपरिणइं, निंदंति नियगुणगणं, रूसंति देव्वस्स, चिट्ठंति तक्कहाविणोएण । अन्नया तग्गुणसवणाव-  
ज्जियमणा दो भट्टतणया दो वणियतणया एगचित्ता एगगोट्टिविलासिणो नियविघ्नाण-रुवगव्वियमणा तीए सह  
संगममहिलसंता पयत्ता नाणाविहोवाएसु । कइं ?—कयविसेसुव्वभडसिंगारा चिट्ठंति तीसे निग्गम-प्पवेसदेसेसु,  
पहंति ललियमहुरवाणीए ३०पनयगाहाओ, जंपंति विचित्ताओ, अन्नउत्तीओ । तथा वि तीए कलियतयाकूयाए वि 30

१ यमाराद्विऊण गओ जे०विना ॥ २ अम्हाहिं जे०विना ॥ ३ सीलव्वयं वयाणं सिं जे० ॥ ४ संकेतः—  
“पुल्लि ति व्याघ्र” ॥ ५ घरिणिं ख१ ॥ ६ संकेतः—“पत्तइ ति बहुशिक्षिता” ॥ ७ सट्ठेत—“निग्घट्ट ति कुशला” ॥  
८ सट्ठेत—“लट्ट ति सुन्दरा” ॥ ९ जूरंति ख१ आ० ॥ १० संकेतः—“लप्पन्नय ति शृण्णारगाथाकोशविशेष” ॥



‘अहो ! अविवेगवियंभियं’ति भाविरीए दिट्ठिदाणमेत्तेणावि अणासासिएहिं तेहिं भूरिरिस्थव्वएण उव्वयरिया काड परिव्वाइगा । सा उण बहुसो वि उव्वसप्यन्ती सम्मत्तमालिन्नभएण नावलोडया वि तीए, तहा वि कावंबुय-धट्टयाए भणिया सा कंहंचि परिव्वाइगाए—

‘धम्मो जिणेहिं कहिओ सव्वजियाणं दयाविहाणेण । तेसु दुहिएसु सुंदरि ! ता कुणसु दयं पयत्तेण’ ॥१३६॥

5 तओ मुणियकागुवयणाए भणिया सुदरीए सही ‘हला ! महापावमेयं जं पडिवन्नव्वया वि पाणिणो परेसिं पाववुद्धिं वियरंति, ते हि अप्पाणं परं च नियमा दोग्गए निव्वाडिन्ति’ । तमायन्निय नायनिच्छयाए भणिया ते परिव्वाइगाए ‘भदा ! सुयह तयग्गहं जइ सुहं जीविउमिच्छह’ । तहा नि अनियत्तग्गहेहिं तेहिं आराहिओ मंतसिद्धो । तेणावि कसिणं च उदसिरत्तीए नीया ते नयरुज्जाणं । आलिहियं मंडलगं । पूरुऊण तम्मज्जोवडट्टेण पारद्धो मंत-जावो । अचित्तसामत्थयाए मंतस्स वंभचेरपोसहिणी एगागिणी पसुत्ता आणीया तत्थ सुदरी । तीसे तेयमसहमाणी

10 ‘आ पाव ! किमेरिसे पावकम्मे निउत्त म्हि ?’ ति मंतसिद्धं भणिऊण पउत्था मंतदेवया । सुंदरी वि देवयावेसो-वहयनिदा दीविउज्जोएण समंतओ वणगहणं निज्जायमाणी ‘हा ! किमेयं ?’ ति विम्हय-संभमुब्भंतलोयणा नमो-कारसरणपरायणा जाव चिट्ठः, ताव भणिया ते सिद्धेण ‘अरे ! समागया एसा तुम्ह दइया, करेह जं वो रोयइ’ ति । ते वि ‘जो पढमं छिविही सो चेव पढमं रमिहि’ ति कयसंकेया सममेव पहाडया तयभिमुहं । थंभिया य तक्खणा ते विन्नायसुदरिसीलव्वयनिच्छयाए उज्जाणदेवयाए । ते तहाकट्टभूए पासिऊण भयसंभंतो चलणेसु

15 निव्वाडिऊण भणियाडओ सिद्धो ‘भयवड परमजोगिणि ! न मुणियं मए तुह माहपपं तेण एरिसं व्वसियं, न पुणो एवं करिस्सं, खमाहि संपयमिणं, देहि दीणाणणस्स अभयं’ । एवं पुणो पुणो विन्नविंतस्स तस्स अलद्धपडिवयणस्स चेव पहाया रयणी । दिट्ठो सो वइयरो नयरुज्जणेण । परंपराए समुप्पन्नकोउगा मिलिया नयरप्पहाणा । समागओ सयं सूरयाया । पच्चभिन्नाया जणेण ते सुंदरी य । ‘को एस वइयरो ?’ ति पुच्छियं नरिंटेण । जाहे न तरंति जंपिउं दुल्ललिया ‘सुंदरी वि न याणामि’ ति जंपंती लज्जोणया चिट्ठः ताहे अभयं जाडऊण साहिओ परमत्थो

20 सिद्धेण । तव्वेलं च देवयाविसज्जिएहिं दुल्ललिएहिं वि भणिय ‘देव ! एवमेयं’ ति । तओ कुविएण राइणा ‘अरे पावा ! मम नयरे एवं ववहरह ?’ ति वितेण वंधाविऊण य पवेसिया ते चउरो वि चारयं । विज्जासिद्धो वि ‘अरे पाविट्ट ! ममावि अंतैउरमेवमवहरिहिसि तुमं ति महाडंडारिहो सि सुट्टु, तहा वि अभएण साविओ सि ति तुरियं होसु निव्विसओ’ ति निव्वमच्छिऊण मुक्को । अप्पणा वि चत्तवाहणो सह पउरेहिं निव्वडिओ सुदरीए चलणेसु । ताव य समागओ वसुपालसेट्ठी अब्भुट्ठिओ सुदरीए । ‘धण्णो तुमं जस्सेसा सीलसुंदरी दुहिय’ ति पसंसिओ रन्ना ।

25 सेट्ठिणा वि भणियं ‘देवो चेव धन्नो जस्स पयच्छायाए एसा संवसड’ । ताहे तुट्टेण राइणा कओ करभररहिओ वसुपालो सुभदो य, दिन्न तिलयं च उदसमाभरणं सुवहुं च महग्घमंवरं सुदरीए । पवेसिया य एसा सुवहुविच्छहेण नयरुब्भंतरं । तप्पभिडं च पसिद्धा सव्वनयरे ‘सीलसुंदरि’ ति । एवमकलंकसीलगुणेण अहाउपज्जंते पत्ता एसा सुरलोयं पुणो सुहपरंपरेण सिवल्लोयं ति । इयरे उण गुत्तिनरोहतिरोहियसुहसाया कयसव्वस्सहरणा चिरं किलिस्सिऊण मया गया सक्करप्पभं नरयपुढविं । तओ वि उव्वट्टा नरय-तिरिक्खेसु नेलंछणाइदुहसंकडे निव्वडिय ति ।

पियधम्माओ ! सीलव्वयपालणा-ऽपालणेसु एवंपयारा गुण-दोसा संभवन्ति । एवं सोऊण संविग्गाहिं तार्हिं कओ सव्वार्हिं परपुरिसनियमो ।

अहं पि महापावो 'महासुंदरमिणं, निव्व्राणो दाणिं मे ईसाचिंतानलो, सपन्ना परमा मणनेव्वुइ' ति वियाणंतो वि एकेकप्पहारदाणपरिणओ तहेव सुणेमि । ताव य उप्फालियं फलिहविमलासएण साहुविंदारएण—

'कीरउ परिग्गहस्स वि परिमाणं माणमहणवयणाओ । एयं कुणमाणो जं करेइ दुक्खाण परिमाणं ॥ १३७ ॥ 5  
एयं जस्स कलत्तं चिंता वि हु तस्स थोविया होइ । सा दुगुणाइ कमेणं वड्ढइ एकेकवुड्ढीए ॥ १३८ ॥  
एवं पुत्ताईसु वि हरि-करि-रह-करह-भवण-दविणेसु । वड्ढतेसु वि वड्ढइ मणसंतावो मणुस्साणं ॥ १३९ ॥  
अपरिग्गहाण जा होइ नेव्वुइ पसमसुहियहिययाणं । वेयति मुणिवरे चिय तीसे सुरसं रसं, नऽन्ने ॥ १४० ॥  
एत्तो अनियत्ता पुण आयासकिलेसचिच्चिअच्चीहिं । पच्चंति लोहवसया संते वि धणे असंते वि ॥ १४१ ॥  
कज्जा-ऽकज्जमणज्जा न मुणंति कुणंति, दुक्कयसयाइ । विसहति जओ बहुहा जणधिकारं इहभवे वि ॥ १४२ ॥ 10  
पेच्च उण णंतखुत्तो नरय-तिरिक्खेसु तिक्खदुक्खाइं । अणुहुंति चिरं सच्चरियदूरिया दुरियभरविहुरा ॥ १४३ ॥  
नंदंति सुहेण गुणायरो व्व इच्छाए विहियपरिमाणा । इयरे उण गुणहरवाणिओ व्व पावंति दुहनिवहं ॥ १४४ ॥

अह 'भयवं ! के ते गुणायर-गुणहर ' ति वुत्तो मम पत्तीहिं पवत्तो साहिउं रिसिसीहो—

### [ ९ गुणायर-गुणहरकहाणय ]

इहेव विजए जयत्थलसन्निवेसे विट्ठु-सुविट्ठुनामाणो दो वणिया भायरो अहेसि । तेसिं च विट्ठु सुट्ठुसंचय- 15  
सीलो न वट्ठइ लोयव्वहारे, न सम्माणेइ सयणगणं, न सुत्थीकरेइ परिणयं, न उवयरेइ मित्ताणं, न सिरिहायइ  
उदारचित्ताणं, नाणुकंपेइ दुत्थिए, न पूएइ धम्मिए, न करेइ अंगभोगं, न अब्भवहरट्ट जहाजोगं, निवारिय-  
भिक्खायरप्पवेसो, अब्बोच्छिन्नधणज्जणकिलेसो, गरहिज्जंतो भग्गणगणेहिं, सोइज्जंतो सज्जणेहि, हीलिज्जंतो धण-  
ड्ढेहिं, उव्वहसिज्जंतो वियड्ढेहिं निच्चं दुहिओ कालं गमेइ । इयरो उण सयलोचितवित्तिपवित्तियवित्तो सया सया-  
यारपवित्तो सुसंतुट्ठचित्तो साहुवाओदयसंसित्तो कप्पपायवो इव जणमणोरहेहिं संवड्ढइ । 20

अन्नया घरंगणागओ सुविट्ठुणा खमरिसी 'अहो ! जंगमं तित्थं' ति मन्नमाणेण पड्डिलाभिओ मणुन्नभोयणेण  
वट्ठं च भोगभूमिमणुयाउयं । विट्ठुणा उण ईसि हसिऊण भणियं 'अहो ! करचंडा एए ववसायासमत्था पासंडेण  
परघराइं सुसंति, ता किमेसिं दिन्नेण होइ ?' ति । तप्पच्चयं च वट्ठमणेण नीयगोयमंतरायं च । दिट्ठा य कयाइ  
तेण खन्नवाइणो, पारद्धा अत्थकहा । भणियं च तेहिं 'अत्थि एयस्स नयरगिरिणो नियंवे महानिहाणं, न य अत्थि  
गहणसामग्गी' । विट्ठुणा हसिऊण वुत्तं 'अहं संपाएमि' । तेहिं भणियं 'जइ एवं तो तुज्झ वि भागं दाहामो, 25  
नवरं न पयासियव्वमेयमन्नस्स' । एवं त्रिनिच्छिए निरुव्वियं तेहिं रिक्खं, कया वड्ढिपूयासामग्गी, जाओ विट्ठुणो  
अत्थव्वओ । अकहिऊण कुडुंवस्स गओ तेहिं सद्धिं गिरिनियंवं । दंसिओ तेहिं पलासतरुसाहाओ पायओ धरणि-  
मणुपविट्ठो, पढियं च 'धुवं विल्ल-पलासयोः' इति । तुट्ठेण पुच्छियं विट्ठुणा 'किमेइणा तं निहाणं पत्तं न वा ?'  
तेहिं भणियं 'पत्तं, जओ धरणिपवेसे धूलो एस पाओ' । विट्ठुणा भणियं 'किमेत्थ अत्थि ?' । तेहिं भणियं 'रसे  
परिच्छा, जइ पायाओ रसो रत्तो नीई तो रययाणि, पीए कंचणं, सिए रूपपय' ति । कोउगेण हओ सत्थेण । 30  
'रत्तो रसो' ति तुट्ठा सव्वे । पूओव्वयारपुव्वं कड्ढिओ निहो । तओ भणिओ विट्ठु 'आणेहि सगडियं, जेण तमा-

रोविय रयणीए एयं गिहं नेमो' । तुट्टो गओ तयाणयणत्थमेसो । इयरे वि रयणाणि गहाय लहुं चैव पलाणा ।  
विट्ठ वि समागओ ते अपेच्छंतो मुच्छिओ खणमच्छिय झूरंतो चैव पडिनियत्तंतो दिट्ठो केणइ कुंढेण । 'कत्य पुण  
एगागी एसो पउत्थपुव्वो ?' त्ति संक्किएण तम्मग्गेण गंतूण सच्चविया खड्डा । ताहे निवेइयं जहोवलद्धं राइणो ।  
तेणावि वाहरिऊण पुच्छिओ विट्ठ । सिट्ठे जहट्टिए 'चोरो चोरभत्तदायगो' त्ति कयसव्वस्सहरणो निद्धाडिओ  
5 नयराओ । तओ उम्मायगहग्गहिओ कंचि कालमइवाहिऊण पडिवन्नदीहनिदो जाओ सारमेओ । तं चैव धरं परि-  
ग्गहिऊण ठिओ केणावि अकयतत्ती दुहजीवियं जीविऊण मओ समाणो उववन्नो तत्थेव विरालो । रसवइं पविसंतो  
पहओ स्यारेण पंचत्तभूओ जाओ दरिदमायंगो । तओ वि जीववहाइपावपवणपणोल्लिओ पत्तो रयणप्पभानेरइयभावं  
महादुक्खमणुहवंतो चिट्ठइ ।

सुविट्ठ वि नाओवत्तचित्तनिव्वत्तियतिवग्गसामग्गीसुत्थिओ चिरं जीविऊण समाहिणा विहियदेहच्चाओ जाओ  
10 उत्तरकुरुमिहुणगो । तत्थ वि दसप्पयारकप्पपायवसंपाइयपभूयसुहपमुइओ तिपलिओवममच्छिऊण गओ सोहम्म  
कप्पं । तत्थ वि सुररमणिरमणदुल्लिओ पलिओवमं गमिऊण जाओ इहेव विजए जयत्थलम्मि चैव पउमदेव-देवईणं  
पियपुत्तो निव्वत्तियगुणायरनामो पवइडिओ सुहंसुहेण ।

इओ य सो विट्ठुजीवो नरयाओ उव्वट्टिऊण पउमदेवमित्तस्स धणजयस्स जयाए जायाए जाओ गुणहरनाम-  
धारओ दारओ । पुव्वनेहेण जाया तेसिं मेत्ती । पत्तजोव्वणा य जाया दो वि धणज्जणुज्जयमणा ।

15 अन्नया उज्जाणे धम्मदेवमुंणी वदिऊण पुच्छिओ तेहिं धणज्जणोवायं । तेणावि परहियावहियहियएण भणियं-  
भदा ! करेह धम्मं अकलंकमसंक्रमाणसा सम्मं । एरांतिओ उवाओ न एत्थमन्नो जमेयाओ ॥ १४५ ॥

अवि य—

दिति अवारियसत्तु के वि सुत्थीकयपरियण, दीणुद्धरणि रमंति अन्नि संतोसियमग्गण ।

कुणहिं विलास जणप्पयास नर नरवउनिव्वमय, अज्जियधम्महं ताहं तह वि निट्ठाड न संपय ॥ १४६ ॥  
20 आयासहिं अप्पाणु नाहिं नाणाविहकम्मिहिं, न तरहिं सायरु न य भमंति देसिहिं दुग्गम्मिहिं ।  
कुणहिं न कस्सइ आण भाणु माहप्पु न मेळ्ळहिं, तह वि समज्जियधम्म धीर सिरिसंगय खेळ्ळहिं ॥ १४७ ॥

तथा—

पहु सेवहिं वाणिज्ज करहिं रयणायरु लंग्रहिं, परु पत्थहिं चडुकार फार हलि हैलिय लग्गहिं ।

किसिहिं किलिस्सहिं खडहिं वाड अरहइ पयट्टहिं, सुकयविज्जिय जीव तह वि जियलोइ न लट्टहिं ॥ १४८ ॥  
25 रोहणु खणहिं धमंति धाउ देवय आराहहिं, पैविसहिं विवरि मसाणि मंत-विज्जहु संसाहहिं ।  
निहि मग्गंति खणंति भूमि पुच्छहिं रसकूविय, पुन्नरहिय खिज्जिर मरंति सिरिसुह अविकोविय ॥ १४९ ॥

अन्नं च—

जत्तियमेत्तो लोहो तत्तियमेत्तं जियाण दालिदं । चलणं ढाऊण धणीण मत्थए सुवइ संतुट्टो ॥ १५० ॥

उवरिसुव्वरिं नियंतो विदाड धणी वि अडदरिदो व्व । रोरो वि ईसरायड संतोसरसायणे पीए ॥ १५१ ॥

30 जोयणसयं न दूरं पडिहासइ लोहमोहियमणस्स । करगज्जे वि पयत्थे संतुट्टो णाऽऽयरं कुणइ ॥ १५२ ॥

जइ सव्वहा न सकइ मोत्तुं दविणग्गहं महाभागा ! । इच्छाए परिमाणं तथा वि काउं फुडं जुत्तं ॥ १५३ ॥

१ सुणिं जे० ॥ २ हायहिं लं ख१ ख२ ॥ ३ पइसहिं ख१ ॥

अविहयइच्छापसरो नरो विवड्ढंतलोहसम्मोहो । सुयसुयमणुधावंतो लहइ किलेसं च मरणं च ॥ १५४ ॥

एमाइसुणमाणेण सम्मत्तपडिवत्तिपुरस्सरं गहियमिच्छापारिमाणं गुणायरेण । इयरेण पुण तमसदहंतेण न पडिवन्नं, चित्तियं च—

‘जो थेवसंपयाए कयकिच्चं मुणइ अप्पयं पुरिसो । कुविओ तस्स कयंतो न देइ नूणं सिरिं अहियं ॥ १५५ ॥  
सच्चमेयं, कहमन्नहा एस तिहुयणलच्छिअंछेणपडिहत्थभुयदंडो इमस्स मुंडतुंडस्स वोळेहिं लहुं चेव संकोइय- 5  
मणोरहो संवुत्तो?’ ति । एवं ते भाविया भावा-ऽभावेहिं मुणिं पणमिऊण गया सट्टाण ।

अन्नया अकहिऊण गुणायरस्स भूरिभंडभरियसगैडचडयरेणं गओ दिसायत्ताए गुणहरो । आसाइओ विसिट्ठ-  
लाभो । तहा वि बहुयरलाभहेउं गओ-परयरदेसं । तत्थ वि संपत्तपट्टंसुयाइमहग्घपडिभंडो पडिनियत्तंतो पत्तो  
एगं महाडविं । ताव य पज्जलिओ पलयग्गिविबभमो दावानलो । तओ पाणभएण पलाणो समंतेण भियगवग्गो ।  
पलीवियाइं सगडाइ, मया वसहा । गहिओ महासोएण गुणहरो कंहंचि छुह-तन्हाकिलंतो पत्तो सत्तरत्तेण मतियावह- 10  
सन्निवेसं । दिट्ठो एणेण अन्वत्तलिंणिणा । साणुक्कोसयाए नीओ नियालय । कारिओ पाणवित्तिं । विन्नायवुत्तंतेण  
जेऊण गिरिनियवं दाविया एगा महोसही, भणिओ य ‘एयं सुपच्चभिन्नायं करेहि जेण रयणीए गिन्हावेमि’ ।  
तहाकाऊण गया सट्टाणं । पुणो रयणीए भणिओ ‘भद ! मम सामत्थेण निब्भओ गच्छ तं पएसं, तमोसहिं  
दीवयसिंहं व जलंति पेच्छिहिसि, तओ वामकरे मुट्टीए गहिऊण एयाए छुरियाए उवरिं हेट्टा य लिंदेज्जाहि, निट्ठुर-  
मुट्टिवंधो पिट्टओ अपलयंतो तुरियमेज्जाहि जेणादरिदं करेमि’ । ‘तह’त्ति पडिवज्जिऊण गओ गुणहरो । तत्थ दिट्ठो 15  
महोसही । गहिया य विट्ठिणा । पडिनियत्तो अगणितो सिवासद-रक्खसट्टहासाऽविहीसियाओ । नवरं समभूमिगएण  
गिरिटंकरुडियपडंतकरुक्केरस्स व कक्खडखडहडारावं सोऊण सहस ति पलोइयमणेण पिट्टओ । तओ पणट्टा  
मुट्टीओ महोसही । विसन्नेण साहियं जहट्टियमव्वत्तलिंणिणो । तेणावि भणियं ‘वच्छ ! अत्थि ते साहसं ववसाओ  
य, न उण पुन्नपरिणई, तीए विणा दुगं पि एयं निप्फलमवयारफळं वा होइ, ता संतोसमव्वलंविद्य वच्च नियमंदिंरं,  
मा गाढयरत्तसणभायणं होहिसि’ ति । 20

तव्वयणमवगन्निऊण पत्थिओ अन्नत्थ एसो । मिलिओ मलयसन्निवेसे तहाविहपरिव्वायगस्स । विन्नाय-  
सरुवेण भणिओ तेण ‘भद ! निहाळेहि कंहंचि रत्तच्छीरं थोहरिं, जेण दावेमि जलंजलिं दालिदस्स’ । निरुवंतेण  
लद्धा गुणहरेण, निवेइया इयरस्स । गया दो वि सिद्धिजोगादिवसे । अभिमत्तिया थोहरी, पुव्वसंगहिओसहिप-  
क्खेवपुव्वं परिव्वायणेण परिवेडिया सारदारुसंदोहेण, पाडिऊण जलणं पज्जालिया समंतेण ।

एत्थंतरे भुयाए गहिऊण अद्धस्सित्तो तत्थ परिव्वायणेण गुणहरो, तओ ‘मारिज्जामि’ ति कलिऊण वला- 25  
मोडीए वि छुट्टो एसो । संपलग्गा दो वि अन्नोन्न पक्खिविउं । ते तहा दट्ठण पोक्कारियं गोवालएहिं । तमायन्नि-  
ऊण तुरियतुरएहिं पारद्धिकज्जागओ पत्तो दुत्ति एगो रायकुमारो । पुच्छिया ते कलहकारणं । संखुद्धो परिव्वा-  
यगो । सिट्ठं जहट्टियं गुणहरेण । तओ रायकुमारेण ‘किमेस एयं वरायमिह खिवड?’ ति सवियक्केण सो चेव  
परिव्वायगो छुट्टो तम्मि जलणे, जाओ खणेण कणयपुरिसो । तट्टेण संगोयाविओ नियपुरिसेहिं ।

गुणहरो वि किं पि पच्छयणं दाऊण विसज्जिओ तेण । ‘अहो ! मणाग न मओ म्हि’ ति चिंतयंतो चलिओ 30  
सनयरहुत्तं । अन्तरा य मिलिओ कस्सड मंतसिद्धस्स । विसिट्ठगोटीए पत्ता कं पि सन्निवेसं । ‘भोयणसमओ’ ति

१ सङ्केतः—“अछणपडिहत्थ ति आकर्षणपट्टु” । °परिदृच्छं ल१ ख२ ॥ २ सङ्केतः—“सगडचडयरेण ति शकटविस्तारेण” ॥

आवासिया तदुज्जाणे । तओ भणियं मंतसिद्धेण 'भइ ! किं ते भोयणं संपाएमि ?' । गुणहरेण भणियं 'सिंहकेसरए' । तओ समाहिं धरिऊण आणीया खणेण ते सिद्धेण । दाऊण सन्निहियदीणाईणं जिमिया दो वि पज्जतीए । एवं वियाले घयपुणेहिं । दुइयदिणे पभाए परमणेण, वियाले खेज्जगविहीए । पइदिणं तं तहा दट्टणं विमिहओ गुणहरो 'परमपुरिसो' त्ति उवयरिउं पवत्तो विस्सामणाईहिं । अन्नदिणे पुच्छिओ णेण सिद्धो 'कुओ पुण सामि ! तुम्हेसा महासत्ती ?' । तेण वुत्तं 'भइ ! दालिद्दामिद्दुएण परदेसे वियरंतेण दिट्ठो मए एगत्थ मंतमुत्ती नाम कावालिओ, तेण दीणवच्छल्याए दिन्धो मे महावेयालमतो, तप्पभावो एसो, केत्तियमेत्तं पुण एयं ? घरं गतो सव्वसंपत्तिं पि एत्तो करिस्सामि' । एवमावन्नमित्तभावा वृढा केइ दिणे ।

अन्नया पिहीभूयातो वत्तिणीतो । ततो जंपियं सिद्धेण 'गुणहर ! समासन्नो इओ वामेण तुह देसो, मए पुण दाहिणतो दूरं गंतव्वं, अतो होयव्वं विप्पतोणेण, ता भण जं ते संपयं संपाएमि, समत्थो हं धणकोडिं पि दाउं' ति । ततो गुणहरेण कोडीए वि असंतुस्समाणेण मंतं चेव जाइतो सिद्धो । तेणावि भणितो 'वच्छ ! जाएहि कोडिसयं पि दव्वस्स, किं मंतेण ? जेण मंतो पाणसंसयहेऊ पुन्नवओ चेव सिज्जइ, थेवं पि छलं लहिय करेइ महाणत्थं' । एवं पि भणितो जाहे न वुज्जइ ताहे दक्खिन्ननिहिणा समाणसिद्धिं काऊण दिन्धो मंतो सिद्धेण परितुट्ठेण । सविणयं गहितो इयरेण । साहिऊण साहणविहिं गओ सिद्धो ।

गुणहरो वि संपत्तो सदेसपज्जंतसंठियं सुसीमनयरं । पविट्ठो माउलगगिहं । लद्धसम्माणो ठिओ कंचिकालं । अन्नया कहिऊण सव्भावं माउलगस्स किन्हचउइसिरत्तीए गओ मंतसाहणत्थमेगागी मसाणं, कयहोमकम्मो पवत्तो मंतजावे । आढत्तो विचित्तविभीसियाहिं, जाहे कह वि न खुव्वइ, ताहे कुलालचकं व भमिउमारद्धं पुहइमंडलं, समुच्छलिओ अक्कंदसद्दगंद्दव्वो हलवोलो । तदुवउत्तस्स पम्हुट्ठं से मंतपयं, खलिया धारणा । तओ लद्धच्छलेण वेयालेण 'अरे दुट्ठ ! पाविट्ठ ! एरिससत्तेण मं साहिहिसि ?' त्ति भणंतेण लगुडताडणावडियमुच्छो पा(?उप्पा)डिऊण मुक्को मसाणवाहिं । पहाते गवेसंतेण दिट्ठो माउलगेण, पउणीकाऊण विलक्खचित्तो नीओ जयत्थलं । तत्थ वि अणुसासिओ वि वंधुहिं, तहाविहजणेण 'निव्वग्गसिरोमणि' त्ति उववसिज्जमाणो लज्जाइसएण अप्पाणमुव्वंधिऊण पाविओ परासुत्तं गुणहरो त्ति ।

गुणायररयणायरो उण सयमायंतसिरिसरिविसरो अलंधियकुलमेरो अत्थिजणपूरियासो पाविओ पसिद्धिं । पुणो गुणहरवुत्तंसवणसमुप्पन्नवेरग्गो लग्गो विसेसओ परलोगमग्गे, पालिऊण य गुरुवहुमाणसारं पडिवन्नाणुव्वयं गओ सुरमंदिरं, कमेण सिद्धिमंदिरं ति । इयरो पुण वराओ जाओ नरय-तिरिक्खदुक्खलक्खभायणं ति ।

25 [ गुणायर-गुणहरकहाणयं समत्तं. ९ ]

\*

देवाणुप्पियाओ ! परिग्गहविरया-उविरयाणमेवंविहा गुण-दोसा संभवन्ति त्ति । एयमायन्निय अचंतसंविग्गाहिं गहियमिच्छापरिमाणं मम पणइणीहिं ।

अहं पि 'एरिसयम्मपुरिसस्स पावं मए चित्तियं'ति समुप्पन्नपच्छायावो निव्वडिओ मुणिणो चलणेसु, पावाहि- 30 प्पायपयासणपुव्वं खामिऊण मुणिवसभं विन्नविउं पयत्तो 'भयवं ! हसियभणिए वि विट्ठुणा दारुणं फलमणु-भूयं, ता कहमहं महापओसदूसिओ नित्थरिस्सामि ?' । मुणिणा भणियं 'सोममुह ! महापावमेयं जं समसत्तु-

१ छुसाणं भ्रा० ॥ २ सङ्केतः-“गद्दव्वो त्ति कट्टव्वनिस्तद्रूपकोलाहल” ॥ ३ 'मायन्निऊण अं जे०विना ॥ ४ पवत्तो जे०विना ॥

मित्तेसु पसंतचित्तेसु परोवयारनिरएसु पावासवविरएसु बंभचेरधारएसु मोहारिवारएसु खंतिखमेसु आसंसियसिद्धि-  
संगमेसु सुरा-ऽसुरवंदणिज्जेसु बहुपुद्गदसणिज्जेसु अज्जियतिव्वतवेसु मुणिपुंगवेसु पावचित्तं नेयं तग्गुणधारणमंतरेण  
नित्थरिउं पारीयड, मंदाणुभावं पुण निदण-गरहण-गुरुविसेसभत्तीहिं वि कीरइ । अन्नं च-महाभाग ! भावेहि  
संसारासारयं, वियारेहि विरसावसाणयं कामभोगाणं, चित्तेहि दुस्सहत्तं नरयदुक्खाणं, निरिक्खेहि पच्चक्खं  
तिक्खदुक्खलक्खाणि तिरिक्खाणं, आलोएहि अणिच्चयं जीय-जोव्वण-धण-सयण-घर-घरिणिसंगमाणं, निरुवेहि 5  
निकारणकुवियत्तमथक्कनिवाडत्तं च मच्चुपच्चत्थिणो, सव्वहा अप्पकालियासारसंसारसुहपरिच्चाएण समज्जिणेहि  
सासयएगंतकंतमुत्तिमुहनिबंधणं संजमधणं' ति ।

एवंविहेहिं अमयरसासारसुंदरेहिं महामुणिवयणेहिं सव्वसरीरगयं पि खणेण पणट्ठं मे मोहमहाविसं, उम्मी-  
लियं विवेगलोयणं, जाओ असमंजसायारपरिहारो, किं बहुणा ? संवोहिऊण पणइणीओ वेरग्गमग्गलगाहिं सव्वाहि  
ताहिं सद्धिं पव्वइओ तस्स धम्मदेवमुणियो गुरुणं सिरिंसिहसेणसूरीणं पायमूले, तप्पसाएण य पाविओ म्हि एत्तियं 10  
गुणकलावं । अवि य—

टोलोवलो रुलंतो सो हं विघ्नाण-णाणणिउणेण । देवो व्व वंदणिज्जो कओ म्हि गुरुसुत्तहारेण ॥ १५६ ॥

कुमारवर ! एयं मे विसेसकारणं ति ।

सोऊण सूरिचरियं वज्जरियं रायसीहसेणेण । 'सुट्ठु सुधन्नो पुन्नो कयउन्नो तं सि मुणिनाह ! ॥ १५७ ॥

साहीणसिरिं तरुणीयणं च मोत्तूण निक्खमंतेण । साहसधीराण धुरे धुवं तए पाविया लीहा ॥ १५८ ॥ 15

अम्हारिसा कुपुरिसा भोत्तूण चिरं पि रायवरलेच्छिं । पाविंति नेय तित्तिं परगेहे रोरभट्टो व्व ॥ १५९ ॥

अहवा किं बहुणा जंपिएण ? गिण्हामि तुम्ह पयमूले । पव्वज्जमज्ज सज्जो जयवज्जमवज्जगिरिवज्ज !' ॥ १६० ॥

इय वोत्तूण नरिंदो रज्जं दाऊण पुन्नयंदस्स । कैयवड्डकोड्डविच्छड्डड्डणो मंखु निक्खंतो ॥ १६१ ॥

खंतो दंतो मुत्तो सुय-सील-समाहिसोहिओ सैहिओ । छट्ट-ऽट्टमाइनिरओ कालेण महामुणी जाओ ॥ १६२ ॥

पुन्नचंदराया वि सम्मत्ता-ऽणुव्वयधरो, धरो व्व थिरपयई, पयईण पीइजणओ, जणओवमो सेवगविसरस्स, 20  
सरस्सईसो व्व रयणायरो, आयरो सव्वनीईणं रायत्तं सावयत्तं च पालिउं पवत्तो । कंहं ? पालेइ दंसणायारं, संगि-  
ण्हइ णाणत्थं, दावेड सिक्खं गर्यवसपीईणं, दमेइ दुट्टवाइणो, न पडिवज्जइ दप्पुद्धरं परसासणं, पूएइ धम्मचक्किणो,  
सकारेड संमिइप्पहाणे साहुसुहडे, सम्माणेइ गुंत्तिवालए, तथा परिहरइ अणुव्वयकलंकं, उज्जमइ गुणव्वयधरणे,  
बहुमन्नइ सुहहेउसिक्खावए, कुणइ न वंधेणं दीणाणं ति ।

पुप्फसुदरिदेवी वि सम्मत्ताणुव्वयधारिणी पावपावित्तिपरिहारिणी जिणवरवयणभाविया जाया परमसाविया । 25  
एवं च विमलकित्तिच्छत्तियाछाइयपुहडमंडलं पंचप्ययारभोगसारं रज्जसुहमणुहवंताण तेसिमउकंतो कोड कालो ।

१ लच्छी आ० ॥ २ सङ्केतः-“कृतबृहत्कौतुकविच्छर्ददर्दन” ॥ ३ सुहओ जे० ॥ ४ सङ्केतः-“दसणायार ति दशनागारम्,  
तथा चामरसिंहः-“तनुत्र वर्म दशनम्” [ अमरकोशद्वितीयकाण्ड क्षत्रवर्गश्लोक ६४ ], दर्शनाचार च” ॥ ५ सङ्केतः-“नानात्र यद्वा न  
अनर्थं ज्ञानार्थं च” ॥ ६ सङ्केतः-“गज-वृष-तुरङ्गाणाम्, गता वशे-आत्मवश्यताया प्रीतियेषाम्, अनात्मवशानामित्यर्थ” । “गज-वृषभ-  
सतीनाम्, गतधर्मप्रीतीना च” खरटि० ॥ ७ सङ्केतः-“दुष्टान् वाजिनो वादिनश्च” ॥ ८ सङ्केतः-“परेषामात्रा तीर्थं च” ॥ ९  
सङ्केतः-“धर्म-घनु- चक्र च तद्वत्-घनुर्यरान् चक्रप्रहरणाश्च, तीर्थकराश्च” ॥ १० सङ्केतः-“समिति-सङ्ग्रामे समितौ वा सङ्ग्राम एव सभाया  
वा प्रधानान्, समितिषु च-ईर्यादिषु प्रधानान-तत्परान्” ॥ ११ सङ्केतः-“गुप्ति-चारकग्रहम्, मनोगुप्त्यादि च” ॥ १२ सङ्केतः-  
“अणु-स्तोको व्यय एव कलङ्क, अणुव्रतेषु कलङ्क-अतिचार” ॥ १३ सङ्केतः-“गुणानां व्रज-समूह, गुणव्रतानि च प्रतीतानि” ॥  
१४ सङ्केतः-“शुभस्य हेतूनां शिक्षापकान्, सुवदेवुशिक्षापदा २ व्रता)नि च” ॥ १५ सङ्केतः-“नव-प्रयत्न घनम्, न च वन्धनम्” ॥

उप्पन्नो रज्जधुराधरणसमत्थो वीरुत्तरो नाम पुत्तो । ठविओ जुवराया । अन्नया पडत्तिनिउत्तपुरिसाओ णिसामिऊण  
जणयस्स नेव्वाणगमणं राया हरिस-विसायसंगओ भाविउं पवत्तो—

- “धन्नो महाणुभावो महामुणी मह पिया महासत्तो । तह लालिएण जेणाइदुकरं साहियं कज्जं ॥ १६३ ॥  
अहयं तु अप्पसत्तो पावपवत्तो तवऽज्जणासत्तो । विसयामिसप्पसत्तो जराए पत्तो अमयतत्तो ॥ १६४ ॥  
5 जाणामि ‘चलं नीयं, तुच्छा विसया, सिरी थिरा नेय । निययविओया सयणा’ तहा वि धम्ममे पमाएमि” ॥१६५  
इय चिंताभरविहुरो भणिओ सो पुष्कसुदरिपियाए । ‘किं सोइएण पिययम ! इमिणा ववसायरदिएण ? ॥१६६॥  
सोयंति महिलियाओ दढं परायत्तमंदसत्ताओ । साहसविक्रमसारा पुरिसा कज्जुज्जया हुंति ॥ १६७ ॥  
ता चयसु रज्जचितं, अंगीकुण वंभचेरमाजम्मं । उज्जम सम्मं धम्मियनोमुकसिएसु सव्वेसु ॥ १६८ ॥  
जा एइ एत्थ सुखंदरो गुरु गुरुगुणोहमणिजलही । तयणु तयंते चिंतियमणोरहे नाह ! साहेज्ज’ ॥ १६९ ॥  
10 तो ‘साहु साहु’ भणिरो रज्जं सज्जो सुयस्स दाऊण । तणुइयधरवावारो राया धम्मज्जओ जाओ ॥ १७० ॥  
देवऽच्चणाइनिरओ सामाइयपोसहेकतच्छिओ । चत्तसमत्तमत्तो चिट्ठइ गुरुसंगमासंसी ॥ १७१ ॥  
देवी वि तिक्वतवचरणकरणपरिसुमिरसुंदरसरीरा । चिट्ठइ परिवारिंती सुसुदरसुरिआगमणं ॥ १७२ ॥  
नवरमथके रन्नो अइसाररुया सुदारुणा जाया । तप्पीडिओ स धीरो परिभाविउमेवमारद्धो ॥ १७३ ॥  
‘ते देस-नयर-नामा धन्ना चिट्ठंति जेसु मह गुरुणो । ते सकयत्था मुणिणो जे से सेवंति पयकमलं ॥ १७४ ॥  
15 कइया होही सोहंतवासरो अमयनिम्मिओ रम्मो । जम्मि गुरुपायपउमे भमराइस्सामि मुइओ हं ? ॥ १७५ ॥  
परिवज्जियसावज्जो गुरुवयणाराहणेकरसिओ हं । आराहेज्ज सया वि हु मुणिचरियं भूरिगुणभरियं ॥ १७६ ॥  
इय विमलियचित्तो संतिपीऊसतित्तो, वियणमहिसहिच्चा देहगेहं रहित्ता ।  
परिकसियकसाओ सो गओ निव्विसाओ, मुकयमुकयपप्पं आरण नाम कप्पं ॥ १७७ ॥  
देवी वि तिक्वतवताविसोसियंगी, आराद्विऊण मरणंतविहिं विसुद्धं ।  
20 तत्थेव देवनिए सुखपुंगवत्तं, पत्ताऽकलंकगिहिधम्मनिसेवणेण ॥ १७८ ॥  
एगम्मि रम्मो विमले विमाणे, ते दो वि देवा दढनेहवद्धा ।  
भुंजंति दिव्वाइं सुहाइं तेसिं, आउं च वीसं किर सागराइं ॥ १७९ ॥

इय पुह्वीचंदचरिए पुन्नचंदसमणोवासगभवगहणं पंचमं समत्तं ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-७४७ ]

## [ छट्टो सूरसेण-मुत्तावलीभवो ]

पुत्राणुवंधिपुत्रप्पबंधसंबंधसुत्थिया सुइरं । वसिऊण चुया तत्तो संपत्ता जं तयं सुणह ॥ १ ॥

अत्थि विदेहादेसो दाहिणभरहद्धमज्जिमे खंडे । वियरंतदीहभुयगोवसोहिओ नागलोगो व्व ॥ २ ॥

तत्थ य उन्नयकोट्टा विचित्तपत्ता सुभोगिआहारा । मिहिलापुरी पसिद्धा घणसुइया मोरमुत्ति व्व ॥ ३ ॥

परमहिला परमहिला वि जत्थ हिययं जणाण नो हरइ । न रयपयं नरयपयं ति भाविराणं सरिरं से ॥ ४ ॥

जत्थ य सनच्चणाइं जिणच्चणाइं जणो नियच्छंतो । विंदइ परमाणंदं सुरमाणं दंसयंतो व्व ॥ ५ ॥

दीसंति सया रामा अंतो वाहिं च जत्थ सुविसत्था । अंतो नत्थ विरुद्धो, दीसइ वाहिं तरुसमूहो ॥ ६ ॥

तीए नयरीए दरियारिदंतिकेसरी तरुणिनलिणीवियासणेकणेसरी वंधुकुमुयपुन्निमायंदो अत्थिसत्थविहग-  
पकमायंदो दुट्टकंठीरवसरहो नियपयावकंतविउलभरहो अपुत्तचित्तनिरीहो राया नरसीहो सामित्तमणुहवइ । अवि य— 10

जस-कित्तिपक्खपसरं अपावमाणस्स रायहंसस्स । अइमडहपंजरं पिव भासइ भुवणत्तयं जस्स ॥ ७ ॥

तस्स य सरसी व सँव्वंगालीणसारसोहा, रायहंसि व्व विसुद्धोभयपक्खा, मेरुमेहला इव सँत्तमालवणा,  
गंगा इव सरँलसच्छसहावसारतरंगा, दूरावगिन्नदोसजाला गुणमाला नाम महादेवी ।

संपुंनमहाभोगं अपरकंतं महिं पणडणिं च । उवभुंजंतो जंतं न मुणइ कालं नरिंदो सो ॥ ८ ॥

अह अन्नदिणे पइरिक्कसंठिओ चउरचारपुरिसेण । विणयपणएण निउणं विन्नविओ सो महीनाहो ॥ ९ ॥

“देव ! मए पुरचारं निरुवमाणेण वाविसरणीए । पुरसुंदरीण निसुओ अज्ज नव्वलो समुल्लावो ॥ १० ॥

पक्खुलियाए भणियं एगाए ‘जियउ रायनरसीहो’ । अन्ना भणइ ‘न सीहो एसो नरजंबुओ मुद्धे ! ॥ ११ ॥

जो पुत्तरयणरहियं अप्पाणं पेच्छिरो वि अप्पाणं । भुंजइ सुवइ विसत्थो न पउंजइ विकमुज्जोयं ॥ १२ ॥

जे मंत-जोय-विज्जावियक्खणा सयलसिद्धिपंडिट्ठत्था । ते गरुडस्स व अहिणो इमस्स आणं न लंघंति ॥ १३ ॥

वायामेत्तेण समीहियाइं सिज्जंती जस्स सेसाइं । तह वि परक्कमरहियो किं न हला ! जंबुओ एसो ?” ॥ १४ ॥

इच्चाइ चित्तवत्तं सोऊण चरा नरीसरो सहसा । सुयलाभर्त्थी मंतीण मंडलं पुच्छइ उवायं ॥ १५ ॥

तेहिं भणियं ‘महापहु ! सुव्वइ इह चोज्जवरो जोई । संपइ पत्तो सत्तो समत्थजणपत्थियत्थेसु ॥ १६ ॥

सो देव ! सोवयारं मग्गिज्जउ नंदणं किमझेण ? । इयगरुयकज्जभरधुरंधुरंधरो नावरो भुवणे’ ॥ १७ ॥

सोऊण वयणमेयं आहूओ तक्खणेण सो रन्ना । पत्तो य सहामज्जं गज्जंतो मत्तदंति व्व ॥ १८ ॥

१ संकेतः—“अत्थि विदेहेत्यादौ वीर्धुंभुंजंरूपशोभित, वीर्धुंभुंजोर्पैश्च शोभित । [ गा ३— ] उन्नता प्रीवा प्राकारश्च यस्याम् ।  
पत्राणि-पिच्छानि वाहनानि च । सुद्धु भोगिन-सर्पा आहारो यस्या, सुद्धु भोगिना-विलासिना आध्रियते अस्यामिति । घने-मेधे सति,  
घन वा-अत्ययं मुदिता-दृष्टा । [ गा ४— ] परमहिला वि ति प्रकृष्टभुजलताऽपि, न-नैव रतस्य पद-स्थानम्, यतो नरकस्य पद  
हेतुभावेन । [ गा ६— ] सदा-सदैव रामा, शोभनाऽऽरामाश्च । सुद्धु विश्वस्ता, शोभनविभिश्च शस्ता, यद्वा शोभनो वीनां सार्थो यत्र ।  
विरुद्ध-द्वेषी, विभिश्च-पक्षिभी रुद्ध-व्याप्त” ॥ २ संकेतः—“जेसरि ति आदित्य” ॥ ३ संकेतः—“पकमायंदो ति पक्वान्न” ॥  
४ संकेतः—“सवन्नि आलीन सारसौध, सारा शोभा च यस्या” ॥ ५ संकेतः—“सत्-शोभन तमालवनम्, सत्तम च आलपन यस्या” ॥  
६ संकेतः—“सरला स्वच्छस्वभावा साराश्च तरङ्गा यस्याम्, सरलानि स्वच्छानि सहावानि च-शृङ्गारचेष्टाविशेषान्त्रितानि सारतराणि च  
अज्ञानि यस्या” ॥ ७ संकेतः—“सम्पूर्णो महान् आमोग-विस्तारो यस्या, सम्पूर्णाश्च महान्तो भोगा-विषया यस्या । न परेण-शत्रुणा  
उपपत्तिना [ च ] आक्रान्ता” । संपन्नं जे०विना ॥ ८ संकेतः—“अप्पाणं ति अप्राणम्-अवलम्” ॥ ९ परिहृत्था जे०विना ॥  
१० धुरुधुरं खर भ्रा० ॥



- पवरासणोवविट्टो कयसकारो निवेण संलत्तो । 'जोइंद ! कहसु केत्तियमेत्तं सामत्थमुव्वहसि ?' ॥ १९ ॥  
 ईसि हसिऊण भणियं तेण 'महीनाह ! किमिह पुच्छाए ? । आइस कज्जं मज्जो संपाइज्जउ जमेत्ताहे ॥ २० ॥  
 किं नागकन्नयाओ आणेमि वसं ? उयामरवहूओ ? । अह दुट्टवइरिचकं पणइं कारेमि चलणेसु ? ॥ २१ ॥  
 गय-त्तुरयरयणमहवा दूरत्थं इत्ति अज्ज आणेमि ? । अन्नं पि किं पि विसम पओयणं भणमृ साहेमि' ॥ २२ ॥  
 5 'जइ एवं ता जोइंद ! कोउगं एक्कमह पूरेहि । आणेहि नागरायस्स पिययमं एत्थ अत्थाणे' ॥ २३ ॥  
 इय नरवइणा भणिए समाहिमापूरिऊण तुरिएण । आणीया ताराहरणहारिणी तेण दिव्वित्थी ॥ २४ ॥  
 पप्फुल्लवयणकमला कयकरमउला समुद्धसियरोमा । 'आइसह'त्ति भणंती टिया य सा जोइणो पुरओ ॥ २५ ॥  
 तेणावि 'सुयणु ! कुण नरवइस्स आण'ति भणियमेत्ताए । तीए वुत्तो नरसीहपत्थिवो 'सामि ! आइसह' ॥ २६ ॥  
 रन्ना भणियं 'सुंदरि ! का सि तुमं ? कह णु आगया एत्थ ?' । तीए भणियं "नार्गिट्ठपणइणी णागलोयाओ ॥ २७  
 10 तेल्लोकाखंडियसासणस्स एयस्स जोगिणो वयणा । पत्त म्हि तुम्ह परिसं 'कहं ?' ति सम्मं न याणामि" ॥ २८ ॥  
 तो जायजोइजंपियपच्चयमइविम्हिण नमिऊण । रन्ना विसज्जिया सा गया य अइंसणं सहसा ॥ २९ ॥  
 'अव्वो ! महप्पभावो जोइंद ! तुमं' ति संलवंतेण । काऊण विचित्तं नियपओयणं साहियं तो से ॥ ३० ॥  
 भणियं च तेण 'नरवइ ! केत्तियमेयं पओयणं मज्झ ? । संतिघ्नसायराणं का चिंता गोपउत्तरणे ? ॥ ३१ ॥  
 नवरं होसु सहाओ कसिणचउट्टसिनिसाइ एगागी । सक्खं जाल्लिणिदेवि जेण दवावेमि ते पुत्तं ॥ ३२ ॥  
 15 अहवा न पुत्तयं चिय दाहं जम्मग्गियं तुह सव्वं । तुम्ह पभावा मज्झ वि अणुग्गहो तीए सिद्धीए' ॥ ३३ ॥  
 नवमेहग्गज्जिरं तं सोऊण नरिंदवरहिणो द्विट्ठो । पडिवज्जिऊण भणियं पूइत्तु तयं विसज्जेइ ॥ ३४ ॥  
 मुणियसमएहिं भणियं मंतीहिं 'नरिंद ! सुंदरो मंतो । किंतु न वीससियव्वं एगतेणेरिसजणस्स ॥ ३५ ॥  
 रक्खेयव्वो अप्पा सप्पाओ इव इमाओ जत्तेण । चित्तचरिया हु जीवा इवति कम्माण वेहम्मा' ॥ ३६ ॥  
 पडिवन्नमंतिवयणो कसिणचउट्टसिनिसापओसम्मि । पत्तो तस्स समीवं खग्गसहाओ महाराओ ॥ ३७ ॥  
 20 पत्ता य ते मसाणं संकेयगिहं व अंधतमसाणं । रोळंतनरकरं कं काँयरउक्कंपणकरं ॥ ३८ ॥  
 कत्थइ रुद्धरं पिव दीसंतलसंतसिर्वेसिवाख्वं । अन्नत्थ खेडंयं पिव सच्छंडभमंतवेयालं ॥ ३९ ॥  
 हरनाडयं व कत्थइ पिसायअट्टहासवीभच्छं । अन्नत्थ रणंगणमित्र अलंघवस-मंसहिक्कासं ॥ ४० ॥  
 सम्मज्जिऊण धरणी चियग्गिदीवेण मंडलालिहणं । पारद्धं जोइंदेण पत्थिवो पुण इमं वुत्तो ॥ ४१ ॥  
 'अंत्येत्थ दाहिणेणं नग्गोहतस्स पुव्वसाहाए । उव्वद्धगो मणुस्सो आणेहि तय असंभंतो ॥ ४२ ॥  
 25 सुवहुं पि जंपमाणस्स तस्स पडिउत्तर न दायव्वं । न य केँस्सइ भेतव्वं आगंतव्वं तुरंतेण' ॥ ४३ ॥  
 अह तत्थ गओ राया साहं आरुहिय छिंदए पासं । ओइघ्नो य निहालइ तं लवंतं तहि चेव ॥ ४४ ॥  
 एव दुइय पि वारं, ताहे साहागओ विगहिऊणं । तोडियपासो सहसा ओइघ्नो पडिनियत्तो य ॥ ४५ ॥  
 तं जपइ वेयालो सवट्ठिओ 'तमसि मूह ! सेयाँलो । मोत्तूण खत्तधम्मं करेसि इय कुच्छियं कम्मं ॥ ४६ ॥  
 अणुहरसि' रक्खसाणं हिंडंतो रत्तिमेरिसमसाणं । हीणो सि निहीणाण वि छिवमाणो परकरंकाइं ॥ ४७ ॥

१ तीए भणियो न° ख१ ख२ ॥ २ 'यमेत्तं प° जे० ॥ ३ भणियो जे० ॥ ४ संकेतः—“कातराणासुत्कम्पनकरः  
 अङ्क-उत्सङ्को यस्य” ॥ ५ संकेतः—“शिवान्वित-रुद्रान्वित शिवाया-गौर्या-रूपम्, अशिवम्-अमङ्गलभूत शिवारूप यत्र” ॥ ६ “अप्रा-  
 हारम्” ख२टि० ॥ ७ संकेतः—“वेदाला वेदविदो विप्रा, वेतालाश्च” ॥ ८ संकेतः—“अल्लघ्यो वशा-मासयो हिक्कासो कर्दमो  
 यत्र” ॥ ९ घरणि जे०विना ॥ १० अत्थित्थ जे०विना ॥ ११ कस्सय भेयव्वं जे० ॥ १२ “ग्राम्य” ख२टि० ॥

तं तेण दुट्टपासंडिएण काऊण खंडखंडाई । कीरसिं भूयाण वली जइ मुंचसि मं न एत्ताहे' ॥ ४८ ॥  
 इयजंपिरेण दंसियविहीसियासयसहस्सरुवेण । अखुहियचित्तो वुत्तो निवो पुणो तुट्टेयरेणं ॥ ४९ ॥  
 “भो ! साहु साहसं ते सारो पडिवन्ननिच्छओ वच्छ ! । तुट्टो भणामि सच्च एत्थमहं सत्तवायाओ ॥ ५० ॥  
 तं सुयकामी, सो दुट्टसाहगो चप्फलो फुडं बुज्झ । सच्चमिणं ‘वंचिज्जइ लुद्धो अलियप्पलावीहिं’ ॥ ५१ ॥  
 दाऊण वलि सो तुह सरीरयं महइ साहिउं अम्हे । इय इंदियालनारीदंसणओ तं सि अक्खित्तो ॥ ५२ ॥ 5  
 ता मा किलिस्स नरवर ! तुज्झ सुओ सत्तरत्तमज्झम्मि । होही अवस्समेव हि निवेइतो स्रसुंमिणेण ॥ ५३ ॥  
 पडिवन्नसारयाए मयगमिणं जइ वि नेहि तं तत्थ । तह वि तए मह वयणं कायव्वं सव्वहा एक्कं ॥ ५४ ॥  
 आयरमगंतस्स वि नियखगं मा हु से समप्पेज्जा । जिप्पिहिसि न तेण तुमं खग्गसणाहो मइ सहाए” ॥ ५५ ॥  
 इय जंपंतं मययं वेत्तूण ससंकमाणसो राया । पत्तो साहगमूलं निच्छियहियओ निययकज्जे ॥ ५६ ॥  
 न्हवियविलित्तं मयगं मंडलगे ठाविऊण तेणावि । भणियं ‘नियतरवारिं अप्पेहि नरिंद ! एयस्स’ ॥ ५७ ॥ 10  
 सुमरियहंढरवयणो राया ढोयइ न तस्स असिलट्ठिं । भणइ ‘भगवं ! न सुहडा पहरणमर्पिपति अन्नस्स ॥ ५८ ॥  
 ता ढोएहि तुमं चिय अहयं चिय तुज्झ रक्खगो होहं’ । सो भणइ ‘लोहरक्खा नणु एसा मंतसिद्धीए’ ॥ ५९ ॥  
 रायाऽऽह ‘मइ धरंते कुवियकयंतो वि पहवइ न तुंम्हं । ता कुणसु कज्जसिद्धिं तुरियं मम कंधारुढो’ ॥ ६० ॥  
 सुवहुं पि भन्नमाणो जा अप्पइ नेव पत्थिवो खग्गं । ता रुढो सो दुट्टो पयपुट्टो दीहपिट्ठो व्व ॥ ६१ ॥  
 ‘आयासिऊण सुइरं एत्तियमेत्तं पि कुणसि न हि वयणं’ । इय वित्तो संभंतो समुट्ठिओ खग्गवग्गकरो ॥ ६२ ॥ 15  
 तो भणितो नरवइणा ‘वड त्ति लज्जामि तुज्झ पहरंतो । ऊसरसु दिट्ठिमग्गा जइ परियाणासि अप्पाणं ॥ ६३ ॥  
 धरिऊण धम्मचिंधं वंचंतो धम्मिए धुवं सुद्धे । धुत्तय ! पत्तो सि न कालमेत्तियं कह णु पंचत्तं ? ॥ ६४ ॥  
 मह जीविण्य वेयालसाहणं मूढ ! काउमिच्छंतो । आय-परपुत्तभेयं निल्लक्खण ! किं न लक्खेसि ?’ ॥ ६५ ॥

एयमायन्निऊण ‘कहमणेण परियाणितो म्हि ?’ त्ति सवियक्को लिंगी, ‘कुक्कम्मयारी य’ त्ति लज्जिओ, ‘निप्फलो किलेसो’ त्ति विद्धानो, ‘पुन्नपुरिसो एसो’ त्ति गलियपुरिसयारो, ‘किमितो पाविस्सं ?’ त्ति विसन्नो चइऊण खग्गलट्ठिं 20  
 संपत्तपच्छायावो जोई कयंजली रायाणं भणिउमारद्धो ‘भो महानरिंदस्र ! तुह विमलवयणकिरणेहिं पणट्टमियाणिं  
 मम मणोमंडिराओ मोहतिमिरं, पयडीभूयं विवेगदुवारं, उवलद्धं वत्थुसरुवं, विडंविओ म्हि कुमित्तसंसग्गीए काल-  
 मेत्तियं, संपयं पुण तुमाओ कल्लणमित्ताओ परिन्नायसुद्धमग्गो गुरुमूलपडिवन्नपायच्छित्तो परलोगत्थमुज्जमिस्सं,  
 किलेसिओ य मए तुमं ति खमियव्वो ममावराहो, तथा गुरुपरंपरागयमत्थि मम पहरणवणसंरोहणं मणिरयणं तं  
 ममाणुग्गहेण संगोवेउ भवं’ ति । राइणा वि ‘जुत्तमेयं महाभाग ! तुम्हारिसविवेयिणो, खमियव्वं च ममाविणय- 25  
 वयणं’ ति भणंतेण ‘अलंघणीयवयणो गुरुजणो’ त्ति पुच्छिऊण पओगविहिं गहियं मणिरयणं ।

एत्थंतरे बोलीणप्पाया विहावरी । तओ सुवहुप्पयारमन्नोन्नं खामिऊण स-परत्थसिद्धिउद्धुंद्दुमायमाणसा  
 गया दो वि नियनियट्टाणेसु । विन्नाओदंता विम्हिया मंतिणो । पवत्तिओ नयरीए अकाले वि महामहो । सत्तरत्तपज्जंते  
 रत्तीए पुन्नचदसुरो तओ वारणदेवलोगाओ चविऊण उव्वन्नो गुणमालादेवीए कुच्छिसि पुत्तभावेण । तयणु तारतेय-  
 मंडलं, तिहुयणतिमिरभरुइलणपच्चलं, जिणनाहस्स व पहामंडलं स्रमंडलं उच्छंगगयं सुविणे पासिऊण पडिवुद्धा 30  
 एसा । [१ निवेइयं राइणो ।] संजायपिसायवयणपच्चएण राइणा समाइट्टो विसिट्ठुत्तलाभो । तओ सा नवपाउसपिच्चसि-

चंतामयवल्लरि व्व समुल्लसंतसव्वंगी नरिदवयणं 'तह' ति पडिवज्जिऊण तद्वियहमेवाऽऽहत्तविचित्तपयत्ता गन्धमणु-  
वाल्यंती सत्तममासे समद्धासिया वियडकडयविहारलैलसाए । मुणियपरमत्थेण राडणा मिलियसयलसामंतेण  
पडणीकया चउरंगसेणा, निरुविया नायगत्ते देवी । तओ राया तीए गंधसिधुरकंधरारुढाए पुरओ सामंतायमाणो  
सद्धिं मंति-सामंतेहिं समंतओ सीमंतेसु विहरिउं पयत्तो । सा वि देवी नरिंदो व्व पणमिज्जंती मंति-सामंतेहिं,  
5 अग्घिज्जंती पारसीमिएहिं, थुव्वंती चारणेहिं, दिंती अमियदाणाइं, अणुहव्वंती परमं पमोयमावासिया एगम्मि  
सीमारन्ने ।

तत्थ य करुणं ह्यमाणिं रमणीमायन्निऊण रायाणं भणियाडया— 'देव ! सरलक्खणेण लक्खिया मए विज्जा-  
हरसुंदरी काइ एसा, ता गंतूण य उव्वयरेमो किं पि एयाए' । तओ राया 'एव' ति भणंतो देवीए सह गओ तं  
पएसं । दिट्ठो पहरणपहारविहुरो विज्जाहरकुमारो, तयंतिए रुयंती विज्जाहरी वि । ताहे परोवयाररसिययाए तुरियं  
10 पुव्वभणियमणिरयणपक्खालणजलेण सित्ता से पहारा । अचित्तमाहप्पयाए रयणस्स सयराहमेव पडणीभूओ खयर-  
कुमारो, विम्हिओ असंभावणिज्जसंपत्तीए, जंपिउं च पयत्तो 'अहो ! मे पुन्नपरिणई, जमेत्थावि महारन्ने एवंविहेहिं  
पुन्नपुरिसेहिं सह समागमो' । राइणा वि संलत्तं 'न एत्थ संसओ, पुन्नपगरिसविणिम्मिया चेव तुम्हारिसा हवन्ति,  
चित्तमिणं पुण—जमेरिसं तुम्हाणं पि दारुणं वसणमावडियं, अहवा—

गरुयाणं चिय विवयाओ हुंति भुव्वणम्मि, नेव इयरेसिं । पडइ विडप्पअडप्पा रवि-ससिसु, न तारनियरेसु ॥६६॥  
15 तहा—

सह कोज्जरेहिं गिरिणो सरियाओ विचित्तवंकखलिणेहिं । धंघलसएहिं सुयणा विणिम्मिया हयकयंतेण ॥६७॥  
तहा वि अणुवरोहेण पिसुणिज्जउ एत्थ परमत्थो' । तओ भणियं विज्जाहरेण—  
'अत्थि गिरी वेयड्ढो सुरमिहुणनिसेविओरुसिहरड्ढो । कैडओगलंतसलिलो धवलो एरावणकरि व्व ॥ ६८ ॥  
तस्सोवरिसेढीए रयणघणे रम्मपुरवरे राया । गुरुदप्पारिकयंतो अत्थि जयंतो कयभयंतो ॥ ६९ ॥  
20 तस्साइं पियपुत्तो जयवेगो नाम सिद्धवहुविज्जो । जणयवलसमुन्नद्धो भमामि भुवणोयरे विभओ ॥ ७० ॥  
तत्थेव कुमनयरे राया दप्पुद्धरो धरो नाम । सो मज्झ जेट्ठभडणिं पजाडओ रेवइं कम्मं ॥ ७१ ॥  
नेमित्तियाओ अप्पाउओ ति कलिऊण तस्स नो दिग्घा । मह पिउणा दिन्ना सा अयलउरेऽणगवेगस्स ॥७२॥  
तो कुविओ धरराया जुज्जेण उव्वट्ठिओ जयतस्स । पत्तो य देवजोगा खणेण वयणं कयंतस्स ॥ ७३ ॥  
तं वेरमणुसरंतो तत्तणओ किन्नरो महादप्पो । भमिओ मम छिद्दाइं मगंतो एत्तियं कालं ॥ ७४ ॥  
25 अज्ज पुण पियासहिओ कीलंतो इह वणे अइपमत्तो । इय निदयं हओ ह नरिंद ! अह एत्थ परमत्थो' ॥७५॥

राडणा भणियं 'न जुत्तमेयमुत्तमाणं जं पमत्ते पहरिज्जइ, अहवा विचित्तचरिया ससारिणो, किमम्मं भन्नउ ?' ।  
जयवेगो वि 'आवया वि संपया विर्यं ममेसा, जं तुव्वेहिं सह दंसणं संवुत्तं' । ति जंपंतो पत्तकालो ति निमंतिऊण  
नीओ आवासं राइणा, उव्वयरिओ सगोरवं । विज्जाहरी वि देवीए निसग्गसोजन्नेण कया हयहियया । जाओ  
सव्वेसिं पीइसंवंधो । भुत्तुत्तरे कयाउच्छणो 'पुणो पुणो अम्ह दंसणं दायव्व' ति राडणा वुत्तो गओ सट्ठाणं नहयरो ।  
30 राया वि 'संपुन्नदोहला देवि' ति पडिगओ मिहिल । तओ—

साऽहियनवमासंते सुहरिक्खे गहपहुम्मि वलवंते । लग्गे गहवलजुत्ते परमपवित्ते सुहसुहुत्ते ॥ ७६ ॥

१ संकेतः—“लालसाए ति इच्छया” ॥ २ नायगत्तेण देवी आ० ॥ ३, ५ पवत्तो जे०विना ॥ ४ रुयमाणीं जे०-  
विना ॥ ६ संकेतः—“कटाभ्या-गण्डाभ्या कटेभ्यश्च-नितम्बेभ्योऽवगलत् सलिल-मदजल निर्झरजलं च यस्य” ॥ ७ विव ख३ आ० ॥

उन्भासियसयलासं वेलेहलकरं ससि व्व पुन्वासा । नयण-मणञ्जगभूयं सुयं पद्मया महादेवी ॥ ७७ ॥  
 पेच्छिय कमलदलच्छं तं वच्छमतुच्छतेयपडहच्छं । पम्हुट्टपसवदुक्खा तो सा तोसामए मग्गा ॥ ७८ ॥  
 वद्धाविओ य राया तुरियं गंतूण सुसुहचेडीए । तेणावि अंगलगं दाउं से मत्थयं धोयं ॥ ७९ ॥  
 कारावियं च चारयविमोयणं दावियं महादाणं । आइट्टं च पुरीए वद्धावणयं महाभोगं ॥ ८० ॥  
 जं सूरसुमिणलद्धो सेणादोहलयपत्तपरिओसो । तो तस्स कयं पिउणा नामवरं सूरसेणो त्ति ॥ ८१ ॥ 5  
 अन्नोन्नकरयलुच्छंगसंगदुल्लियविग्गहो सुहिओ । परिवड्ढिओ स वालो नवकप्पतरु व्व गिरिअंके ॥ ८२ ॥  
 अन्नदिणे जयवेगो रविकताए पियाए सह पत्तो । दट्टूण तं कुमार परमं परिओसमावन्नो ॥ ८३ ॥  
 खेयरलोससमुभवत्तथाभरणेहिं वहुपयारेहिं । तमलंकरेड वाल 'धन्नो धन्नो सि' जंपतो ॥ ८४ ॥  
 अह कुमरुवलायन्नविम्हिया भणइ खेयरी देविं । 'नेमित्तिएण पढमं धूयाजम्मो ममाइट्टो ॥ ८५ ॥  
 जड कह वि एवमेवं इवेज्ज ता सब्बहा तुमे एसो । गाहेयव्वो पाणिं तीसे अम्होवरोहेण' ॥ ८६ ॥ 10  
 आह तओ गुणमाला 'सुंदरि ! भिन्ना सि अंगमेत्तेण । अरिहसि सयमेव इमं काउं ता किं थ भणिणण ?' ॥ ८७ ॥  
 एवं निव-खयराणं निसग्गतोहियकयन्नुभावेहिं । नीरेहि व सिंचंतो सिणेहसालो गओ फाइं ॥ ८८ ॥  
 गुणमाला-खयरीण वि गमणा-SSगमसंगमप्पओगेहिं । चत्ता-पिउलीण व विद्धिसुवगओ नेहउच्छांहो ॥ ८९ ॥

अध्या विचित्तयाए कम्मपरिणामस्स पुष्फसुदरीसुरो वि चविऊण उव्वन्नो रविकंताए कुच्चिसि दुहियत्ताए ।  
 तओ सा तुहिणकणुज्जलमुत्ताहलविणिम्मियं, चंदायवाणुगारिकिरणनियरनिवारियतिमिरुकरं, अरहट्टमालियं व सरल- 15  
 सख्वं, पंचरायमणिवहकयालंकिओभयपेरतं, मुत्तावलिं सुविणे लडिऊण हरिसवसुच्छलियवहलपुलया विउद्धा भत्तुणो  
 निवेइत्ता तयाइट्टविसिद्धदुहियाजम्मा सम्मं गन्नभणुवाल्लिउं पयत्ता । पद्मया य उचियसमए रत्तसयवत्तकोमलपाणि-  
 पाय नवनीलुप्पलविलासिलोयणं तारतेयुज्जोडयवासमंदिरं सयलजणमणहारियं दारिय । कयं च पमुइएण पिउणा  
 पुत्तजम्मम्मि व चारयमोयणाइयं, दिन्नं च दारियाए सुविणाणुसारेण नामं मुत्तावलि त्ति ।

अंन्नोन्नपाणिपल्लवलालियलीलालसंतंगायलया । एसा वि समणुपत्ता कमेण तौरुन्नयं रम्म ॥ ९० ॥ 20  
 संगहियकलोहाणं विसयपसंगे विमुक्कलोहाणं । सुगुणव्भासभणाणं जिणभत्ताणं व समणाणं ॥ ९१ ॥  
 जणजणियविम्हयाणं नियनियनयरेसु पत्तकित्तीणं । वयइ सुहेणाणेहो कुमार-कुमरीण दोन्हं पि ॥ ९२ ॥  
 आलिंगियमंगं जोव्वणेण दट्टूण ताण जणएहिं । विहियं विवाहकम्मं तओ विदेहापुरवरीए ॥ ९३ ॥

तं च केरिसं ?—नहंगणं पिव पयडमंगंलं फुरंतचित्तकित्तियं च, मत्तगयगंडयलं व पवत्तचित्तेदाणपवाहं महु-

१ सकेतः—“वेलेहलकर ति कोमलकरम्” ॥ २ अन्नन्नं जे०विना ॥ ३ सिंचतो जे० ॥ ४ सङ्केतः—“चत्ता-पिउ-  
 लीण व त्ति चत्ता तर्कु पिउली रुतलतिका, तयोर्थथा गमा-SSगमेस्तनुवुद्धिसुपयाति तथा प्रकृतेऽपि स्नेह” ॥ ५ “पूणी” जेटि० ।  
 “पूणिया” ख०टि० ॥ ६ “तन्तु” ख०टि० । “सुवतन्तु” जेटि० ॥ ७ पञ्चरायमणिवृहद्वन्धनालङ्कृतोभयान्तामित्थर्थ ॥ ८ पवत्ता  
 जे०विना ॥ ९ तारतेउज्जो जे०विना ॥ १० अन्नन्नं जे०विना ॥ ११ तंकायलया ख० ख० ॥ १२ तारुन्नयसव्वमन्नं ॥  
 जे०विना ॥ १३ “काल” ख०टि० ॥ १४ सङ्केतः—‘मङ्गल-कुज, कल्याण च मङ्गलम् । चित्रा कृत्तिका च नक्षत्रे, स्फुरन्ती च  
 चित्रा कीर्तिव्यत्र । दान-मदो वितरण च । कमलाना[मा]स्त्रादेन सुहिता-तृप्ता वरला-हसिका यत्र, कमलासादेन-रुक्मीलामेन सुखिता  
 वरला-वरग्राहिका यत्र । सारसौघाना आसितम्-उपवेशन यत्र, सारशोभया आश्रित च । कृतकेलिभि कलहसमिथुनैर्मनोहरम्, कृतकेलि-  
 क्लह तथा समिथुनै प्रदेशैर्मनोहर च, यद्वा मिथुनाना सम्पत् साकलय वा समिथुनेन तेन समिथुनेन मनोहरम् । सहेलैर्वहुक्कवाकैरभिरामम्,  
 सहेलवधूना चक्रस्थ-मण्डलस्य वाचाभिरभिराम च । आमोद-परिमल प्रमोदश्च । पात्राणि-दलानि, पात्राणि च-अक्षपात्राणि । न दृष्टमसुराणा  
 शासनम्-आज्ञा यत्र, न दृष्टमसुरसं अशन-भोजन यत्र । गुणे-बृहस्पते सम्मान, गुरुधामौ सम्मानश्च” ॥ १५ “वीध” ख०टि० ॥

यरविरुयसुहयवहलकागलीगीयं च, माणससरं व कमलासायसुहियवरलं सारसोहासियं च, गंगापुलिणं व कयकेलि-  
कलहंसमिहुणमणहरं सहेलवहुचकवायाभिरामं च, विसद्रुकमलवणं व समुच्छलियवहलामोयं वियासियकलहोयवि-  
मलपत्तं च, 'तिदिवं वाऽदिहासुरसासणं गुरुसम्माणसुंदरं च । अत्रि य—

- नच्चिरनर-खयरंगणगणसिहिणकमणतुट्टहाराणं । मुत्ताताराहिं मही सहइ तहिं नहयलायंती ॥ ९४ ॥  
5 उप्पइरोवइरफुरंतहारकुंडलकिरीडखयरेहिं । सगंगणं व गणिया मिहिला तइया वणिजणेहिं ॥ ९५ ॥  
परिणाविऊण धुयं जीवियभूयं पसन्नयविसन्नो । सहिओ पियाए जयवेगखेयरो नियपुरं पत्तो ॥ ९६ ॥  
कुमरो वि पुव्वनेहाणुबंधसंधियविसुद्धसंबंधो । पिय-माइविरहट्टुक्खं खयरसुयाए विणोएउं ॥ ९७ ॥  
कीलइ उज्जाणाइसु, दंसइ अच्चभुयाइं विविहाइं । विरयइ पत्तच्छेज्जं, नच्चावइ खुज्जवामणए ॥ ९८ ॥  
अन्नम्मि दिणे तीए भणिओ 'पिय ! पढसु किं पि सुंपसन्नं । पन्होत्तरं सुभेयं उचियं अम्हारिसजणस्स' ॥९९॥  
10 तओ कुमारेण ईसि हसिऊण पढियं—

'किं पइदिणं मयंको सुयइ १ ? पहाणो य को रहंगम्मि २? । को थेराओ अन्नो निवसइ कमलोयरे ३?, त त तो ॥१००  
पढियाणंतरमेव भणियं तीए 'भमरो' । 'अहो ! लद्धी, नज्जइ पिययमाए चेव कयमिणं' ति भणंतेण पुणो  
पढियं कुमारेण—

- 'को वेगेइ तुरंगे १ ? को ठाइ सया सिरेऽमरघरस्स २? । को रमइ सरुच्छंगे ३ ? को दीसइ नेव सुयणेसु ४ ?' १०१  
15 सुचिरं परिभाविऊण भणियं मुत्तावलीए 'अहो ! अउव्वो चिउप्पातो, एत्थ उत्तरं-कलहंसो' । कुमारेण भणियं  
'मइसुंदरि ! संपयं तुमं पढसु' । तओ पढियं तीए—  
'को कुच्छाए सद्दो १? आमंतसु पत्थिवंर तणुवलं ३ च । नयणाण किमुवमाणं ४ ? किं भुंजइ पत्थिवो वलवं ५ ? ॥  
'नावगयं' ति मग्गिया कुमारेण तयौरावली । तीए भणियं 'तु त त तं' । तहा वि 'न लद्धं' ति पुच्छिया जाई ।  
'वद्धमाणुत्तरं' ति तीए सिट्ठे अडत्ति कहियं कुमारेण- 'कुवल्लय' । 'अन्नं पि मए गहियमुत्तरं चितियमत्थि तं पि  
20 सुणउ अज्जउत्तो' ति विंतीए पुणो पढियं मुत्तावलीए—

- 'पिय ! नंगलमामंतसु १ पज्जाए को णु होइ लेसस्स २ ? । को कज्जलम्मि खिप्पइ ३ ? को पसरइ पुरवरे सभए ४ ? ॥  
पढियाणंतरमेव लद्धं कुमारेण 'हलवोलो' । ईसि हसिऊण पुणो पढियं कुमारेण—  
'के दूरे दुरियाणं १ ? को दिज्जइ देवयाण भत्तेहिं २? । केरिसिया नरसुत्ती ३? का पीडइ पाणिणं वणिणं ४? ॥१०४  
हरिपहरणखामोयरि ! कंठविलग्गा जणेड आणंदं । का तुह ममावि सुंदरि ! ५ ? सीसउ, तु ता त ती पयडा' ॥१०५  
25 लद्धण तं सहिरियहसिरीए भणिया संन्निहियचेडी 'हला ! पयडं पि पुच्छइ अज्जउत्तो, न याणिमो किं उज्जू  
किं धुत्तो ?' । ततो लक्खिय'मुत्तावली'उत्तराए हसिऊण भणियं चेडीए 'सामि ! मम सामिणीए वि कुमारिगाए

१ तिविह्वं वां जे०विना ॥ २ सुपसत्थं ख१ ॥ ३ संकेतः—'भमरो ति एकव्यस्तसमस्तजाति । म-नक्षत्रम् १ ।  
अर-चक्राङ्गम् २ । [ अमर-पट्पद ३ । ] ॥ ४ संकेतः—'कलहंसो ति वर्द्धमानाक्षरजातिगर्भा मञ्जरीसनाथजाति । कश-चर्मयष्टि  
१ । कलग-कुम्भ २ । कलहस-राजहस ३ । कलहाश-कलेर्लवोऽपि ४ । ॥ ५ तकारावलिरित्यर्थ ॥ ६ अस्ति जे०विना ॥ ७  
संकेतः—'कुवल्लयं ति वर्द्धमानाक्षरजाति । कु-अव्ययम् १ । कुप-भूप । २ । कुवल-इषद्वल । ३ । कुवल्लय-नीलोत्पलम् ४,  
को-पृथिव्या वलय च ५ । ॥ ८ संकेतः—'हलवोलो ति शुक्लाजाति । हल-लाङ्गल । १ । लवो-लेश २ । बोल-प्रसिद्ध  
३ । हलबोल-सुसुल ४ । ॥ ९ केरिसया जे०विना ॥ १० सन्निहिया चेडी ख१ ॥ ११ संकेतः—'मुत्तावलि ति द्विव्य-  
स्तसमस्तजाति । मुत्ता मुक्ता १ । बलि-उपहार २ । मूर्ता-नरस्य मूर्ति ३ । प्राणी-शरीरी, वलि-प्रतीता वली च ४ ।  
[ मुक्तावली-मुक्तामाला नायिका च ५ । ] ॥

एगमेरिसं कयपुव्वं' । कुमारेण भणियं 'ता पदसु केरिसं ?' ति । पढियं वेडीए—

को पूयाए सद्दो १ ? वाहर वच्छं २ जणाण का इट्ठा ३ ? ।

को खवइ निसातिमिरं ४ ? सुहडस्साऽऽमंतणं कुणसु ५ ॥ १०६ ॥

को गरुडाओ अन्नो सूरत्तं वड पक्खिजाईसु ६ ? । नामगंहणे वि कए को मम हियं सुहावेइ ७ ? ॥ १०७ ॥

तओ [सूरसेणो त्ति] विन्नायनियनामुत्तरो 'समीभूयं जूयं'ति भणंतो पहसितो कुमारो ।

5

एवं परुद्धपेमाणुबंधपम्हुट्टकुलहरुकठा । एगंतरइनिहाणं जाया सा सूरसेणस्स ॥ १०८ ॥

अह नरसीहनरिंदो-मज्जियमंडियपसाहितो मुइतो । आयंसे अप्पाणं पेच्छंतो भावए एवं ॥ १०९ ॥

"जे कज्जलगुलियारंगिय व्व केसा सिरम्मि मे आसि । ते संयट कुट्टियमुंजसच्छहा पेच्छ दीसंति ॥ ११० ॥

एयं पि भालफलं अट्टमिचंदप्पहं पुरा आसि । इन्हि तु पक्खिज्जरिपत्तमुत्तिं विसेसेइ ॥ १११ ॥

मज्जद्वियालिसंयत्तपत्तकंताडं आसि नयणाइं । इन्हि कल्लसंबुवुवुयतुच्छायाइं जायाइं ॥ ११२ ॥

10

आयंसमणुकरिता अडमंसलपेसला पुरा जे ते । संपइ गल्ला खल्ला जाया सिहितवियकुत्तव व्व ॥ ११३ ॥

जे आसि कुंदव्वला मित्त व्व निरंतरा मुहे दंता । ते विरलत्तं पत्ता संपइ समरे कुमिच्च व्व ॥ ११४ ॥

सव्वहा—

तंवलरंजिओट्टं कुंकुमपिंजरियरोमपरिखित्तं । परिपक्कफुट्टकंटोल्लविब्भमं हसिरमुहमिन्हि ॥ ११५ ॥

पुरपरिहसच्छहाओ होऊण भुयाओ पेच्छ कहमिन्हि । धोयनिच्चोइयंवरवट्टि व्व वलीहिं कलियाओ ॥ ११६ ॥

15

उयरं पि मच्छसरिसं होऊणमियाणि विस्ससादोसा । पडिहाइ चुडियचम्मं दुच्चाइयमाउल्लिंगं व्व ॥ ११७ ॥

करिकरपयामथोरं होऊण सुगुत्तगुंफमेत्ताहे । परिमुत्तियकागजंघासंकं टंकांजुयं कुणइ ॥ ११८ ॥

किं वहुणा ?

सव्वो वि एस देहो लालियपुव्वो वि सव्वजत्तेण । विहवक्खएण सयणो विसंवयंतो व्व पडिहाइ ॥ ११९ ॥

एयस्स असारसरीरयस्स कज्जे किलिस्सियं सुइरं । अन्नाणतमंधविवेयचक्खुणा हा ! सुहा कह मे ?" ॥ १२० ॥

20

एमाड भावयंतो सरिऊण पुराणजम्मसामन्नं । निव्विन्नकामभोगो जाओ पत्तेयबुद्धो सो ॥ १२१ ॥

तो सीहो व्व निरीहो नरसीहो गिहगुहाओ सयरहं । निक्खंतो भरहवणे सच्छंदं भमिउमारद्धो ॥ १२२ ॥

अह सूरसेणकुमारो सोयंतो बोहिऊण मतीहिं । अहिसित्तो जणयपए कमेण जाओ महाराओ ॥ १२३ ॥

केरिसो १—सायरो इवालंधियमेरो, सुणिवरो इव अणुच्छलियवेरो, दिणयरो इव अप्पडिहयतेओ, पंचाणणो इव परेहिं अजेओ, कुंजरो इव पउरपवत्तदाणो, सुरिंदो इव अखंडियमाणो, मंदरो इवाहरियसेसधराहरो, हिमवंतो इव परिओसियमहेसरो । अवि य—

25

चंदायंतो कुलनहयले बंधुताराभिरामे, हंसायंतो निययपमयापंकपंकेरुहंके ।

तायायंतो सगुणजणयाल्लुहदीरेसु धीरो, लीलायंतो पमुट्टयजणं रज्जभारं धरेइ ॥ १२४ ॥

देसे देसे नरवइसहायुव्वमाणप्पयावो, व्वन्निज्जंतो रिउपणइणीचक्खवालेण कामं ।

सकोयंतो चिरकरभरं सेसिरो" सूरिओ वा, आसासंतो विहलियजणं कालमेसो गमेइ ॥ १२५ ॥

30

१ संकेतः—“सूरसेणो त्ति सेव आति । सु-पूजोद्योतकोऽय निपात १ । हे उर । -वक्ष । २ । सा-लक्ष्मी ३ । इणो रवि ४ । [सूर । -वीर । ५ ।] सेणो इयेन ६ । [सूरसेन-नायक ७ ।]” ॥ २ संकेतः—“टंकाजुयं ति जघायुगमम्” ॥ ३ णो व्व परेहिं जे०विना ॥ ४ संकेतः—“लुहवी(दी)रे त्ति सगुणजनतारूपे शिशौ” । “शिशुपु” जे०टि० । “बालकेषु” खरटि० । अत्र ‘लुहदीरे सुधीरो इति संकेतप्रमत्त पाठोऽवगम्यते ॥ ५ “क्षिप्र” जे०टि० ॥ ६ आसासितो जे०विना ॥

अह कुलकुमुयाणंदं चंदं पुन्निमनिसाऽऽसंज्ञं व्व । मुत्तावली पयाया मुहालयं वालयं विमलं ॥ १२६ ॥  
 कारिय वद्धावणयं काले नामं पइट्टियं तस्स । जणएण चंदसेगो त्ति सोहणं मोहणं मणसो ॥ १२७ ॥  
 नीसेसकलाकलिओ पूरियरलिओ सुभोगमुहललिओ । संगहियहियकलत्तो जोव्वणमेसो वि संपत्तो ॥ १२८ ॥

एत्थंतरे कमलकोमलकरपरिग्गहियसिलीमुहो सकसरासणाडंवरीमयरद्धयनिउत्तो इव जणहिययाइं सल्लिउं  
 5 पवत्तो सरयजोहो । जत्थ परिपुट्टगो-विससिंशुल्लिहणकिलंता इव जाया संवड्ढियसांसा मेइणी, विरहिणीसांलिगो-  
 वियाविमुकदीहुन्हनीसासेहि व मुक्का सयलमग्गा, वासानिसाविगमविउद्धो व्व परिभमिउमारद्धो सत्तच्छयामोओ,  
 वद्धुकंठमालोयंति मग्गं पिव चिरविउत्तोर्वितरायहंसाणं विसट्टकंदोह्लोयणाओ सरसीओ, सहांसकासल्लुहापंडुरिय-  
 दुत्तडीवियडभवणपविट्टाओ पसाहंति व अप्पाणं चक्कवायकणयाहरणेहिं महानईओ, विजियमेहमहाहवो व्व जाओ  
 विउणप्पयावो दिव्वसाहिवो, दिवा दिवायरकरनियरविहुरियवहलधूलिधूसरपामरकयाणुकंपो व्व पमुक्को विउलजुन्हा-  
 10 जलं मियंको । किंच—

निप्फन्नधन्नसमुद्धमहंततोसा, संपुंन्नचंदकिरणुज्जलचारुदोसा ।

पायं जणा पमुइया तिदिवे व्व देवा, कीलंति तम्मि विविणेसु घरंगणे वा ॥ १२९ ॥

एवंविहे सरयागमे कयाइ विन्नत्तो बंधुजीवमंतिणा नरिंदो 'देव ! बहवो तुरुक्क-वन्हीय-सिंधुपाराइदेसागयहेडा-  
 वडणो गहियतुरंगा देवपाए ओलग्गंति, ता परिच्छिऊण वेप्पंतु केइ तुरंगा, दिज्जउ तेसिं सेसविकयाणुन्न' त्ति ।  
 15 तओ राया पडिवन्नमंतिवयणो पउणावियतुरयरयणो कारियहेडावणियाहवणो संजातो तुरयवाहणप्पवणो । तओ वि-  
 गंतूण वाहियालिं नाणादेसुब्भवे वरतुरंगे । परिवाहिऊण सुइरं दिणयरकरपीडिओ संतो ॥ १३० ॥  
 कीलावणउज्जाणे सत्तच्छयछाइयाए वहलाए । उवविट्टो वीसमिउं जाओ य खणे समासत्थो ॥ १३१ ॥  
 पेच्छइ पलंववाहुं आयावंतं मुणिं महाभागं । धम्मं व मुत्तिमंतं सम्मं ज्ञाणम्मि वट्टंतं ॥ १३२ ॥  
 तस्स य लायन्नसिरिं पेच्छंतो दुक्करं च तवकिरियं । सजायविम्हओ मेइणीसरो वंदणं कुणइ ॥ १३३ ॥  
 20 पइजम्मं चिय पीई अब्भत्था मुणिजणम्मि तेणेसो । परमप्पमोयफुन्नो मुणिमेवं थुणुत्तमाढत्तो ॥ १३४ ॥  
 'धन्नो सि महायस ! जेण जोव्वणे दुज्जओ जियो मयणो । पत्ता असमा समसंपया वि अम्हारिसदुर्इप्पा ॥  
 धन्नो सि पुणो वि पुणो जेण तए तणसमा इमे गणिया । चेयन्नहरा उग्गा भोगभुयंग्गा महाभोगा' ॥ १३६ ॥  
 इय बहुविह थुणित्ता सपरियरो पत्थिवो पुहउपीढे । आसीणो साणंदो मुणिवसभं पज्जुवासेउं ॥ १३७ ॥  
 मोत्तूण ज्ञाणजोगं भणियं अह ईसरेण वरमुणिणा । 'अन्नो वि सयन्नो न हि नरिंद ! भोगेसु अभिरमइ ॥ १३८ ॥  
 25 जेण असारा अथिरा अमुइसख्खा अतित्तिमुहसंगा । दोग्गइनिबंधणं चिय भणिया एए मुणिजणेण ॥ १३९ ॥

अवि य—

धेज्जंता महुरा विवागविरसा किंपागतुल्ला इमे, कच्छूकंडुयणं व दुक्खजणया भाविति बुद्धिं मुहे ।

मज्झन्हे मयतन्हिय व्व नियय मिच्छाऽभिसंधिप्पया, भुत्ता दिति कुजोणिजम्मगहणं भोया महावेरिणो ॥ १४० ॥

नरेसु न चिरं थिरा खयर-किन्नराइसु वा, सुरेसु वि असासया गुरुविओयदुक्खावहा ।

30 पयासियविडंबणा तिरियजोणिजंतूण जे, हरंति हिययं कंहं बुहजणाण भोगा इमे ? ॥ १४१ ॥

१ संकेतः—“सिलीमुहो त्ति शिलीमुखा—वाणा भ्रमराश्च” ॥ २ संकेतः—“सास त्ति श्वास सत्यानि च—घान्यानि” ॥ ३  
 “शालिक्षेत्रक्षिका” खरटि० ॥ ४ दिवाहिवो जे०विना ॥ ५ संपन्नं खर आ० ॥ ६ प्पउणो जे०विना ॥ ७ व थोउमां  
 जे०विना ॥ ८ इरापा दुष्प्रापेत्यर्थ ॥ ९ भुंजता खर ॥

भोत्तूणं मुइसुंदरे सुरवहूसंदोहदेहाइए, भोए सागर-पल्लमाणमणहे देवत्तणे जं नरा ।

रज्जंति त्थिकलेवरेसु असुईपुष्पेसु रिट्ठोवमा, मन्ने तित्थिकरा जियाण न चिरं भुत्ता वि भोगा तओ' ॥ १४२ ॥

एमाइदेसणायन्नगतणुइयभोगरागो मुणिं पणमिऊण पविट्ठो नयरं नरीसरो, ठिओ मुणिरुणगणुक्कित्तणपरो जावज्जागरं । पुणो मुत्तविउद्धेण सहसा सुओ दुंदुहिरवो । तओ निच्छिऊण तस्स महामुणिणो नाणुप्पत्ति अप्प-  
माणपमोयफुम्भमाणसो ससंभमो मुत्तावलीपमुहंतेउरपरिगओ गओ सव्वसामग्गीए मुणिपायमूलं । द्दूण देवनिवह- 5  
विहियमहामहिंमं महामुणिं विसेसियपरिओसो पणमिऊण य पुणो पुणो गुणत्थुइमुहलो निसन्नो सुद्धधरणीए कयंजली  
मुणिवयणमायन्निउं पवत्तो ।

एत्थंतरे तेयसंपओवहसियतरुणतरणिमंडलो गंडयलघोलंतमणिकुंडलो नवविबुद्धमुद्धसयवत्तनयणो जयजया-  
रवमुहलमयलंछेणच्छायवयणो नच्चिऊण चिरं निवडिऊण मुणिपायपंकए—

‘जय मुणिवर ! जिणवरवयणलीण !, उद्धरियभूरिभवभीरुदीण ! ।

10

तवचंदहासजियमोहजोह !, संसाहियदुक्करमणनिरोह !’ ॥ १४३ ॥

एवं बहुविहं थोऊण निसन्नो मुणिवलणंतिए एगो दिव्वपुरिसो । ताहे संजायकोउगेण पुच्छिय राइणा ‘भयवं !  
को एस पुरिसो ? कीस वा एवमच्चंतभत्तिवाउलो जाओ ?’ ।

तो भणइ मुणी महिवइ ! सम्मत्तगुणेण पाणिणो होति । एवंविहगुरुभत्ती, अन्नं पि हु कारणं सुणसु ॥ १४४ ॥

नयरम्मि पउमसद्धे दिसिदिसिरेहंतचित्तवणसंढे । ईसर-धणेसरऽक्खा होत्था वणिणो हसियजक्खा ॥ १४५ ॥ 15

निगंथ-भट्टसासणरयाणमासन्नमंदिरगयाण । किंसिणेहपहाणो वच्चइ कालो सुहं तेसिं ॥ १४६ ॥

नवरं दिणट्टभागे भुंजंतं सावयं पइदिणं पि । अन्नाणाओ खिसइ धणेसरो ईसर पयडं ॥ १४७ ॥

भणइ ‘अहो ! अन्नाणं, दिणमज्जे भोयणं दुवे वारा । नत्तंवयं पवित्तं न कुणंति कयाइ जिणभत्ता ॥ १४८ ॥

सूरेण अदिस्संतं जं भुज्जइ तं न भुत्तयं होइ । उववास-एगभत्ताइ दिणगओ सव्वववहारो’ ॥ १४९ ॥

पडिभणइ ईसरो तं ‘उवविट्ठागिट्ठिकायगनरो व्व । मा सुयमेत्तग्गाही होउं वंवेहि अप्पाणं ॥ १५० ॥ 20

जुज्जइ जं विउसाणं गुण-दोसवियारणेण कज्जेसु । निच्चं पि पवित्ति-निवित्थिकारिया इट्ठसिद्धत्थं ॥ १५१ ॥

वेत्तव्वमप्पदोसं, मोत्तव्वं सव्वहा महादोसं । जह भुज्जइ धन्नाई निउणेहिं, न जाउ मंसाई ॥ १५२ ॥

तुल्ले वि फले वत्थुं बहुदोसं परिहरंति सप्पुरिसा । जह परकलत्तसंगं परधणहरणं च जत्तेण ॥ १५३ ॥

कंट-ऽट्ठि-कट्ट-कुंधू-पिवीलिया-वाल-मच्छियार्इयं । दीसइ दिणे सुहं जह न तहा निसि दीवजोए वि ॥ १५४ ॥

विच्छुय-ददुदुरिगाइ वि मंदुज्जोए न वज्जिउं सक्का । इय पयडा निसिभत्ते दोसा, न गुणाण गंधो वि ॥ १५५ ॥ 25

तणुत्तित्थिफला भुत्ती दिणभोईण वि अवस्स सा होइ । नवरं निसासमुत्था दोसा दूरट्ठिया तेसिं ॥ १५६ ॥

अकलंकं दिणभृत्तिं मोत्तूण निसाए भोयणं जत्थ । नत्तंवयं पि एयं अन्नाणवियंभियं चैव ॥ १५७ ॥

‘सूरेण अदीसंतं भुत्तमभुत्तं’ति भणसि जं तत्थ । भण ‘सो कया न पेच्छइ?’ निसि त्ति एयं पि हासयरं ॥ १५८ ॥

सूरो हि दिव्वनाणी पच्चक्खा तस्स सयलजणवेट्ठा । अच्चंतासंभविभासण खु गाढयरमन्नाणं ॥ १५९ ॥

अन्नं च—

30

जे भुंजंति न रत्तिं तेसि तवो होइ जीवियस्सऽद्धं । इयरेसिं तिरियाण व वच्चइ जीयं चरंताणं ॥ १६० ॥

१ ‘गुणक्कित्तणं’ जे०विना ॥ २ ‘उणोव्वायवयणो जे० ॥ ३ मुज्जइ ख१ जे० ॥ ४ सङ्केतः—‘उवविट्ठागिट्ठिकायग-  
नरो व्व त्ति दायकेन श्लाघिताया उपविथया एव, न तु स्वय दोहेन परीक्षिताया, गृष्टे -धेनोः कायकः-क्रेता नर इव’ ॥



किंच—

संपाइमसुहुमतसा तीरंति न वारिउं तर्हि जेण । पच्चक्खदंसिणो वि हु तेण निसाए न भुंजंति ॥ १६१ ॥

इंदियविजओ आरंभवज्जणं भोयणाइपरिसुद्धी । पसुभावपरिच्चाओ दिणभुत्तीए गुणा हुंति ॥ १६२ ॥

इय गुण-दोसवियारा कुणसु पवित्ति निवित्तिमवि मित्त ! । मा गामउडसुओ इव कयग्गहो पावसु अणत्थं ॥ १६३ ॥

5 तहाहि—

[ १०. गामउडसुयदिट्ठंतो ]

गामउडे कालगए घरिणी भरिज्जण भत्तुणो भइरी । भणिया सुएण 'अम्मो ! परिजूरसि कीस तं एवं ? ॥ १६४ ॥

आएसकारओ हं साहेमि पओयणं तुहासेसं । किं खिज्जिएण कज्जे अम्मो ! एगंतनिरुवाए ? ' ॥ १६५ ॥

तीए वुत्तं 'पुत्तय ! तुह जणओ आसि निच्छयपहाणो । तं पुण वालसहावो सिदिलायसि सयलकज्जेसु ॥ १६६ ॥

10 सीयंति तेण वच्छय ! संपइ सयलाइं गेहकज्जाइं । वल्लिमड्डाए वड्डो होइ तओ सोगसंतावो ' ॥ १६७ ॥

पडिभणइ नंदणो तो 'अज्जप्पभिइं अहं पि सब्बत्थ । निच्छयसारो होहं मा माइ ! अनिव्वुया होसुं' ॥ १६८ ॥

कयनिच्छएण एवं कयाइ परिसागएण अह तेण । नस्संतो पडुवयणा हत्थं पुच्छे खरो धरिओ ॥ १६९ ॥

पहरंतो वि पयासं पच्छिमपाएहिं वच्छ-दसणेसु । भणिएणावि न सुक्को जणणीत्रयणं सरंतेण ॥ १७० ॥

लत्तागाढपहारेहिं पाविओ दारुणं तओ वसणं । जाओ हासट्ठाणं जणस्स अन्नाणदोसाओ ॥ १७१ ॥

15

[ गामउडसुयदिट्ठंतो सम्भत्तो. १० ]

\*

इय अमुणियगुण-दोसो अत्थाणे जग्गही इह परत्थ । लहइ अणत्थं मूढोऽवरो वि गामउडतणओ व्व ' ॥ १७२ ॥

इय सो वहुं पि भणियो न निअत्तो रत्तिभुत्तिओ वणिओ । अट्टज्जाणोवरओ उव्वन्नो वग्गुलो वरओ ॥ १७३ ॥

सम्मत्तहीलणाओ निव्वत्तियसाणुवंधितिरिनामो । मरिउं तर्हि तर्हि चिय उव्वन्नो पंचवाराओ ॥ १७४ ॥

20 तत्तो वि चम्मचिडओ दो वारा रत्तिभुत्तवहुमाणा । पत्तो कोसियभावं जंबुयभावं च दो वारे ॥ १७५ ॥

मंसा-ऽसुइ-मडयासी दुहिओ दीणो तओ वि मरिज्जण । जाओ उज्जेणीए दियाणो देवगुत्तस्स ॥ १७६ ॥

नदाए घरिणीए कुच्छीए पढमपुत्तभावेण । नवरं जम्माउ चिय अविउत्तो रोगजालेण ॥ १७७ ॥

एगस्स पडीयारो जा कीरइ कह वि तरस्स जणणीए । कुप्पंति दोन्नि तिन्नि व तावऽझे गाढपीडयरा ॥ १७८ ॥

जीयासाविरहाओ अकयभिहाणो पवड्ढिओ एसो । रोगो त्ति तओ एयडं जायं नामं जणे तस्स ॥ १७९ ॥

25 अह सो ईसरसड्ढो कयाइ जागरियधम्मजागरिओ । संवेगाइसयाओ उल्लसियचरित्तपरिणामो ॥ १८० ॥

तोडियनिविडकुहुंवर्य-घर-घरिणिसिणेहवंधणो धणियं । धम्मेसरगुरुमूले पडिवन्नो साहुसचरियं ॥ १८१ ॥

सन्नाणचरणरसिओ विहरतो सो वि भुत्तिमुहत्तिसिओ । पत्तो कयाइ वि गुणी उज्जेणि पुरवरिं स मुणी ॥ १८२ ॥

पक्खखवणावसाणे सुयविहिणा गोयरं गवेसन्तो । नियमंदिरमायाओ दिट्ठो सो देवगुत्तेण ॥ १८३ ॥

नाणि त्ति सवहुमाणं पमोयपुलओलिराहदेहेण । नमिज्जण कयजलिणा तओ वि परिपुच्छिओ एवं ॥ १८४ ॥

30 'भयवं ! दयापहाणा तुव्वे ता मह सुयस्स एयस्स । रोगोवसमोदायं कयप्पसायं कहह कं पि ' ॥ १८५ ॥

तो भणइ मुणी 'दियवर ! भिक्खं भमिराण अम्ह न हु कप्पो । कीरइ कहापवंधो जं गिहिगेहे मुहुत्तं पि ॥ १८६ ॥

तह वि तुह भट्ट ! सीसट्ठ परमत्थो एत्थ एगवयणेण । धम्मोसहिप्पओगो उच्चिओ एयस्स वालस्स' ॥ १८७ ॥

१ होह ख१ ॥ २ उप्पन्नो ख१ ख२ ॥ ३ सङ्केत-“वरउ त्ति वराक्” ॥ ४ मंसासी मडयां जे० ॥ ५ कुप्पंति दुन्नि प्रा० ॥

इय भणिय लद्धभिकखे उज्जाणं मुणिवरम्मि संपत्ते । भुत्तुत्तरे सपुत्तो भट्टो वि तयंतियं पत्तो ॥ १८८ ॥  
नाऊण तस्स भावं भणियं मुणिणा तओ 'महाभाग ! । रोगविओगनिमित्तं नियाणचाओ हवइ पढमं ॥ १८९ ॥  
सइ तम्मि सुद्धकिरिया आरोगनिबंधणं धुवं होइ । इहरा अणत्थहेऊ जायइ दुग्गहियभूओ व्व ॥ १९० ॥  
तत्थ व्हा-ऽलिय-चोरिय-मेहुन्न-परिग्गहाइं पावाइं । एगंतेण दियुत्तम ! सयलरूयाणं नियाणाइं ॥ १९१ ॥  
एएसि परिच्चाया सम्मं धम्मोसहं पिय तस्स । जायइ नियमाऽऽरोगं निच्छयसारस्स पुरिसस्स ॥ १९२ ॥ 5  
परमेट्टिनमोक्कारो दुक्कडगरिहा ससत्तिओ दाणं । इंदिय-कसायविजओ एसा धम्मोसही परमा ॥ १९३ ॥  
एयाए संपत्ती न अप्पपुञ्जस्स नियमओ होइ । संपत्तीय उ नियमा नीरोगत्तं नरो लहइ' ॥ १९४ ॥  
माहप्पमणप्पं चिय एक्केकस्स वि सुयम्मि सुपसिद्धं । वज्जरियं तस्स दियुत्तमस्स मुणिणा पवंध्रेण ॥ १९५ ॥  
काऊण गंठिभेयं तत्तो संपत्तविमलसम्मत्तो । सुयसहिओ दुत्ति दिओ जाओ सइहो अइवियड्हो ॥ १९६ ॥  
रोगो वि भावियप्पा अहियासइ रोगवेयणं सम्मं । कम्मपरिणामभावी परिवज्जियसेसपडियारो ॥ १९७ ॥ 10  
अन्नम्मि दिणे आभोइऊण सोहम्मकप्पनाहेण । दढधम्मो त्ति सतोसं पसंसिओ सुरसभामज्जे ॥ १९८ ॥  
अचलत्तवन्नणं से असइहंता दुवे सुरा तत्तो । कयवेज्जसरूवा ते भणंति सयणाण पच्चक्खं ॥ १९९ ॥  
'जइ कुणसि अमह वयणा किरियं निस्संकमाणसो भट्ट ! । ता आजम्ममरोगा चंगं अंगं तुह करेमो' ॥ २०० ॥  
सयणेहिं तओ भणियं 'कहेह भो ! केरिसी तई किरिया ?' । ते विति 'पुव्वदिवसे महुअवलेहो लिहेयव्वो ॥ २०१ ॥  
पच्छिमदिणम्मि पाणं भणियं जुम्भासवस्स नियमेण । भोत्तव्वं च निसाए समक्खणं सट्ठियं कूरं ॥ २०२ ॥ 15  
जल-थल-खयरसमुत्थं पिसियं त्रिविहोसहेहिं सम्मीसं । भोत्तव्वं एक्केकं सत्तयमिच्चाइ अन्नं पि' ॥ २०३ ॥  
तो भणइ रोगवड्हओ 'अलं अलं एरिसीए किरियाए । मा वीयं पि भणिस्सह एरिसवयणं मम समक्खं ॥ २०४ ॥  
सावयधम्मविरुद्धं निसिभत्तं सव्वहा मए चत्तं । महु-भंसाइचउकं जावज्जीवाए परिमुक्कं' ॥ २०५ ॥  
तो पडिभणंति विज्जा 'देहो धम्मस्स साहणं पढमं । एयस्स कए वंभण ! कज्जमकज्जं न गणियव्वं ॥ २०६ ॥  
सइ नीरोगे अंगे पायच्छित्तं गुरुं पि चरिऊण । कीरइ चिरं विसुद्धो धम्मो अह सत्थपरमत्थो ॥ २०७ ॥ 20  
भो भो पंडियवड्हया ! पडिवोहह मूढवड्हययं एयं । कोस उवेक्खवह दुक्खे निवडंतं जाणमाणा वि ?' ॥ २०८ ॥  
तो विति वंधवा तं 'वच्छय ! पडिवज्ज संगयं एयं । सव्वमरोगे अगे कीरइ धम्मो हि अब्भहिओ' ॥ २०९ ॥  
जाहे नहि पडिवज्जइ ताहे सयणेहिं राइणो सिट्ठं । तेणावि जुत्तिसारं भणिओ तं चेव सविसेसं ॥ २१० ॥

त्तओ—

संसारभउव्विग्गो परिहरियाकिच्चकरणववसाओ । उल्लवइ रोगसइहो 'अहो ! वियड्हो जणो एस ॥ २११ ॥ 25  
पक्खालणवुद्धीए को लिपइ अमुडणा नियं देहं ? । को कइमेण मइट धोयणहेउं अहयवत्थं ? ॥ २१२ ॥  
को जज्जरेइ कुंभे जउविणिओयत्थमेत्थ जाणंतो ? । को भंजइ नियनियमं पायच्छित्ताणुचरणत्थं ? ॥ २१३ ॥

अन्नं च—

अत्थच्चाएण सरीररक्खणं कुणइ जाणगो पुरिसो । न सरीरपरिच्चाया जुत्ता अत्थस्स परिरक्खा ॥ २१४ ॥  
जइ सव्वमिणं मन्नइ ता बुज्जइ अत्थस्राहुलं देहं । देहसमं पुण जीवं, रक्खा जीवरस तो जुत्ता ॥ २१५ ॥ 30  
नियमच्चाया देहो रक्खिज्जइ, नियमपालणा जीवो । ता कइ नियमच्चाया सरीरपरिवालाण जुत्तं ?' ॥ २१६ ॥

१, ३ विउत्तं जे०विना ॥ २ संपत्तीयो निं जे० ॥ ४ मरोगं चंगं त्रा० ॥ ५ कहेहि जे० ॥ ६ समंखणं जे०  
त्रा० ॥ ७ धोवणं जे०विना ॥ ८ सइतः—“साहुलं ति सट्ठयम्” ॥

इच्छाञ्जुत्तिउत्तीहिं बंधवा तेण वोढिया सव्वे । पभणंति 'सुद्धुद्धिट्ठी वडुय' तुमे वत्थुपरमत्थो' ॥ २१७ ॥  
 देवा वि निच्छयं से नाउं दाऊण दंसणं सवखा । नीरोगं तं काउं कयप्पसंसा गया सगं ॥ २१८ ॥  
 तप्पभिइं से नामं आरोगो त्ति य जणम्मि सुपसिद्धं । गुरुवयणपालणम्मि य विसेसतो निच्छओ जाओ ॥ २१९ ॥  
 गुरुगुरुभत्तिपवित्तं अकलंकं पालिऊण गिह्धिधम्मं । विट्ठिपरिचत्तसरीरो सोहम्मे सोऽमरो जाओ ॥ २२० ॥  
 5 दट्ठूण दिव्वरिद्धिं पुव्वभवं ओहिणा पेलोडत्ता । धम्मायरियस्स महं वंदणहेउं इमो पत्तो ॥ २२१ ॥  
 केवलनाणुप्पत्तिं दट्ठूण दढं पमोयमावन्नो । गुरुभत्तिरायमइरापरव्वसो नच्चिओ सुइरं ॥ २२२ ॥  
 इय ईसरेण मुणिणा सिट्ठे निसिभत्तपावपरिणामे । राईभोयणविरइं पडिवन्नो बहुजणो तत्थ ॥ २२३ ॥

सूरसेणराया वि तिव्वसंवेगवारिधारासित्तमणोमेडणीपरूढवडुहंतचरणधरणववसायपायवो विसासणसमविग-  
 णियकामभोगसंपओगो कयंजली जंपिउं पवत्तो—

- 10 'धन्नो सि तुमं मुणिवर ! जेण तुमे परहिण्कनिरएण । एसोऽमरो महंता उद्धरिओ रोगदुक्खाओ ॥ २२४ ॥  
 एसो वि सुरो धन्नो धम्मायरिएसु एरिसी जस्स । भत्ती बहुमाणघणा कयन्नुभावन्निया वाढं ॥ २२५ ॥  
 मुणियं च मए मुणिवड ! माहप्पमणप्पमैज्ज धम्मस्स । जिणदेसियस्स सम्मं जट्-गिह्धिविसयस्स विसंयस्स ॥ २२६ ॥  
 एंगंतियमच्चंतियकारणमेसो सिव्वस्स जइधम्मो । गिह्धिधम्मो सुरसुहसाढणक्खमोऽणंतं होइ ॥ २२७ ॥  
 सिद्धिसुहसंगमुकंठियस्स सरणागयस्स ता मज्झ । वयदाणेण पसायं करेह जइ जोगया अत्थि' ॥ २२८ ॥  
 15 वज्जरड मुणिवरो 'नरवरिद ! जोगो सि सुद्ध धम्मस्स । ता मा कुण पडिवंधं, कुण सज्जो संजमुज्जोयं' ॥ २२९ ॥  
 आणंदनिव्वरुओ वंदिऊण तो मुणिवरं मधीनाढो । गंतूण गिहं पभणड देविं सामंतवग्गं च ॥ २३० ॥  
 'भो भो ! भावेह फुडं जलवुव्वुयचंचलं मणुयजीयं । तुसमुट्ठि व्व असारं भोगसुहं कडुविवागं च ॥ २३१ ॥  
 सुट्ठि-सयणसंपओगा हुंतविओगा असंसयं सव्वे । अत्थो अणत्थहेऊ वहुण साहारणो अधुवो ॥ २३२ ॥  
 आयन्नपरियमरो मग्गट मम्माडं अवहिओ मच्चू । अणुधावंति तुरंता वसणाणि जरा य रोगा य ॥ २३३ ॥  
 20 कुमुमियतिल्लिपिजो इव मुनिप्फलो नेहवद्वयो सव्वो । अकयपरित्तो नियकम्मभोऽणो इट्ठवग्गस्स ॥ २३४ ॥  
 थक्का-ऽथक्कागामिणि मरणे, मरणे अत्रिज्जमाणम्मि । न खमं वियक्खणाणं इय भीमभवे रइं काउं ॥ २३५ ॥  
 निरुव्वमसुहसंताणे नेव्वाणे सासयम्मि ताहीणे । मुविणिंदयालसरिसे को संसारे रइं कुणइ ? ॥ २३६ ॥  
 तवसज्जे मुत्तिमुहे, तवे य आयप्पयत्तसज्जम्मि । को नाम पलित्तकुडिच्छसच्छहे रमइ संसारे ? ॥ २३७ ॥  
 वारे संधक्कवे पडिउमियारिणं न सव्वदा जुत्तं । देत्ते हत्थालंवं कारुणिए ईसरमुणिम्मि ॥ २३८ ॥  
 25 ता तुम्ह सम्मएणं दलिउं संनारघोरदालिदं । संपड करेमि सम्मं सामन्नमहन्नवासेवं' ॥ २३९ ॥  
 तं मुत्तावलिदेयी पभणट सवेगभाव्निया 'सामि ! । अत्रितहमेयं सव्वं आणत्तं अज्जउत्तेण ॥ २४० ॥  
 भुत्ता सुइरं भोया. नीट्ठे पालिता तदा लोया । उव्वरियं मित्ताणं, कयं पियं बंधुचित्ताणं ॥ २४१ ॥  
 परिवड्ढिओ य तणओ समंतियामतपयइपियजणओ । संपीणियपणदंणो जत्तपडढो वज्जिओ भुवणे ॥ २४२ ॥  
 पत्तं नरजम्मफलं मेसं नयलं पि सामि ! अम्हेहिं । जट पुण वयं पि वेप्पइ ता मप्पे किं न पज्जत्तं ? ॥ २४३ ॥  
 30 ता मा काळक्खेत्तो कीरउ, तीरउ भवन्नो तुरियं । दुल्लहो गुरुसंजोगो बहुविग्घा सेयसंपत्ती' ॥ २४४ ॥

१ पलोयत्ता जे० ॥ २ जंपियं जे० ॥ ३ 'मत्त ध' जे० विना ॥ ४ "निर्मलत्त" खरटि० ॥ ५ 'वरो वरनरिद ! जे० विना ॥ ६ हुत्ति विओगा जे० विना ॥ ७ सद्धेत- "तिल्लिपिजो त्ति निष्कलत्तिल" ॥ ६ ॥ " ८ समत्तसामंतं जे० विना ॥ ९ 'इगणे म' जे० विना ॥

एयं चिय मंतीहि वि भणियं पडुसमणुकूलवित्तीहि । पुअन्भवहियाण मणोरहेसु को वा कुणइ विग्घं ? ॥ २४५ ॥

तओ राइणा पसत्थमुहुत्ते अभिसित्तो रज्जे चंदसेणकुमारो, जाणाविओ कुलनीईओ, भलाविओ मंतीणं, भणियो य 'वच्छ ! रज्जं नाम निरवराहं काराहर, अरज्जुयं बंधणं, अनायगं पारवस्तं, अमज्जा मउप्पत्ती, सचक्खुयं अंधत्तं, ता न कायव्वा एत्थ परमत्थबुद्धी, न मोत्तव्वो धम्माणुराओ, न लंघियव्वा कुलद्विई, नाइकमणीओ नीइमग्गो, न पीडियव्वो सिट्ठलोगो, नावमाणियव्वाओ पयईओ, अणुवत्तियव्वो सुभिच्चो, मन्नियव्वो गुरुजणो, होयव्वं मंतिवयणवत्तिणा, जइयेव्वं जसोवज्जणे'त्ति । एवं च रज्जसुत्थं काऊण कारिया जिणमंदिरेसु अट्टाहिया-महिमा, पूइओ समणसंघो, पवत्तियमवारियसत्तं [ सत्तं ] ।

तओ पसत्थवासरे चदसेणोव्वट्ठवियमहानिक्खमणाभिसेओ सेयाहयवत्था-ऽऽहरण-विळेवण-सुमणमालालंकिय-कायलट्ठी पुरिससहस्सवाहिणिं सिवियमारूढो हय-गय-रहारूढनर-नरिंदाणुगम्ममाणमग्गो गंभीरतूरनिग्घोसवहि-रियनहंगणो, थुव्वंतो चारणगणेण, पसंसिज्जमाणो धम्मियजणेण संपत्तो गुरुपायमूलं । कयवंदणाइपडिवत्ती अणेगरायसहिओ पव्वइओ विहिणा सूरसेणनराहिवो । तयणु अणेगराईसर-सत्थवाहाइसुंदरीविंदसमन्निया मुत्तावली वि पत्ता चदाभाए पत्रत्तिणीए सीसिणीभावं ।

गुरुपयसेवाकरणुज्जएहिं निच्चुज्जएहिं सज्झाए । एकारस अंगाइं तेहिं अहीयाइं दोहिं पि ॥ २४६ ॥

चरण-करणेहिं अप्पा विभाविओ निरइयारभावेहिं । तिन्वतवतावतवियं विसोहियं सुट्ठु मणकणयं ॥ २४७ ॥

किं बहुणा ?—

15

छिन्नो मिच्छत्तसालो जिणमयपयडा तोडिया दो वि बंधा, दो दुट्ठा आणचोरा चरणधणहरा निज्जिया दुज्जया वि ।

सल्लाणं संजमंगे सुयक्खयजुए सुट्ठु भग्गो पवेसो, उच्छूढा तेहिं दूरं छलगहणमणा गारवा रक्खस व्व ॥ २४८ ॥

दंडा चंडभड व्व खंडियमया सन्ना विसन्ना इव, कोहाई चिरवेरिणो वि विहिणा मंदप्पयावा कया ।

माहप्पं-कुसुमाउहस्स निहयं लुन्ना पमायाइणो, आसन्नीकयमेव दोहिं वि तओ नेव्वाणठाणं परं ॥ २४९ ॥

एवं चरित्ता विमलं चरित्तं, संल्लेहणं मासियमायरित्ता ।

20

ते दो वि जाया अहमिंददेवा, गेवेज्जगे हेट्ठिमहेट्ठिमम्मि ॥ २५० ॥

अंजिसु ते तत्थ सुहं महंतं, विसुद्धचारित्तगुणप्पहावा ।

अकामकामा कमणीयकाया, देसुणतेवीसइं सागराइं ॥ २५१ ॥

इय पुहइचंदचरिए सूरसेणमहारिसिचरियं छट्ठं भवग्गहणं समत्तं ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-४२२ ]

25

## [ सत्तमो पउमुत्तर-हरिवेगभवो ]

- जयइ जिणकप्पसालो आणाकेणईसु जस्स लीणेहिं । लब्भंति फलाइं सुपीवराइं एगंतसुरसाइं ॥ १ ॥  
 आणाफलेण भोत्तूण सुरसुहं सूरसेणमुणितियसो । पढमचुओ उववन्नो जवुदीवम्मि भरहम्मि ॥ २ ॥  
 5 उत्तरवहे पहाणे निच्चं संपैत्तदुन्नयपहाणे । अत्थि सुहियसज्जणयं नयरं नामेण गज्जणयं ॥ ३ ॥  
 निवडियएगनिवाँऽऽणं पि पयडपडिपुन्नवहुविहनिवाणं । परवलभीयं पि सया अदिट्टपडिक्खसंखोहं ॥ ४ ॥  
 जत्थ य अँसत्थवाहा मुइया दीसंति सत्थवाहा वि । हय-गयसारा वि सया वियरंता अहयगयसारा ॥ ५ ॥  
 जत्थ य अवेर्यंविहवो न वंभणो सेसपयइवग्गो वि । विप्फुरइ सरेसु व सइ घरेसु कमलामलामोओ ॥ ६ ॥  
 जं सुहडंगं व दुहा नाणावणराइयं समंतेण । सुँविचिच्चसुरायारं दुहा य तं सहइ तिदिवं व ॥ ७ ॥  
 10 जस्स य धवलविसालो गयणंगणलग्गतुंगसिहरग्गो । रेहइ सालो पहुणो जसो व्व सग्गं पहावित्तो ॥ ८ ॥

जं च पाउसायइ व्व मरगय-तमालनीलेहिं दाणनीरधारासित्तमहियलेहिं इओतओसंचरंतजलयविबंभमेहिं  
 तुंगमायंगुत्तमेहिं, ललंतीहि य घोलंतकणयकुंडल-चूडयपहोवहसियसोयामणीहिं मत्तकामिणीहिं, गुंजंतेहि य पणच्चि-  
 यभवणमयूरेहिं मंगलतूरेहिं । सरयायइ व्व गोखीरसच्छहाहिं समालिंगियनहाहिं सरयघणायंतीहिं पासायपंतीहिं,  
 कमलायरायंतेहिं य उदंडपुंडरीएहिं नितोविंतालद्धमग्गनिचलद्वियमहासामंततंतेहिं, रायहंसायंतीहिं य धुवंतधयवड-  
 15 जालियाहिं सुरमंदिरमालियाहिं । अवि य—

सोहोहामियसुरवरपुरस्स तस्सासियंबुपडहत्था । आइद्धं रक्खाकंडयं व परिओ सहइ फरिहा ॥ ९ ॥

तत्थ य दरियारिकरिपंचवयणो, वयणोवहसियहरिणलंछणो, छणो व्व जणनयणाणंदवद्धणो, धणो  
 व्व पयाणपीणियपणइसत्थो, सत्थोवलंभसंभावियसुरगुस्सरुवो, रूवोवहामियवम्महो, महोदयहेऊ सयलसंपयाणं,  
 पयाण पालणपरो, परोवयारपरायणमाणसो, माणसोदयभूओ पियाकमलिणीणं सुरवई नाम नरवई होत्था ।  
 20 अवि य—

सो नूण सुणोसीरो सुपत्तमेरावणं कुणइ जेण । नवरमणिंदो जम्हा न सेंयमहो नेय दुच्चवणो ॥ १० ॥

तहा—

१ सङ्केतः—“कणईसु ति शाखाडु” ॥ २ संपन्नदुं जे० ॥ ३ सङ्केतः—“पहाणे ति प्रहाण-परित्याग” ॥ ४ संकेतः—  
 “निपतिता एकस्यैव नृपस्याज्ञा यत्र । निपानानि च-जलाधारा । परबलाद् भी-भय यत्र, पराश्च वलभ्यो यत्र” ॥ ५ संकेतः—  
 “असार्धवाहा अगन्नवाहाश्च । अहतगतसारा हय-गजमाराश्च ॥ ६ संकेतः—“अवेदविभव अपेतविभवश्च । कमलानि-पद्मानि, कमला च-लक्ष्मी,  
 आमोद-परिमल-प्रमोदश्च” ॥ ७ संकेतः—१ नानावणराजित २ नानाऽवनेन राजित च, १ नानाऽऽपणराजिकम् [ २ नानावनराजित  
 च ] । सुविचित्रा-१ आश्चर्यकारिण सुराणामाकारा-आकृतयो देहा यत्र [ २ आश्चर्यकारिण सुराणामाकारा-क्रियविशेषाश्च यत्र ],  
 १ सुविचित्राणि सुरागाराणि-चैत्यानि यत्र ० सुविचित्र-आश्चर्यदायी सुराज्वआरो( ? सुराजाचार- )-राजपाटिकादिगमन यत्र” ।  
 “सुभटाङ्ग मणराजितम्, इतरद् वनराजिकमापणराजितं च । छद्ममद्यागार पवित्रितदेवकुल-त्रिदिव पवित्रामरधिमानम्, “पूत रह  
 इति वचनात्” २२टि० ॥ ८ सुविचित्तं च २ ॥ ९ संकेतः—“सुनासीर-इन्द्र, शोभन नासीरं-कटक यस्य । सुपत्रं-शोभन  
 गहनमरावणं-सुरकारिण करोति, सुप्राप्तमर्यादमवन-पात्र ल)न च । अनिन्द्र अनिन्दश्च । शतमख-शक, शत्र(त)मात्रमहश्च ।  
 दुश्(भ्य)नोऽपि शक्नो दुर्भणितश्च” ॥ १० ‘गोत्रमद्य’ २२टि०, गिरिमद्य इत्यर्थः ॥

अरिमहणो अरिमहिओ वि नीइसारो वि नयरहियचरिओ । खयरो वि अरीण कुलीणसेहरो सो महासत्तो ॥ ११ ॥  
 सोमस्स वि तस्स न जाउ मंडलं खंडियं त्रिवक्खेण । सरो वि सुइवसा सो नेत्र अदोसं जणं तवइ ॥ १२ ॥  
 हरिणो व्व वैज्जपाणिस्स तस्स पियपणइणी विणयपणया । नामेण गुणेहि य विस्सुया सई सुस्सुया आसि ॥  
 छणनिसिनाहसुंहासा लीलोसंपत्तनवनवसुहासा । लज्जसणाहसुहासा तूसियवित्थिन्नवसुहासा ॥ १४ ॥  
 सोहमारायहाणी लायन्नसुहारसस्स वरखाणी । जणमण-नयणत्थाणी मुत्ति व्व निवस्स निव्वाणी ॥ १५ ॥ 5'  
 इटाए अणिट्ठाए पियाए दढमप्पियाए सुकएहि । ताए समं असमं सो भुंजइ रज्जं महीनाहो ॥ १६ ॥  
 एगंतेण य भत्तो एसो धम्मस्स वेयविट्ठियस्स । मन्नइ उप्परवट्टे भट्टे नीसेसधम्मीण ॥ १७ ॥  
 पूएइ देवयं पिव भोयणं-तंबोल-वत्थपभिईहि । अवि वंभंवंद्युमगिसं किं पुण विप्पं चउव्वेयं ? ॥ १८ ॥  
 हरिसिज्जइ सविसेसं नियकारियचित्तवंभसालासु । पढमाणाइं सुणंतो वंदाइं भट्टचट्ठाणं ॥ १९ ॥  
 सेसो वि जणो तेसिं पूयाकरणज्जओ दढं जाओ । अह्वा किमेत्थ चोज्जं ? जह राया तह पया होइ ॥ २० ॥ 10  
 वियरंति तो समंता गव्वुद्धुरकंधरा तहिं विप्पा । सन्निहियसामिसाला बुक्कंता सारमेय व्व ॥ २१ ॥  
 निव्वासिया पुराओ पायं पासंडिणो तहिं तेहिं । लद्धप्पसरा खलमहिलिया वि न सहइ सवत्तीणं ॥ २२ ॥

एवं च वच्चमाणे काले सो सूरसेणजीवसुरो रायहंसो इव अवयरिओ सईए महादेवीए उयरसरुच्छंगे । तओ  
 सा बहलतरंगभंगुरोदारनीरपूराभिरामं हंस-सारस-कुंच-कारंडव-चक्रवायाइविविहविहंगविराइयं परिभमिरभमरनिउरुं-  
 वकरंविद्यविलोलकमलोलिकलियं विसालकमलायरं सुविणे दट्टूण पडिवुद्धा, बुद्धारविंदविरायंतवयणा राइणो 15  
 सुमिणं निवेएइ । तेणावि समाइट्टविसिट्टसुयजम्मा सविसेसं तिवग्गसंपायणपरा य परित्रालिया गव्वं । जाओ य  
 दीणाइदाणदोहलो । सविसेसं च पुहइपालेण संपाइए तम्मि नवन्हं मासाणं साइरेगाणं पसत्थतिहि-करण-मुहुत्ते  
 पस्यया एसा पुहंई इव कप्पपायवं मणोहरसव्वावयवं सैव्वलक्खणोवेयगायं सोमालपाणि-पायं मण-नयणाणंद-  
 जणयं पवरत्तणयं । तओ—

कळाणिगाए पडिचारिगाए वद्धाविण्ण भूवट्टणा । परिओसदाणपुव्वं वद्धावणयं समाइट्ट ॥ २३ ॥ 20

तं पुण मुच्चंतचारयं भूसिज्जंतदारयं नच्चतवारयं तुइंतहारयं गिज्जंततारयं डिज्जंतसारयं भोगंगफारयं परिओस-  
 धारयं कीरंतसिंगारयं पायडियभिंगारयं भज्जंतसुरतरुडालयं वज्जंततवंदणमालयं लंविज्जंतमुत्ताहलजालयं विस्सा-  
 णिज्जंतकणयथालयं । किं बहुणा ?

नंदीतूरपैडसुयमिसेण नीसेसदिसिकुमारीओ । कुव्वंती व समंता निवस्स वद्धावियाकम्मं ॥ २४ ॥

निव्वत्तियकुलकिच्चे मासे समटच्छिए सिलिवस्सं । विहियं सुविणऽणुरुवं पिउणा पउमुत्तरो नामं ॥ २५ ॥ 25

१ संकेतः—“अरीणा महन-पूजक अरिमथनश्च, अरिभि पूजितोऽपि । नयेन रहित, नगरस्य च हित चरित्तमस्य । खचर-  
 विद्याधर, क्षयरश्च-क्षयदाताऽरीणाम् । कौ-पृथिव्या लीनेषु शेखरः, कुलीनाना च शेखर” ॥ २ संकेतः—“सोमस्य-चन्द्रस्य, सौम्यस्य  
 च अरौद्राकृते । मण्डल-चक्रवाल देशश्च । सुर-रवि वीरश्च । शुचि-ग्रीष्मोऽपादो वा तद्वशात्, शुचिश्च-खलवाचा । अदोष-दिन-  
 वर्तिन दोषरहित च” ॥ ३ संकेतः—“वज्रपाणेर्वैर्यपाणेश्च । शची-इन्द्राणी; नाम्ना च शची, गुणेश्व सती-शोभना शीलवती वा । विश्रुता-  
 शुक्क सुश्रु ताशब्दयोर्विरोधोऽपि परिहारे तु विश्रुता-प्रसिद्धा” ॥ ४ सङ्केतः—“१ शुभाऽऽस्या, २ शुभाशा-सुमनोरथा, [३ सुहास्या-]  
 सुहासिता, ४ वसुधासा(शा)” ॥ ५ लीलासंपुत्रवं खर आ० ॥ ६ सङ्केतः—“अनिष्टया अनिष्टया च-[नि सीममावेन] । अप्रियया  
 अप्रियया च । न सम असम असाधारण च” ॥ ७ सङ्केतः—“वंभवंद्युं ति ब्राह्मणाधममपि” ॥ ८ सुविणय निं जे० विना ॥  
 ९ पयालिया जे० विना ॥ १० पुहइ व्व कं खर आ० ॥ ११ सयललं जे० विना ॥ १२ लय रोसाणिज्जंतं जे० विना ॥  
 १३ सङ्केतः—“पडसुयमिसेण ति प्रतिशब्दच्छलेन” । पडिस्सुयं आ० ॥ १४ सङ्केतः—“सिलिवस्स ति बालकस्य” ॥

- केणइ अखंडियाणो अक्खलियमणोरहो सुही कुमरो । गिरिकुहरेऽसोगमहातरु व्व पत्तो तओ विद्धि ॥ २६ ॥  
 पुर्व्वि व दयालू महुरजंपणो धम्मिओ सुसीलो य । चाई पडिबन्नघणो सरलो सोजन्नपुत्तो य ॥ २७ ॥  
 न सहइ कंहं पि आहेडयस्स, नोवेहई य परपीडं । जागाइविप्पकिरियं निमुणंतो वहइ उव्वेयं ॥ २८ ॥  
 तहं वि जणयाणुरोहा किंचिकुलायारपालणऽभिओगा । विप्पाण कुणइ उच्चियं सुयणसहावम्मि वटंतो ॥ २९ ॥  
 5 न य भाविज्जइ मणयं पि ढसररूवाहि वंभणकहाहिं । पीयामउ व्व हालाहलेण अंगं विसंतेण ॥ ३० ॥  
 गुरुदंसणविरहाओ न मुणइ नामं पि सुद्धधम्मस्स । सामग्गिगुणेण गुणो उव्वासइ सुद्धमणिणो वि ॥ ३१ ॥

इओ य अत्थि वेयड्ढदाहिणसेढीए सुरायमाणमंदिरं सुरायमाणनरनिवहं च, विमलच्छरयणवराऽऽलयरमणीयं विमलच्छरयण-वराऽलयरमणीयं च सुभोमं नाम पुरवरं । सामी य तस्स नीसेसनहयरतारतेयतिरकरणतरुणतरणी तारवेगो नाम । तस्स य सयलकामिणीहिययहारिणो मयणस्स रइ व्व सुट्ठु इट्ठा लट्ठा य अतणुतणुतेओवहसियनव-  
 10 कणयमाला कणयमाला देवी । तीसे सरसीए व विमलसयवत्ताए तिवग्गसंपायणपवत्ताए सोहोहामियसंबुक्कंठियाए सुयसंपत्तिसमुक्कंठियाए एगंतमुहाए कुच्छिगुहाए केसरि व्व अवयरिओ मुत्तावलीसुरो । तओ सा केसरिकिसोरयं सुविणे दट्ठण विगयनिहा निवेइयसुविणा पइणा समाइट्ठुविसिट्ठुसुयजम्मा असरिसहरिसरसचंदणइवुहीरिउदामहि-  
 ययसुहा सुहेणाइवाहियमासनवगा पसूया पसत्थवासरे वासरेसं व दित्तमुत्तिं सव्वलक्खणसमाउत्तं पुत्तं । तयणु वत्ते वद्धावणयमहे पसत्थमुहुत्ते कयं पिउणा दारयस्स नामं हरिवेगो त्ति । तओ खेयंरीविसराणुकीरंतलडहलीलाणु-  
 15 गयचारुचरिओ असाहारणगुणरंजियाहिं व सयमालिं गिज्जंतो ववसायमित्तसिज्जंतमहाविज्जाहिं पत्तो एसो वि विउडियमाणिणीमाणखंभं जोव्वणारंभं ।

- अह महुरानयरीए चदञ्जयराइणो पिययमाणं । चदमई-सूरमईण रुव-सोहग्गमत्ताणं ॥ ३२ ॥  
 जायाओ सुजायाओ धूयाओ जुवइरयणभूयाओ । सत्तिलेह-सूरलेहा नामाओ मणोभिरामाओ ॥ ३३ ॥  
 ताओ वि रुव-लायन्नहसियरंभा-तिलोत्तम-सईओ । पत्ताओ विलासुल्लाससोहियं जोव्वणारंभं ॥ ३४ ॥  
 20 तासिं वरमणुरूवं जए असंभाविऊण जणएण । दइओवालंभभया सयंवरमहो समारद्धो ॥ ३५ ॥  
 पडिया य समंतेणं आहवणकए नरिंदतणयाणं । दूया दुयगइपसरा निर्गयंटा वयणविन्नासे ॥ ३६ ॥  
 पत्तो य तुरंतो गज्जणम्मि नामेण महुमुहो दूओ । लद्धावसरो नमिऊणं सुरवइं भणिउमाढत्तो ॥ ३७ ॥  
 'देवऽत्थि तुम्ह तणओ सुव्वंतगुणो वि नेवुईजणओ । महिमंडलसुपयासो सरणागयंन्नग्गविवयासो ॥ ३८ ॥  
 सो संपइ गुरुगुणमोगारेण संबुद्धिऊण अन्नेसिं । गुणगव्वपव्वयं पत्थिवाण परिणेउ कन्ना मे ॥ ३९ ॥  
 25 कणयस्स गुणो कसवट्टयम्मि, सुहडाण समरसंरंभे । नज्जइ नरस्स पुन्नं सयंवरामंडवे नूणं ॥ ४० ॥  
 ता पेसिज्जउ तुरियं कुमारपउमुत्तरो अमुगदिवसे । इय विन्नत्तं चदञ्जएण मह सामिणा सामि !' ॥ ४१ ॥

तओ पहट्टमुहारविदेण पडिन्नमिणं नरिंदेण । आइट्ठो पउमुत्तरो पत्थिओ पसत्थदिणमुहुत्ते । कंहं ?- मयभिं-  
 भलंभंमंतखलंतधावंतमत्तवारणं मत्तवारणुत्तत्थदरियंत्तुरंगमुप्पहपयट्टियगुरुसंदणं गुरुसंदणघणघणारवायन्नणाउलिय-  
 पलायंतवेसरं पलायंतवेसरुल्लालियनरनियरविमुक्कपोक्कारवं पोक्कारवायन्नणुच्छलियातुच्छकोलाहलं कोलाहल-

१ सङ्केतः-“सुराजमानमन्दिर सुरायमाणनरनिवहम् । विमलैरच्छे रत्नैर्वरा ये आलया-गृहाणि तै रमणीयम् विमला अच्छा रदना वराथ भलका यासा तास्तयाविषा रमण्यो यत्र” ॥ २ “विमलाऽक्ष-रदनं” ख२टि० ॥ ३ सङ्केतः-“विमलानि शतपत्राणि शय-वक्त्राणि च-हस्त-सुत्रानि च यस्याम्” ॥ ४ सङ्केतः-“संबुक्क त्ति शङ्क” ॥ ५ खेइरी” जे० ॥ ६ “रंभा-तिलोत्तमं” ख१ ॥ ७ “कुशलाः” ख२टि० ॥ ८ “ण नरवइं जे० ॥ ९ “यउग्गं जे० ॥ १० “लमत्तखलंतं जे० ॥ ११ “तुरंगुप्पहं जे० विना ॥

पडिसइमुहलियदिसियकं दिसियक्परिसकिरोरुरेणुपडलपच्छाइयनहंगणं ति । एवं च वियडकडयाडंबरायंपियपण-  
यपहपुहइपहुप्पाइयपभूयपभापसरो, सरे सरे अभिरसंतो, वणे वणे वीससंतो, जळे जळे परिकीलंतो, नगे नगे  
आरुहंतो, पुरे पुरे पलोइज्जंतो, गामे गामे गोरविज्जंतो पत्तो देसंतकंतारंतरसंठियं महोदयनामधेयं तावसासमं ।  
जत्थ य सुयणमणोविच्चीओ इव सुट्टुसरलाओ खज्जरीओ, सुयणमेत्तीओ इव निरंतराओ नालिकेरीओ, सज्जणु-  
च्छावा इव सुसीयला दक्खामडवा, सुपुरिसपइन्नाओ इव लद्धपइद्दाओ कयलीओ । किं बहुणा ?

पुन्नाग-नाग-नारंग-पूग-साहारपमुहसाहीहिं । सुयणसरूवं व गुणेहिं संसियं तं समग्गेहिं ॥ ४२ ॥

हुवंतसरससमिहाधूमुकरधूसरऽम्बराभोयं । तं दट्टूण कुमारो पुच्छइ 'किं नामयं वसिमं ?' ॥ ४३ ॥

सिट्ठं च पत्तिणा से 'महोदय तावसासमं एयं । निवसंति एत्थ मुणिणो करुणा-वंभव्यपहाणा ॥ ४४ ॥

देस-पुर-गाम-घर-घरिणि-सयण-धण-धन्न-नेहनिम्मुक्का । निवसंति एत्थ एए महाणुभावा निरारंभा ॥ ४५ ॥

असि-मसि-किसिवाणिज्जाइवज्जिया कंदमूलसंतुट्ठा । माणा-ऽवमाणरहिया जीवंति सुहं इमे लोए' ॥ ४६ ॥

तथो 'कारुणिय' त्ति परितुट्ठेण भणियं कुमारेण 'जइ एवं ता एउवद्वपरिहारेण कुणह ताव इहेव आवासं,  
जेण करेमो एयपायपणईए पूयपावमप्पाणं' । तहेव संपाइए पयाइणा कओचियकायव्वो पविट्ठो कुमारो तत्रो-  
वणं पेच्छंतो वियडजडामडडमंडियमत्थए वक्कलकोवीणनिवसणे, केइ उड्डवाहुणो दिणयराभिमुहमायावित्ते, अन्ने  
वद्धपउमासणे नासानिमियदिट्ठिणो अक्खमालाढालणक्खणियपाणिणो मंतजात्रपवत्ते, अवरे सन्निहियकुसुम-समिहे  
हुयवहतप्पणपरे तावसकुमारे । पत्तेण य अब्भंतरोडवं दिट्ठो कुसविट्ठोवविट्ठो किरणायंतकिंकिंकेसपरिगयविमल-  
मुहमयंको अच्चंतपसंतमुत्ती कुलवई । पणमिउं पीइपहाणं लद्धधम्मासीसो उवविट्ठो तयंतिए । पुच्छिओ कुलवइणा  
नाम-थामा-ऽऽगमणपओयणाणि । 'गुरु' त्ति सिट्ठाणि जहट्ठियाणि कुमारेण । तथो कुलवइणा 'वच्छ ! उत्तमवंस-  
प्पसुओ उच्चमपुरिसो तुमं ति जोगो सि अग्घदाणस्स' त्ति भणंतेण नीणिऊण गव्वमिहाओ उवणीया तरुणरयणी-  
यरदिप्पंतकतविग्गहा वालमुणालवेल्लहलवाहुलया तसियमुद्धमयसिलिंवात्रिलोल्लोयणा अहिणवुब्भिन्नपीवरपओहरो-  
वहसियकरिक्कुंभा रंभायंभाभिरामोरुजुयला सयललक्खणसणाहविट्ठुमारुणपाणि-पाया पवरकन्नया सुवहुं च मणि-  
मडड-कुंडलाइरायभोगोचियमाभरणं, भणियं च 'रायंउत्त ! चउरासमगुरु तुमं अतिहिभूओ सि अम्हाणं, ता पडि-  
च्छाहि एयं मम जीवियसव्वस्सभूयं संपुण्लक्खणालंकियसरीरं महानरिंदघरिणिसदारिहं कन्नापाहुडं ति, संपाएहि  
मम मणनेव्वुटं, गुरुआणापहाणा अकयपत्थणाभंगा य महाकुलवभवा भवंति' त्ति । एयमायच्चिऊण सविम्हएण  
चित्तियं कुमारेण—

'किं सिंहीसुयविग्गहम्मि गलिया एसा मयंकस्सिरी ?, किं लच्छी कमलायरस्स सयला पत्ताऽलिभीया इहं ? ।

संपत्ता सरणं मुणिं हरिदरा देवंगणा होज्ज किं ?, कत्तो चत्तकलत्तसंगमुणिणो एवंविहा कन्नया ?' ॥ ४७ ॥

भणियं च 'भयवं ! अवहत्थियसमत्थरित्थिवित्थराण निस्संगवंभव्यधराण अंगीकयवणवासाणं तुम्हारिसाणं  
कुओ कन्नारयणसंभवो ? त्ति दढंमाउलं मम मणो असंभावणिज्जसंभवेण, ता पसीयह, साहेह एत्थ परमत्थं' ति ।  
रिसिणा वुत्तं—

"जुत्तीहिं जं न जुज्जइ संभवइ भवे तयं पि नियमेण । संघडण-विहडणावावडस्स विहिणो निओगेण ॥ ४८ ॥

जत्तो जत्तो वच्चइ भयतरलच्छो वणम्मि सारंगो । धावड ततो ततो च्चिय पुव्वयरं वणदवो पावो ॥ ४९ ॥

१ गोरविज्जंतो जे०विना ॥ २ सङ्केतः—'किंकिय ति शुक्ल' ॥ ३ उत्तिमं आ० ॥ ४ 'कोमल' खरटि० भ्राटि० ॥  
५ सङ्केतः—'सिलिंवा त्ति बालक' ॥ ६ रायपुत्त ! जे०विना ॥ ७ दिट्ठं खर आ० ॥



ता कुमार ! सुणसु एत्थ परमत्थं—

- अत्थि इओ उत्तरदिसाए पुरुपुरगुणोववेयं सुरहिपुर नयरं । तत्थ य नियपहुत्तावमन्नियसुररज्जो वसंतो राया पुष्फमालापमुहदेवीविंदाणंदियमणो मणोरहाणुरूवसंसिद्धपुहइमंडलो मंडलोवमगणियरिउगणं निरवज्जं रज्जमणुवालेइ । तस्स पुष्फमालादेवीए पुत्तपंचगोवरिसंभूया गुणमाला नाम धूया । सा उण रूवसव्वस्सघडिया इव लायन्नसारविरइया
- 5 इव अमयनिस्संदनिम्मिया इव सुट्ठुहिययहारिणी सयललोयस्स विसेसओ जणणि-जणयाणं । अत्रि य—  
निच्छंति विवाहेउं वयभरपत्तं पि तं वरकुमारिं । तव्विरहभीरुयाइं अइनेहा जणणि-जणयाइं ॥ ५० ॥  
सा वि सुविणीयविणया सुस्ससपरा गुरुण गुणनेहा । नेच्छइ वीवाहकहं कहं पि भणिया पियसहीहिं ॥ ५१ ॥  
आयंति रायतणया णेगे तव्वरणलालसा तत्थ । केयइवणे व्व मयरंदलोलुया छप्पयाऽणप्पा ॥ ५२ ॥  
अन्नदिणे चंपाहिवसुओ सुओ नाम विस्सुयगुणोहो । वलसमुदएण महया सुरहिपुर पमुडओ पत्तो ॥ ५३ ॥
- 10 गुणपायडो त्ति गुरुसाहणो त्ति घरभागओ त्ति सविसेसं । गोरविओ एस वसतराइणा सव्वजत्तेण ॥ ५४ ॥  
उवहसियामररूवं दट्ठूण सरीरसंपयं तस्स । विणयपणएहिं भणिओ वसतराया सुमंतीहिं ॥ ५५ ॥  
'अइवल्लहं पि अइदुल्लहं पि अइसुंदरं पि सिद्धन्नं । खिवइ न कोइ कुसुले जाणंतो वत्थुपरमत्थं ॥ ५६ ॥  
जइ वि मणुघ्ना कन्ना तह वि चिरं मंदिरे धरिज्जती । कुणइ कलंकं किंकिरंकरंसुनियरुज्जलकुलस्स ॥ ५७ ॥  
नेहस्स फलमिणं चिय जं जोइज्जइ सुया समणुरूवे । पत्ते अणिदगत्ते अणुरत्ते सुचरियपवित्ते ॥ ५८ ॥
- 15 एत्तो वि कुंमाराओ न सुटरयरो वरोऽवरो अत्थि । ता वियरिज्जउ एयस्स वालिया इच्छमाणस्स' ॥ ५९ ॥  
एमाडविविहउववत्तिसोहियं सोहियं वंहंतेहिं । मंतीहिं वोहिओ मोहिओ वि राया ठिओ मग्गे ॥ ६० ॥  
तेणऽन्नया कुमारो भणिओ 'दूराओ आगओ तं सि । ता कह कीरउ संपड वंझो एसो परिकिलेसो ? ॥ ६१ ॥  
तुह पुन्नचोइएण व कन्ना अन्नस्स नो मए दिन्ना । पालित्ति सिरिं किविणा कस्सइ कज्जे सउन्नस्स ॥ ६२ ॥  
वहुपुन्नपावणिज्जं रायसिरिं पिव पडिच्छ ता इन्निह । वालं वालदिवायरविबुद्धसयवत्तसंभवन्नं ॥ ६३ ॥
- 20 नवरं न ताव एसा त्रिओइयव्वा अवस्सममहाणं । जाव न डिंभयमाया जाया कुञ्चीसहाया वा' ॥ ६४ ॥  
संसिद्धसमीहियपमुइएणःतेणावि वियसियच्छेण । सव्वं 'तह' त्ति सम्मं पडिवन्नं राइणो वयणं ॥ ६५ ॥  
तओ राइणा पवित्तमुहुत्ते विइंन्ना कन्ना, निव्वत्तिओ कुलायारसारो वारेज्जयमहूसवो, ठिओ पडिवन्नपाल-  
णनिच्छई अट्ठतलपासाए विमाणे सुरवरो व्व वरच्छराणुगारिणीए तीए नवपणइणीए सद्धिं अभिरमंतो केइ  
संवच्छरे सुयकुमारो । नवरमत्थि तस्स मयलंछणस्स व कलंको, रयणायरस्स व खारो, मणिरयणस्स व तासो
- 25 पारद्धिरमणवसणदोसो, तेण वच्चड पइट्ठिणं दूरवणंतरेसु, वहेइ अणेगे रुरु-रोज्ज-संवर-वराहाइपाणिगणे । अओ  
तस्स वोहणत्थं निउत्तो नरिंदेण धम्मसत्थपाढओ सुसुहभट्टो । तेण कहाणयक्खेवणनिउणेण लद्धावसरं भणिओ  
एसो । कहं ?—  
'किं एत्तो लज्जणयं उत्तमपुरिसाण जीवलोगम्मि । जं पहरिज्जइ दीणे पलायमाणे पमत्ते वा ? ॥ ६६ ॥  
लज्जंति महासत्ता पहरणमुग्गीरिउण ईसिं पि । पेच्छंता पुरओ वेरियं पि मुक्काउहं दीणं ॥ ६७ ॥  
30 सुट्ठु वि कयावराहे पहरंति न उत्तमा अपहरंते । मन्नंति कलंकं नियकुलस्स अग्गप्पहारित्तं ॥ ६८ ॥  
जं पुण सोमसहावेसु निरवराहेसु नस्समाणेसु । तणमेत्ताहारजिएसु पहरणं तं महापावं ॥ ६९ ॥

परपीडाकरणाओ पइजम्मं लहइ वाहिवियणाओ । पाणहरणेण पावइ पुणरुत्तमकालमरणाइं ॥ ७० ॥  
 कयवग्गविप्पओगो उज्झइ पियविप्पओगजलणेण । वालयगव्भविघाई पइजम्मं होइ निरवच्चो ॥ ७१ ॥  
 को नाम पुरिसयारो जीवे तणजीविणो हणंतस्स ? । को लहइ साहुवायं घायतो थेर-पंगुलयं ? ॥ ७२ ॥  
 एगस्स पाणनासो कीलइ अन्नो फुरंतपरिओसो । सच्चमिणं जं-मारइ गामिल्लो गोहैहिल्लेण ॥ ७३ ॥  
 सी-उन्ह-तन्हपमुहं किलेसमसमं सहंति मोहधा । एत्थेव भवे वाहा कुप्पर-जाणुट्ठियकिणोहा ॥ ७४ ॥  
 उववज्जंति अणज्जा पुणो पुणो तामु तामु जाईसु । दुक्खाण दारुगाणं जामु न पाविति वीसामं ॥ ७५ ॥

किं बहुणा ?

इच्छंतो नरयपुरिं गंतुं कंडुज्जुएण भग्गेण । इह निग्घिणम्मि कम्मो अणत्थमूले नरो रमइ ॥ ७६ ॥  
 ता विरम विरम सुवुरिस ! निहीणजणसेवियाओ एयाओ । पारद्धिनामयाओ पावाओ दुट्ठभावाओ' ॥ ७७ ॥  
 इय-बहुहा भणिओ पाठएण नियत्तो एसो किरियामेत्तेण, न उण चित्तेण । आगच्छंति अणवरयं जणयाहवगा । 10  
 जाया य आवन्नसत्ता गुणमाला । तओ परिन्नायपरमत्थेण सम्माणिऊण विसज्जिओ राइणा पसत्थवासरे निग्गओ  
 नयराओ । कमेण पत्तो एयमरन्नं, आवासिओ नाइदूरे, दट्ठूण य सच्छंदचारिरुरू-रोज्झ-वराहाइविविहवणयरजीवे  
 गहिओ पारद्धिकोहेण । अवि य—

जूयं जूइयरो सुरं सुरपिओ कामाउरो कामिणिं, मंसासी पिसियं खगो वि कुणवं सुन्नं धणं तकरो ।  
 सच्छदे परिसकिरे वणमए दट्ठूण पारद्धिओ, अप्पाणं धरिउं वसे न सहए अच्चंतमुक्कंठिओ ॥ ७८ ॥ 15  
 तओ सो कोउगाइरेगपम्हुट्ठपुव्वोवट्ठोवएसो थिरीकाऊण सिविरं पवत्तो इहेव पारद्धिरमणे ।  
 उत्तासितो ससए, खेडन्तो तरल्लोयणे हरिणे । वायंतो वणमुणए, वणमहिसकुलाइं तासितो ॥ ७९ ॥  
 पेरंतनिउत्तसमग्गासाहणो तुंगतुरयमारूढो । धावइ अडुवियड्डो जत्तो जत्तो जियं नियइ ॥ ८० ॥  
 अन्नत्थ विसत्थमणं सूरज्जुहं चरंतयं दट्ठुं । पेह्लइं य तओहुत्तं तुरयं तुंगं तुरियवेगं ॥ ८१ ॥  
 अह तणनियरच्छन्ने पडिओ सहस ति अंतरा गत्ते । नीसाहारसरीरो उवरिं निसियग्गयाणुस्स ॥ ८२ ॥ 20

तओ हाहारवपवत्तेहिं धाविऊण उप्पाडिओ भिच्चेहिं, दिट्ठाइं भिन्नकुच्छिनिग्गयाइ अन्ताइ । तओ नीओ  
 सिविरावासं, दिट्ठो दारुणमवत्थमणुहवंतो गुणमालाए । 'आसन्नं' ति पेसिया वेज्जोसहाइनिमित्तं सुरहिपुर तुरिय-  
 साइणो । विन्नायवुत्ततो य संभंतो समागओ सह पुप्फमालाए वसतराया । ताव य किलिस्सिऊण दो तिन्नि  
 वासराइं उवरओ सुयकुमारो । उवट्ठिया सोयभरकंतचित्ता गुणमाला वि तेण सह जलणप्यवेसे कह कह वि वारिया  
 जणणि-जणएहिं । तओ— 25

'हा नाह ! दइय ! वल्लह ! कत्थ गओ उज्झिऊण मं एवं । एगागिणिं आणाहं दीणमरन्नम्मि घोरम्मि ? ॥ ८३ ॥  
 किं ते निव्वग्गाए भग्गा आणा मए अणज्जाए । जेणाथक्के मुक्क म्हि सामि ! सोयानले छोहुं ? ॥ ८४ ॥  
 पाणापियं पि चत्तं जणणी-जणयं मए तुह कएण । ता कुण करुणं कारुणिय ! दंसणं देहि दीणाए ॥ ८५ ॥  
 हद्दी ! कुलकवणा हं नाहं मोत्तूण गुणगणसणाहं । कह सहवासिसहीणं दाविस्सं नियमुहं इन्हि ? ॥ ८६ ॥

एवं बहुप्पयारं सहयरविरहिय सारसिं व कूयतिं पलोइऊण दहमुच्चिग्गाणि से जणणि-जणयाणि तं 30

१ को लेश सां भ्रा० ॥ २ कीरइ खर भ्रा० ॥ ३ गोदहिल्लेण जे०विना, नागरिकेणेत्यर्थ ॥ ४ 'उन्ह-तिन्ह' ख१  
 ख२ ॥ ५ पावति जे०विना ॥ ६ पाविद्धिनामियाओ जे०विना ॥ ७ घाईतो जे०विना ॥ ८ 'वृकानि' ख१टि० ख२टि० ॥  
 ९ पेह्लइ तओ जे०विना ॥

वेत्तूणाऽऽगयाणि एत्थ तत्रोवणे कुलवत्समीवं । विघ्नायपउत्तिणा य नरिंदमुद्दिसिय भणियं कुलवडणा 'महाराय !  
दारुणो संसारवासो, सन्वसन्निहिओ मच्चुमहाहिसंतासो, खणक्खडणो सन्वसंजोया, अत्रस्संभाविणो विप्पओगा,  
कुसकोडीलंविंरुविंदुचंचला भोगा, निद्धमं दंढति रोग-सोगा, ता न जुत्तो एत्थ पडिवंधो, जुत्तो उवज्जिउं महा-  
पुम्नखंधो, उज्जिज्जउ सुय-सयणसिणेहो, संजोइज्जउ तवसिरीए देहो, सन्वहा अत्रहत्थियक्किलेसायासो एगतसोहणो  
5 वणवासो' । त्ति सुणंतो संविग्गो सदेवीओ राया उवट्ठिओ दिक्खाए, नवरं न चएइ चएउं तं तद्दादुहियं दुहियं ।

एत्थंतरे मणागमवगयसोगाए विन्नत्तो कुलवई गुणमालाए 'भयवं ! करेह मे अणुग्गहं वयसंपयापयाणेण जइ  
जोग म्हि' । कुलवडणा भणियं 'वच्छे ! जुत्तमिणं, जओ अयसाभिओगपडियाणं परपरिभववज्जासणिताडियाणं  
दालिहोवद्वदूसियाणं पियविप्पओगानलसोसियाणं दीणाणं असरणाणं पाणीणं वणवासो चेव सरणं होइ' । तओ  
पुष्फमालादेवीए 'सामि ! किमरिहइ सगव्भा नारी वणवासवयं ?' ति पुच्छिण भणियं कुलवडणा 'न सुट्ठु संग-  
10 च्छइ, तद्दा वि न अन्नहा एयाए दुक्खपम्हुसणं ति अणुन्नाया मए एसा' । तओ 'अहो कारुणिया गुरवो' त्ति  
हरिसिएण दाऊण रज्जं जेट्ठतणयस्स विसज्जियमंति-सामंतेण देवी-गुणमालासहिएण गहिया वणवासदिक्खा वसन्त-  
राएण । सिक्खिओ किरियाकलावो, पारद्धो समाहिविही ।

एत्थंतरे तावसीयणनिहेलणोयरे महया दुक्खपरिक्किलेसेण पस्सया गुणमाला सयललक्खणधारियं दारियं,  
पडियरिया सम्मं जणणीए, तद्दा वि उच्चियपत्थोसहाडविरहाओ गहिया महाजरेण, पीडिया जोणिदुक्खेण,  
15 किच्छेण गमिऊण कइवयदिणाणि पडिवन्ना कालधम्मं । पुष्फमाला वि सोयभरनिब्भरा विलवती कह कह वि  
तावसीहिं विवोहिया तं वालियं पालिउमारद्धा । सुयासिणेहेण य पवत्तं थणएसु छीरं, तेण य पवडिहया  
वालिया । 'वणे जाय' त्ति कयं से नामं तावसीहि वणमाल त्ति । सलोनत्तणगुणेण सुट्ठु वल्लहा तावसीणं, अओ  
चेव ताहिं लालिज्जंती अभिरामिज्जंती य सुहेण संपत्ता जोव्वणारंभं ।

अन्नया वसतमुणिं नियपए निउंजिय कयसन्नासे गए परलोयं कुलवदम्मि देव्वदुव्वायपहया पईवसिह व्व  
20 पाविया अभावं पुष्फमाला तवस्सिणी । तओ सो हं वसतरिसी तव्विरहविहुरियदिययं तं दारियं परिचत्तपाण-  
भोयणं विलवमाणिं पेच्छंतो गहिओ महामोहेण, संजमिओ नेहनागपासेहिं अट्टवसट्ठो तं वालियं परिवाल्लेमि ।  
आइइ च मम गुरुणा 'जो एयं वालियं परिणेही सो महानरिंदसइभायणं भविस्सइ' त्ति ।"

एस निवेइओ मए तुह परमत्थो । ता परिचत्तनेहसंगं पि पुणो विहिनिओगेण निविडनेहनियलसंजमियं  
मोयावेउ मं महासत्तो रायपुत्तो संपइ पइत्तपडिवत्तीए एयाए वालियाए" । कुमारेणावि 'जमाणवित्ति गुरवो'  
25 त्ति विन्तेण पडिच्छिया, कालोच्चियविहिणा विवाहिया य वणमाला । दिन्नं च तीसे गुरुणा चिररक्खियं  
पुष्फमाला-गुणमालासंतियं वत्था-ऽऽभरणं, निययालंकारो वि कुमारस्स गुरुदिन्ना य पडियसिद्धा महावेयाळिणी विज्जा ।

तओ पउमुत्तरकुमारो केइ दिणे तत्थ गमिऊण मुणिणाऽणुन्नाओ मायामहविप्पओगानलपलित्तं वणमालाम-  
णोमंदिरं तुसारकणसीयलेहिं पियवयणवारिविंदूहिं निव्वावित्तो पत्तो महुराउरिं, ठिओ चंदञ्जयरायदाविए  
मणोहरावासे ।

30 पत्ता य समंता रायनंदणा सवलवाहणाऽणेगे । जलनिहिकल्लोला इव परिवारिंता महुरदीव ॥ ८७ ॥  
दुब्भिक्खतवियपामरकुलाण नवपाउसो व्व सन्वेसिं । उक्कंठियाण पत्तो कह कह वि सयंवरदियहो ॥ ८८ ॥  
अह देवंगच्छाइयमणि-रयणविराडएसु मंचेसु । मणि-मउडपज्जलंता सुर व्व कुमरा समासीणा ॥ ८९ ॥

जा जस्स सिरी नाणं विन्नाणं चाग-भोगसामग्गी । तं पायडति अहमहिमगाए सव्वे सुनेवच्छा ॥ ९० ॥  
तो कयसिंगाराओ मणिभूसणकिरणजालजडिलाओ । अवंगभोगदेवंगसारनेवच्छसुहयाओ ॥ ९१ ॥  
रहवरमारुढाओ वरमालावग्गवग्गुपाणीओ । रंभा-तिलोत्तिमाणं सिंगारसिंरिं हसंतीओ ॥ ९२ ॥  
विम्हयविसट्टलोयणपंकयमालाहिं समविमुक्काहिं । रायतणएहिं पुव्वयरमेव कीरंतवरणाओ ॥ ९३ ॥  
पत्ताओ ताओ वरकभयाओ लीलालसंतगत्ताओ । नियनियकंचुइदाइज्जमाणमहिनाहतणयाओ ॥ ९४ ॥  
पेच्छंतीण य विविहे कुमरे किच्चिज्जमाणगुण-गोत्ते । परिसकिरीण सुइरं सयंवरवरंगणे रुंदे ॥ ९५ ॥  
तम्मि सुमणोभिरामे कुमरारामे समंतओ भमिरी । भमरी व तासि दिट्ठी लीणा पउमुत्तरे चेव ॥ ९६ ॥  
खित्ताओ तओ ताहिं पुलयंकुरहारिवाहुलइयाहिं । महु-माहवलच्छीहिं व तस्स गळे कुसुममालाओ ॥ ९७ ॥  
तयणंतरं च दिसि दिसि वद्धावणयं पवज्जियं तूरं-उच्छलिओ य 'सुवरियं सुवरिय'मिइ मेलहरो वहलो ॥९८॥

नवरं—

10

कन्नाकडक्खधवलियवयणं पउमुत्तरं पलोयंता । जाया विडिप्पंणपियससिप्पभाऽऽसा निवा सेसा ॥ ९९ ॥  
रयणीविरामतारोहनिप्पहे पुइइपालए दट्टं । कुविओ कयन्तघोरो सागेयपुराहिवो विदुरो ॥ १०० ॥  
भणइ य 'भो भो नरनाहनंदणा ! अज्ज तुम्ह सव्वेसिं । छिन्ना इमेण नासा दो कन्नाओ वरंतेण ॥ १०१ ॥  
ता गिन्हइ सन्नाहं संपइ मं पाविऊण सन्नाहं । मल्लिमो इमस्स माणं पेच्छामो पोस्सपमाणं' ॥ १०२ ॥  
सामरिसा वि सहरिसा सन्नद्धा तक्खणेण जमसरिसा । पत्थिव-पत्थिवपुत्ता वयणे विदुरस्स उज्जुत्ता ॥ १०३ ॥ 15  
विन्नायतप्पउत्ती तुरियं चदज्जओ वि नरनाहो । पउमुत्तर कुमारं अल्लीणो कयरणग्गाहो ॥ १०४ ॥  
भणिओ य विदुरदूएण सामवयणेहिं नीइनिउणेहिं । 'मा कुण समरारंभं चदज्जयराय ! सुण तत्तं ॥ १०५ ॥  
दिज्जउ इमासिमेगा कन्ना अन्नस्स रायतणयस्स । विज्जाइ जेण नियमा निवाण कोवानलो हुलियं ॥ १०६ ॥  
आयारिऊण सव्वे दुगम्मि एगस्स दिज्जमाणम्मि । मन्नंति माणहार्णिं धणियं नरपुंगवा एए ॥ १०७ ॥  
ता इय अकीरमाणे नियमा जामाउयस्स भवओ वि । आरुहइ तुलाए हंत ! जीवियं बहुविरोहेण' ॥ १०८ ॥ 20  
तं भणइ महुरनाहो 'दूय ! निउणो सि कूडमंतेसु । पहुकज्जकरणरसिओ जुत्ता-ऽजुत्तं न भावेसि ॥ १०९ ॥  
दाऊण सयंवरणे वरं वरं कन्नयाण किं कोइ । सच्चपइण्णो नणु कुणइ अन्नहा साससेसो वि ? ॥ ११० ॥

अवि य—

तं जंपंति सुपुरिसा तं चिय पमुहे कुणंति पडिवत्ति । रयणायरो व्व मेरं कालेण वि जं न लंघंति ॥ १११ ॥  
ता दूय ! भणसु विदुर नाऽयं नाओ कुलुभयनिवाणं । जं कन्नयाण कीरइ सयंवरं वरियवरहरणं ॥ ११२ ॥ 25  
न खमं खु अक्खमाए करणं नाए वि नीइसारारणं । न जई जयम्मि जायइ जाउ नरो नायपडिकूलो' ॥११३॥

पुणो दूएण भणियं—

'जइ वि अहं पहुभत्तो तहा वि साहेमि तुम्ह चेव हियं । भो ! नहल्लेज्जं कज्जं मा कुणसु कुहाडयच्छेज्जं ॥११४॥  
खज्जइ चंडप्फडंतो अलसकिमी कीडियाहिं एगागी । मत्तगओ वि दमिज्जइ पडियारनरेहिं बहुएहिं ॥ ११५ ॥  
पच्छाइज्जइ तेओ सूरस्स पयाविणो वि हु घणेहिं । तेयस्सी वि मणुस्सो एगो एगो चिय वराओ' ॥ ११६ ॥ 30  
इय जंपंतो वुत्तो एसो पउमुत्तरेण हसिऊण । 'कूडाहरणवियक्खण ! लक्खेसि खणं पि किं नेयं ? ॥ ११७ ॥  
मत्ता वि बहुगइंदा इत्ति पलायति गंधकरिहितो । गंधकरिणो वि वहवो भज्जंति मयारिणा तुरियं ॥ ११८ ॥

१ संकेत-“मलहरो ति कोलाहल” । “रोल” ख१टि० ख२टि० ॥ २ संकेत-“विडिप्प ति राहु” ॥ ३ 'वपुरिसा व' जे० ॥ ४ संकेत-“हुलियं ति शीघ्रम्” ॥ ५ संकेत-“धणियं ति अत्यर्थम्” ॥ ६ चंडप्फलतो जे० ॥

मत्तो वि मयारिगणो पहवइ रोयंबुयस्स न कयाइ । तरतमजोगेण नराण पोरुसं फुरड जियलोए ॥११९ ॥  
ता किं वहुहिं तेहिं ? , वीहइ नरजंबुयाण को तेसिं ? । भसणसहावा भसणा गसणसमत्था न खलु हुंति ॥१२०॥

अन्नं च—

जो माणभंगभीरू न कयाइ सयंवरम्मि सो एइ । निच्छियमिणं न कन्ना खिवंति सन्वेसि वरमालं ॥ १२१ ॥  
5 का नाम माणहाणी कज्जे साहारणे बहुजणस्स ? । उव्वहइ मुहा हियए परिभवपीडं विदुराया ॥ १२२ ॥  
अहवा मुद्दसहावो रहिओ सो दीहपेहिमंतीहिं । कंखेइं खारखेवं नासाछेए कए इन्दिं ॥ १२३ ॥  
रोसफुरियाहरोट्टो पभणइ दूओ तओ तयं कुमरं । 'एरिसपंडिचाओ हच्छं लज्जिहिसि जयलच्छि ॥ १२४ ॥

तओ—

दट्ठवो सि अवस्सं हम्मंतो अज्ज कुवियकुमरेहिं । विहगेहिं पन्नगो इव तौडीकोडीहिं तुज्जंतो ॥ १२५ ॥  
10 एवमाइ नीट्ठुरं समुल्लवंतो कंठे वेत्तूण निच्छूढो कुमारभिच्चेहिं दूओ दुयमेव सामिणो जहट्टियं निवेएड ।  
तेणावि तक्खणमेव द्वाविया संगामभेरी । तओ वैड्ढंतरणरसुच्छाहाइं पक्खरियभूरिवाहाइं गुडियगुरुमयगलाइं  
उट्टियाइं दो वि वलाइं । ताव य भणिओ पउमुत्तरेण चंदज्जओ 'देव ! किमेएसिं कीडयप्पायाणमुवरि संरंभेण ? ,  
निहालेहिं ताव कोऊहलं, पेच्छाहि एएसिं ममावि अंतरं' । सो वि 'परनासगो तुमं, ता चिट्ठाहि ताव वीसत्थो'  
त्ति भणंतो उव्वट्ठिओ संगामे । तहा वि विविहसवहेहिं तं नियसेन्नं च निवारिज्जण ठिओ एगेण रहेण सवडम्मुहो  
15 परवलस्स पउमुत्तरो । तओ सामरिसेहिं भणिओ विदुराईहिं 'भो भो परिग्गहरहिय ! रहियत्तगन्विय ! गन्वियहियय-  
साहस ! ऊसरसु लहुं, कहमेगागिणा तए सार्दिं जुज्झामो ?' त्ति । पउमुत्तरेणावि भणियं 'किमलियगरिमजंपिएहिं ? ,  
पायडा चेव तुम्ह वड्ढिमा, ता करेह पारदं, दंसेह निययपोरुसं, सुवडसुओ हं कहमपहरंतेसु पहरामि ?' । त्ति  
सोऊण फुडं 'फेडेमो फारमडप्परं तुह' त्ति भणंता पवत्ता पहरिउं परिपंधिणो । ताहे संभारिया पउमुत्तरेण  
पुव्वपट्टिया महावेर्यालिणी विज्जा । तप्पभावेण य—

20 पउमुत्तरस्स समुहं जं जं मुंचंति पहरणं रिउणो । तं तं पिसायरुवं तेसिं चिय ताडणं कुणइ ॥ १२६ ॥  
अहमइमिगाए सामरिसमाणसा जुज्झरा वि अन्नन्ने । कुविएहिं कयंतेहिं व रुभंति महापिसाएहिं ॥ १२७ ॥  
किं बहुणा ?—

वियलियदप्पुच्छाहा सव्वंगइरंतसेयजलवाहा । जायां गयजीयासा सव्वे सुहडा सुदीणासा ॥ १२८ ॥

तं च तारिसं मणुयलोयासंभविमहब्भुयं पलोयमाणो भयसंभमाइरेगथरथरित्तगतो ओयरिज्जण गव्वपव्वयाओ  
25 विदुराया पवन्नो पायपणइ पउमुत्तरकुमारस्स, निवारिओ पउमुत्तरेण समासासिओ य । उव्वसंहरिया विज्जा । समास-  
त्येहिं य पणमिज्जण खामिओ सेसकुमारेहिं वि एसो । पवत्तं महावद्दावणयं । चदज्जएणावि महाविम्हयरसमणु-  
हवंतेण सम्माणिज्जण तिसज्जिया विदुराइणो, निव्वत्तियं च महाविभूईए वीवाहसंगलं ।

तओ पउमुत्तरो अभिनंदिज्जंतो नायरजणेण, थुव्वंतो मागहगणेण, सेविज्जंतो अत्थिवग्गेण, गोरविज्जंतो  
ससुरलोणेण, पणइणीमहीवीठपरूढपोढपेमपायवं पवड्ढयंतो असामन्नसोज्जनीरप्पवाहेण सुहेण तत्थ गमिज्जण  
30 कंचि कालं चदज्जयनरीसराणुष्ठाओ गओ नियनयरं । आणंदिया जणणि-जणया । जायं भुवणच्छेरयजणयं  
वद्दावणयं ।

१ संकेतः—“रायंबुयस्स त्ति शरभस्य” ॥ २ कखइ खारखेवं जे०विना ॥ ३ “चब्बु” खरेटि० ॥ ४ एमाइ जे०विना ॥  
५ इत आरभ्य गद्यपाठेऽप्यार्याचरणत्रय प्रतिभाति ॥ ६ “कथित” खरेटि० ॥ ७ संभारिया जे० ॥ ८ वेयाली विज्जा जे०विना ॥

अन्नया मंति-सामंताणुमएण ठाविओ पिउणा जुवराया पउमुत्तरो विसिट्ठं पुन्नफलमणुहवंतो चिट्ठइ ।

इओ य वेयड्ढनगुत्तरसेणिरमणीविसेसयभूए गयणवल्लहे नयरे अणेगविज्जोवज्जणावज्जियाणवज्जविज्जाहरी-  
विसरकमलायररायहंसस्स कणयकेउखयरहिन्नइणो कणयवइ-रयणवइदेविपसूयाओ कणयावलि-रयणावलीओ धूयाओ ।  
तासिं च जम्मदिणे चेत्र समाइट्ठं नेमित्तिएण 'एयासिमेगं परिणितो एगसेणिनाहो भविस्सइ, दो वि विवार्हितो  
दो वि सेणीओ भुंजिस्सइ' ति । तओ संपत्तजोव्वणाण तासिं सयलसुरा-ऽसुरिंदिसुंदरीसुंदेराइयख्व-लायन्नसंपयं 5  
पलोइज्जण पिउणा पारद्धो सयंवरामंडवमहो । तत्थ य विज्जा-वल-ख्व-सोहग्ग-कलाकलावगव्वियाणं मिलियाणम-  
सेसखयरनरिंदिविदारयाणं सिरि-कित्तीहि व दोहि वि कन्नयाहि वरिओ हरिवेगकुमारो । 'पुन्नाहिउ' ति पसंसिओ  
सव्वविज्जाहरेहिं । निव्वत्तियवीवाहपमोओ पडियागओ सुभोम । तुट्ठो तारवेगो चित्तिउं च पेयत्तो—

'तुल्ले वि मणुयभावे नरस्स पुणेहिं होड खयरत्तं । खयरसु वि सुट्ठु इमो पुन्नव्वह्मिओ मम कुमारो ॥१२९॥

अन्नह कहमिव वरिओ दोहि वि कन्नाहि सुकयपुन्नाहिं । सोत्तूण सुप्पसिद्धे सेसनरिंदे गुणसमिद्धे ॥ १३० ॥ 10

ता होयव्वमवस्सं विज्जाहरचक्रवट्टिणा इमिणा । नेमित्तियस्स वयणं पाएण न अन्नहा होइ ॥ १३१ ॥

किं पुण इमेण पुव्वं होज्ज कयं ? सुट्ठु कोउगं एयं । पुच्छेयव्वमवस्सं कयाइ नाणड्हयं पप्प' ॥ १३२ ॥

इय चित्तिरस्स रओ कयाइ सिरितेयकेवलिदिणेसो । संपत्तो तम्मि पुरे अन्नाणतमोहरणदच्छो ॥ १३३ ॥

अभिवंदिओ य गंतुं कुमारसहिणएण तारवेगेण । पुट्ठो य जहावसरं कंहंतरे पुव्वसंकपपं ॥ १३४ ॥

सिद्धा य तओ गुरुणा खख-कलावइभवाओ आरव्व । धम्मचरणऽज्जणभवा सव्वे हरिवेगपज्जंता ॥ १३५ ॥ 15

अवि य—

पुन्नाणुवंधि पुन्नं परिवड्ढंतं सुधम्मचरणेण । दोण्ह वि एवं नरवर ! एएसिं फाइमणुपत्तं ॥ १३६ ॥

एवं च निसार्मितो 'अहो सुंदरं मांणचरियं' ति भावणावेसवसेण पत्तो चरणपरिणामं तारवेगो राया दाज्जण  
रज्जं हरिवेगस विहिणा निक्खंतो तस्सेव भगवओ पायमूले । हरिवेगो वि संभरियपुव्वजम्मो सम्मं रोइयज्जिणधम्मो  
सम्मत्ताणुव्वयधारी जिण-साहुपूया-सकारकारी जहद्वियसंसारसख्वभावगो संवुत्तो परमसावगो । निविडनेहाणु- 20  
वंधेण पुच्छिओ णेण केवली 'भयवं ! सूरसेणजीवो कहिं उववओ ? किं नामधेज्जो ? सुलभवोहिओ न वा ? संपत्त-  
धम्मो य न व ?' ति । भयवया भणियं 'गज्जणाहिवसुओ पउमुत्तराभिहाणो सुलभवोहिओ, न उण संपत्तधम्मो । जओ—

जोग्गो वि धम्मरयणस्स पाणिणो न हि लंहति संवोहिं । सुविसुद्धधम्मचरियं धम्मायरियं अपार्विता ॥ १३७ ॥

सुद्धे वि दले पडिमा न होड नणु. सुत्तहारविरहेण । सुद्धे वि जीवदव्वे न गुणुप्पत्ती गुरुविओए ॥ १३८ ॥

ता जिणवयणपरिन्हा ताव य धम्मज्जमो गिहत्थाणं । ता नवनवपडिवोहो विहरंति मुणीसरा जाव ॥ १३९ ॥ 25

साहुविहाराभावे मिच्छत्तमुवेति छेयसड्ढा वि । कुस्सुइविसमविसुव्वभवमोहव्वमनिहयसन्नाणा ॥ १४० ॥

न चरंति तम्मि नयरे विप्पोवद्वभएण मुणिवसभा । मुणिंदसणविरहाओ न हि पत्तं तेण सम्मत्तं ॥ १४१ ॥

सुविसुद्धधम्मसेवागुणेण न य भाविओ स विप्पेहिं । कायमणिएहिं मरगयमणि व्व मज्जे वसंतो वि ॥१४२॥

बुज्जिस्सइ य अवस्सं तुमाउ नाज्जण जिणमयसख्व । ता न विवुज्जइ कमलं जा न वि छिपैइ रविकरेहिं' ॥१४३

एयमायन्निज्जण तुट्ठो हरिवेगो वंदिज्जण गुरुं गओ सट्ठाणं । क्रमेण य अत्तुलतेयमाहप्पायडिढयासेसमहिडिडि- 30  
यविज्जाहरनरिंदिंदिंदिंदिरिंछोलिसेवियपायारविंदो जाओ विज्जाहरचक्रवट्टी ।

अन्नया पउमुत्तरदसणुकंठिओ पट्ठिओ एगागी चेत्र गज्जणय । तत्थ वि वेत्तूण कज्जला-ऽलिकालकायं आर्पिग-

वट्टविसट्टल्लोयणं वणसूयराणुगारिथूलुद्धरसरीरं विविहवराडियामालियालंकियभालगीवं रणरणंतकणयकिंकिणीजा-  
लपरिगयकणयसंकलासंदाणियं विउच्चिय मज्जारं पत्तो नयरच्चरं । मिलिओ सैकोउगो नायरजणो धिज्जाइयैगणो  
य, 'अइप्पमाणो मज्जारो' त्ति विमिहयमणो भणिउं च पत्तो 'भो ! किं एस मज्जारो विक्काइ ? जइ विक्काइ ता  
केत्तिएण लब्भइ ?' । खयरेण भणियं 'दीणारलक्खेण' । जणो भणइ 'किं विरालस्स एत्तियं मोल्लं घडइ ?' । खय-  
5 रेण भणियं 'नेयं विरालस्स मोल्लं किंतु गुणाणं, गुणेहिं पत्थरं पि कोडाकोडिघणारिहं, दारं पि लक्खमोल्लं करिति ।  
अवि य—

वसह-गय-तुरंगाणं पत्थर-वत्थाण लोह-जोहाणं । अग्घे महं त्रिसेसो सच्चो वि गुणा-ऽगुणनिमित्तो ॥ १४४ ॥  
देवाण य धम्माण य समणाण य वंभणाण भुवणम्मि । अत्थि विसेसो गरूओ नज्जइ नवरं खु विरलेहिं ॥ १४५ ॥  
तो विति बुड्ढभट्टा 'साहु तए मंतियं महाभाग ! । ता कहसु केरिसा पुण एयस्स गुणा विरालस्स ?' ॥ १४६ ॥  
10 वज्जरइ तओ खयरो 'किमिह मुहा जंपिएण बहुएण ? । वच्चांमि रायभवणं जत्थ गुणाणं हवइ अग्घो ॥ १४७ ॥  
भोत्तुमणा वि अरिट्ठा भुंजंति न नालिकेरिलुंवीओ । सत्तिरहियाण रयणग्गहग्गहो निप्फलो चैव ॥ १४८ ॥  
भिव्खाहारा विप्पा, वणिणो वि हु क्काँगणीगणणनिउणा । एयाण नियं रयणं दंसितो अइगहिल्लो हं ॥ १४९ ॥  
इय उल्लविरो खयरो बहु-वाडवपरिबुडो खणद्धेण । पत्तो रायत्थाणं तं विसेदंसं पुरो काउं ॥ १५० ॥  
पुव्वभवव्भासाओ दिट्ठो पउमुत्तरेण सहस त्ति । नेहामयपडिहच्छातुच्छच्छायाहिं अच्छीहिं ॥ १५१ ॥  
15 तेणावि मणपसाया विघ्नाओ एस सो तणुपहाए । चिट्ठइ जयंजयंतो सुरवइनियडे जयंतो व्व ॥ १५२ ॥

एत्थंतरे—

दट्ठूण महाकायं मज्जारं विमिहओ महीनाहो । पभणइ खयरं 'भइय ! कहिं तए एस संपत्तो ?' ॥ १५३ ॥  
खयरेण भणियं 'मसरिसभत्तिभररंजिएण देवेण । पुहइअसंभविख्वो एस पसाईकओ मज्झ ॥ १५४ ॥  
एयस्स नत्थि मोल्लं तेलोक्कम्मि वि महागुणद्धस्स । दालिइपीडिओ हं तथा वि वियरामि लक्खेण' ॥ १५५ ॥  
20 राइणा भणियं 'भण केरिसा उण इमस्स गुणा ?' । खयरेण भणियं 'एणं ताव महापमाणो, वीयं पुण सुणय-  
मज्जारागंजियपरक्कमो, तइयं जत्थेसो निर्सिं पि वसइ तं पएसं दुवालसजोयणेहिं मूसगा परिहरंति, एए ताव  
पायडा, अन्ने वि अंतरंगा वहवे एयस्स गुणा, ता दंसेउ देवो एयं विउसविप्पाणं, कारवेउ मोल्लं, 'जेणेयं  
विकिणेमि' त्ति । तओ रायाएसेण निरुवयंतेहिं दिट्ठो वंभणेहिं तस्स उंदुरदरखइओ वामकन्नो । 'किमेरिसो  
कन्नो ?' त्ति पुच्छिएण भणियं 'निसट्टसोचिरस्स एयस्स मूसएहिं खइओ' । हसिऊण भणियं वंभणेहिं 'जइ एवं  
25 कहमेयं दुवालसजोयणेहिं मूसगा परिहरंति ?' । खयरेण भणियं 'भट्टा ! नेवं रयणाणि दूसिज्जंति, देवेसु वि एवं  
विरोहदंसणाओ, तथाहि पुच्छामि ताव भट्टे-जो वंभणं महिलं वालं गाविं वा हणइ सो पुरिसो केरिसो भन्नइ ?' ।  
भट्टेहिं भणियं 'महापावो सो अदट्टव्वो' । हरिवेगेण भणियं "जइ एवं—  
जो पज्जलिओ न मुयइ गो-वंभण-रमणि-डिंभयाईयं । पूइज्जइ कीस पुणो सो जलणो देवबुद्धीए ? ॥ १५६ ॥  
अह भणइ 'मुहं एसो तेत्तीसाए वि देवकोडीणं । तत्तित्तिनिमित्तमिमो पूइज्जइ महु-घयाईहि' ॥ १५७ ॥  
30 नेयं पि वियारसह जम्हा जइ ता सुराण मुहमेसो । ता कह सिट्ठा-ऽणिट्ठं असुई-मडयाइयं गसइ ? ॥ १५८ ॥  
सोयपहाणा तुव्भे पूइंता असुइभोइणो देवे । वयण-किरियाविरोहं पच्चक्ख किं न लक्खेह ? ॥ १५९ ॥

१ सकोयगो जे० ॥ २ 'यजणो य आ० ॥ ३ नालिकेरिलुं' जे०विना ॥ ४ कागिणी' आ० ॥ ५ वसदंसं जे०विना ।  
'श्रपदशम्' सरटि० । मूपकमक्षकम्, विवालमित्यर्थ ॥ ६ जेण विकिणेमो त्ति जे०विना ॥

एवमुदयं पि मुत्तिं हरिणो भणिऊण पाय-गुयधुवणे । विणिओइंता तुव्भे कह भो ! न विरुद्धववहारा ? ॥१६०  
 'एएण विणा न चलइ भुवणं' ति जलं भणेह जइ देवं । एत्थ वि अइप्पसंगो लक्खिज्जइ पायडो चेव ॥१६१  
 भिच्चेहिं विणा न निवो सव्वे ते तस्स हुंति किं देवा ? । कोलिय-कुलाल-चम्मयरया वि लोयस्स कज्जयरा ॥  
 वेच्छीपुत्तेण विणा सुज्जइ न हि स्रयं दियानं पि । अंगं व जलेण विणा ता भन्नउ सो वि किं देवो ? ॥१६३॥  
 अह एयनिमित्तं चिय सिद्धी एयाण नीर-दहणाण । हुंतु उवगरणभूया देवत्तपगप्पणा दुट्ठा ॥ १६४ ॥  
 परिकप्पिऊण राया कोयरकम्मे निउंजए न जओ । देवो ति भणिय न खमं निओइउं अमुइअवणयणे ॥१६५  
 इय देववियारम्मि वि पुव्वऽवरविरुद्धया धुवं अत्थि । ता कह विरालरयणे विरोहपरिभावणं कुणह ? ॥१६६॥

सव्वहा—

जह मयणारिं गिरिसं गोरी-गंगारयं पि सहहह । मूसयखइयं पि इमं तह मूसयमूरणं मुणह" ॥ १६७ ॥  
 इय अक्खलंतवयणं सावट्ठंभम्मि जंपिरे खयरे । लेप्पमया इव विप्पा निरुत्तरा तत्थ संबुत्ता ॥ १६८ ॥  
 राया वि भट्ठधम्मं सव्वं अवियारसारववहारं । निउणं निरुवयंतो जाओ मंदायरो तम्मि ॥ १६९ ॥  
 पउमुत्तरो विचित्तइ 'न एस मज्जारविककडं नूणं । दिव्वपुरिसो खु कोई सकोउगो भमइ इच्छाए ॥ १७० ॥  
 ता पुच्छामि इमं चिय धम्मसरूवं जहट्टियं इन्हि । दीसंति जेण नऽन्ने दंसणिगो एत्थ नयरम्मि' ॥ १७१ ॥  
 माणी य तओ खयरं 'भो भो ! अइपडिओ व्व पडिहासि । ता कहसु केत्तियाणं धम्माणं मुणसि परमत्थं ? ॥१७२  
 कम्मि कमले व्व विमले लीणो मणमहुयरो इमो तुज्ज । देवे गुरुम्मि धम्मे व ? ता फुडं कहसु सव्वभावं' ॥१७३॥  
 आह तओ हरिवेगो 'जाणामि असेससासणसरूवं । नवरमवियारसारं एकं जिणसासणं मोत्तुं ॥ १७४ ॥  
 जीवदयमलियविरडं अचोरिया वंभचेर संतोसं । धम्मं भणंति सव्वे, न य किरियाए तह करंति ॥ १७५ ॥  
 असि-मसि-किसि-वाणिज्जा घर-घरिणिपरिग्गहग्गहग्गेण । विनडिज्जंति वराया दंसणिगो के वि होऊण ॥१७६॥  
 जल-जलणारंभाओ कीड-पयंगाइए विविहजीवे । लुंपंता के वि मुहा कुणंति तव-वंभचेराई ॥ १७७ ॥  
 कंदे मूल-फलाइं भुंजंता तवविसेससुसियंगा । बुज्जंति के वि वाला तरुण नो चेव जीवत्तं ॥ १७८ ॥  
 घोसंति दयाधम्मं, धम्मकए पसुगणं पि होमंति । वेयस्स दिंति होठं पगाममूढाऽवरे पावा ॥ १७९ ॥  
 केत्तियमेत्तं वा हं परदोसुच्चारणं किर करिस्सं ? । को गणइ लकुडाइं कडंगरुक्कुरुडियावडिओ ? ॥ १८० ॥  
 जिणसासणं तु एकं निहोसं निहिसामि पुणरुत्तं । कस-ताव-छेयसुद्धं कणयं व विसिट्ठजणइट्ठं ॥ १८१ ॥  
 गयराग-दोस-मोहो अकलंको जत्थ जिणवरो देवो । असुर-नरा-ऽमरनयपायपंकओ तह निरासंगो ॥ १८२ ॥  
 अणुवकयपराणुग्गहपरायणो सत्तु-मित्तसमचित्तो । पहरण-रमणि-परिग्गहपरम्महो निब्भओ निरओ ॥ १८३ ॥  
 गंधव्व-नट्ट-अट्टहासकीलाविलासरसविमुहो । निम्मलनाणगुणइहो निरंजणो निट्टियट्टो य ॥ १८४ ॥  
 कस्सइ अदिन्नसावो अछलन्नेसो जिणो जहिं देवो । मोत्तूण जिणमयं तं अन्नत्थ मणो न मे रमइ ॥ १८५ ॥  
 तह जीवदयासारो अणलियवाइं अदत्तपरिहारी । वंभव्वयपव्वयभारधारओ दूरियारंभो ॥ १८६ ॥  
 मण-वयण-कायगुत्तो खंतो दंतिदिओ पसमरसिओ । धम्मोवएसदाया परोवयारी गुरु जत्थ ॥ १८७ ॥  
 सव्वभूयवत्थुपरमत्थसाहयं साहयं सिवपयस्स । तं जिणमयं पमोत्तूण मम मणो रमइ नऽन्नत्थ' ॥ १८८ ॥

एवं च जिणसासणगुणगणुक्कित्तणं सुणंतो विमुद्धपुच्चाणुभावेण परमं पमोयरसमणुहविउं पवत्तो पउमुत्तरो ।  
 पुणो वि भणियं हरिवेगेण—



‘किं न सरसि पउमुत्तर ! चिरं पि भुत्ताइं दिव्वसोकखाइं । गेवेज्जयसुरजम्मे जिणवरधम्माणुभावेण ? ॥१८९॥  
मणि-रयणपज्जलंतं सोमालं सुरहिपरिमलप्फुम्भं । कणिरतणकिंकणीगणकलरवसंगीयसुइसुहयं ॥ १९० ॥  
सविलाससालभंजियपयट्टनवनट्टरसक्याणंदं । अमरविमाणं चिरमाणियं पि नो सरसि किं इण्हि ? ॥ १९१ ॥  
किं न सरसि सुइरं वंदियं पि पडिमऽट्टसयसमाउत्तं । सिद्धाययणं सुंदर ! नयण-मणोनिव्वुईजणयं ? ॥ १९२ ॥  
अहमिंदाभरभावं चिरमणुभूयं पि जिणवरमयाओ । किं न हि सरसि महायस ! ? न कुणसि जिणभासियं जेण’ ॥

एवं च सुरसुहसरुवं निसामितो ईहा-ऽपोहकमेण समुप्पन्नजाईसरणो पवुत्तो पउमुत्तरकुमारो ‘अहो ! ते  
महाभाग ! नाणाइसओ, अहो ! परोवयारसीलया, अहो ! सद्धम्मपक्खवाओ, संभावेमि य नेहाइसएण तुमं  
मुत्तावलीजीवो पत्तविज्जाहरभावो कंहंचि मम वोहणत्थमागओ सि, ता मोत्तूण कवडनेवत्थं दावेहि जहट्टियमत्ताणं’  
ति । तओ ‘सुट्टु मग्गाणुसारिणी ते पन्न’ त्ति भणंतेण कयसाहावियरुवेण आलिंगिओ पउमुत्तरो हरिवेगेण । तेणावि  
साययपडिवत्तिपुरस्सरं निवेसिओ अद्दासणे । तओ विग्धिण राइणा ‘को पुण एस वइयरो ?’ त्ति पुच्छिए  
साहिओ खयरेण सव्वो पुव्ववइयरो । ‘एवमेयं’ त्ति पडिवन्नं पउमुत्तरेण । ‘जयइ जयइ जिणधम्मो’ त्ति पवत्तो  
लोक्यप्पवाओ, जाओ जिणधम्माम्भिसुहो नरवई सह दियाइलोएण ।

एत्थंतरे विन्नायवहुजणोवयारो समागओ तत्थ गामाणुगामं विहरंतो, पावपंकं दंसणमेत्तेणावि हरंतो, उव-  
समसिरीकुलावासो, सयलजणाणंदयारिदूरियकुलावासो, अवहत्थियपहरण-वाहणो परिहरियपाणिगणवाहणो घण-  
घाइकम्मकुंजरकेसरी मिच्छत्तमिहैप्पकणैसरी अंगीकयमुणिगणुव्वूढनिदोसमुदो सयलगुणरयणसमुदो लोया-ऽलोक्य-  
दिवायरो गुणसायरो नाम केवली । गया तस्स वंदणवडियाए राय-पउमुत्तर-हरिवेगा सेसलोगा य । कयवंदणोववि-  
ट्ठाण य पारद्धा भगवया धम्मकहाँ—

‘भो भो ! सुभीमभवदुत्तरसायरम्मि, जाई-जरा-मरणमीसणभूरिभंगे ।

वाही-विओयमकरग्गहपीडियाणं, ताणं जियाण जिणसासणजाणवत्तं ॥ १९४ ॥

एगिंदिया विगल-मुच्छिम-भोगभूमा-ऽणज्जा य जाउ न लभंति इमं वराया ।

मोहंधयारगुरुचारयसन्निरुद्धा, पेच्छंति सूरपयडं-पि न आरिया वि ॥ १९५ ॥

अन्नाणमोहियमणा गुरुसंगहीणा, नाणाकुसत्थमइरारसणुन्नपन्ना ।

धम्माय पावकिरियासु पसत्तचित्ता, एयं छणिंदुविमलं पि न सद्धंति ॥ १९६ ॥

धन्ना ह्नु के वि चिरला धुयपावपंका, सद्धम्मसीलगुरूणो वयणामएण ।

मिच्छत्तदारुणविसं सहसा वमिंति, तत्तो जिणिंदवयणं विमलं नियंति ॥ १९७ ॥

चित्तमणी सुरतरु तह कामधेणू, संपज्जए जह जणस्स सुपुन्नजोगा ।

एवं जणस्स परलोयसुहेसिणो वि, पुन्नोदएण गुरुणा गुरुणाविसंगो ॥ १९८ ॥

पत्ते गुरुम्मि तिरिया वि लहंति धम्मं, पाविंति देववसहि खविज्जण कम्मं ।

सामग्गिमेयरहिया मणुया वि पत्तं, फुक्काए धंतकणयं पिव हारयंति ॥ १९९ ॥

नीरं विणा वि नलिणी भुवि संभवेज्जा, सूरं विणा वि दिवसो धुयधंतकंतो ।

सग्गा-ऽपवग्गफलओ सयलोऽकलंको, मोत्तुं गुरुं गुणनिहिं न य धम्मलाभो ॥ २०० ॥

१ “कुलग्रहम्” खरटि० ॥ २ “ग्रहवास” खरटि० ॥ ३ “सद्गतसूर.” खरटि० ॥ ४ सद्धेतः—“त(नि)सरि त्ति रवि” ॥  
५ हा । अवि य-भो भो ! जे०विना ॥ ६ वमति जे०विना ॥

एवं च दुल्लहतमो जिणनाइधम्मो, संसारसिंधुतरणम्मि अवंझहेऊ ।

ता एत्थ पुव्वसुकएहिं कहिं पि पत्ते, निच्चं पि उज्जममहो भविया ! करेह' ॥ २०१ ॥

एयमायन्निऊण भणियं हरिवेगेण 'भयवं ! एवमेयं, न खलु गुरुसंपओगं विणा धम्मसंपत्ती, अन्नहा कहमेसो गुणुत्तरो वि पडमुत्तरो चिरं धम्माओ वंचिओ ?' त्ति । सुरवइणा वि संलत्तं 'भयवं ! वीयरागदेवो निम्महियकम्मलेवो सव्वगुणरासी मोहतमनासी निस्सीमनाणो नीसेसदेवप्पहाणो सव्वजियदिन्नाभयदाणो कयासेसदुत्थियसत्थताणो, तहा एस जिणधम्मो सयल्लगुणरम्मो वियारसारो सुविसुद्धचारो सन्नाणसोहिओ असामन्नेसोहिओ अकलंकचेट्टो सयल्लजयजेट्टो, ता कीस पुण एए वराया रायाइलोया पासंडिगा य धम्मत्थिणो वि अन्नदेवाराहणेण तहाविहविहल्लिकिरियाहि य अप्पाणमायासिति ?' । भयवया भणियं "महाराय ! जेण जं पावियव्वं तस्स तयणुख्वो चैव ववसाओ इवड । तहाहि—

मोत्तूण चक्कवट्ठिं मंडल्लिए चैव केइ सेवंति । अन्ने मंडल्लिए वि हु मोत्तूणं खंडमंडल्लिए ॥ २०२ ॥

अन्ने वि गामसामिं ढल्लसामि नड-भडाइयं अन्ने । अन्ने भिक्खयराणं कम्मयरत्तं पव्वज्जंति ॥ २०३ ॥

अत्थत्थिणो वि एए तारिसयस्स हि कुणंति किर सेवं । भोत्तव्वं वित्तिफलं जारिसयं पुव्वकम्मएहिं ॥ २०४ ॥

एमेव देव-धम्मे सव्वो सेवेइ तारिसे चैव । जारिसओ परलोए पावेयव्वो फलविसेसो ॥ २०५ ॥

तहा—

जो जारिसफलजोगो धम्मं पि हु तारिसं तओ कुणइ । वहइ खडं कुम्मरिओ भैत्तयपाणस्स कज्जेण ॥२०६॥

अन्नं च—

वामोहिओ वराओ धम्मत्थिजणो कुसत्थयारेहिं । इंदियवसएहिं विचित्तउत्तिनिउणेहिं धुत्तेहिं ॥ २०७ ॥

जं चिय सुहकरणिज्जं, अणुकूलं जं च करणगामस्स । तं धम्माय सुणंतो न रमइ धम्मे जिणुद्धिटे ॥ २०८ ॥

वंभव्वयमइघोरं कौढाइविणिग्गहो अहिंसा य । निस्संगतवचरणं सुहझाणं मोक्खगइमूलं ॥ २०९ ॥

अंगीकाउमसत्ता धण-धणिया-त्तणय-कणयत्तिल्ला । विंति घरासममसमं धम्मं विसयामिसासत्ता ॥ २१० ॥

'जलमज्जणेण धम्मो पावखओ मंतजावमेत्तेण । तरुरोवणेण गोवंदणेण होमेण वा धम्मो ॥ २११ ॥

मणइच्छापूरणओ सुभ्रज्जाणेण आयपूयाए' । इय निमुणंता सुद्धा कह नाम रमंति जिणधम्मे ? ॥ २१२ ॥

पावं पि धम्महेउं मूढा सारिहिति सुद्धधम्मीणं । आउरजणधणलुद्धा अणोसहं कूडवेज्ज व्व ॥ २१३ ॥

ता परिभावसु नस्वर ! इय ढसरसएहिं मोहिए लोए । रज्जं व सुद्धधम्मं विरला पार्विति कयसुकया" ॥२१४॥

एवं च सुणमाणस्स महारायस्स त्रियलिओ कम्मगंठी, पाउवभूयं सम्महंसणं, संपत्ता जहंठियदेवाइवत्थु- परिन्ना, पवड्ढिओ कुसलपरिणामो, क्रमेण खओवसमसुव्रगय चारित्तमोहणिज्जं । तओ संजायचरणपरिणामो 'कओ चैव भगवया महामिच्छत्तगहानिवुड्डस्स इत्थावलंबदाणेण ममाणुग्गहो, तहा वि संजमगिरिसिहरारोवणेण कीरुड सपयं परमाणुग्गहो' त्ति भणंतो पणओ मुणिदपायारविंदे नरवई, अबुव्रगओ गुरुणा, जाओ विसुद्धमणो समणो । उत्तरुत्तरसंजमकंडयारोहणेण समाराहियविसुद्धधम्मो निद्वियहुंठुद्धकम्मो पाविओ पैरमपयसुहसंपयं ति ।

पडमुत्तरो वि पडिवन्नसमणोवासगधम्मो अहिसित्तो हरिवेगेण जणयपए पत्तो पुन्नायडिद्वयमहिडिद्वयाणेग- सामंतमत्थयालिंरिंछोलिचुंविज्जमाणपायपडमो पयंडदंडमहामंडल्लियभावं । अन्नया रज्जसुत्थं काऊण नीओ हरिवेगेण

१ 'अबोद्धिओ जे० ॥ २ संकेतः—“कुम्मरिउ त्ति कर्मकर” ॥ ३ भत्तयमाणस्स जे०विना ॥ ४ जहंठिया दे० ख१ ख२ ॥ ५ 'बुद्धकम्मो जे०विना ॥ ६ परमसुह' आ० ॥

सुभोमनगरं, सम्माणघणं च भणिओ 'पडिच्छाहि मम विज्जाओ, पडिवज्ज विज्जाहरसामित्तं' । पउमुत्तरेणावि भणियं 'मम वीयसरीरभूओ तुमं, अओ जस्स पहू तुमं तस्साहं पहू चेव, तद्वा धम्मवोहिसंपायणेण चेव दिन्नं मम दायव्वं तुमए, किमघ्नमिओ वि सुंदरयरं ? ति ।

- तम्हा अविप्पउत्ता पालेमो ताव दो वि रज्जाइं । रज्जोरुभारधरणम्मि पच्चला हुंति जा तणया ॥ २१५ ॥
- 5 दाऊण तेसि रज्जं कयरिणमोक्खं तओ अविग्घेण । सामघ्नमसामघ्नं सिवसुहरसिया चरिस्सामो' ॥ २१६ ॥  
हरिवेगो वि वयासी 'एवमिणं नत्थि संसओ कोई । जं मह मणे निविट्ठं तुमए वि तयं फुडं सिट्ठं' ॥ २१७ ॥  
इय नेहनिव्वभरा ते संविग्गा समयखेत्तित्थयरे । वंदंति पढट्टमणा नहगमणा रायहंस व्व ॥ २१८ ॥  
सासयजिणभवणेसु वि करिंति जत्ताओ अइमहन्ताओ । विम्वयजणणीओ सुरा-ऽसुराण रोमंचच्चिंचइया ॥ २१९ ॥  
पालित्ति य दो वि कमागयाइं रज्जाइं जणियचोच्चाइं । पल्हायंता पर्यईकुमुदवणं जमलचंद व्व ॥ २२० ॥
- 10 पडणीयवारणाओ पूया-सकार-विणयविच्चीहिं । चेइय-मुणीण परमं पभावणं ते करेसी य ॥ २२१ ॥  
उस्सुंका करभरवज्जिया कया सावया सवित्तड्ढा । अब्भुद्धरिया इयरे अइरित्तविचित्तघणदाणा ॥ २२२ ॥  
सेसाणं पि जणाणं पुव्वपवत्तो वि करभरो सव्वो । तह तेहिं तणुओ जह जणाण जाओ महाणंदो ॥ २२३ ॥  
उट्टन्तपडंतखलंतसुत्तनीसेसवहुजणसमूहा । धंभाउसदाणक्खणियजंपणा तत्थ संवुत्ता ॥ २२४ ॥  
लग्गा जिणिंदधम्मे पायं वंभणगणा जणवया वि । आसन्नवोहिलाभा अन्ने वि अमच्छरा जाया ॥ २२५ ॥
- 15 इय जणजणियाणंदं धारिंता रज्जभरधुरं धीरा । धवल व्व ते कयाई गज्जणयं दो वि संपत्ता ॥ २२६ ॥  
जायं च तयागमणे नयरं कयचडुलधयव्वडाडोवं । किंकिणिरवकयगीयं पयट्टनट्ठं व हरिसेणं ॥ २२७ ॥  
कयहासं व समंता ताडियपडुपडहपयडपाडेहिं । कयजयजयसदं पिव गंभीरमुंगरसिएहिं ॥ २२८ ॥  
तोरणनिवद्धसुरतरुवंदणमालाहिं घणसमिद्धाहिं । आइद्धनीलमणिभूसणं व पहुदंसणसयन्हं ॥ २२९ ॥  
पहुआगमपमयमया वियेज्जनचंततरुणरमणीहिं । अमरावड व्व रम्मं तं जायं सव्वओ नयरं ॥ २३० ॥
- 20 पारद्धाओ जुगवं महिमाओ जिणिंदचेइयघरेसु । सड्ढेहिं भत्तिभरनिव्वभरेहिं हरिसुल्लसंतेहिं ॥ २३१ ॥  
कारिंति ते वि महिवा कमेण सव्वेसुं सव्वजत्तेण । पूया-सकारं गीय-वाइयं दिव्वनट्ठं च ॥ २३२ ॥  
दिघ्नावारियसत्ते जिणनाहमहामहे इय पवत्ते । जिणधम्मवद्धराओ पायं पर्यईगणो जाओ ॥ २३३ ॥

अन्नया दो वि पत्थिवा जिणभवणाओ सभवणं वचंता पेच्छंति रायमग्गे अभिसुहमागच्छंतं विरलियजडि-  
लसिरोरुहं तंवलारुणाहरोट्ठं धूलिधूसरियसव्वसरीरं सेडियाधवलओभयपाणितलं कच्छोद्वियामेत्तनिवसणं कुप्पर-  
25 जाणु-कडीयडपयडवियडकिणगणाडवीभच्छं पिट्ठओहुत्तसंजमियवाहुदंडं अकोसणपवत्ततहाविहकियंववोद्वहवंद्रम-  
ज्जगयं गयं व पडियारेहिं सव्वओ छेट्टु-कट्टाडएहिं हम्मंतं कंचि जूइयरपुरिसं ।

तओ करुणान्णचित्तेण पउमुत्तरेण 'अरे ! ममावि रज्जे किमेष वराओ अनाहो इव कयत्थिज्जइ ?' ति  
भणंतेणाऽऽणाविओ समासणं, पुच्छिया कयत्थया 'अरे ! को एसो ? किमित्थमेवं तुव्वेहिं कयत्थिज्जइ ?' ।  
तेहिं भणियं "अलं देवस्स एयतत्तीए, अणरिहो खु एसो देवकरुणापसायस्स, अगोयरो आवइपडियारस्स, आय-  
30 वेरिओ अदट्टव्वो विसिट्ठाणं । जओ एत्येव नयरे नवकोडीसरवरुणसेट्ठिनंदणो एस निवारिज्जमाणो वि जणएण,

१ संकेतः-“चिचइयं ति मण्डिता” ॥ २ संकेतः-“घन्नाउसदाणं ति आशीर्वाददानम्” ॥ ३ घणसिणिद्धाहिं ख १  
सर ॥ ४ “हपं” ख २ टि ॥ ५ “परवस” व २ टि ॥ ६ अमराउरि व्व जे ॥ ७ “राजान” ख २ टि ॥ ८ “सु चेव जत्तेण  
रा १ व २ ॥ ९ संकेतः-“कियववोद्वहवंद्रं ति कियववरुणसमूह” ॥ १० हरे ! जे ० विना ॥

अणुणिज्जमाणो वि जणणीए, अणुसासिज्जंतो वि निद्धवंधुहिं, वोहिज्जंतो वि एगंताणुरत्तमित्तेहिं, निरुवमंतो वि सुविणीयपणइणीए, वद्धगाढाभिनिवेसो विट्ठाए द्दुट्ठरिट्ठो व्व निव्वग्गो लग्गो जूयवसणे । 'हारियं पभूयं घरसारं' ति निच्छूढो जणएण कओ जाइपंतिवज्झो, तहा वि न मुंचइ जूयवसणं, रमइ कर-चरणत्तिमंगाणं । तन्निमित्तं च कयत्थिज्जमाणो जूइयरेहिं पच्चागयहियएण कारियाणेगविसिद्धसवहो मोडओ जणएण सत्तवारे, छड्ढिओ वारमेगं सहिएणावि तहा वि न विरमइ । 'जियधणो विलसइ फुल्लत्तं वोलाइएहिं, न मुयइ कस्सइ वराडियं पि' 5 ति जायामरिसेहिं अज्ज लक्खं द्वारिऊण पलायंतो पाविओ अम्हेहिं । ता अणुजाणउ देवो एयं दुरायारं उवणेमो सहियस्स" ति । तओ अणुक्कोसरसाडरेगाणुगओ 'अहो ! अन्नाणवियंभियं, अहो ! कम्मपरिणई, अहो ! पावायारपवित्तिनिबंधो पाणिणं' ति चित्तयंतो 'जो अज्जप्पभिइ इमेण सह रमिही तस्स मए महादंडो कायव्वो' ति वयणपुव्वं दीणारलक्खदाणेण तं मोडऊण गओ समंदिंरं नरिंदो । पुणो पुणो त चेव्व सोइंतो वेरग्गमग्गा- 10 वडिओ हरिवेग भणिउं पवत्तो—

'किं नाम सोइयव्वं अन्नाणपरव्वसे वणियक्रियवे ? । अंधस्स खलियपडणे को अवराहो वरायस्स ? ॥२३४॥  
 एत्तो वि जहन्नयरा अम्हे जाणंतया असारत्तं । असुइसरूवेसु रइ कुणमाणा मणुयभोएसु ॥ २३५ ॥  
 जह खलु जहन्नकम्मं जूय विउसाण गरहणिज्जं च । जाणियजिणवयणाणं तह निययं विसयसंगो वि ॥२३६॥  
 हारेइ खणेण जिओ जूएण चिरज्जियं जहा विहवं । विसयपसत्तो सत्तो तह चेव्व चिरज्जियं सुकयं ॥ २३७ ॥  
 उवएससहस्सेहिं वि विरओ न जहेस जूयवसणाओ । अवमाणभायणाओ विसयसुहाओ तहइम्हे वि ॥२३८॥ 15  
 वध-बंधभायणमिमो जह जूयाओ पुणो पुणो जाओ । तह अम्हे पच्चाओ पुणो पुणो गव्वभकुंभीसु ॥ २३९ ॥  
 ता सव्वहा न जुत्तं एत्तो विसयामिसे पैसत्तेहिं । संपइ अप्पाणं दुहपरपराभायणं काउं' ॥ २४० ॥  
 तो पभणइ हरिवेगो 'ठियमेवं मम वि माणसावासे । नवरं तुमम्मि नेहो विबंधगो एत्थ वत्थुम्मि ॥ २४१ ॥  
 जाया दोन्हं पि सुया रज्जभरूव्वहणपच्चला दाणिं । दाऊण तेसि रज्जं पव्वज्जं ता पव्वज्जामो' ॥ २४२ ॥  
 इय मंतिराण तेसिं सिट्ठं उवरोहिएण सहस ति । 'कुसुमरमणुज्जाणं रयणायरमुणिवई पत्ता ॥ २४३ ॥ 20  
 गुणसायरगुरुसीसो सूरु इव तवसिरीए दिप्पतो । वेत्तूण धम्मसारं व निम्मिओ जो पयावइणा' ॥ २४४ ॥  
 चिरविरद्विओ व्व इट्ठं दट्ठं तिसिओ व्व सिंसिरनीरोहं । गुरुआगमणपउत्तिं सोउं ते हरिसिया सहसा ॥२४५॥  
 भडचडयरेण महया गंतुं नमिउं गुरुं सपरिवारं । रोमंचंचियकाया गुरुवयणं सोउमारद्धा ॥ २४६ ॥  
 सोऊण भवसरूवं जीवाणं बंध-मोक्खहेउं च । जिणसासणदुल्लहयं अणि वयं जीवियस्सावि ॥ २४७ ॥  
 निरुवमसोक्खं मुक्खं मुणिचरियं तस्स साहणोवाय । संवेगभावियमणा मणंति ते मुणिवरं नमिउं ॥ २४८ ॥ 25  
 'भयवं ! भवंधक्खे निवडंताणं अपत्तताणाणं । कुणसुद्धरणं अम्हं दिक्खाहत्थावलंबेण ॥ २४९ ॥  
 भवतुंगतरूव्वद्धे दीणे मोएहि णे दयारसिय ! । वयपहरणेण गिहन्नासपासयं दुत्ति छेत्तूण ॥ २५० ॥  
 रागाडवेरियगणेण हम्ममाणामप्पथामाणं । सामिय ! कुण साहिज्जं संपइ सेवापवन्नाणं' ॥ २५१ ॥  
 इय ते भयसंभते जंपंते मुणिवई समुल्लवइ । 'नणु एयनिमित्तं चिय गुरुहिं सपेसिओ अहयं ॥ २५२ ॥  
 मा कुणह कालहरणं, तुरियं संसारसत्तुभयहरणं । पडिबज्जह सच्चरण जइ मग्गह सुगइसंचरणं' ॥ २५३ ॥ 30  
 इय गुरुणा संलत्ता खणेण नियनियपुरेसु ते पत्ता । नंदणविदिन्नरज्जा जाया दिक्खागहणसज्जा ॥ २५४ ॥  
 अट्ठाहिया सुल्लट्ठा काराविय जिणहरेसु सुपहट्ठा । दिन्नावारियसत्ता विहिणा गुरुअंतियं पत्ता ॥ २५५ ॥

१ 'ज्जइ जूइयरेहिं जे०विना ॥ २ पयत्तेहिं त्रा० ॥ ३ संकेत-“दाणं(णि) ति इदानीम् ॥७॥” ॥

पव्वसविया य विहिणा रयणायरसूरिणा सुगुणनिहिणा । आसेवंति सृकिरियं अनिगूहिता निययविरियं ॥२५६॥  
अवि य—

नाणं एक्कारसंगं तव-विणयरयाऽहिज्जिया निज्जियक्खा, सम्मत्तं निम्ममत्ता कुमयमयहरं निकल्लकं धरिन्ता ।  
चारित्तं चारुचित्तं सुविहियविहिणा दुद्धरं उव्वहन्ता, जाया दिट्ठंतभूया महरिसिचरिए दो वि ते धीरचित्ता ॥२५७॥  
5 तवेहिं तिव्वेहिं विसोसियंगा, मोत्तूण काले विहिणा सरीरं ।  
जाया तओ ते अहमिंददेवा, गेवेज्जगे मज्झिममज्झिमम्मि ॥ २५८ ॥  
तेसिं अगाहे सुहसागरम्मि, बुड्ढाण परुद्धदुहाण वाढं ।  
अनज्जमाणा सहसा निसि व्व, अइच्छिया सागर सत्तवीसा ॥ २५९ ॥

इय पुह्वीचंदचरिए पउमुत्तर-हरिवेगमहामुणिचरियं सत्तमं भवग्गहणं समत्तं ॥

## [ अट्टमो गिरिसुंदर-रयणसारभवो ]

अत्थि नवीणघणाघणकालवणे लवणनीरनाहे व्व । पुंडविसयम्मि विउलं पुडउर अंतैरीवं व ॥ १ ॥  
 बहुविहवा नरवंसा गयकलहा लद्धविद्धिणो जत्थ । विंझम्मि व्व भमई सया सुहमेव दियाइरिंछोली ॥ २ ॥  
 जत्थ जणो वत्थं चिय वसण, अयमेव मुणइ लोहं ति । अलियं निलाडमेव हि, दरं तु थूणाकए खायं ॥ ३ ॥ 5  
 किं बहुणा ?

आरामनिरंतरपत्तपरिगयं सालकेसरं सहइ । तं नयरं महिगयखुडियनालमुविसट्टकमलं व ॥ ४ ॥  
 तम्मि बहुविसयसारे कमलोदयसुंदरे सयाणिट्ठे । माणससरे व्व हंसो लीलायइ सिरिविलो राया ॥ ५ ॥  
 सबलो वि सुद्धवन्नो, सारो उच्छन्नवेरिन्नो वि । पियमायंगो वि विसिट्टसंगवद्धग्गहो धणियं ॥ ६ ॥  
 अवि य—

को सो कोसो विहलियजणा जं न भुंजन्ति तस्स ?, का सा काऽऽसा नणु पणइणं पूरिया जा न तेण ? ।  
 को वा कोवाऽनलमद्गओ नो मओ तस्स दुट्ठो ?, काऽलं कालं गमइ महिला तव्विओए सुहेण ? ॥ ७ ॥  
 उच्छाह-परक्कमसारपोरुसो सयलरज्जधुरधवलो । तस्सेगोयरभाया जुवराया सयबलो नाम ॥ ८ ॥  
 ते राम-लक्खणा इव अन्नोन्नं निविडनेहपडिवद्धा । पालिन्ति जणगदिन्नं रज्जं रज्जंतसामन्ता ॥ ९ ॥  
 तेसिं वरघरिणीओ सुलक्खणा-लक्खणाभिहाणाओ । निम्मलकुलुब्भवाओ नारीगुणरयणखाणीओ ॥ १० ॥ 15  
 पियपेम्मामयपीणियमणाण संपत्तसव्वकामाणं । वच्चइ सुहेण कालो तासिं सग्गंगणाणं व ॥ ११ ॥  
 अह पउमुत्तरतियसो सुलक्खणादेविकुच्छिआवाले । कप्पद्दुमो व्व सुहओ संभूओ पुत्तभावेण ॥ १२ ॥

तओ सा नवदिणयरदिप्पंतमुत्तिं गयणंगणलग्गतुंगसिं गं विलुलंतधवलवलाहयमालियाविरायंतमेहलं पुप्फि-  
 यफलियसिणिद्धवणसण्डमंडिउच्छंगं गगेयसिं व्वयणेणोयरं पविट्ठं दट्ठूण पडिबुद्धा पाहाउयमंगलतूरनिग्घोसेण ।  
 नरवइसमाट्ठविसिट्ठपुत्तजम्मब्भुदया संपुन्नदेव-गुरुपूया-दीणाइदाणदोहला सुइंसुहेण गब्भं परिवालिज्जण पसूया 20  
 उचियसमए महारयणखाणि व्व चिंतामणिं जणमण-नयणाणंदणं नंदणं । तयणु विहियं सिरिवलराइणा चारय-  
 मोयणाइपयारेण सयलजणमणाणंदवद्धणयं वद्धणयं, पइट्ठियं च मासपेरन्ते दारयस्स सुविणयाणुरुवं नामधेयं  
 गिरिसुंदरो त्ति । एवं च कप्पपायव्वपोयओ व्व संपत्तसुहोदओ पव्वड्ढिओ एसो ।

एत्थन्तरे हरिवेगसुरो वि उववन्नो जुवरायपणइणीए लक्खणाए कुन्धिंसि पुत्तभावेण । दिट्ठो णाए वि सुविणे  
 तरुणतरणितारतेयाणेगरयणारासी व्वयणेणोयरमोगाहितो । तओ उचियसमए पसूया एसा वि नीसेसलक्खण- 25

१ संकेतः—“अत्थि नवीणेत्यादौ, [ गा १- ] नवीनघनाघनवत् का[ला]नि वनानि-जलानि काननानि च यत्र । [ गा २- ]  
 बहुविधवानराश्च ते वशाश्च, गजकलभाश्च लब्धवृद्धयो विन्धे, नगरे तु-नरवशा-नरसन्ताना लब्धवृद्धयो बहुविधवा गतकलहाश्च ।  
 द्विजातय-पक्षिणो विप्राश्च । [ गा ५- ] बहुभि वीनां-पक्षिणा शते-सारे, वहुनां विषयाणा-देशाना सारे । कमलैरुदकेन च सुन्दरे,  
 कमलायाश्च उदयेन सुन्दरे । सदैव अनिष्टे-अनिष्टिते, सतामिष्टे च । [ गा ६- ] सबल-कर्तुं, सह वलेन वर्तते । सह आरेण वर्तते  
 साऽऽर, सार.-उत्कृष्टश्च । मातङ्गा-जनङ्गमा हस्तिनश्च । [ गा ७- ] क स कोश । का सा काऽऽशा-सुखाशा । को वा कोपा-  
 नलम् । ‘काऽल’ का अलम्-अत्यर्थम्, कालम्’ ॥ २ अन्तर्द्वीप लवणसमुद्रान्तर्वर्तिद्वीपमित्यर्थ ॥ ३ ‘इ तथा सु’ ख१, ‘इ महा  
 सु’ ख० आ० ॥ ४ निडालमेव ख१ ॥

समाउत्तं पुत्तं । सुविणाणुख्वनिव्वत्तियरयणसारनामो वड्ढिओ एसो वि । तओ ते दो वि कुमारगा निविडनेहर-  
ज्जुसंजमिया संघाडियवसह व्व अन्नोघ्नाविरहेण विहरन्ति । कहं ?—

- भुंजंति रमंति सुवन्ति जंति चिद्वंति दो वि एगत्थ । न लहति खणं पि रइं विओइया नल्लएणावि ॥ १३ ॥  
तेसिं नेहाइसयं पेच्छंता दो वि राय-जुवराया । नियनेहविलसियं सुमरिऊण लज्जोणया हुन्ति ॥ १४ ॥  
5 अन्नम्मि दिणे अत्थाणसंठिओ सिरिवलो महाराओ । पउरेहिं पउरदेक्खाउरेहिं सहस ति विघ्नत्तो ॥ १५ ॥  
'देव ! तुमम्मि धरन्ते निम्मलजसपसरधवलियधरन्ते । पत्ता मो गुरुसणं मग्गामो कत्थ संवसणं ? ॥ १६ ॥  
हीरइ पहाणविहवो सहसा केणांवि किर जहा विहवो । इट्ठा वरंगणाओ धरंगणाओ वि हीरंति ॥ १७ ॥  
न खणड खत्त, दारं न पेलेए, नेय दीसए कोड । सुव्वइ करुणपलावो वैलावहीरंततरुणीणं ॥ १८ ॥  
इय निमुणंतो राया दट्टोदो भिउडिभीमभालयलो । लीलालट्टिददाहयमहिबट्टो भणइ आरक्खं ॥ १९ ॥  
10 'रे रे ! सुवसि विसत्थो वसवत्ती पणडणीण तं नूणं । न भमसि नयरे रत्ति मुहा विभुंजेसि मम वित्तिं ॥ २० ॥  
अन्नह कह वुत्तंतो वट्टइ एवंविहो मम पुरस्स ? । नणु पत्तिनिहित्थभरा सुविसत्था हुंति भूवाला' ॥ २१ ॥  
तो भणइ नयररक्खो "देवस्स पुरो अहं पि लज्जामि । पेच्छंतो वुत्तंतं इमेरिसं नयरलोयस्स ॥ २२ ॥  
तुरियं तुरियं छन्नो भमामि रक्खेमि पुरदुवाराइं । थाणंतराइं सुनिरंतराडं ठावेमि पट्टरच्छं ॥ २३ ॥  
अणुपुक्करियं परिधाविरो वि न लहामि तं दुरायारं । 'एस गओ एस गओ' नवरं निमुणेमि जणवोलं ॥ २४ ॥  
15 गिन्हइ थवियं पि सुरक्खियं पि मणि-कंवणं कलत्तं पि । नज्जइ न चेव पावो इंतो जंतो कयन्तो व्व ॥ २५ ॥  
ता कुणउ ताव देवो रक्खं अंतोउरस्स जत्तेण । दूरम्मि ताव चिट्ठउ नायरवग्गो समग्गो वि" ॥ २६ ॥

एयमायन्निऊण महामरिसनिरुद्धकंठो किंकायव्वयावाउल्लियचित्तो जाव राया न किं पि जंपइ ताव कयप्प-  
णामेण विघ्नत्तो गिरिसुदरकुमारेण 'आणवेउ देवो जेण अंतो सत्तरत्तस्स लहेमि तं दुरायारं' ति । राइणा भणियं  
'वच्छ ? अलं वाललीलाउल्लावेहिं, न सो तुह पिउणा वि अंगीकाउं तीरइ' । तओ कुमारेण भणियं 'तहा वि  
20 आणवेउ ताओ, न खल्ल उल्लवियाऽनिव्वहणे वि लाघवं वालिसाणं' ति । तओ राइणा 'पूरेहि रलियं' ति समा-  
णत्तो पवत्तो कुमारो तमन्नेसिउं, निउत्ता समंतओ चरपुरिसा, नोवलदो कोइ सन्निहियगामाइसु तहाविहो ।

- तओ तिरत्तंतपओसे कस्सइ असाहिऊण खग्गसहाओ निग्गंतूण नयराओ सुघ्नजुन्नुज्जाणाइसु परिव्वमन्तो  
निज्जायइ नाइदूरे गिरिकंदरे जलत्त जलणं । तओ 'कयाइ गिरिविवासी सो संभावीयड' ति भावयंतो गओ  
तयहुत्तं दिट्टो य तत्थ गुग्गुल-समिहाइहोमवावडो विज्जासाहगो । तओ 'सिद्धी होउ' ति भणंतो गओ तयंतिए ।  
25 तस्सन्निहाणेण बहुकिलेससज्जो वि तक्खणमेव सिद्धो से खेत्तवालो, पभणिओ य 'सिद्धो हं भवओ एयसप्पुरि-  
समाहप्पेण, महाणुभावो खु एसो, न पहवंति एयसमीवे मईयविभीसिगाओ ति काउं, अन्नहा ताहिं तुमं निहणं  
पाविओ हुंतो' । तओ तेण समुप्पन्नमहापमोएण पूइऊण 'सुमरिएणाऽऽगंतव्वं' ति वयणपुव्वं विसज्जिओ खेत्त-  
वालो । कुमारो वि भणिओ 'महासत्त ! सागयं भवओ होउ, कओ तए इह विहियागमणेण ममाणुग्गहो, ता  
भण किं ते संपयं संपाएमि ?' ति । कुमारेण भणियं 'नयररक्खओ हं जलणदंसणाओ कोउगेणाऽऽगओ म्हि,  
30 संपन्नं च मम सव्वं तुम्ह मंतसिद्धीए । तओ 'अहो ! निरीहय' ति विम्हिएण पडिउवयारकरणुज्जएण य संलत्तं

१ 'क्यनि' ख१ ख२ ॥ २ सङ्केतः—“नल्लपणावि ति कार्येणापि” । 'प्रयोजनेनापि' ख१टि० ख२टि० ॥ ३ 'दुक्खायरेहिं  
ख१ ख२ ॥ ४ केणावि चोरधुत्तेण । इट्ठा जे०विना ॥ ५ सङ्केतः—“विहवो ति विघव-विगतस्वामिको यथा” ॥  
६ बला वि हीं जे० आ० ॥ ७ ज्ञाणेसु जे०विना ॥

साहणेण 'उदारचरिओ सि त्ति पत्थेमि किं पि' । कुमारेण वुत्तं 'मा एवमुल्लवेह, गुरु तुव्भे, ता आणवेह पओयणं' । इयरेण भणियं 'जइ एव ता न कायव्वो गुरुआणाभंगो, गिन्हाहि कोउगमेत्तफलं पढियसिद्धं रूवपरावत्तिणि विज्जं । कुमारेणावि ईसिविलिएण 'जं गुरु आइसंति' त्ति विन्तेण पडिच्छिया विज्जा, अवहारिओ पओगविही ।

एत्थंतरे 'हा ताय ! हा माय ! परित्ताहि परित्ताहि' त्ति समुच्छलिओ नयरंतेण इत्थियाकरुणसदो । 5  
'एसा काड वराई निज्जइ'त्ति पहाविओ तयभिमुहं कुमरो । जाव थेवतरं वच्चइ ताव पव्वयंतेण समायन्निओ रुन्नरवो । ताहे सिग्घयरं पहाविओ पव्वयाभिमुहो, निउणं पि निरुवयंतेण 'न दिट्ठं मणुस्सरूवं' ति सविसाओ परिभाविउं पयत्तो 'अवस्समिह पव्वए सो पावो परिवसइ, ता कहमणेगगुहागहणे गिरिम्मि तस्स विल वियाणिस्सं ? ति, अहवा इत्थीलोलो सो ता करोमि जुवडरूवं, तओ सव्वं सोहणं भविस्सइ' । त्ति चिन्तयंतस्स पहाया रयणी ।

तओ काऊण दिव्वंगणाणुगारिनारिरूवं निरुवयंतो दरीदुवाराइं वियरिउमारदो खरतरमारुयरयसमुच्छलं- 10  
तगुंजेसु गिरिनिगुंजेसु । खणंतरे दिट्ठो णेण तरुगहणंतरवत्तिदेवकुलियाओ नीहरंतो भूभगुंडियवयण-वाहा-जंधो कुंदकुंचलुज्जलनरद्विमालालंकियगल-मउलि-हिलामूलो अतुच्छपच्छियाविहत्थवामदत्थो एगो कावालिओ । तओ 'इह विभागे चेव इत्थियारुन्नसदो निसि निसामिओ, ता होयव्वमेण महाधुत्तेण, तहा वि न जुत्तं दंसणिणो सहस त्ति दंडकरणं' ति निच्छयत्थमेगत्य सिलायले निविसिऊण परुन्नो एसो । सदसव्वणाओ समागओ तमुद्देसं कावा- 15  
लिओ, दट्टूण य तं साइसयरूवं वियप्पिउं पवत्तो "अहो ! उवहसियतिलोयसुंदरीसुंदेरा एसा जइ कंहंचि मम वस-  
सुवेड ता रमणिहरणकिलेसविमुक्को हं विंदामि मणनिव्वुइं, 'दिवसो' त्ति नावसरो वलक्कारस्स, ता सामवयण-  
पुव्वमिमं नेमि ताव मढिगं" । ति संपहारिऊण भणिया कुमारसुंदरी 'सुयणु ! अणज्जो एस विही, जो तुमए वि  
जारिसीणं पहाणोवभोगजोगविग्गहाणमेवंविहं वसणसुवणमेइ, ता कहेहि ताव-किमेत्थ तुममेगागिणी ? कीस  
वा रुयसि ?' त्ति । कुमारेण वुत्तं 'रिसी ! तुमं अलंघणीयवयणो सि, अओ साहेमि जहद्वियं-अत्थि इओ उत्तेण  
सुसम्मनयराहिवसुओ अवराडओ नाम, सो य मम भत्ता जणएणावमाणिओ पत्थिओ विदेसं । तन्नेहमोहियाऽह- 20  
मणिच्छमाणेणावि तेण समं संपत्थिया । पसुत्ताणि य पओसें इह सिलायले । तओ सो निग्घिणमणो एगागिणिं  
मं पमोत्तूण न नज्जइ कंहं पि पउत्थो, मम जग्गणासंकिएण ऊसीसगाओ न गहियं खगं पि, एयं मे रुयणनिमित्तं'  
ति । कावालिएण भणियं 'सो चेव वराओ वंचिओ, न पुण तुम्हारिसीए अणाहत्तं होइ, न कूरो उल्लणेण धरि-  
ज्जइ, न कणयं घडणमोल्लेण वाहिज्जइ, ता अलं रुन्नेण, सरीरमेव सुत्थियं करेहि' । कुमारेण भणियं 'भयवं ! न  
जुत्तमेवं कुलंगणाणं पइविप्पओगे जीविउं, ता दंसेहि किं पि सुत्तित्थं जत्थ पाणच्चायं विहेमि' । तेण भणियं 25  
'सुंदरि ! जइ एव ता अत्थि एत्थ पुन्नमणोरह तित्थं, जो एत्थ तिरत्तं वसइ तस्सावस्सं चिरविउत्तं पि पियमाणुसं  
संघडइ, ता करेहि तित्थसेवं, किं निरत्थयमरणेण ?' । तओ विन्नायतयाकूएण 'जं गुरु आइसंति' त्ति वज्जरिए  
रायतणएण गया दो वि देउलियं । दिट्ठो तत्थ विडिचियदीहदाढाविगरालवयणो कत्थिया-कवाल-करवालकलिय-  
वहुकरकरालदसणो पंचवन्नवन्नयकलियसयलावयवो कट्टमयदेवो । 'कहमेत्थ न किं पि मोसं'दिसंइ ?' त्ति विय-  
कन्तं 'सुंदरि ! जणरंजणामेत्तमेयं देवरूवं, ता एहि दंसेमि सच्च पुन्नमणोरहदेवं' ति जंपिरो तं भुयाए वेत्तूण गओ 30  
तस्स पिट्ठओ कावालिओ पताडिओ चलणेण धरणिवट्ठं । तयणन्तरमुग्घाडियमेगाए पायालकूघगाणुगारिणीए



तरुणीए गुत्तदुवारं । 'एयाए समं तुमं पि देवाराहणं कुणसु, अहं पि कुसुमपत्तियं वेत्तूण तुरियमागच्छामि'त्ति  
 वित्तो पवेसिय कुमारं तालियदुवारो गओ कावालिगो । कुमारो वि विम्हियमणो 'लद्धं लहियव्वं'ति परितुट्ठो वचंतो  
 भणिओ तीए 'सुयणु ! कह तुममिमिणा दाणवेण पत्ता सि ?' । कुमारेण भणियं 'महई मम कहा, साहेहि ताव  
 5 तक्को कावालियेरुवेण दिवसे दिण्डमाणो भण्डिऊण रत्तीए सन्निहियनयरेहिंतो हरिऊण रयण-हिरन्न-धम्म-कन्नाओ  
 इह पायालमंदिरे पक्खिवइ, एवं संपिण्डियमणेण उव्वहसियसुरंगणाणं राया-ऽमच्च-सेट्ठि-सत्थवाहाडनंदणीणं तए सह  
 एगुत्तरं सयं, अहं पि पुण्डउरवासिईसरसेट्ठिणो भूया सुमदा नाम ।

अवहरिया मि रुयंती इमेण पावेण सयणमज्जाओ । एगागिणी सुदीणा जूहाहितो कुरंगि व्व ॥ २७ ॥  
 धरमाणेसु धराए सिखिवल-सयवलनरिंदसीहेसु । हा ! कह पाववसाओ परव्वसाओ वसामो ?' ति ॥ २८ ॥  
 10 इय भणिऊण रुवंती पडिवुत्ता सा पुणो कुमारेण । 'को पहवइ सुयणु ! जए अवस्सभावीण भावाणं ? ॥२९॥  
 वज्जन्ति गइंदा पन्नगा वि विहगा जलम्मि मीणा वि । भवियव्वयानिओगा को नाम न पावए वसणं ? ॥३०॥  
 अह कहसु कुओ एरिससामत्थमिमस्स पावकम्मस्स । जेणाखंडियमाणो सच्छंदो निव्वभओ भमइ ?' ॥ ३१ ॥  
 तीए भणियं 'न सम्मं सुणामि नवरं तिसंभ्रमचेइ । एगगमणो खग्ग पायालघरोवरे एत्थ ॥ ३२ ॥  
 तम्मि गहियम्मि एसो दिप्पन्तो दिणयरो व्व गयणेण । भमइ जह्दिच्छं भुव्वणोयरम्मि परिमुक्कभयसंको ॥३३॥  
 15 ता संभावेमि धुवं तस्सामत्थेण तेणयं कुणइ । तव्विरहिओ उ एसो दीसइ कावुस्सिपाओ' ति ॥ ३४ ॥

तओ कुमारेण 'दंसेहि मे तं खग्गरयणं', तीए वि 'एवं' ति बुत्ते पत्ताआ दो वि पायालभुव्वणव्वभन्तरं ।  
 तं पुण पुंजीकयरयण-भणि-कंचणं पायडविचित्तदूसकोसं विविहविसिद्धधम्मपडिपुन्नकोट्टागारं निवद्धमणिखंडमंडियमणि-  
 कुट्टिमं विचित्तंवरत्रिरइयउल्लोयं लवंतलं वूसयरयणकिरणुज्जोइयं पायालसग्गं व नागंगणाहिं वृह्दिं तरुणंगणाहिं  
 इओतओसंचरंतीहिं रमणीयमवल्लोयन्तो पत्तो कुमारो खग्गसमीवं । तओ—

20 'जइ सिज्जसि सुहडाणं वल-केसव-चक्कवट्टिपमुहाणं । ता मज्ज वि सिज्जसु चंदहास ! पायडियमाहप्प !' ॥३५॥  
 एवं भणिऊण गहियमणेण तं कयले, मुक्कं च तट्टाणे नियखग्गं । ताव य कयहाहारवं भणिय सेसनारीहिं  
 'पाहुणिगे ! समदुक्खा सि अओ ते हियमुवइस्सामो—

सो दुट्ठो पाविट्ठो जइ नाही एयवइयरं कह वि । तो सो जमो व्व कुविओ नेही जममंदिरं तुरियं' ॥ ३६ ॥  
 कुमारेण तओ भणियं 'धीराओ नियह कोउगं ताव । पेसेमि अज्ज तं चिय पँहेणयं नणु कयंतस्स' ॥ ३७ ॥  
 25 एत्थंतरे उग्घाडावियं दुवारं कावालिण, उग्घाडियं च भयवेविरंगीए एगाए । कुमारो वि ठिओ पयइ-  
 रुवेण, तं च दट्टूण विम्हियाओ सव्वजुव्वईओ गहियाओ हरिस-विसाएहिं ।

कावालिओ वि कुमारं दट्टुं कोवानलेण दिप्पंतो । मोत्तूण कवडवेसं खग्गहराओ गहियखग्गो ॥ ३८ ॥  
 पत्तो कुमरसमीवं तो भणिओ हक्किऊण कुमारेण । 'रे रे ! नट्ठो सि अणज्ज ! अज्ज नियदुट्टुचेट्टाहिं ॥ ३९ ॥  
 काऊण चिरं पावं अणुहवसु फलाडं संपयं पाव ! । को वा चिरमिह जीवइ जीवो विसभोयणासत्तो ?' ॥ ४० ॥  
 30 इय भणिओ सुट्टुयरं आरुट्ठो तक्को पहरमाणो । कुमारेण तहा पहओ जहा गओ दुत्ति पंचत्तं ॥ ४१ ॥  
 दट्टूण तं वरायं कीडयपायं कयाऽन्नणिनिवायं । गरहियनियववसाओ सविसाओ निवसुओ जाओ ॥ ४२ ॥

१ कुमरो जे०विना ॥ २ भमडिऊण भ्रा०, ख२प्रतौ सशोधितपाठ ॥ ३ 'याभियोगा जे०विना ॥ ४ संकेतः—'पहेणयं  
 ति लेहणय' । भोजनमित्यर्थ ॥

चित्तइ सलज्जवयणो 'अहो ! अणज्जेण हयकयंतेण । एगंताऽपोरुसपुरिसघायणे कह निउत्तो च्छि ? ॥ ४३ ॥

दूरे ता छणहरिणंकिंकिओ सुहडवल्लहजसोहो । रणकेलिसुहं पि खणं पि नो मए पावियं एत्तो' ॥ ४४ ॥

अह नायतयाकूओ 'महाणुभावो' त्ति विम्हयप्फुत्तो । तं पुलइउं पवत्तो अणमिसनयणो वहुनिवहो ॥ ४५ ॥

भणियं च ताव गिरिसुदरेण 'साहेह पंकयच्छीओ ! । जा जत्थ पराणिज्जउ भोईओ ! अज्ज तुम्हाणं ॥ ४६ ॥

ताहिं पि सुमहावयणाओ 'सिरिवलरायनंदणो गिरिसुदरकुमारो इमो' त्ति नाऊण पाउवभूयपेमरागाहिं लज्जो-  
णउत्तमंगाहिं भणियं—

'लज्जामोऽणज्जाओ दाइंतीओ सुहाइं एत्ताहे । सह पंसुकीलियाणं विसेसओ वंधव-गुरूणं ॥ ४७ ॥

ता दाणि तुमं सरणं, मरणं वा सामि ! सामिनिहयाणं । विहिणां विहिणा वि विणा सव्वासिं निच्छओ एस ॥

इय कुणसु पालणं जालणं व जलणेण दीणपणयाणं । करुणेकरसा सुयणा जुत्ता-ऽजुत्तं न हि वियंति' ॥४९॥

एवकयनिच्छयाओ ताओ दट्टूण फुरियकारुत्तो । परिभाविउं पवत्तो कुमरो रंजियमणो मणयं ॥ ५० ॥ 10

'ही ! विसमं विहिलियं जमेरिसीणं पि एरिसं वसणं । जायं पराभिओगा सुद्धसहावाण सुद्धाण ॥ ५१ ॥

न तरामि मरंतीओ दट्टुं एयाओ दीणवयणाओ । ता होमि अणाहाणं नाहो एयाणमवियारं' ॥ ५२ ॥

एवं संयहारिऊण निवारियमरणववसायं ठिओ ताहिं सममभिरमंतो मासमेत्तं । अन्नया संभरियभाइसिणेहो  
संठाविऊण पणइणीओ कयरुवपरावत्तो खग्गसहाओ गओ पुण्डुर । दिट्ठं च त असुव्वंततूरनिग्घोसं अदीसंतमहूसवं ठाणे  
ठाणे सोयमाणमाणवसमूहं अकीलंतवाल-जुवाणं । तओ सवियकं पुच्छमाणस्स निवेइयं केणावि जहा 'भो पाहुणग !  
दूरागओ इव लक्खीयसि जमेयं पुच्छसि, ता सुणाहि कारणमेत्थ-चौरनिग्गहणत्थं निग्गओ न पडियागओ राय-  
सिरिवलनंदणो गिरिसुदरकुमारो, तन्निमित्तं च सोयमहन्नवनिवडियस्स रायाऽलोयस्स किच्छेणाइच्छिओ मासो,  
अज्ज पुण जुवरायनंदणो रयणसारो सारो इव सयलरज्जस्स कहिंचि पउत्थो त्ति सविसेसं दुक्खासिया वट्टइ' त्ति ।  
त्तं वज्जप्पहारदारुणं वयणमायन्निऊण संभंतचित्तो निग्गंतूण नयराओ पवत्तो भायरमन्नेसिउं गिरिसुदरो । कहं ?—

उप्पयइ खणं गयणे, खणं निहालेइ गाम-नयरेसु । आरुहइ गिरीसु खणं, खणं निरुवेइ विविणाइं ॥ ५३ ॥ 20

देसियसहासु निवसइ, मग्गइ णेगासु सत्तसालासु । गामपरिसासु पुच्छइ, अन्नेसु वि आसमाईसु ॥ ५४ ॥

अगणियतन्हुन्हसमो दूरियनिहो अनायअसणाओ । भमिओ चिरं धराए अलहंतो कत्थइ पउत्ति ॥ ५५ ॥

अल्लीणो य कयाई रयणीगमणाय गामदेवउलं । विविहदेसागयाणं निसुणइ पहियाणमुत्तावे ॥ ५६ ॥

— जहदिट्ठविसिट्ठेरेयाइं साहितयाणं अन्नोन्नं । एगेण तत्थ भणियं-भो भो ! किं आलजालेहिं ? ॥ ५७ ॥

सुणह ताव मए दिट्ठनिसुयं महवभुयं—

25

अहं खु देसदंसणकोउगाओ परिभमंतो पत्तो एगं उव्वसदेसं । तत्थ य सरलाविरलवरुय-रोहियंस-कुस-  
विकुसाइतणगणनिरुद्धदिट्ठिपसरे सच्छदचारिरुरू-रोज्ज-सरह-वराह-संवर-चित्तय-चित्तलाइवणजंतुविसरे वणसेरिहा-  
विरहियविरायंतमहंतवेसंतं अणुच्चीयमाणकुसुम-फलारामाभिरामगाम-नगरोवन्ते कीलतवलीसुहकुलाकुलसिहरविहा-  
रसारे निरुवहयवल्लीगहणहुस्संचारे य मूढदिसो भमंतो कइवयदिणन्ते मिलिओ तियसकुमारायमाणमुत्तिणो एगस्स  
रायतणयस्स, समासासिओ तेण, जाया कालोचियपीई । अन्नया दट्टूण सुन्नगरं रमणीयं ति सकोउगा पविट्ठा 30

१ पवन्नो जे० ॥ २ सुहाइमेत्ताहे ख०२ ॥ ३ सङ्केतः—“सामिनिहयाण ति अर्द्धमारितानाम्” ॥ ४ संकेतः—  
“विहिणा [ विहिणा ] वि विण त्ति क्रमेण आचारेण विनापि” ॥ ५ सङ्केतः—“असणाओ त्ति अशनाया-बुसुक्खा” ॥ ६ णम-  
न्नोन्नं जे०विना ॥ ७ सङ्केतः—“व(वि)संते त्ति वसंत-पिबल(वेशान्त-पत्त्वलम्)” ॥ ८ 'लविहार' जे०विना ॥

तयब्भंतरं । निरुव्वंताण य गओ अहंसणं दिवायरो । तओ रयणिअइवाहणत्थं ठिया एगत्थ पासाए । पसुत्तो अहं, पजग्गिओ रायपुत्तो ।

एत्थंतरे छिप्पेप्पहारायंपियपिहूपुहइवीढो गहिरिगुंजियारावरावियसावयवियाणो समागओ तमुद्देसं लुहियवग्घो भणिउं च पवत्तो 'भो रायपुत्त ! लुहिओ हं ता देहि मे एयं पुरिसं, करेहि पाणरक्खं, दयापहाणा खु महाणुभावा भवंति' । रायसुएण भणियं 'न एस मम पाणेसु धरंतेसु लब्भइ ता ममं चेव भुंजाहि' । ड्यरेण भणियं 'आयर-  
5 क्खणं चेव रायनीइसारो, ता देहि ममेयं, चिट्ठसु तुमं कुसलेण' । कुमारेण वुत्तं 'सरणागओ ममेस, तुमं पि भोयणत्थी पत्थेसि, ता होउ खणभंगुरेण सरीरेण दोन्हं पि जीवैरक्खा, एस चेव मम लाभो । जओ भणियं—  
किं जीविएण ? किं वा धणेण ? किं पौरुसेण पुरिसाण ? । जायइ जओ न जीयं सरणागय-दीण-पणयाणं' ॥५८

एवमुत्तरपडिउत्तरेहिं किंचि कालमच्छिय लद्धनिच्छएण समुल्लवियं पुँल्लिणा 'अहो महासत्त ! साहु ते  
10 सरन्नया, तुट्ठो मि संपयं पत्थेहि किं पि' । रायसुएण भणियं "चिट्ठउ ताव सेसं, 'को तुमं ?' ति साहेहि तत्तं" ।  
तेण भणियं 'देवो हमेयदेसाहिवो' । 'जइ एवं किमेवमुव्वसो एसो ? त्ति वाढयरं विम्हओ मे । अवि य—  
पागयनरो वि निययं पुराइ सव्वायरेण वासेइ । मणचित्थियकज्जकरा किं नाम सुरा न वासित्ति ?' ॥ ५९ ॥  
इय पुट्ठो ढणुतणुओ पयासिउं पयइसुंदरं रुवं । वज्जरिउं पारद्धो परमत्थं पत्थिवसुयस्स ॥ ६० ॥

'एत्थेव पुहइसारे गधारे सयलसिरिकुलागारे । नयरम्मि रम्मरम्मे रिउ-कुँसुमालाण दुग्गाम्मे ॥ ६१ ॥  
15 आसि पयावपयंगो सोसियसीमालपत्थिवपयंगो । नरनाहो नयसारो रविचदो लद्धज्जयसारो ॥ ६२ ॥  
रइचद-कित्तिचदा तस्स य दो आसि वल्लहा पुत्ता । सव्वत्तो पसरियकित्तिक्कंतिणो चंद-सूर व्व ॥ ६३ ॥  
राय-जुवराय भावं तेसिं दाऊण रायरविचंदो । पुव्वपुरिसाणुचिन्नं वणवासवय समल्लीणो ॥ ६४ ॥

तओ रइचदनरिंदो पुन्निमाचंदो व्व अखण्डमण्डलो सूरुओ व्व फारप्फुरंतपयावपूरियदियंतरो निरव्वज्जं रज्ज-  
मणुपालिउं पवत्तो । नवरं गंधव्वाइविणोयवल्लहयाए गंभीरगरुयभावाओ य 'अत्ताणनिव्विसेसो' त्ति निउत्तो णेण  
20 सव्वरज्जकज्जेसु कित्तिचदो । सो वि वसीभूयभंति-सामंतो गहिओ रज्जगिद्धीए, अभिभूओ महालोभेण, अहिट्ठिओ  
दुट्ठाहिमाणेण । तओ अणावेक्खिऊण कुलकलंकं, अगणिऊणायसपंकं, अनिरुविऊण परिणामं कीलापमत्तो वंधा-  
विओ णेण रइचदो, समाड्ढो वज्जो । तओ सवेरगं भणियमणेण—

'भो भाइ ! न जुत्तं चिय सव्वावियभाउणो विणासेण । कुँदिदु-संखँविमले कुलम्मि मसिकुचयं दाउं ॥ ६५ ॥  
जइ रज्जलालसो तं ता दिन्नं चेव तुह मए एयं । किं वारिओ सि कस्सइ दिंतर्हरितो मए वच्छ ! ? ॥ ६६ ॥  
25 गणणाईएहिं पुरा भुत्ता भूवेहिं भो ! इमा पुइई । न गया केणावि समं वायावद्धा णु किं तुज्झ ? ॥ ६७ ॥  
कस्स थिरा रायसिरी ? कस्स व समवत्तिणा समं पेमं ? । को सुकय-दुकयाणं फलं न पावेइ कम्माणं ? ॥ ६८ ॥  
ता वच्छ ! तुच्छपुहलोहमोहिओ मा कुलं कलंकेहि । न हि पावविलसियाणं सुहावहो होइ परिणामो ॥ ६९ ॥  
चिरकालप्पियनिव्वसंपओ वि जइ पत्तियाहि नो मज्झ । तायाणुचिन्नमग्गे लग्गामि अह पि ता मुंच' ॥ ७० ॥  
इय भणिओ वि न गच्छइ विस्सासं तस्स सो महापावो । पेच्छंति पावसीलं पायं पावा अपावं पि ॥ ७१ ॥  
30 जाहे न चेव मुंचइ ता पुणरवि जेट्ठभाउणा भैणिओ । 'जइ सव्वहान मुंचसि तहा वि मा होउ ते अयसो ॥ ७२

१ सङ्केतः—“छिप्पेप्पहार त्ति पुच्छप्रहार” ॥ २ जीयरक्खा खर ॥ ३ सकेतः—“पुल्लिण त्ति व्याघ्रेण” ॥ ४ संकेतः—“कुँसुमालाण त्ति चौराणाम्” ॥ ५ 'जयपसरो जे० ॥ ६ रज्जगेहीप ख१ ॥ ७ 'खधवले आ० ॥ ८ 'हरंतो जे० विना ॥ ९ भणियं जे० ॥

साहेमि सयं जलणं चियं रेयावेहि मे तुमं वञ्च ! । अत्राहदूसिओ तं विस्सससि न मे जियंतस्स' ॥७३॥

तओ 'मम मणोरहाणुकूलमेयं' ति भाविऊण कारिया णेण महई चिया, आरोविओ सभारिओ तत्थ राया, पज्जालिओ समंतओ पलयकालाणुगारी हुयासणो । तओ तिक्ववेयणाभिभूओ मरिऊण रइचदो जाओ सुयरमण-जक्खो, सो य अहं । सरिऊण य निकारणवेरियं कुविणण मए खित्तो समन्ति-सामंतो अन्नदेसंतरेसु कित्ति-चंदो । उप्पायदंसणाउलाओ पलाणाओ दिसोदिर्सि पयाओ । अहं पि एयमुक्वसियदेसमहिद्विऊण पमोयनिब्भरो 5 चिट्ठामि । दट्टूण य तुब्भे कोवाउरो छलिउकामो उहागओ म्हि, उवसन्तो य तुह महासत्तयाए ।

एस मए तुह सिट्ठो परमत्थो भणसु संपयं जं ते । संपाडज्जउ सज्जण ! होइ अमोहो सुरालोओ" ॥ ७४ ॥

पच्चाह निवसुओ तं 'सुदुल्लहं देवदंसणं भुवणे । दित्तेण तए तं मे अणुग्गहो को कओ नेव ? ॥ ७५ ॥

पत्थेमि तह वि सुरवर ! देसं वासेहि संपयं एयं । रोसो वि तओ छज्जइ फलइ पसाएण जो पच्छा' ॥७६॥

भणियममरेण एवं 'पडिवज्जसि जड तुमं चिय पट्टुत्तं । अन्नस्स रायसइं न सट्ठामि जओ अहं एत्थ ॥ ७७ ॥ 10

जुत्तं च सव्वहेयं परोवयारुज्जयस्स तुह कुमर ! । अन्नह ममावि नियमा न होइ मणनिव्वुई जेण ॥ ७८ ॥

अब्भुवगओ पवासो जस्स कए नेहमोहिणण तए । सो वि पियबंधवो ते मिलिही एत्थेव मासंते' ॥ ७९ ॥

एयमायन्निऊण सहरिसं 'जमाणवेह' ति वुत्ते तेण रायएत्तेण पत्तपरिओसो तिरोहिओ जक्खो । मए वि विम्हयाइरेगावगयनिद्वेण खणंतरे भणिओ कुमारो 'मित्त ! चिरं जग्गिओ सि, संपयमणुह्वहि निद्दामुहं, अहं पाह-रिगो भवामि' । 'एवं' ति भणिऊण पसुत्ते तम्मि तप्पभावभीया इव झत्ति पलाणा रयणिरक्खसी, तदंसणकोउगि 15 व्व समारूढो उदयगिरिं हरियस्सो, पत्ता य समन्तओ दरियतुरयस्वरसुरग्गाभिघायरसंतरसायला सामन्तपुत्ता । किं बहुमा ?

अहिंसिचिऊण रज्जे तं कुमरवरं पमोयमावन्ना । परिकील्लिउमारद्धा पुराणविहिणा जणा तत्थ ॥ ८० ॥

कुमरो वि सयलसामन्तकन्नयापाणिगहणमह काउं । खाओ देवपसाओ नामेण महानिवो जाओ ॥ ८१ ॥

भणिओ य तेण अहयं 'सहजोएणऽज्जियं इमं रज्जं । भुंजामो सहजोएण चेव ता संपयं मित्त ! ॥ ८२ ॥ 20

अहवा तुममेवेमं पालेहि अहं तु कारणवसेण । अज्ज वि वियरामि मर्हि' मए वि सो एव पडिभणिओ ॥८३॥

'तुह पुन्नेहिं महायस ! रायसिरी उवणया अणन्नसमा । अन्नेण कओ भुज्जइ मारिससामन्नपुरिसेण ? ॥ ८४ ॥

आडट्ठो मासंते सुरेण तुह भाउणा समं जोगो । ता चिट्ठ निव्वुयमणो हमेव मग्गामि तुह बंधुं ॥ ८५ ॥

नवरं महामि नाउं सयलं तुम्हाण पुव्ववुत्तं । हेउं च विप्पओगे तव्वंधवनामधेयं च' ॥ ८६ ॥

सिट्ठं च तेण जह "किर चोरग्गहणाय निग्गओ धीरो । न हि नज्जइ 'कत्थ गओ ?' गिरिसुंदरवधवो मज्झ ॥८७॥ 25

मगंतेण य सव्वायरेण देसंतराणि तुरिएण । पत्तं पउत्तिमेत्तं पि नो मए अज्जपज्जंतं ॥ ८८ ॥

का नाम रज्जतन्हा मित्तय ! मे बंधुविप्पउत्तस्स । सुमरंतस्स य तायाइयाण तव्विरहसंताव ? ॥ ८९ ॥

ता गिन्ह तुमं रज्जं, अहं पुणो अन्निसामि तं चेव । जलणालिद्धं व दहं डज्जइ मे तं विणा अंगं" ॥ ९० ॥

भणियं च मए 'तुह विरहचिच्चिणा डज्जमाणहिययस्स । पीडं मे उप्पायइ रज्जं वज्जं व निवडंतं ॥ ९१ ॥

सुमरंता सुरवयणं ता चिट्ठ देव ! निव्वुया तुब्भे । अहमेव तुम्ह हिययस्स वल्लहं लहु लहिस्सामि' ॥ ९२ ॥ 30

एवमाइविचित्तजुत्तीहिं संवोहिऊण निग्गओ हं सव्वायरेण गवेसणे ।

ता भो ! पुच्छामि विचित्तदेसतराणए भवंते 'दिट्ठो केणावि कर्हि पि मम सामिसालो व्व उत्तमचरिओ

कोइ पुरिसो ? जेणहुत्तो वच्चामि, सव्वहा महई मणोवाहा मम पहुणो, पुन्नप्पाओ य सुरभणियमासो वट्ट ति ।  
अवि य—

जइ कह वि दिव्वजोगा न मिलिस्सइ मज्झ सामिणो वंधू । मन्ने अब्भुवगमिही मरणं पि तओ दुहत्तो सो' ॥९३

एवमायन्निज्जण निच्छियरयणसारेण ससंभमेण भणिय गिरिसुदरेण 'भो महासत्त ! सुयणसिरोमणी तुमं पि

नज्जसि, जो मित्तपओयणे एवं संतप्पसि, जओ—

सहजायं पि सिणेहं मुंचंति खला तिल व्व पीलाए । दुगुणंति जललवा इव सुयणा तक्कालमिलिया वि ॥९४॥

ता किं बहुणा ? दंसेहि मे तं देवपसायनरिंदं जेण करेमि तओलग्गाए जम्मसाहलं । सव्वहा

तह से मणो हरिस्सं नाणाविन्नाण-विणयवयणेहिं । जह न भरिस्सइ नियबंधवस्स अवि सुट्टुट्टइयस्स' ॥९५॥

इयरेण भणियं 'एवकारितेण तए चेव जीवाविओ भवामि' । तओ सहरिसा संचलिया दो वि अरुणोदए ।

10 वाहुलग्गियाए सुमरियं खग्गं गिरिसुंदरेण, तप्पभावेण उप्पइया दो वि नहंगणे, पत्ता य सिग्घं गघारनयर, जाओ  
रयणसारदंसणेण महाणंदो गिरिसुंदरस्स । इयरेणावि ओहसन्नासमावन्ननेहेण 'को एसो ?' ति पुच्छिओ मित्तो ।  
तेणावि 'एस विज्जावंतो देवदंसणकोउगेणेहाऽऽगओ' ति साहिए कारिया दोन्हं पि राडणा पडिंत्ती । दिट्ठो  
गुरुबुद्धीए गिरिसुंदरो । अवि य—

तमपेच्छंतो राया मुणइ मुहुत्तं पि वच्छरायंत । तदंसणम्मि पुण वासरं पि नांडीलहुं मुणइ ॥ ९६ ॥

एवमइकंता कइ वि दियहा ।

तो चित्तइ नरनाहो 'अइच्छिओ एस ताव मासन्तो । न य पत्तो मे भाया सुरो वि किं अन्नहावाई ? ॥ ९७ ॥

अहवा किं बहुएणं ? पाणच्चायं विणा न एयस्स । दुक्खस्स होइ अंतो साहेमि हुयासणं तम्हा' ॥ ९८ ॥

सिट्ठं जहट्टियमिणं गिरिसुंदर-सहयराणमागुयं । गिरिसुंदरेण तत्तो बुत्तं 'नेयारिसं जुत्तं ॥ ९९ ॥

जओ—

20 बहुगुणसव्वणक्खित्तो विहिगंधवहेण एत्थं हं खित्तो । तुमए वि सुट्टुट्टिद्वो चिरमिलियजणो व्व हियइट्ठो ॥  
इय पीइसुहातित्तो निच्चुयचित्तो नरिंद ! जाओ हं । एत्ताहे पुण जंपसि किमेरिसं कम्मसुलकरं ? ॥ १०१ ॥

अप्पं काज्जण सुहं आजम्मं विरहफुंफुंमादाहं । जं देसि नणु किमेयं उचियं ते छेयपवरस्स ? ॥ १०२ ॥

जइ एसा आसि मई ता एवं कीस मोहिया अम्हे ? । दाज्जण निहाणं न हु कयाइ जुत्तो सिरच्छेओ' ॥१०३

सोज्जण गिर गिरिसुंदरस्स पडिभणइ रयणसारो वि । 'देवेण समाट्टो मासंते भाइजोगो मे ॥ १०४ ॥

25 न य मे सो संजाओ ता संपइ पौणिउं न पारेमि । ता अणुजाणाहि खमाहि विरइयं जं मएऽणुचियं' ॥१०५॥

आह गिरिसुंदरो तो 'न अन्नहावाडणो सुरा हुंति । अहमेव वंधवो ते आइट्टो नूण देवेण ॥ १०६ ॥

अहमवि वंधुगवेसणनिमित्तमवणीयल परिव्वभमिओ । तुह दंसणसंतोसा विरओ परियडणववसाया ॥ १०७ ॥

इय मज्झ संगमाओ तुमं पि उवरमसु एयववसाया । तुल्लकिरियापवित्ती सारो नेहस्स जं होइ' ॥ १०८ ॥

एयं सोज्जण चित्तियं रयणसारेण 'अहो ! आसंयसारो भावगरुओ य एयस्स समुल्लावो, अत्थि य गिरि-

30 सुंदरम्मि व ममेयम्मि नेहसारा गुरुबुद्धी, देवो वि तहापसायविहाणाओ न मिच्छावाई संभवड, मिलिओ य मज्झेस

१ पवकारिं जे-विना ॥ २ घटिकाल्पकालप्रमाणमित्यर्थ ॥ ३ एत्थं हक्खित्तो त्रा ॥ ४ संकेतः—“फुंफुं ति ऊरु-  
लामि” ॥ ५ “जीवितुम्” खरटि० ॥

देवाइद्वदिणे, ता ह्योयव्वमिमिणा मंताइमाहप्पविहियरुवंतरेण गिरिसुन्दरेण, संभवन्ति य देसंतरविहारे विचित्त-  
सिद्धीओ साहसेक्कधणाणमुत्तमजणाणं' ति ।

इय निच्छिऊण हियए भणियं 'जइ नाम तुल्लवित्तिचं । नेहम्मि पसंसिज्जइ ता एसो किं असब्भावा ? ॥१०९  
अवि य—

सब्भावी सब्भावियजणम्मि, उव्वयारियम्मि उव्वयारी । धुत्तेसु महाधुत्तो, वियक्खणो सव्वहा होइ ॥ ११० ॥ 5  
एत्थन्तरे 'लक्खिओ म्हि' ति सहरिसो जाओ सहावत्थो गिरिसुदरो । तओ 'चिराओ दिट्ठो' ति सउक्कंठो,  
'सुट्ठु लक्खिओ' ति सहरिसो, 'असंभावणिज्जख्वो' ति सविम्हओ, 'एयविरहे जीविओ म्हि' ति सहिरिओ,  
'गोरवारिहो' ति ससंभमो सव्वहा महानाडयाडोवो व्वाणेगरत्तारंभरमणीओ अपत्तपुव्वामंदाणंदमणुहविउमारद्धो  
रयणसारो । किं वहुणा ?

आणंदविम्हयघणं घणघोसतूरं, तूरंतवारविलयं लयतालसारं ।

10

सारंगहाररमणीरमणीयमगं, मगंतपत्तमहियं महियंगलयं ॥ १११ ॥

जायं मणाभिरामं सवाहिरब्भंतरे पुरे तेसिं । वद्धावणयं सुसिणिद्धवंधवाणं समाओगे ॥ ११२ ॥

तओ वि अन्नोन्ननिवेइयनियवुत्तंता ठिया तत्थ केइ दिणे । अन्नया खेत्तवालाणुमएण 'महोवयारि' ति  
अहिसित्तो णेहिं महसेणनामो पुव्वोइयसहयरो रज्जे । भणिओ य—

'तं तइयवंधुभूओ वट्ठसि अम्हाण माणसे धणियं । अकयपडिक्खसंको ता चिट्ठसु सुंजिरो भोए ॥ ११३ ॥ 15

अम्हे उ विरहविट्ठुरियजणणी-जणयाणमाणणमयका । अवणेमो सोयकलंकपंकमुक्कंठिया गंतुं ॥ ११४ ॥

इयरेणावि पवुत्त 'अहयं आएसकारओ तुम्ह । न उ पारद्धविघाई ता वट्ठिस्सं जहाऽऽइट्ठं' ॥ ११५ ॥

एवं कयसंभासा पउणीकयकरि-रहोह-जोहा-ऽऽसा । तूररवुप्फुन्नासा चलिया ते दो वि पुन्नासा ॥ ११६ ॥

तओ पूडज्जंता परिब्भंतंतरालनरिंदेहिं, पलोइज्जंता भउब्भंतभामिणीसंसिलिट्ठकंठपुलिद्विंदेहिं, संकिज्जंता  
कयावराहपणट्ठदुट्ठसेवएहिं, निहालिज्जमाणा गयणंगणययखयर-देवएहिं कमेण पत्ता सच्छंदचारिगोहणाणुमग्ग-  
लम्भावलायावलिविसंयं पुडविसयं । तओ वि पेच्छमाणा गुरुतोरणाभिरामे गामे, विसट्टहट्टसोहे पुरोहे<sup>२</sup>, अज्झयण-  
पयट्टमट्टसारे अग्गाहारे, घणगंभीरतूररवुल्लासियपणच्चंतमोरपउरं पुडउर पि ति ।

विन्नायसुयागमणो सिखिलराया वि सयवलाईहिं । सहघुट्टसागओ हरिससंगओ निग्गओ समुहो ॥ ११७ ॥

दट्टूण महारिद्धिं जणया तणयाण विम्हिया दो वि । पभणंति 'अहो ! धन्ना पुन्नब्भहिया इमे कुमरा ॥११८॥

ताव य पायचारेहिं पणमिया कुमारेहिं । तेहिं वि नेहनिब्भरमालिगिया कुमारा । एत्थंतरे पडुपडहपाड-  
पडंसुयैहलवोलमुहलियनहयलो संगीयसणाहजयजयरवसंवल्लिओ समुच्छलिओ मंगलतूरसदो, पवत्तं जणमणविम्हा-  
वणयं वद्धावणयं । तओ—

कं पि अउव्वसरुवं आणंदममंदमणुहवंता ते । सव्वे पुरं पविट्ठा धावंतखलंतमिलियजणं ॥ ११९ ॥

निव्वावियं च चिरविरहतावियं अम्मयाण मणभवणं । आणंदवाहसारं कयप्पणामेहिं कुमरेहिं ॥ १२० ॥

वद्धावणयपमोए वट्टंते अवसरम्मि नरवइणा । कोऊहला सहेलं भणिओ गिरिसुदरकुमारो ॥ १२१ ॥ 30

'ता कहसु वच्छ ! सो दुट्टतकरो कत्थ पाविओ तुमए ? । कह तस्स निग्गहाओ पुरस्स खेमं कयं तुरियं ?' ॥१२२

- वृज्जरइ तो कुमारो जहद्वियं चोरचेद्वियं दिट्टं । निययं च चारुचरियं समागमंतं अमज्जंतो ॥ १२३ ॥  
 पभणइ तओ नरिंदो 'नत्थि असज्जं जयम्मि पुरिसस्स । जम्मन्तरनिव्वत्तियपवित्तपडिपुन्नपुन्नस्स ॥ १२४ ॥  
 अइगरुयकज्जभारे इमेण बालेण पउणिओ खंथो । निव्वूढो सो वि सुहेण कहमहो !? उयह नणु चोज्जं ॥ १२५ ॥  
 वालिसभावेण घराओ निग्गओ रयणसारकुमरो वि । जक्खेण कओ राया अचिन्तपुन्नाणुभावेण ॥ १२६ ॥  
 5 ता इच्छामो नाउं दोन्ह वि एयाण पुव्वभवचरियं । जइ पेच्छामो अइसयनाणडुं सुहगुरुं कं पि' ॥ १२७ ॥  
 एवं च सकोउगं रायाणमवगच्छिय जंपियमुवरोहिणण 'देव ! अत्थि चेव तुम्ह नयरे कुसुमागरुज्जाणे उव-  
 संतमुत्ती कयकरणगामगुत्ती समुल्लसंतकंती गइसुंदेरोवहसियमत्तदंती अइसयनिरीहवित्ती भुवणव्भंतरभमिर-  
 विमलकित्ती आगरो गुणरयणाणं, परमूसवो जणनयणाणं, मण्डणं वसुमईए, उप्पायगो नवनवसुमईए, परोवयार-  
 निरओ दूरियंपरावयारनिरओ सयलजणमणोवित्तिजाणओ समत्थदुत्थजंतुसंताणताणओ कुरुदेसाद्विवनंदणो जयनदणो  
 10 नाम महामुणी, तक्केमि तस्समीवगमणे मणोरद्दाईयसयलकल्लाणसंपत्ती देवस्स, एवं ठिए देवो पमाणं' ति । तओ  
 सयबलाईहिं 'सोहणं सोहणमेय'ति संलत्ते परिओसपीऊसरसाऽऽसाउल्लसंतचित्त-गतो मग्गालग्गसमग्गसामग्गीसणा-  
 हंमंति-सामन्त-सेट्ठि-सत्थवाहाडमहासत्तसत्तो पत्तो कुसुमागरुज्जाणं पुहइनाहो । वंदिऊण य विहिणा गुरुं गुरुपरियरं  
 च समासाइयधम्मंघग्गाउसो उवविट्ठो उचियपएसे ।  
 तो तस्स पुहइपहुणो तीसे य महालियाए परिसाए । पारद्धा धम्मकहा मुणिवइणा गहिरघोसेण ॥ १२८ ॥  
 15 'भो भो ! भावेह फुडं कम्मोहिं सुभा-सुभेहिं संसारे । संसरइ सया जीवो उच्चा-ऽणुच्चासु जाईसु ॥ १२९ ॥  
 होइ सुरो नेरइओ वि एस तस थावरो विगल सगलो । जल-थल-खहयररुवो कीड-पयंगाइवहुभेओ ॥ १३० ॥  
 मणुयत्ते वि नरिंदो रोरो धणसामिओ दरिदो वि । पंडिय मुक्खो दुक्खी सुही कुलीणो निहीणो वि ॥ १३१ ॥  
 आरिय मेच्छो रूवी विरुवओ दुव्वलो वली पुज्जो । परिभवणिज्जो सुयणो पिसुणो य विचित्तकम्मोहिं ॥ १३२ ॥  
 गुरुकम्मरासिवसओ काल-सहावाइवलियहलिएहिं । जुप्पइ भवघडिजंते गइगहहिलासु चउसुं पि ॥ १३३ ॥  
 20 अज्जेइ जया पुन्नं अणुकंपाईहिं चित्तेहेऊहिं । तइया सुहमुवभुंजइ, पाणवहाईहिं दुक्खाइं ॥ १३४ ॥  
 जइ पुण कुणइ विसुद्धं जिणमुणिवरियं निरीहहियएण । ता कम्मपासमुक्को पावइ अचिरेण नेव्वाणं ॥ १३५ ॥  
 तत्थ न जरा न मच्चू न रोय-सोया न संगम-विओया । निरुवममक्खयसोक्खं वेयंति संमं सया जीवा ॥ १३६ ॥  
 ता भो महाणुभावा ! जम्म-जरा-मरणहरणचउरम्मि । निस्सेसदुरियहरणे चरणे निच्चं समुज्जमह' ॥ १३७ ॥  
 इय मुणिवइणो वयणं सोऊण पमोयनिव्वरमणेण । भणियं सिरिवलरन्ना 'आइट्टं सुट्टु पुज्जेहिं ॥ १३८ ॥  
 25 ता कायव्वमवस्से एवमिणं नवर कोउगवसेण । इच्छामो सोउं पुव्वभवकहं नियकुमारणं' ॥ १३९ ॥  
 कहिऊण पुव्ववत्तं वुत्तंतं मुणिवरेण संलत्तं । 'किं नाम न कल्लाणं जइधम्मो कुणइ भव्वाणं ? ॥ १४० ॥  
 अकलंकसंजमफलं सुइरं गेवेज्जेसु भोत्तूण । उवभुत्तसेसपुन्ना समागया तुह कुले एए ॥ १४१ ॥  
 तल्लेसप्पभवाइं अब्भुयभूयाइं एयचरियाइं । भासन्ति तुह नराहिव !, अम्हं तु न विम्हओ एत्थ ॥ १४२ ॥  
 जो मोक्खफलो धम्मो संसारफलेसु तस्स कि चोज्जं ? । धन्त्थिणो किसीए पलाललाभे किमच्छेरं ? ॥ १४३ ॥

१ संकेतः—“वृज्जरइ तो कुमारो” इति गाधान्ते इण्डपालचौरमोषार्पणानुसन्धान श्रोतृभिरपेक्षितमपि कविना केनाप्यभिप्रायेण न श्रुतम्, तथ तस्यातिगम्भीरमभिप्रायमजानद्विरितो गायतोऽवचेयम्—कुमरेण तओ कणयाइ अप्पिय सब्बमेव ज जस्स । रमणीओ वि हु अतेवरम्मि गुहयणओ वित्ता ॥” अत्र जे०सङ्गकपुस्तके मङ्कतानुसारिणी टिप्पण्युपलभ्यते, ‘सङ्केतनिर्विशेषेत्यत पृथग् नोल्लिखिता ॥ २ सङ्केत.—“दुरितं परापकार एव निरयो नरको येन” ॥ ३ संकेतः—“ताणओ ति प्राणद” ॥ ४ संकेत.—“धम्मघग्गाउसो ति घमांशीवादि” ॥ ५ सयं सया जे० ॥

अच्छेरयं तु एयं जं मुणिणो एगभत्तदाणेण । तुव्वे चत्तारि जणा एरिससुहभाणो जाया' ॥ १४४ ॥

एवं सोऊण सविम्हएण काउं सिरम्मि करमउलं । भणियं रन्ना 'भयवं ! कहेह ता कह णु एवमिणं ?' ॥१४५॥

इय विणयसारं राडणा पुच्छिओ परहियकरणव्वसणी वज्जरिउं पवत्तो जयनदणसूरी—

इहेव भारहे' सयलसिरिसंकेयट्टाणे पड्डाणे नयरे सुमेहकुलउत्तयस्स विञ्ज-सवराभिहाणा नय-विणयपहाणा दुवे पुत्ता होत्था । ते य उवरएस्स जणणि-जणएस्स तहाविहलाभंतरायकम्मोदयाओ नियनरिंदाओ उचियवित्ति- 5 मलभमाणा माणाइसएण पत्थिया कंचणपुर । अंतरा य एगम्मि नयरे कुल्लूरियावणाओ मण्डगाइ गहाय उज्जाणं पविसमाणा पेच्छंति मासोववासकिलंततणुं जुगंतरनिहिच्चनेत्तवित्ति पारणगनिमित्तं नयराभिमुहमुच्चलियं महामुणिं । तओ उदारभावाओ दिम्भभोडत्तेण 'अहो ! सोहणो अतिही अवसरे पावियो' त्ति समुल्लसियमेएसिं हिययं । तयणु 'एस सो मरुत्थलीए कप्पपायवोवलंभो, सा एसा दरिदमंदिरे हिरन्नवुट्ठी, सो एस मायगवरणणे सुरकरिपवसो, जमेयावसरे एस दिट्ठो' त्ति भावित्तेहिं तेहिं महासत्तेहिं रोमंचंचियगत्तेहिं पणामपुव्वं निमंतिओ महारिसी । 10 तेणावि अरत्तदुट्टेण तवभाववुड्ढिदहेउं भिक्खामेत्तगहणत्थं विहिणा धरिओ पडिग्गहो । ताहे आणंदवाहविंदुराइ-रायंतनेत्तोवत्तेहिं भत्तिभरपरव्वसचित्तेहिं पवड्डमाणदाणपरिणामेहिं वला वियरियं मुणिवरस्स पज्जत्तभोयणं ।

एत्थंतरे दिट्ठा ते उज्जाणजक्खपूयणत्थमागयाहिं रिद्धि-विद्धिनामाहिं रायकन्नयाहिं, भणिया य 'अहो ! सुदिम्भं, सुलद्धो भे मणुयभात्रो, सलक्खणा भुयडण्डा, पवित्तं वित्तं जमेवं भत्तिकलिएहिं पूइओ एस महप्पा, 15 सव्वहा दिम्भो तुव्वेहिं जलंजली दालिदोवदवस्स, सच्चंकारियाइं सग्ग-मोक्खाइं पि त्ति । अवि य—

किं तीए सिरीए सुपीवराए ? जा मंदिरेसु किर्वणाणं । धुत्तीरयकुसुमसिरि व्व जा परेसिं न उवगरइ ॥१४६॥

छायालच्छी तुच्छा वि मरुपहे रेहए करीरस्स । गिम्हुम्हकिलंतो जत्थ पंथिओ कुणइ विस्सामं ॥ १४७ ॥

अहणो वि जणो धणवइसिरोमणी जो मुणीणमुवयासी । धणराओ वि वराओ राओ रोराण विवरीओ' ॥१४८

एवमणेगहा कओववूहाओ गयाओ अहिप्पेयपयं कन्नयाओ । विहिदाणा-ऽणुमोयणेहि य तेहिं ताहि वि निव्वत्तियं सुहाणुवंधसाहारणं महापुञ्जं । विञ्ज-सवरा वि पुणो पुणो संभरण-परिओसेहिं तं परिपोसंतां पत्ता 20 कंचणपुरं, ठिया वीसमणनिमित्तं नयरुज्जाणे ।

एत्थन्तरे 'गालियाधोरणेण रायपट्टवारणेण पारद्धमसमंजसं' ति समुच्छलिओ नयरे हलहलारावो । तओ कोउणेण पहाविया तेओ वि तयहुत्तं, पत्ता रायसीहदारं । ताव य हट्टालयारूढजणेहिं कयहाहारवमन्नमन्नस्स दाइज्जमाणो, भंजंतो देवउलतोरणाइं, मोडंतो जालगवक्खे, पाडंतो घरवरंडयाइं समागओ तमुद्देस मत्तदन्ती । पलाणो सीहदारजणो । 'अद्धभगं सीहदारं' ति विसन्नेण भणियं चदराएण 'अरे अत्थि कोइ जो एयं गिन्हइ ?' 25 त्ति । 'न कोइ तमंगीकरेइ' त्ति धाविऊण ढक्किओ विञ्जेण, चलिओ तयमिमुहं, कीलाविऊण मुइरं ठाविओ वसे, समप्पिओ हत्थिवयाणं, समुच्छलिओ साहुवाओ । आहूओ राइणा कयप्पणामो भणिओ य 'भइ ! वरेहि वरं' ति । तेणावि भणियं—

'सव्वेसिं पि वराणं वरमिह देवस्स दंसणं भुवणे । संपत्ता य तयत्थं एत्थ वयं देव ! दूराओ ॥ १४९ ॥

पत्ते वि तम्मि संपइ पत्थेमो देव ! एत्तियं चेव । कीरउ ओलगाए दाणेण महापसाओ णे' ॥ १५० ॥ 30

तओ मुणिदाणोवज्जियाचित्तपुन्नाणुभावोवहयासुहकम्मयाए निरीहयाभिरंजिएण राडणा पडिक्खना दो वि



भिचा, दिभ्रं मणोरहाइरित्तं जीवणं, अणुन्नाओ जह्चिच्छाचारो, जाया विसिट्टसुहभाइणो त्ति । एवं च अभग्गमाण-  
माणंदसुहमणुभविज्जण समाहिणा पडिवन्नकालधम्मा उववन्ना देवकुराए मिहुणगा । ताओ वि कन्नयाओ सुहाणु-  
मईओ जायाओ तेसिं मिहुणिगाओ । तओ दसविहकप्पपायवोवणीयसयलभोगंगलालियंगा अप्पपेम-दोसा ईसा-  
विसाय-मच्छर-रोग-सोग-जरा-भयविरहिया अहमिंदामराणुगारिसुहं तिपलिओवमाणमाणमाउमइवाहिज्जण गया  
5 सोहम्मं कप्पं । तत्थ वि किंचूणतिपलिओवममच्छिज्जण उववन्ना इह पुंडरे महावलराट्ठणो दइयाए विलासवईए  
कुच्छिसि तुव्भे दो वि पुत्ता । तासिं पुव्वभारियाणमेगा पउमसडे महसेणराइणो धूया सुलक्खणा नाम जाया,  
दुइया उण विजयउरे पउमरहस्स लक्खणा नाम । सोज्जण य मागहाओ गुणकित्तणं जाया सिरिवले साणुराया सुलक्खणा,  
एवं सयवले लक्खणा वि ।

एत्थन्तरे 'परोवयारवसणि' त्ति अब्भत्थिओ सिरिवलो सिरिगुत्तसिद्धपुत्तेण विज्जासाहणसाहेज्जे । वीररसवस-  
10 एण तेणावि पडिवन्ने पारद्धे कसिणचउदइसिनिसीहे मसाणमज्जे सिद्धिविहाणे दिट्ठो सिरिवलेण विडिचियवियडदा-  
ढाकरालवयणो विज्जुच्छडाडोवारुणतरलतारनयणो निसियकत्तिया-कवाल-करवालनरकरंकविहत्थहत्थो सुरामण्डा-  
यत्तदुप्पूरोयरभत्थो कज्जलुक्केर-तमालकालो नरसिरविसरविरइओरुमुंडमालो केसपासायडिद्धयं सिरिगुत्तमवहरंतो  
महापिसाओ । तओ उग्गीरिउग्गखग्गो लग्गो तयणुमग्गेण एसो 'एस पावो पाविओ' त्ति कयासो पहावन्तो पत्तो  
महाडविं । ताव य जायं पहायं, तिरोहिओ पिसाओ, 'न दीसइ सिरिगुत्तो' त्ति विसन्नो सिरिवलो, तहा वि अविय-  
15 लियपुरिसयारो पवत्तो तमन्नेसिउं । सुणइ य एगत्य वणसण्ढे करुणं रुइयसद्, 'इत्थिया वराई काइ' त्ति समुप्पन्न-  
कारुन्नो गओ तयवन्नं, वणंतरिओ निरुविउं पवत्तो । ताव य रुक्खसाहानिवद्धसिरोहराए भणियं तीए—

'निसुणंतु लोगपाला !, सुणंतु वणदेवयाओ ! सव्वाओ ! ! नीणेमि हिययसल्लं संपड तुम्हाण पच्चक्खं ॥१५१॥

दिन्नो गुरुहिं मणसा वि मन्निओ सिरिवलो पई मज्झ । न य ताव करे लग्गो निव्वग्गाए इह भवे सो ॥१५२॥

जम्मन्तरे वि मम पाणवल्लहो सो पई विहेयव्वो । वारेयव्वो विग्घो पुणो वि तुव्वेहिं सक्खीहिं ॥ १५३ ॥

20 एवं भणिज्जण मुक्को तीए अप्पा । तओ नियनामसंकिएण झत्ति धारिया सिरिवलेण, छिन्नो पासओ, पउ-  
णियाओ कंठनाडीओ, संवाहियं हियय, दिन्नो चेलंचलानिलो । तओ तीए उम्मिल्लियं लोयणारविदं, दट्टूण य सिरि-  
वलं ससज्जसाए संठवियमुत्तरिज्जं, भणियं चावत्तं 'तिलोयसाहारणमिणं मरणं पि मे मंदभग्गाए सुदुल्लहं संवुत्तं' ।  
ताहे समासासिज्जण संलत्ता सिरिवलेण 'सुद्धे ! का तुमं ? किं वा ते निव्वेयकारणं ? जमेवमद्गघायं ववसिया सि' ।  
तीए वि तव्वयणामयसेयसमुल्लसियहिययाए चित्तियं 'जहा एयवयणेहिं पल्हाइ मम माणसं, वल्लइ पुणो पुणो  
25 एयाभिमुहं दिट्ठी, रोमंचियमेयकरफंसेण सरीरं, तहा होयव्वमेएण मम वल्लहेण, किंतु न तस्सेहागमणसंभवो,  
अहवा विचित्ताणि विहिणो विलसियाणि, तव्वसयाण किमसंभावणिज्जं नाम ? ता कहेमि ताव सव्भावं जेण  
परमत्थो नज्जइ' । त्ति संपहारिज्जण भणियं सगग्गयगिरं "अलं मम मंदपुन्नाए नियवुत्तंतकहणेण, तहा वि 'अलंघ-  
णीयवयणो सि' त्ति निसामेहि—

नयरम्मि पउमसडे महसेणनरिंदनंदणी अहयं । पउमादेवीपभव्वा नामेण सुलक्खणा कन्ना ॥ १५४ ॥

30 दिन्ना य निययपिउणा पुडउराहिवसुयस्स गुणनिहिणो । सिरिवलकुमरस्स तिलोयविवरवियरंतकित्तिस्स ॥१५५॥

तक्कहसवणक्खणिया परिवालंती विवाहमहसमयं । उज्जाणाओ हरिय म्हि केणई गयणगमणेण ॥ १५६ ॥

विलेवंती य रुयन्ती अत्ताणं मन्निरी सुअत्ताणं । कूरेण कयतेण व तेण विमुक्क म्हि इह रन्ने ॥ १५७ ॥

सो उण कुमार ! सज्जं साहइ अवराडय महाविज्जं । लद्धावसराए मए वि ववसियं मरणमेत्ताहे ॥ १५८ ॥

ता मा करेह विग्घं, सिग्घं साहेमि मणसियं सुहय ! । अब्बह न होइ कुसलं बलवं विज्जाहरो वडरी” ॥१५९॥

एयमायन्निय ‘न अब्बहेसा इओ ववसायाओ विरमड’ त्ति कयनिच्छएण निवेइओ से अप्पा सिरिवलेण । तओ आयपच्चयसंवायाओ ‘सो चेव पिययमो एसो’ त्ति हरिसिया, ‘अवत्थावडिय’ त्ति लज्जिया, ‘पढमसमागमो’ त्ति ससज्जसा, ‘कहं कूरखयराओ रक्खियव्वो?’ त्ति सच्चिता, ‘कहमेत्थागओ?’ त्ति विम्भिया, ‘किमेगागि?’ त्ति सवियक्का खणमच्छिय भणिउं पयत्ता “सागयं मम जीवियदायगस्स अवसरपत्तस्स अज्जउत्तस्स, ‘कहं पुण देवया- 5 सहाएण पसाहियमिणमणोरपारं कंतारं पिययमेणं?’ ति दढमाउलं मम मणो वडइ” । कुमारेण भणियं ‘अलमा- उल्याए, सव्वं पुव्वसुकयवियंभियमेयं, अओ चेव परिणामसुंदरं भविस्सइ’ त्ति । एवमन्नोन्नसमुल्लावे वट्टमाणे हरिसव्वसविसट्टनयणकंदोदो संपत्तो तमुद्देसं सिद्धपुत्तो, पुच्छिओ परमपमोयमुव्वहंतेण सिरिवलेण ‘अज्ज ! कर्हि सो पिसाओ ? कहं वा तुमं तेण त्रिमुक्को सि?’ । सिद्धेण भणियं “रायपुत्त ! विहीसियाए तुमं वामोहिओ, न उणाहं 10 पिसाएण गहिओ, सिद्धा य ममाहिगयविज्जा, नवरं तुहादंसणाओ दढमुम्माहिओ ह निमित्तवलेणेहाऽऽगओ म्हि, ‘तुमं पि वीररसाणुरंजियमणेण पिययमासंजोयणनिमित्तमेव पिसाएण वेलविज्जणेह मुक्को सि’ त्ति निमित्तओ अवगच्छामि, ता अकयकालविलम्बो करेहि गंधव्वविहिणा पाणिग्गहणमेयाए, जओ संपयं सोहणो मुहुत्तो वडइ” । तओ ‘जमज्जो आणवेड’ त्ति वित्तेण विवाहिया सिरिवलेण, नीया य सिद्धउत्तपउत्तपडविज्जाए पुडउर ।

इओ य सयवलो साहगसाहिज्जगयमपडियागयं भाउयं गवेसिउमणो जणयमणुन्नविय सवलवाहणो पत्तो 15 देसंतकंतारसंठियं तावसासमं, पिच्छइ सिद्धिलियनियाणुट्टाणं सोयमाणं तावसीजणं । तओ पणामपुव्वं पुच्छिउं पवत्तो-

‘रन्ने कयवासाणं तोडियधण-सयणनेहपासाणं । साहेह भयवईओ ! किं सोयनिवंधणं तुम्ह ?’ ॥ १६० ॥

ताहिं भणियं ‘कुमार ! वित्तमिह पएसे महावइससं, तं च दट्टूण करुणावसेण जायाओ वयं सोया- उराओ’ । कुमारेण भणियं ‘केरिसं पुण तयं ? ति सार्हित्तु भयवईओ’ । ताहिं भणियं “कुमार ! आवासिया एत्थ रयणीए विजयपुराहिवइणो पउमरहस्स धूया भुवणच्छेरयभूयख्खा असाहारणगुणसत्रणुभूयपरोक्खाणुराय- 20 पडिवन्नपुंडउराहिवतणयसयवलकुमारघरिणिभावा जणयाएसओ पुंडउर संपत्थिया उवहसियरइ-सिरिलायन्ना लक्खणाभिहाणा कम्मा । सा य किर किरायविसएसराऽरिमहणरायसुएण कुजरेण ‘जाइया वि न लद्धपुव्व’ त्ति महामच्छरुच्छाडयसुपुरिसायारपक्खवाएण वाएण त्रियाऽतक्रियागमणेण मणेणावि अणिच्छंती पेच्छंतीणमम्हा- णमज्ज सुए चेवावहरिया वराई । ‘निच्छयसारा य सा निरासीभूया सयवले मरणमेव पडिवज्जिहि’ त्ति संभावणाए सोयनिवभराओ वट्टामो” त्ति । 25

सोऽज्जमिणं कुमरो पज्जलिओ पावओ व्व वयसित्तो । न सहंति हंत ! घरिणीपराभवं जाउ माणधणा ॥१६१

चलिओ य तयणुमग्गेण तुरियतुरएहिं तो वणंतम्मि । मिलिओ सीहो इव कुजरेस्स दपं पणासंतो ॥१६२॥

आयारिज्जण समरंगणम्मि परिगलियदप्पमाहपं । काज्जण कुजर तयणु तक्खणा लक्खणा गहिया ॥ १६३ ॥

ताव य सिरिवलवयणा गयणाओ ओयरित्तु सहस त्ति । ‘वैड्ढसु दुहा महायस !’ वुत्तो सो सिद्धपुत्तेण ॥१६४

तओ ‘संपाविओ णेण सिरिवलो’ त्ति सहरिसो सम्माणिज्जण तं पडिनियत्तो सयवलो पत्तो पुडउरं । पसत्थ- 30 वासरे परिणीया णेण लक्खणा । जाओ सव्वेसिं परमाणंदो । कालेण य जाया तुब्भे दो वि राय-जुवराया ।

१ कहं कूरखयररक्खसाओ रं जे० ॥ २ संकेतः-“वैड्ढसु दुहा त्ति श्री-वल्लसमागमेन, [१ श्रीवलकुमारसमागमेन च] । ममाभिप्रेतविद्यासिद्धान् (१)” ॥

मुणिद्विन्नभोयणाओ अब्भुयभूयं सुहं समणुपत्तं । एवं सुहाणुबंधं नरिंद ! तुव्भेहिं चउहिं पि ॥ १६५ ॥

एयमायन्निय संजायजाईसरणेहिं सपुत्तकलत्तेहिं भणियं सिरिबल-सयवलेहिं 'अहो ! भगवओ नाणाइसओ, जमेवमन्नचरियं पि साणुभूयमिन्न निरवसेसं सीसियं, इच्छामो य भगवओ वयणाओ नाउं—सुलक्खणावहारगविज्जा-हरस्स को वुत्ततो संबुत्तो ?' ति । भगवया भणियं "सो वराओ तहाविज्जासाहणपवत्तो कह वि संतजावखलिओ

5 छलिओ संतदेवयाए गहिओ उम्माएण । अवि य—

पत्तो सइ मइभंसं चत्तो विज्जाहिं सो असेसाहिं । धणहीणो कामं कामुओ व्व सुवियइहवेसाहिं ॥ १६६ ॥

सीया-SSयवखवियंगो भमिओ सुइरं वणंतरे वरओ । कत्तो कयाइ जायइ दुन्नयनिरयस्स कल्लाणं ? ॥ १६७ ॥

तन्हुन्ह-लुहदुहत्तो कयाइ तत्तो वणाओ निक्खंतो । पत्तो देव्वनिओया कंफिल्लपुर परियडंतो ॥ १६८ ॥

तत्थ पुण तया विहरइ हरिसेणो नाम महरिसी धीरो । उग्गतवतेयकलिओ भुवणव्भुयभूयमाहप्पो ॥ १६९ ॥

10 तदिद्विजद्विपुट्टो नट्टो दुट्टग्गहो लहं तस्स । उवलद्धचेयणस्स य पच्छायावो दहं जाओ ॥ १७० ॥

लक्खियमुणिमाहप्पो पणओ पयपंक्रयम्मि सो मुणिणो । तेणावि साणुकंपेण से कया देसणा विहिणा ॥ १७१

अवि य—

'ता जीवहं बहुदुक्खलक्ख पडिवक्ख विसट्टहिं, ता दुन्नयदुज्जयभडोहसूरिम दलवट्टहिं ।

ता दोग्गइ ता रोग सोग तणु मणु संतावहिं, जा जिणभासियरम्मधम्मसंबंधु न पावहिं ॥ १७२ ॥

15 सग्गु धरंगणु मोक्खसोक्खु अइदूरि न वट्टइ, छणमयलंछणकंतिकंतु जसविसरु विसट्टइ ।

तासु न दुल्लहु किं पि भुवणि कल्लाणु मणिच्छिउ, जिणवरदेसिय धम्मि जासु माणसु सुविणिच्छिउ' ॥ १७३ ॥

एवमाइमहामुणिमुहकुहराओ नीहरंतं देसणासुहारसं कन्नपन्नपुडएहिं पियमाणो विमुक्कमोहविसविगारो पाविऊण विवेगचेयणं पडिवन्नो चरणपरिणामं । तओ विहिणा पवन्नपव्वज्जो पाविऊण केवलसंपयं संपत्तो परमपयं' ति ।

20 इय माहप्पमणपं राया सोऊण समणधम्मस्स । वडिहयचरणुच्छाहो वंदइ जयनदणमुणिंदं ॥ १७४ ॥

भणइ य 'मे मुणिपुंगव ! तुम्ह पसाएण संपयं मुणिओ । मुणिधम्मस्स पभावो अचित्तिचितामणिसमाणो ॥ १७५

काऊण रज्जसुत्थं ता तुरियं तुम्ह पायमूलम्मि । एयपडिवज्जणाओ करेमि नियजम्मसाहलं' ॥ १७६ ॥

गुरुणा वि 'अविग्घं ते, मा पडिवंधं कुण' ति विंतेण । दिन्नाणुघो राया पमुइयदियओ गओ सगिहं ॥ १७७ ॥

आउच्छिऊण हत्थं तत्तो नीसेसमन्ति-सामन्तं । सयवलकुमरं रज्जेऽभिसिंचिउं उज्जओ जाव ॥ १७८ ॥

25 विणयपणएण भणिओ ताव कुमारेण मउलियकरेण । 'वयगहणाणुघ्नाए देव ! पसाय कुण ममावि ॥ १७९ ॥

जं संसारसमुदो संदो उदामदुक्खकल्लोलो । न विणा चरणतरणं तीरइ तरिउं अइदुरंतो' ॥ १८० ॥

रन्ना वि तो पवुत्तं 'जुत्तमिणं वच्छ ! नायतत्ताणं । किंतु कमागयमेयं रज्जं भोत्तूण केइ दिणे ॥ १८१ ॥

ठविऊण रज्जभारं पोढीभावं गएसु कुमरेसु । दंतिंदिओ सुहेणं तुमं पि गिन्हेज्ज पव्वज्जं' ॥ १८२ ॥

एवमाइवित्तिचत्तेवुत्तो वि जाहे सो न पडिवज्जइ रज्जं ताहे गिरिसुंदर रज्जेऽभिउंजिय रयणसार च जुव-

30 रायं ठविऊण निव्वत्तियजिणाययणमहामहा कयसयलसंघपूया संतोसियदीणअत्थिसत्था अपेगमन्ति-सामन्ताइ-नरनिउरुम्बपरिगया गया महाविभूर्इए गुरुसमीवं सिरिबल-सयवला, सुयविहिणा पव्वइया य, कमेण य जाया

जहुत्तकिरियाकारिणो महारिसिणो त्ति । ड्यरे वि जणयाणुरोहपडिवन्नं रज्जमकज्जं व मन्नमाणा अंगीकयदेस-  
विरइगुणट्टाणा कालमइवाहिउं पवत्ता । अवि य—

पउरप्पयावसाहियपविट्टसुपहट्टदुदुवेरीणं । तेसिं भडसंदोहो च्चिट्टइ रणकोट्टिओ चेव ॥ १८३ ॥

उद्धरियसयलविहलम्मि तम्मि रज्जे मणोरमे तेसिं । अत्थियणं अलहंतो दाणव्वसणी दुहं जियइ ॥ १८४ ॥

तहा—

नांसियकरा मणुस्सा नासाभंसं सया वि पावित्ति । गायंति पट्टा तह वि गुणगणं ताण दोन्हं पि ॥ १८५ ॥

ठाणे ठाणे निम्मवियजिणहरं पुहइमंडलं तेहिं । सग्गसिंरिं व हसंतं कयं लसंतं समंतेण ॥ १८६ ॥

सम-मद्वरसिया वि हु असमं माणं सया वि पावित्ति । सुणिणो महाणुभावा जणसुहए तेसि रज्जम्मि ॥ १८७ ॥

मोत्तूण सामि-सेवयववहारं तत्थ राय-पँगईणं । अन्नोन्नगोरवरई साहम्मियभावओ जाया ॥ १८८ ॥

एवं च विसंझामोयविमलकमलालंकिए अणिट्टियवियड्ढमहोदए रज्जमहासरेऽभिरममाणाण तेसिं रायहंसाणं 10  
कयाइ अरुणोदयारिं गियपुव्वदिसंगणे मंदायंततारयनहंगणे विरलायन्ततिमिरजाले पहायकाले कप्पमहीरुहसिहर-  
निसन्नमत्ताणं दट्टूण सुविणे पडिबुद्धो वहलकागलीगीयसंवलयिमंगलतूरनिग्घोसेण गिरिसुंदरनरिंदो । विमिहओ  
अउव्वसुविणोवलंभेण । ‘उवट्टियं मे किं पि महाकल्लाणं’ ति भावित्तो ठिओ परमेट्टिनमोक्कारसरणतप्परो । एत्थंतरे  
पडियं वेयालिण—

‘तेयकंतमहीहरमत्थयपडिवन्नपायकोडी वि । अब्भट्टियसिंरिं सरो पाविउमारुहइ नहमिन्दि ॥ १८९ ॥ 15

कैयदोसंतमहोदय ! दसदिसिवित्थरियनिम्मलपयावं । उन्नइमपत्तपुव्वं गोवइ ! पावेहि सयरहं’ ॥ १९० ॥

तओ ‘सुविणत्थसंवाई पाढो’ त्ति सुट्टुयं पट्टमाणसो माणसुच्छंगाओ रायहंसो व्व समुट्टिओ सयणिज्जाओ ।

काऊण चंगमंणे सिंगारं गरुयभत्तिराएण । जिणविम्बपूयणत्थं पत्तो उज्जाणजिणभवणं ॥ १९१ ॥

मणिमययंभऽभिरामं रामापडिविम्बजोडकयसोहं । सोहंतकंतकोट्टिमसंकंतुल्लोयमणितारं ॥ १९२ ॥

तारतवणिज्जनिम्मियदुवारसाहाणुणालियारुइरं । रुइरसुरागमरंजियवंदण-पूयक्खणियभवियं ॥ १९३ ॥ 20

तत्थ य जहाविहाणं पूयं काऊण तिहुयणपहूणं । रोमंचं चियकाओ कयंजली कुणइ थुइमेवं ॥ १९४ ॥

‘निम्मलमऊहजाला जयइ जिणिंदस्स पायनहंपती । छज्जन्ती नयसुरवइमउडुक्खुडिय व्व मणिसेणी ॥ १९५ ॥

वंदे ते जिणचलणे जेसि नहंकेसु पडियपडिविम्बो । पणमंतजणो छज्जइ हरो व्व एंगारससखो ॥ १९६ ॥

सो जयउ जिणनरिंदो जईयपाएसु सहइ नहराई । नहयलभमणुव्वाया वीसमिरी तारयालि व्व ॥ १९७ ॥

भइ जिणिंदपायाण ताण रेहंति जत्थ नहमणिणो । दसविहधम्मज्जोयणसमुज्जया दसपईव व्व’ ॥ १९८ ॥ 25

इय विविहोवमरम्मं सम्मं थोऊण जिणवरं राया । संवेगभावियमणो निक्खंतो चेइयगिहाओ ॥ १९९ ॥

दट्टूण य सुपसंतं नवजोव्वण-रूव-कंतिकयसोहं । सहयारतलनिसन्नं वंदइ मुणिपुंगवमहेगं ॥ २०० ॥

१ सङ्केत-“नाशिता” करा-हस्ता, राजदेयभागाश्च येषाम् । नासाया भ्रशम्, न च आशाया भ्रशम्” ॥ २ संकेत-“अशम-  
शमरहितम्, असम च-अनन्यसदृशम् । मानम्-अहङ्कारं पूजा च” ॥ ३ पंगिईर्णं भ्रा० ॥ ४ सङ्केत-“विसट्ट त्ति विकसितम्,  
आमोद-परिमल” प्रमोदश्च, कमलानि-पद्मानि, कमला च-लक्ष्मी । अनिष्ठित चियइहं ति विशेषेण तड्ढं शीत महदुदक यत्र, अनिष्ठितश्च  
विदग्धाना महोदयो यत्र” ॥ ५ “एकत्र-अनिष्ठितविहगाढयमहोदके, राज्ये-अनिष्ठितविदग्धमहोदये” ख२टि० ॥ ६ संकेत-“कृतो  
दोषान्ते-प्रभाते महोदयो येन, कृतश्च दोषान्तेन-दूषणविनाशेन महोदयो येन । गोपति-आदित्यो भूपतिश्च” ॥ ७ पक्कारस्  
जे०विना ॥ ८ सङ्केत-“उव्वाय त्ति खिन्ना ॥ ८ ॥” ॥

- तेणावि धम्मधन्नाउसाए अभिनंदिऊण नरवडणो । पारद्धा विट्ठिणा धम्मदेसणा सुहणिसन्नस्स ॥ २०१ ॥  
 'पयइअसारे विरसे संसारे निम्बकुसुमसारिच्छे । मा कुणसु रइं महिवइ ! असासए इंदयाले व्व ॥ २०२ ॥  
 जम्मं मरणस्स कए, उप्पज्जइ जोव्वणं जराकज्जे । ख्वं रोगावासो, का णु सुहासा भवे भूव ! ? ॥ २०३ ॥  
 रुज्जइ एगेसि घरे, गिज्जइ नच्चिज्जई य अन्नेसिं । आसन्नमंदिराण वि जत्थ भवे तत्थ किं सारं ? ॥ २०४ ॥  
 5 विलसंति दिंति एगे, सुयंति अन्ने उ लंघणं काउं । एगोयरा वि जम्मि उ भवस्स का सारया तस्स ? ॥ २०५ ॥  
 तावन्ति रोग-सोगा, मरणभयं निच्चमेव सन्निहियं । आसासपयं पत्थिव ! भण किमिह भवम्मि पावम्मि ? ॥ २०६ ॥  
 जं पीमं भोगसुहं भुंजंतं कुणइ पाणिणो तुट्ठिं । सुविणोवभोगसरिसं तयं पि तित्ति न संजणइ ॥ २०७ ॥  
 एयासत्ता सत्ता धम्मं न कुणन्ति जिणवरुट्ठिं । पच्चंति तओ धणियं पुणो पुणो गव्वकुंभीसु ॥ २०८ ॥  
 इय एयम्मि असारे नरिंद ! खणभंगुरम्मि संसारे । न खमं खणं पि रमिउं विन्नायजिणिंदवयणस्स' ॥ २०९ ॥
- 10 एवमायंभंतो राया गहिओ तिब्बसंवेगेण, मुक्को दुरासाए, आलिंगिओ चरणपरिणामेण, दूरीकओ अविरईए  
 सव्वहानियत्तपुत्त-कलत्त-रज्जकज्जग्गहो वंदिऊण मुणिवरं जंपिउं पवत्तो 'भयवं ! मोहनिदानिरुद्धसुद्धबुद्धिचेयन्नो  
 सुट्ठु वोहिओ हं भगवया उदत्तदेसणापाहाउयतूरनिग्घोसेण' । ता 'पाविऊण जयनंदणमुणिंदाणिंदपायारविंदमवस्सं  
 पव्वइस्सं' ति कयनिच्छओ गओ नरिंदो समंदिरं । निवेइओ निययाहिप्पाओ रयणसारस्स । बहुमन्निओ तेणावि,  
 जंपियं च—
- 15 'अणुभूयं पि सरंता सामन्नसुहं जए असामन्नं । सुहलव्वलुद्धा मुद्धा गिहवासे हा ! ठिया कह णु ? ॥ २१० ॥  
 मोहिज्जंति वराया अनायतत्ता इहावरे सत्ता । जाईसरा मुहा कह मुट्ठा मो दिट्ठचोरेहिं ? ॥ २११ ॥  
 ता सव्वहा न जुत्तं मुहुत्तमेत्तं पि संपयं वसिउं । काराहरघोरयरे गिहवासे दुक्कयावासे ॥ २१२ ॥  
 धन्ना य गाम-नयरा संपइ विहरंति जत्थ सुहनिहिणो । जयनंदणसुरिवरा सुसत्यवाहा भवारन्ने' ॥ २१३ ॥  
 एवं च परिभावंता वद्धावियां ते उज्जाणवालएण—
- 20 'जस्स वयणारविंदे लद्धरसा नयणमहुयरा तुम्ह । न लहंति रइं अन्नत्थ कत्थई किर निमेसं पि ॥ २१४ ॥  
 जस्स य पयपउमजुयं हिययसरे निच्चमेव तुम्हाणं । चिट्ठइ चित्तालिहियं व सुत्थियं एगरूवेण ॥ २१५ ॥  
 सोऊण नाम-गोयं पि जस्स तुम्हाण हिययमुल्लसइ । गिम्हुम्हतवियसिहिमंडलं व नवमेहरसिएण ॥ २१६ ॥  
 सो पणयपणयपाणिप्पणामियाणंतकंतकल्लाणो । मन्नामि देवपुन्नेहिं आगओ मुणिवई अज्ज' ॥ २१७ ॥  
 तओ 'समागओ भगवं सुगिहीयनामघेओ जयनदणमुणीसरो' ति ससंभमं सिंहासणाओ ओयरिऊण अभि-
- 25 गमिऊण य सत्तट्ठ पयाइं तत्थट्ठिएहिं चेव वंदिओ राय-जुवराएहिं भयवं, दिंन्नं च मणोरहाइरित्तं वित्तं वद्धावयस्स ।  
 तत्तो वि भत्तिनिव्वरमणेहिं गंतूण वंदिओ विट्ठिणा । पीयं च तस्सुहाओ सुदेसणावयणपीऊसं ॥ २१८ ॥  
 तओ निवेइऊण निययाकूयं गुरूणं तयणुन्नाया गया समंदिरं, दाऊण य सुरसुंदरकुमारस्स रज्जं, निव्वत्थिय-  
 'जिणगिहमहामहा संपाइयसमणसंघपूओवयारा संतोसियदीणा-ऽणाहाइसमत्थअत्थिसत्था महाविभूर्इए गया गुरू-  
 समीवं । पव्वइया य सममणेगामन्ति-सामन्त-सुद्धन्तेहिं । 'फलिओ मम सुविणओ संजमकप्पपायवारोहणेणं' ति
- 30 परित्तुट्ठो नरिंदमुणी । तओ गुरूवहुमाणसारमहिज्जियाइं एगारसंगाइं, अब्भट्ठिया चरणकरणेसु, समुज्जया तवो-

बहाणेसु, कयनिच्छया वेयावचेसु, बद्धबुद्धिणो भावकरणसच्चे, अपरिस्संता सज्जाय-झाणेसु, अपमाङ्गो संजम-  
 द्वाणेसु, अन्वहिया परीसहोवसग्गेहिं, अग्घिज्जंता महानरिंदवग्गेहिं, उववृद्धिज्जंता समणविंदेहिं, तुलियतेयकंतिणो  
 रविग्घिंदेहिं, चिरमणुवालिऊण संजमरज्जं, काऊण संलेहणाविहिं समाहिणा कयदेहच्चाया जाया उवरिमोवरिमे  
 गेवेज्जगम्मि अहमिंदा सुरवर त्ति ।

ईसा-विसाय-मय-मोह-वियारमुक्का, दिव्वेसु तेसु विसएसु दढं पसत्ता ।

दुक्खेण खीणदुरिया मणयं पपुट्ठा, ते सागराइं उगतीस तहिं गर्मित्ति ॥ २१९ ॥

5

॥ इय पुहइचंदमहारिसिचरिए गिरिसुंदर-रयणसाररिसिचरियमट्टमभवगहणं समत्तं ति ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-५८७ ]

## [ नवमो कणयज्झय-जयसुंदरभवो ]

जयइ जिणाणागंगा कल्लसोदयमाणसाइं मोत्तूण । उत्तमपयमुहकामा मुणिहंसा जत्थ लीयंति ॥ १ ॥  
आणाणुभावपत्तं अहमिंदांमरसुहं चिरं भोत्तुं । किंचावसेसपुत्तो गिरिसुंदरसुरवरो चैविओ ॥ २ ॥

5 तओ कत्थ उववन्नो ? सुण—

अत्थि धण-कण-कणयसमिद्धसमुन्नद्धपामररमणीरमणीयगामाभिरामे अणेगनगरा-SSगर-गिरि-तरंगिणी-पसा-  
हियैपिहुपुहइपीढे अणुवल्लभमाणमाणवकिलेसे वगाभिहाणदेसे तामलित्ती नाम नयरी ।

जा सा सुरैयणरम्मा पिप्फुरियसुहासणा सुहिधणेसा । रेहैन्तैसुरागारा हरिसहिया तियसभूमि व्व ॥ ३ ॥

अहवा—

10 इंदायई नरिंदो, नारीओ जत्थ अच्छरायंते । धणिणो अमरायंते, सुरभूमी सा फुडं चेव ॥ ४ ॥

किंच—

अरिह-महेसर-पुरिसोत्तमेहिं कमलालएहिं बुद्धेहिं । सुरनिम्मिय व्व छज्जइ सव्वेहिं नरेहिं सा नयरी ॥ ५ ॥

चडुकम्मेहि पगामं सुवियड्ढविलासिणीहिं तरुणाणं । चोरिज्जंति मणाइं, न धणाइं तत्थ केणावि ॥ ६ ॥

तीसे पायारवरो चुंविज्जंतो वि जलहिवेलाहिं । आलिगणं न सिदिलइ गुरुगुणगणगहियहियओ व्व ॥ ७ ॥

15 सयलत्थसुत्थियाए संभमरहियाए तीए नयरीए । चोज्जमिणं जं निच्चं सुहिया दीसंति पंचंजणा ॥ ८ ॥

तीए मणि-प्पवाल-मुत्ताहल्लुकेरसंकिन्नरच्छाए अलयाउरीसिरिमडप्परमलणपरिहत्थाए सुर-खयरविमहयकरीए  
पवरनयरीए दरियारिवारणहरियच्छो अणेगपहरणप्पहारपरिमंडियवच्छो पवरंगणालिगणलीलादुल्लियवाहुदण्डो  
पउरपयावोहामियसरयमत्तण्डो पणईयणमणोरहसंपायणकप्पसालो अनायकारिजणयाकुवियकालो नियपहुत्तोवह-  
सियाखंडलो सुमगलो नाम राया ।

20 तेएण तस्स नूणं झेलुकियंको कलंकिआ चंदो । भीओ व्व तप्पयावा नेहंगणे संसिओ सरो ॥ ९ ॥

तस्स य परकमाओ नज्जइ पंचाणणो वि परिभीओ । पडिवन्नो वणवासं, को वा तत्तो न संतत्थो ? ॥ १० ॥

तस्स य राइणो उवहसियमरगयमणिकिरणोहेहिं सिरोरुहेहिं, अहरीकयपंकयवणेहिं लोयणेहिं, कुंदकलिया-  
यन्तीहिं दंतपंतीहिं, सुरकरिकुंभसरिच्छेण वियडवच्छेण, निज्जियनवमुणालियाहिं वाहुलइयाहिं, कंकेल्लिपल्लवसाहु-  
लेहिं करयलेहिं, सिमुमुट्टिगेज्जेण तिवलिविराइयमज्जेण, सुरसरिपुलिणायारेण नियंववित्थारेण, परित्तुलियकय-  
25 लिगव्भेहिं ऊरुथंभेहिं, कुम्मुन्नडमाणमलणेहिं चारुचलणेहिं, दलवट्टियरइरुवगव्वग्गहा सिरिप्पहा नाम महादेवी ।

१ संकेतः—“ जयइ इत्यादौ कल्लपोदकानि मानसानि सरांसि, कल्लषस्य-पापस्योदयो येषु मानसेषु-चित्तेषु । उत्तमपय सुखे,  
उत्तमपदसुखे-मोक्षसौख्ये च काम-अभिलाषो येषाम् ” ॥ २ चविउं भ्रा-विना ॥ ३ यपुहइ जे-विना ॥ ४ संकेतः—“ सुरजनै  
सुरत्तैश्च सुरचनया वा रम्या । सुधाशनम्-अमृतमोजनम्, सुखासनानि च-यानविशेषा । इन्द्रस्य सुहृद् धनेश-धनद, सुखिनश्च ते  
धनेशा-भनस्वामिनो यस्याम् । शुभाकारा, सुधागाराणि च-सुधाधवलितगृहाणि । हरिणा-इन्द्रेण, हरिमिश्च-अश्वै सहिता, यद्वा हर्षाय  
हिता ” ॥ ५ सुहागारा इति सङ्केतसम्मत. पाठ ॥ ६ व्व कज्जइ ख१ ॥ ७ संकेतः—“ पञ्च-सख्या जना-पुरुषाश्च ” ॥  
८ परिहच्छाए जे-विना । “ दक्षायाम् ” ख२टि० ॥ ९ झुलुंकियंको जे-विना ॥ १० नहगणं जे-विना ॥

तीए सुयकामाए मयनयणाए मयंकवयणाए । उयरम्मि समुप्पन्नो गिरिसुदरमुणिसुरो धन्नो ॥ ११ ॥

दिट्ठो य तीए सुविणे नाणामणि-रयणमंडियसुदण्डो । लम्बंतकणिरकिंकिणिमुहलियगयणंगणाभोओ ॥ १२ ॥

फलिहं-उंक-कुंद-हरिणंकिंकिओ' कुसुमदामच्चिचइओ । वयणेण कयाणंदो महज्जओ उयरमणुपत्तो ॥ १३ ॥

परिओससुहारसपीणियाए तत्तो उ पीणसिहिणाए । वज्जरिओ नैरपहुणो, तेणावि सुओ समाइट्ठो ॥ १४ ॥

जाओ सत्तममासे चेडय-मुणिपूयडोहलो तीसे । तुट्ठेण सुट्ठु संपूरिओ य रक्षा वि सविसेसं ॥ १५ ॥

काले सुहं पसूया सूरं सरयम्मि मेहलेह व्व । तेयडुहं जणमण-नयणहारयं दारयं देवी ॥ १६ ॥

तत्तो चारयमोयणाइविहिणा दिज्जंतदाणुत्तमं, नैच्चंतंगणपंगणं पइधरं वज्जन्ततूरं वरं ।

रक्षा वद्धणयं पुरे विरइयं वित्थारसारं तहा, जायाणंदमय व्व सव्वनयरी वग्गन्तवन्ना जहा ॥ १७ ॥

एवं परमपमोए मासे समइच्छिए महाभोए । विहियं मणोभिरामं सुयस्स कणयञ्जओ नामं ॥ १८ ॥

चंदो व्व विवडुहंतो सयलार्हि कलार्हि एस पडिवन्नो । वित्थारियगुणकिरणो कुलंवरुज्जोयणो जाओ ॥ १९ ॥ 10

इओ य रयणसारसुरो वि चविऊण तस्स चेव राइणो सयपभाए देवीए कुच्छिसि पुत्तभावेणोववन्नो । जाओ य उचियसमए कयजयसुदराभिहाणो पाविओ एसो वि जोव्वणारंभं । पुव्वभववभासेण य अन्नोन्नमणुरायनिव्वरा दो वि एगत्य चेवाभिरमंति, उवसंता सरूवेण, परम्मूहा पाववावाराणं । पगरिसो तेसिं धणुव्वेए, अर्ओ चेव राहावेह-विणोएण चिट्ठति ।

अन्नया सुरवेग-सूरवेगखेयरराएहिं कहंचि कज्जागएहिं दिट्ठा ते राहं विवेन्ता । तओ ठाण-करण-दिट्ठिनिवे- 15 साइसाइसयं तव्विन्नाणमुवलव्व परिओसरसपरव्वसा मोत्तूण तदुवरिं कुसुमवरिसं गया सट्ठाणं । विम्हिओ कुमार-परियणो, 'देवपूइया एए' ति वित्थरिओ जणवाओ, परित्तुट्ठो सुमगलनरिंदो ।

अन्नया राइणो नमंतमन्ति-सामन्तमहुयरनिउरुम्बच्चुम्बिज्जमाणपायपंकयस्स सहस ति उत्तरदिसाए समु-च्छलिओ हंस-कुंच-सारसरसियसंवलयखुहियमहोयहिरवाणुगारी तूरनिग्घोसो । 'अउव्वसरूवो' ति विम्हिया राया-इणो, संभावियपरचक्कागमा खुहिया सुहडा, 'अदिट्ठसंभमो' ति आउलीभूओ नयरीजणो । निउणनिरूवणाए 20 'गयणंगणे इमो' ति कयनिच्छया सविम्हया ठिया सव्वे तओमुहा । ताव य समोइन्ना दो विज्जाहरकुमारा, सम्माणिया कालोचियं रादणा, सुहासणत्था सविणयं भणिउमारद्धा-

“देव! अत्थि उत्तरदिसाए पुव्वा-उवरसमुइसंपत्तोभयपेरंते सरयवलाहयसिहरिहारिसिहरहरियहरियस्सविहार-प्पसरे वेयडुहगिरिम्मि लीलाविलासुल्लासोवहसियसुरलोओ खयरलोगो । तत्थ अणेगगाम-नगरा-उरामरम्मविहिह-देसपसाहिए सेणिदुगम्मि सुरवेग-सूरवेगनामाणो एगोयरा रायाणो सामित्तमणुहवंति । तेसिं पुण अन्नन्नदेवी- 25 संभवाणं रूवलायन्नपहसियसंगसुंदरीणं सयलकलाकलावसंगयाणं सयं सयं कन्नयाणमत्थि । दिट्ठा य कयाइ तेहिं तुम्ह सुया राहावेहे पवत्ता, विन्नाणपगरिसरंजिएहिं य मुक्का तदुवरिं कुसुमवुट्ठी, पसंसिया य सुवहुं नियनिय-सभासु । तमायन्निऊण 'राहावेहरंजियजणया वंगाहिवतणया भे पडणो' ति सुमरियनिमित्तियाएसाओ जायाओ असेसाओ तयत्थिणीओ खयरसरकन्नयाओ । विन्नायतयाकूया नेमित्तियनिरूवियवीवाहवासरा दारियाहिं सह समागया एए ते खयरसरा । नयरसंखोहरक्खणत्थं च तेहिं पेसिया वयं तुम्ह वद्धावया । संपइ देवो पमाणं” ति । 30

तओ असंभावणिज्जयाए कज्जस्स 'किं कायव्वयावाउलिओ किं पि संकिंभं रसंतरमणुहवंतो जाव राया न



किं पि जंपइ ताव भणियं महसुंदरमंतिणा 'देव ! किमसंभावणिज्जं पुन्नपगरिसस्स ? पुन्नपगरिसविणिम्मिओ देवो जस्स पच्चक्खटेवा इव इमे पुत्ता संवुत्ता, ता करेह खयरारिवाणं पत्तयालं सागयपडिवत्ति' ति । तओ सहरिसो समाइसिऊण नयरसोहं सव्वसामग्गीए निग्गओ अम्मोगइयाए सुमगलपत्थिवो, बहुमन्निओ खयरारिहेहिं, जायमन्नोन्न-पडिवत्तिसोहियं सोहियं, दिन्नाओ सुहसुहुत्ते रुन्नयाओ सुरवेगेण कणयञ्जयस्स, सूरवेगेणात्रि जयसुंदरकुमारस्स । तओ—

- 5 नच्चंतखयरनारीमणिकुण्डलकिरणदलियतिमिरोहं । दंसणकोउगकयत्रिविहरूवेसंपत्तसूरं च ॥ २० ॥  
तरुणियणवट्टसंघट्टुट्टहारोहगलियमुत्ताहिं । दिप्पंततारतारयविहायसायंतमहिवट्टं ॥ २१ ॥  
उच्छलियवहलकप्पूररेणुधवलियसमत्थदिसियक्क । चंदायवभासियसरयजामिणीमणहरच्छायं ॥ २२ ॥  
रोलंतवहलपरिमलकुसुमुकरभमिरभमररणिएहिं । वहलियगेयायन्नणपमत्तपवडन्तनर-विलयं ॥ २३ ॥  
वियरिज्जमाणमणि-मउड-कैडय-कुंडल-कलाव-तुडिओहं । सुमहग्घचंगदेवंगदाणसंतुट्टसुहि-सयणं ॥ २४ ॥  
10 भुवणच्छेरयभूयं पीणियनड-नट्ट-भट्ट-चट्टोहं । साणंदोभयपक्खं विहिणा वारेज्जयं जायं ॥ २५ ॥  
वगाहिवस्स रिद्धिं पलोयमाणा खणेण खयरिंदा । मुंचंति चिरूवूढं विज्जाहररायसिरिगव्वं ॥ २६ ॥  
पत्ता य पत्तसंजोयणेण परमुद्धवं खयरपवरा । इयरे त्रि खयरपरिपूइय त्ति अंगे न मायंति ॥ २७ ॥  
इय संवडिंढयसम्मयसुहपारावारसन्निमग्गाणं । सव्वेसिं तेसिमलक्खिय व्व तीया दिया णेमे ॥ २८ ॥  
संभासिऊण बहुहा सुमंगल गलियवाहसलिलोहा । सुरवेग-सूरवेगा तओ गया निययनयरेसु ॥ २९ ॥  
15 कुमरा त्रि सयलमेइणिगिज्जंतजसा सुर व्व लीलाए । सुरवहुसमाहिं ताहिं खयरीहिं समं अभिरमंति ॥ ३० ॥  
आयंति य अणवरयं सयंवराओ नरिंदकन्नाओ । तग्गुणगहणायन्नणपवत्तपेमाणुरागाओ ॥ ३१ ॥

एवं च ते पत्तेयं पंचहिं पणइणीसएहिं परिगया सयलभरहद्धनरिंदपेसिएहिं गय-तुरय-रयणाइपाहुडेहिं परि-वड्डमाणपरियरा कयसयलरायचित्तचमुक्कारं जीवलोयसारं सुहमणुहवंति ।

- इओय सुमगलनरिंदो तणयाणुभावा णमंतमहन्तसामन्तसेविज्जमाणपायारविंदो अमंदाणंदसुहरसासायतित्तो  
20 पुणो पुणो सुयगुणगणाणुचित्तणक्खित्तचित्तो पहायसमयावगयनिहनयणसयवत्तो परिभाविउं पैयत्तो—

“अइअच्छरियं चरियं मइयपुत्ताण पुन्नजुत्ताण । अमरप्पाया वि जओ खयरा वसवत्तिणो जाया ॥ ३२ ॥  
ता सच्चमेयं सुभासियं—

तुंगा मायंगपूगा सुतरलतुरया संदणा सुप्पउत्ता, पाइक्का वा सुपक्का विविहपहरणाडोवभीमा सुदप्पा ।

विज्जा देवप्पसाओ अतणु तणुवलं सुद्धुद्धिप्पओगो, सव्वं जं किंचि एयं वलमिह नवरं पुन्नमेगं नरस्स ॥ ३३ ॥

- 25 अओ चेव सव्वहा पुन्नज्जणमेव जुत्तं दीहपेहिणो पुरिसस्स, तं पुण विसिद्धधम्माओ संभवइ, अओ मम जुत्तं पालियकुलक्कमागयाकलंकरज्जस्स उवलद्धभोगोवभोगसारस्स पाउवभूयपुहइपालणपच्चलपुत्तरयणस्स परलोगसुहावहं धम्ममणुचिट्ठिउं, 'को उण एत्थ धम्मो?' त्ति न नज्जइ, जओ अणेगहा पासण्डिणो अन्नोन्नासंवाइसुत्थेहिं धम्म-सुवइसन्ति, 'को उण तेसु सव्वभूयवाइ?' त्ति नावगच्छामो, असव्वभूयधम्माओ कुप्पहा इत्ताणत्थो वि संभावियइ, ता पुच्छामि महसुंदरमंतिमेत्थ परमत्थं" । ति संपहारिऊण समाहूओ मन्ती, निवेइओ नियसंकप्पो । तेणावि भणियं  
30 'सोहणं परिभाविंयं देवेण, ता पुच्छिज्जंतु पासण्डिणो धम्मवियारं, जो संसारववहारविवरीओ सो चेव सुंदरो धम्मो त्ति तक्केमि, सो चेव परलोगत्थिणा उवाएओ सुसामिसालो व्व भोगत्थिण' त्ति ।

१ 'वसंपन्नसूरं' आ० ॥ २ 'कणयकु' जे०विना ॥ ३ पवत्तो जे०विना ॥ ४ "समर्या" खरटि० ॥ ५ संकेतः—  
"सुपक्क(इ दप्प) त्ति सुद्धु दर्पवत(न्त) " ॥

सोऊण पुहइनाहो सुमंतियं मेन्तिणा सउच्छाहो । संपत्तो अत्थाणं वयम्मि काउं वं पत्थाणं ॥ ३४ ॥  
 ताव य खणेण गयणं पच्छाइयमुच्छलन्तरोलेहिं । नयरुत्तरदिसिभाए अमरेहिं कैयं व भमरेहिं ॥ ३५ ॥  
 जयजयरवसंवल्लिओ दुंदुहिसदो य तत्थ उच्छलिओ । असमप्पभोयकलिओ तं पइ नयरीजणो चलिओ ॥ ३६ ॥  
 तं पुलइउं पवत्तो खयरारागमसंकिओ पुरीनाहो । भणिओ पणामपुव्वं सहसा उज्जाणवालेण ॥ ३७ ॥  
 'देवाऽऽयाओ कल्लं उज्जाणे तुम्ह मुणिगणसमेओ । वम्मो व्व मुत्तिमंतो सूरी सेयवरो पवरो ॥ ३८ ॥ 5  
 जो वंभयारिसारो वि धणियमालिंणिओ तवसिरीए । उवसमरओ वि निम्महियरौयसीहो अइनिरीहो ॥ ३९ ॥  
 तस्स उण रयणिसेसे निरुद्धनीसेसकरणवित्तिस्स । झाणुकरिसविसेसा जायं नाणं जयपहाणं ॥ ४० ॥  
 उय एए सुरभमरा वद्धकंठा सहावसुहयम्मि । लीयंति सुतूरंता मणोरमे तस्स पयपउमे ॥ ४१ ॥  
 ता जुत्तमेयमुहकमलदंसणा पूयपावमप्पाणं । काउं, नाउं च तहा अइदियं किं पि परमत्थं' ॥ ४२ ॥

एयं निसामिऊण 'सिद्ध समीहियं' ति सपरिओसो सव्वसामग्गीए गओ गुरुसमीवं नरिंदो । पणमिऊण 10  
 गुरुं सपरियरं निसन्नो धरावीडे । ताव य पारद्धा भयवया धम्मकहा । कहं ? —

'भो भो ! संसारकंतारेऽणोरपारे भयंकरे । सिद्धिं गंतुमणाणं पि सुद्धमग्गो सुदुल्लहो ॥ ४३ ॥

कुप्पहा वहवो जेण संति जेहिं विमोहिया । जीवा नेव्वाणकामां वि पाउणंति घणं दुहं ॥ ४४ ॥

कत्थई रागसीहेण, कत्थई दोसपुल्लिणा । कत्थई मोहरक्खेण, गसिज्जंति रसंतया ॥ ४५ ॥

डज्जंति कोवदावेण, खलती माणपव्वए । मूढा मायाकुडंगेसु, लोभकूवे पडंति उ ॥ ४६ ॥ 15

विसयविसरुक्खेसु वीसमन्ता सुहेसिणो । निच्चैयणत्तमावन्ना न याणंति हिया-ऽहियं ॥ ४७ ॥

मित्तरुवेहिं धुत्तेहिं मुसिज्जंति पुणो पुणो । मग्गाभिमुहमायंता निज्जन्ते कुप्पहन्तरं ॥ ४८ ॥

अन्नाणदिसिमोहेण पडिप्पहपहाविणो । पडंते कुगईगत्ते मच्चुदुत्तडिपाडिया ॥ ४९ ॥

नाणाविवत्तिकंटीसु विलगंता निरंतर । भवकंतारपारं ते पाउणंति कयाइ नो ॥ ५० ॥

तम्हा कुमग्गत्वाएण सुद्धमग्गम्मि लग्गहा । जेण पावेह भो ! सिग्घं नेव्वाणनयरं परं ॥ ५१ ॥ 20

सरुव्वं सुद्धमग्गस्स सव्वसावज्जवज्जणा । सत्तु-मित्ताइरुवेसु सत्तेसु समचित्तया ॥ ५२ ॥

पाणघाय-मुसावाय-चोरिका-ऽवभरुंभणं । परिग्गहपरिच्चाओ पंचिदियविणिग्गहो ॥ ५३ ॥

अमुत्ती खंति-मुत्तीणं मदव-ऽज्जवसारया । मणो-वाय-सरीराणं सव्वहा सुपउत्तया ॥ ५४ ॥

एयमग्गेण वच्चंतो सुमित्तपरिवारिओ । रागाइएहिं खुद्देहिं मणागं पि न तुज्जए ॥ ५५ ॥

तओ संसारकतारं लंघिऊण लहुं जओ । नेव्वाणं पट्टणं जाइ तेणेसो सुप्पहो मओ ॥ ५६ ॥ 25

दिट्ठो एस वरिट्ठेण केवल्लानाणसालिणा । राग-दोसविउत्तेण सव्वाणुग्गहकामिणा ॥ ५७ ॥

तित्थंकरेण वीरेण सुरा-ऽसुरसुसामिणा । तम्हा एस असंदिद्धो सिट्ठो मुत्तिपुरीपहो ॥ ५८ ॥

अप्पच्चएण तित्थे से होइ अप्पा हु वंचिओ । एगंतवच्छलो एत्तो नऽन्नो जन्तूण विज्जई ॥ ५९ ॥

ता सव्वहा महाभागा ! भाविऊण सुबुद्धिए । वीयरारागोवइट्ठम्मि मोक्खमग्गे पयट्ठहा' ॥ ६० ॥

एयं च सुणमाणस्स राडणो वियलिओ कम्मगंठी, पणट्टमन्नाणमितिरं, उज्जोइयं मणोमंदिरं विवेगपईवेण, 30  
 चित्तिउं च पवत्तो—

'एए लोडयदेवा राग-दोसेहिं दूसिया सव्वे । दारपरिग्गह-पहरणरणरसिया जेण सुव्वंति ॥ ६१ ॥

१ मंतिणो जे•विना ॥ २ कज्जिव कमलमिवेलयं ॥ ३ सङ्केतः—“ रायसिद्धो ति राजा सिद्ध, राग एव सिद्ध ” । राय-  
 सिद्धो सङ्केतसम्मत पाठ ॥

सावा-ऽणुगहदाणा नच्चिय-हसिएहिं कूड-कवडेहिं । अम्हाण निच्चिसेसा एगंतहिया न जंतूणं ॥ ६२ ॥  
 अन्नाणिणो वि नियमा जेण छलिज्जन्ति ते वरच्छीहिं । कीलारया पयामं वालव्व हिया-ऽहियाकूसला ॥६३॥  
 ता कहणु तदुवइट्टो लट्टो धम्मो सिवऽप्पणपडिट्टो ? । एवं च ठिए मन्ने धम्मो जिणदेसिओ चेव ॥ ६४ ॥  
 ता दुल्लहं निहिं पिव एयं दिट्ठं पि जे न गिन्हंति । संसारदुक्खदालिदुवइवो सासओ तेसिं ॥ ६५ ॥

- 5 अहवा किं मम परचिताए ? करेमि एयस्स भगवओ पायमूळे परलोगहियं' । ति सपहारिय विन्नत्तो वेयमंत-  
 रेण गुरु । लद्धगुरुसमाएसो पविट्टो नयरं । तओ पसत्थमुहुत्ते काऊण कणयञ्जयकुमारस्स रायाभिसेयं, दाऊण  
 जहोचियपसाए सामन्ताईण, महया विच्छड्डेण पव्वइओ सुमगलमहाराओ ।

कणयञ्जय-जयसुंदरा त्रि जाया परमसावगा पालिंति रज्जं, अहिलसंति पव्वज्जं, भुंजति भोए, ऊसुया गुरु-  
 संजोए, सलहिज्जंति जणेण, न मज्जंति धणेण, वड्ढंति हरि-करि-रह-जोहसंदोहेण, न य छिप्पंति लोहमोहेण,

- 10 कयप्पसाया खयरारणं, निरीहा परगाम-नयरारणं । किं बहुणा ?—

रणसंकहा पणट्ठा, पम्हुट्ठं चारयस्स नामं पि । सारेसु बंध-वह-मारणाडं जाणइ जणो तइया ॥ ६६ ॥  
 ते राम-केसवा इव जाया जं अड्ढभरहविकखाया । वेयड्ढकूडवहुखयरमिहुणसंगीयगुणनिवहा ॥ ६७ ॥  
 जाणंति अरिं चकं, कडयं करमूलभूसणं चेव । जुज्झं तु मल्लजुज्झं अट्टणसालापवेसम्मि ॥ ६८ ॥  
 एगंतसुहपसत्ता विचित्तकीलाविणोयगयचित्ता । दोगुंदुग व्व टेवा गयं पि कालं न याणंति ॥ ६९ ॥

- 15 अह अन्नया पहाए पिंजरिए तरणिसारहिपहाए । पढियं किर मंगलपाढएण उदामसदेण ॥ ७० ॥  
 'जयइ पिहुपुहइमंडलपहियपयावो सुमगलगरुहो । जंलज्जिओ व्व सरो पेहइ उदयहिअंतरिओ ॥ ७१ ॥  
 कह व न लज्जइ सरो कणयञ्जयपुहइसामिणो तस्स । एगत्यठियस्स वि जस्स तिहुयणे पसरइ पयावो ॥ ७२ ॥  
 जयइ सुमंगलतणओ न माइ एको वि जस्स जसहंसो । रुंदे वि हंदि ! वसुहासरम्मि लीलाए विलसंतो' ॥७३॥

एयं च सुणमाणेण चिन्तियं कणयञ्जयरइणा 'किंपमाणा पुण एसा मेइणी?, केत्तिया वा मम वसे वड्ड ?

- 20 त्ति महंतमेयं कोउगं, ता करेमि दिसियत्तं । जओ भणियं —

निगंतूण गिहाओ जो न नियइ पुहइमंडलमसेसं । अच्छेरयसयरम्मं सो पुरिसो कूवमैण्डको ॥ ७४ ॥

तहा वंदामि जिणिंदजम्मण-निकखमण-नाण-नेव्वाणभूमीओ, पूएमि पउरपुर-गामा-ऽऽगर-नगर-निगम-सन्निवेसेसु  
 भवियजणविणिम्मावियचेइयाइं, सासेमि जिणसाहुपडणीए, उद्धरेमि सडियपडियाइं जिणभवणाइं, संथुणेमि  
 मुणिगणं, सम्माणेमि साहम्मियजणं' ति । निवेइओ नियमणोरहो जयसुंदरस्स मन्तिमण्डलस्स य । तेहिं वि 'तह'त्ति

- 25 वुत्ते दवाविया पयाणयढक्का । तओ सेणाहिवाएसेण चलियाओ कयचलंताचलभंतीओ मत्तदन्तिपंतीओ,  
 संपत्थिया समुप्पाइयसुरविमाणसम्मोहा संदणसंदोहा, पयट्टा विसट्टगहिरघण्यरारावसमुदुरंगा विविहतुरंगा, पहाविया  
 विविहपहरणविहत्या पयाइसत्था । तयणु नाणाविहभंडभरियजाणवत्ता वणियपुत्ता । तओ वि खर-करहारोविय-  
 गुणलयणीओ पन्नरमणीओ । किं बहुणा ?—

सव्वे सिप्पी सव्वे त्रि पन्निया मग्गणा वि वग्गंता । चलिया कोउगकलिया अदिट्टजत्ता समन्ता वि ॥ ७५ ॥

- 30 तत्तो वि सुहमुहुत्ते संतेउर-मित्त-मति-सामन्तो । चलिओ महानरिंदो चंदो व्व सतारओ तुरियं ॥ ७६ ॥

तओ—

उन्नयगइंदसिहरो पहरणसोयामणीहिं दिप्पन्तो । गभीरतूरगुंजियगज्जियपडहत्थदिसियको ॥ ७७ ॥  
 उदामदाणजलवुद्धितुद्धतन्हालुपणइवप्पीहो । ऊसियविचित्तलत्तयटिविडिकियवियडभूवीहो ॥ ७८ ॥  
 दीसंतो उन्नयकंधरेण उक्कंठिएण लोएण । अहियवघणो व्व भुवणं पहिंडिओ सो सुहावितो ॥ ७९ ॥  
 जत्तो जत्तो वच्चइ अग्घिज्जइ तत्थ पत्थिवसएहिं । आभरण-रयण-रहवर-तुरंग-दोघइथट्टेहिं ॥ ८० ॥  
 आरोहंतो गुरुगिरिसिरेसु, गिरिसरि-सरेसु मज्जंतो । कीलतो नंदणकाणणेषु संचलइ हेलाए ॥ ८१ ॥ 5  
 जो जो रम्मपएसो तहिं तहिं जिणहराइं कारेइ । सकारेइ पुराणे करेइ पडियाणमुद्धरणं ॥ ८२ ॥  
 मुणियणपभावणपरो उस्सुंके सावए वि कुणमाणो । भमिओ सो भरहद्धं वाससहस्साणि पेगाणि ॥ ८३ ॥  
 पत्तो य भमन्तो पुइइमंडणं सयलसिरिकुलावासं । साएयपुर पुरिसोत्तिमेण रत्ता समाहूओ ॥ ८४ ॥  
 पेच्छइ य तयासन्ने उज्जाणे भइसालरमणिज्जे । जिणमंठिरमइतुंगं रेहंतं मंदरगिरिं व ॥ ८५ ॥  
 आइजिणतित्थमेयं ति हरिसिओ हरिसिओ व्व हलपाणी । जयसुंदरेण सद्धि तत्थ पविट्टो नरवरिट्टो ॥ ८६ ॥ 10  
 संपुइऊण मणि-भोत्तियाइमालाहिं सुप्पवालाहिं । कयपंचंगपणामो जिणविम्बं थोउमारद्धो ॥ ८७ ॥  
 'जय तिहुयणैभुवणुज्जोयदीव ! देविंदविंदकयसेव ! भवभीयजीयसासय ! सासयसुहदाणदुल्ललिय ! ॥ ८८ ॥  
 रायमयरायरायंचुयस्स दोसानलेकमेहस्स । हयमोहजोह ! तुह सुहय ! संव्वया मे नमो होउ ॥ ८९ ॥  
 कोहकरिदरियकेसरि ! मयपव्वयदलणवज्ज ! निरवज्ज ! मायापिसाइवित्तासमंत ! सामिय ! नमो तुज्ज ॥ ९० ॥  
 लोहमहोयदिसोसण ! झोसण ! दुद्धकम्मरासिस्स । भवभीयजंतुसंताणताणदाणक्खम ! नमो ते ॥ ९१ ॥ 15  
 भुवणभुयभूयमहाइसेससंसोहियंग ! गयसंग ! सव्वाणुग्गहरयमइ ! नमो नमो ते मुणियणिंदि ! ॥ ९२ ॥  
 इय विणयपणयपणओ पुणो पुणो संसिऊण जिणनाहं । कयक्किओ इव राया निक्खंतो जिणगिहाहितो ॥ ९३ ॥  
 तयणु तवतवियदेहं गंभीरोरल्लिविजियनवमेहं । निमुणइ सज्जायंतं मुणिविंदमईवसुपसंतं ॥ ९४ ॥  
 नियई गंधेळीए कंकेल्लिमहादुमस्स तस्सरिं । स्सरं व तेयवंतं थुवंतं भव्वसत्तेहिं ॥ ९५ ॥

तओ 'अहो ! जंगमं तित्थं'ति जंपंतो पत्तो तयंतियं, वंदिऊण मुणिंदमाणंदनिव्वरो निसन्नो तयासंने भूमि- 20  
 तले । ताव य भणियं भगवया—

'राहावेहनिंदसणेण दुलहं माणुस्सखेत्ताइयं, सामग्गिं लहिऊण पुन्नवसओ सव्वसुणो सासणे ।

कायव्वो दहमुज्जमो अणुदिणं तुव्वेहिं भो ! सव्वहा, जेणउन्नयगुणज्जणेण सहला एसा समत्था भवे' ॥ ९६ ॥

इच्चाइउवइसंते स्सरिम्मि सासयं पिव पर्यपिओ पुरिसोत्तमरायपुरोहिओ कविंजलो नाम 'सव्वमेयमुववन्नं जीव-  
 सव्भावे भवइ, सो पुण नत्थि पच्चक्खाइपमाणगेज्जत्तेण । तहाहि- न एस घडचिडओ विव पवेस-निग्गमा-उवत्था- 25  
 णाणि कुणंतो नयणेहिं उवल्लभइ, न य संखाइसद्धो व्व सव्वणेहिं, न कप्पूराइपरिमलो व्व घाणेण, न तित्ताइरसो व्व  
 जीहाए, न य सिसिरोसिणाइपवणो व्व फासेण । अओ नत्थि जीवो, पंचभूयपरिणामो चेव नर-तिरियसरीराणं  
 चेयणाइव्वहारो' ति ।

गुरुहिं भणियं "सोममुह ! एयं तुह जीवाभावसाहगं विघ्नाणं विज्जमाणमविज्जमाणं वा ? । न ताव विज्ज-  
 माणं, अमुत्तत्तेण करणपंचयागेज्जत्ताओ । अविज्जमाणे य तम्मि सिद्धो जीवो, पडिसेहगाभावाओ । अह इंदिया- 30  
 गेज्जं पि तमत्थि एवमणेगंतिओ हेऊ जीवाभावं पि कहं साहेज्ज ? । अन्नं च-अंध-वधिराईहिं अणुवल्लभमाणा वि

१ 'इ जिघ्नाणमु' ख१ ख२ ॥ २ पुरिसोत्तमेण ख१ ख२ ॥ ३ 'णभवणु' जे०विना ॥ ४ सङ्केतः- "रायंचुयस्स ति शरमस्य" ॥ ५ सव्वहा मे जे० ॥ ६ "छायायाम्" ख२टि० ॥ ७ 'सन्नभूमिं' जे०विना ॥ ८ पुरिसोत्तिमं जे०विना ॥

संति चेव रूवाइपयत्था, तयझेसिमुवलंभाओ; एवं छउमत्थापचक्खो वि नाणाइसयसंपन्नपरममुणिपचक्खो त्ति अत्थि चेव जीवो । भणियं च—

अणिंदियगुणं जीवं अगेज्झं मंसचक्खुणा । सिद्धा पस्संति सव्वन्नु णाणसिद्धा य साहुणो ॥ ९७ ॥

तहा भद्दमुह ! जो एस भूयपरिणामो चेयणाववहारो तत्थ भणसु—ताइं भूयाइं चेयणाइमचेयणाइं वा ? ।  
 5 जइ चेयणाइं ता सिद्धा णे एणिंदिया जीवा, बहुजीवसंघाया य नर-तिरियाइदेह त्ति । अह अचेयणाइं ता कहं तेसिं समुदाए वि चेयणापरिणामो घडइ ? । न हि जं जेसु पत्तेयं नत्थि तं तेसिं समुदाए वि संभवइ, तेहं व वालुया-  
 घाणए । न य वत्तवं 'जल-गुल-तंदुलाइसु पत्तेयमविज्जमाणं पि संजोएण मयजणणसामत्यमुवलंबइ', पत्तेयं पि  
 तेसिं वलविद्धिजणगत्तेण मयलेसहेउत्ताओ" । एमाइ सवित्थरं वज्जरंते मुणिवइम्मि पडिउत्तरमलहन्तो ठिओ तुन्दिक्को  
 कविंजलो पुणो भणिओ गुरुणा 'भद्द ! न तुज्ज एस साहाविओ कुवोढो, किंतु सिक्खाविओ तुमं पुच्चदुक्कओवणय-  
 10 जंचंधमावेण तिच्चमिच्छत्तोदयपच्छाइयपरलोयभएण केसवाभिहाणमाउलएणं ति । अवि य—

मोहंधयारनडिया पाविउकामा दुरंतदुक्खाइं । नट्ठा नासिंति परं पि तुच्छमिच्छोवएसेहिं ॥ ९८ ॥

अह पुरिसोत्तमराया सवियक्को भणइ मुणिवरं नमिउं । 'भयवं ! किं पुण पुवं तेण कयं जस्स फलमेयं ?' ॥९९॥

तओ पक्कहिओ भगवं—

इहेव भारहे वासे वसतपुरसामी वीरगओ नाम राया होत्था । सो पुण सयलगुणसंगओ वि मयंको व्व कलं-

15 कमेकं पारद्धिपियत्तदोसमुव्वहइ, तन्निमित्तं च गओ कयाइ नयरासन्नमरन्नं, पवत्तो पारद्धिकीलाए । कहं ?—

तुरयारूढो मूढो धावइ एगेसि पिट्ठओ तुट्ठो । अन्ने सरेहिं ताडइ धावन्त-खलन्त-निवडते ॥ १०० ॥

छंदाणुवत्तिलोया साहुकारं मुणित्तु उक्करिसा । दुगुणियजवं तुरंगं पेहइ वणपाणिणंतेण ॥ १०१ ॥,

अन्नेसिं भुलंतो सतालगालीसहस्समुहलेहिं । मिच्चेहिं उवहसिज्जइ निल्लज्जो पहरइ तहा वि ॥ १०२ ॥

धावंतेसु पहावइ, वलइ वलंतेसु सस-मयाईसु । अन्नेसि मंगलग्गो ठाड लहुं दुट्ठपरिणामो ॥ १०३ ॥

20 रसनिब्भरेण एवं दिट्ठो तरुगहणगिरिनिगुंजम्मि । भयतरलच्छो हत्थं वराहपोओ निलीयंतो ॥ १०४ ॥

ताडियतुरियतुरंगो आयन्नागिट्टलट्ठकोदण्डो । मुयइ य चंडं कंडं तस्स वहाए महावेसो ॥ १०५ ॥

चलिओ य तयणुमग्गं पेच्छइ द्वाणद्वियस्स वरमुणिणो । चलणंतरम्मि पडियं नियवाणं, न उण तं कोलं ॥१०६॥

ताहे संभंतो 'अहो ! महापावो हं मणागं न पाविओ म्हि मुणिवहमहापावेणं' ति चितयंतो निवडिओ मुणि-  
 वरचलणेसु, खामिउं च पवत्तो । कहं ?—

25 'सयलजयजीववच्छल ! कारुन्नामयसमुद्द ! जणमुद्द ! । धीरिमतुलियधराहर ! खम-दम-समसार ! जियमार ! ॥१०७॥

पावेण मए मुणिवर ! अयाणमाणेण तुम्हमिह वसहिं । मुक्को वाणो किर सूररस्स घायाय मूढेण ॥ १०८ ॥

पत्तो वि पायमूलं न तुम्ह पीडावहो जमह जाओ । तं तुम्ह पमावाओ पावाओ सामि ! लुट्ठो मि ॥ १०९ ॥

हद्धी ! मणा न पडिओ अयसमहाकदमद्दे रुंदे । आकप्पमणप्पाओ तुह माहर्प्पाओ अज्जाहं ॥ ११० ॥

ता पसिय पसिय महरिसि ! खमसु महं गरुयमेयमवराहं । हुन्ति खल्लु मुणियतत्ता खमापहाणा महासत्ता ॥

30 अहवा किं बहुएणं ? खित्तो अप्पा मए तुहंकम्मि । समसत्तु-मित्त ! जं ते उच्चियं तं कुणसु एत्ताहे' ॥ ११२ ॥

असमत्तज्ञाणजोगा मुणिणो पडिउत्तरं अपावितो । सुट्ठुयरं परिभीओ पुणो वि भणिउं समारद्धो ॥ ११३ ॥

'भयवं ! किं न वियाणसि वसतपुरसामियं ममं पावं ? । अकुणंतो अणुकंपं नणु कंपं कुणसि मे जेण ॥ ११४॥

तेएण तणं व जणं दहंति तुम्हारिसा खणद्धेण । सावेण खणेण सुराहिवं पि सग्गाओ टाल्ति ॥ ११५ ॥  
 ता धरइ नरो जीयं जाव भवंतो कुणंति कारुणं । ता गदहस्स कन्ना पडिहासइ सामिणो जाव ॥ ११६ ॥  
 आसासेसि न संपइ जइ ता मुणिचंद ! खंतिजोन्हाए । अवराहदाहविहुरो चयामि ता निच्छियं पाणे ॥ ११७ ॥  
 इय लल्लिपरो पडिपुन्नजाणजोगेण साहुणा भणिओ । 'मा भाहि पुरिसपुंगव ! न रोसणो रिसिजणो होइ ॥ ११८ ॥  
 आओवमाणपरिगणियपरजणा सत्तु-मित्तसमचित्ता । रूसन्ति नेव रिसिणो पगिट्टदुट्टे पउट्टे वि ॥ ११९ ॥ 5  
 तं पुण अदुट्टभाओ अविद्वियपाओ वि जायमणताओ । अन्नस्स वि कोवपयं न होसि, किं पुण जइजणस्स ? ॥ १२० ॥  
 नवरं सुण मम वयणं करिकन्नचलम्मि भोगसंजोगे । तरुणीकडक्खतरलम्मि जोव्वणे जीवियव्वे य ॥ १२१ ॥  
 न खमं खणं पि रमिउं पावारभेसु नरयहेऊसु । दीहाणुपेहिणो नणु हुन्ति सयाणा नयपहाणा ॥ १२२ ॥  
 पेच्छइ दुद्धं मुद्धो मज्जारो न उण लउडयपहारं । एवं पावपसत्तो न गणइ नरयावइं मूढो ॥ १२३ ॥  
 पुण दुल्लहं नराहिव ! मणुयत्तं होइ कुगइपत्ताणं । किं लब्भइ वररयणं पडियमगाहे सलिलनाहे ॥ १२४ ॥ 10  
 परिगलइ सययमाउं, अभिधावइ मच्चुरक्खसो घोरो । ता चय पावपसंगं नरिंद ! धम्मज्जओ होसु ॥ १२५ ॥  
 परिहरसु पावमूलं पाणिवहं नरयनयरपउणपहं । सारीर-माणसाणं कुलगेहं दुक्खलक्खाणं ॥ १२६ ॥  
 पियजीवियाण जीवाण जीवियं जे हरंति सुहत्तिसिया । ते घोळिऊण घोटंति जीवियत्ये विसं घोरं ॥ १२७ ॥  
 पावं करेइ मूढो जाण कए पुत्त-पुत्ति-पत्तीणं । ते हुंति न ताणं नरयच्चिणा पच्चमाणस्स ॥ १२८ ॥  
 चिट्ठंतु ताव सयाणा जो किर अच्चंतपोसिओ देहो । सो वि विलोदइ मरणे रणे कुभिच्चो व्व नियमेण ॥ १२९ ॥ 15  
 ता परलोयसहायं जल-थल-रण-दुग्गामग्गभयहरणं । पडिवज्ज महामइ ! धम्मसामियं सव्वहा सरणं ॥ १३० ॥

एवमाइमुणिमुहकुहरपअरंतपवरधम्मोवएसवारिसारणीपक्खालियकलिमलपडलो गंठिभेयाहियसम्मत्तपरिणामो  
 पडिवुद्धो वीरगयराया, पडिवन्नो सम्मत्तमूलाइं पंचाणुव्वयाइं, वंदिऊण य मुणिं कयक्किच्चमप्पाणं मन्नमाणो गओ  
 सट्ठाणं, पवत्तो परिवालित्तं सावयधम्मसमायारं । तस्स य राडणो जिणप्पिओ नाम सड्ढो अहिगयजीवा-ऽजीवो  
 उवलद्धपुन्न-पाओ उजुपन्नो कुगाहकलंकविमुक्कविमलवोहो मग्गाणुसारी मुणिजणवहुमओ य पइदिणमागम्म उववूहं 20  
 करेइ, कहेइ जिणसाहुगुणे, होइ जिणपूयाए सहाओ । तं च वहुमन्नइ राया, पेच्छइ धम्मगुरुबुद्धीए ।

अत्थि य तम्मि नयरे उच्छन्नधण-सयणो सावयनिस्सासंपन्नसरीरवित्ती अपत्तभावसम्मत्तो मोहणो नाम आजी-  
 वगसावओ । तेण भणिओ जिणप्पिओ 'दंसेहि मं नरवइस्स, जेण तन्निस्साए निच्चित्तो धम्ममणुचिट्ठामि' त्ति ।  
 तेणावि साहम्मियवच्छलयाए निवेइए अंगीकओ राइणा निउत्तो जिणपूयाइकज्जसाहेज्जे । 'रायसम्मओ' त्ति जाओ  
 सेसजणस्स वि गोरवट्ठाणं । 25

अन्नया धम्मजागरियाजागरणाओ वीरसेणकुमारं रज्जारिहमवगच्छिऊण निव्विन्नकामभोगेण चरणपरिणामो-  
 वगएण भणिओ एस राडणा 'भद मोहण ! उवलभाहि कर्हिचि कंचि धम्मायरियं, जेण तस्स समीवे संजमपडि-  
 वत्तीए समुत्तारेमि रुंदाओ भवसमुदाओ अप्पाणं' त्ति । तेणावि 'एवं' ति पडिवज्जिऊण 'न एयमंतरेण ममेस  
 सुहासियासंभवो' त्ति भाविऊण लद्धावसर सब्भावसारमिव भणिओ एस 'देव ! निरुव्विओ मए सओ परओ य  
 न कोइ तहाविहो गुरु संपयं पलोइज्जइ, जं पहाणपोयमिवोवसंपज्जिऊण जणो ससारसमुदमुत्तरइ, दुक्करं च समण- 30  
 त्तणं, जओ-पवणुद्धयधयग्गचंचलं चित्तं, विसयलोलोइं इदियाइं, चिरव्वन्थो दुपरिच्चओ पमाओ, एवं च ठिए न  
 तीरंति धरिउं एगंतापमत्तमुणिजणाइन्ना अट्टारससीलंगसहस्सा, एगाभावे वि सव्वेसिं तेसिमभावो सुए वन्निज्जइ,

विराहियधम्माण य अणंतो संसारो, ता वरं गिहिभावे चैव सामाइयपोसहाडणा जहासत्ति धम्मासेवणं, न खल्ल मंचयाओ पडियस्स तद्वा पीडासंभवो जहा तुंगाओ गिरिसिगाओ, एत्तो चेवाहं संसारभउव्विग्गो वि न पव्वयामि' त्ति । एयमायन्निऊण चित्तियं नरिंदेण 'अहो ! लोय-लोउत्तरविरुद्धमंतिएहिं एसो संजमस्स एगंताणुवाएयत्तं ठावेइ, लोए ताव किसि-वाणिज्ज-रोगचिगिच्छा-रिउविजय-गमणा-SSगमणाइसव्वकिरियासमुच्छेओ पसज्जइ सव्वत्थावाय- 5 संकासंभवाओ, लोउत्तरे वि अणाइभववभत्थपमायाईहिं विग्घसंभवाओ मोक्खाभावप्पसंगो, पसिद्धं च जिणमए जइधम्माओ नेव्वाणसाहणं, ता किमेइणा सह त्रिवाएण? जिणप्पिय चैव पुच्छामि परमत्थं' । त्ति संपहारिऊण वाह- रिओ जिणप्पिओ, निवेइओ निययाभिप्पाओ मोहणभणियं च । तओ मोहणमुद्धिसिय जंपियं जिणप्पिण "भइ ! सच्चं मोहणो सि, जो रायाणं संजमुज्जोयाभिमुहमेव मोहेसि । तद्वाहि सुण—

किं कुणइ चळं चित्तं ? किं वा अइदुज्जओ करणवग्गो ? । किं व पमाओ पभवइ ? साहसरसियाण धीराण ॥१३१  
 10 सज्जाय-ज्ञाण-तवसुद्धियाण गुरुवयणविणयनिरयाण । न चलइ पावेसु मणं भवभमभीयाण विरयाणं ॥१३२॥  
 उप्पाडिऊण गरुयं सीलंगाणं महाभरं सत्ता । मुंचंति न अद्धपहे सच्चपइन्ना महापन्ना ॥ १३३ ॥  
 न य खलणामेत्तेण वि भज्जइ साहूण इंदि ! सीलंगं । अवि य विसुज्जइ अणुतावसारपच्छित्तेचरणाओ ॥१३४  
 जइ कोइ कम्मदोसा वच्चंतो खलइ मुत्तिमग्गम्मि । जुज्जइ न तदुद्देसा अपवित्ती तत्थ अग्नेसिं ॥ १३५ ॥  
 जइ कह वि जाणवत्तं भिन्नमउन्नस्स नीरनाहम्मि । ता मा विसउ किमन्नो तत्थ नरो लच्छित्तल्लिच्छो ? ॥१३६॥  
 15 जरिओ त्ति मओ मूढो जइ कोई महु-घयाइं भोत्तूणं । ता किं कयाइ केणइ महु-घयभोगो न कायव्वो ? ॥१३७॥  
 गिरिसिहरपडणनाया 'जं पि निवारेसि संजमारुहणं । समभूमिसमं नूणं ता बहुमग्नेसि मिच्छत्तं ॥ १३८ ॥  
 गिरिसिहरपडणनायंदिज्जइ चरणाओ परिवडंताणं । उववूह चिय उचिया चरणाभिमुहाण पुणरुत्तं ॥१३९॥  
 चरणपडिवत्तिविग्घं कुणंति जे घडियकूडजुत्तीहिं । ते तिकवदुक्खलक्खवाण भाइणो हुंति पइजम्मं ॥१४०॥  
 को ततो पात्रयरो ? पडणीओ वा जिणिंदधम्मस्स ? । उजुधम्मियाण जो भावपाडणं कुणइ मूढप्पा ॥१४१॥

20 अन्नं च—

भावपडिवन्नचरणो कंटग-जर-मोहसरिसविग्घेहिं । खलिओ वि मुत्तिमग्गे लग्गइ नियमेण भणियं च ॥१४२॥  
 पडिवंधो वि य एत्थं सोहणपंथम्मि संपयट्ठस्स । कंटग-जर-मोहसमो विन्नेओ धीरपुरिसेहिं ॥ १४३ ॥  
 जह पावणिज्जगुणनाणओ इमो अवगमम्मि एएसिं । तत्थेव संपयट्ठइ तह एसा सिद्धिकज्जम्मि ॥ १४४ ॥  
 इय चरणकउच्छाहं जो विनिवारेइ अलियजुत्तीहिं । पावाण वि सो पावो नेओ जिणधम्मपंडिणीओ ॥१४५॥  
 25 'न य दीसइ कोइ गुरु संपइ संसारतारणसमत्थो' । इयभूयनिहवाओ नज्जइ छन्नं पि मिच्छत्तं ॥ १४६ ॥  
 चत्तघर-घरिणिसंगा वय-समिई-गुत्ति-संतिसंजुत्ता । तव-नाण-आणकलिया दीसन्ति फुडं महासुणिणो ॥ १४७ ॥  
 जयपयडं जइवग्गं न नियइ मिच्छत्तल्लाइओ जीवो । न नियच्छइ जच्चंधो घड-पड-कडगाइ संतं पि ॥ १४८ ॥  
 ता पडिकमाहि सम्मं सुंदर ! दुब्भासियस्स एयस्स । जइ किर नेच्छसि भमिउं भीमे संसाररन्नम्मि" ॥१४९॥

एवमाइ जिणप्पिण्णाणुसारिओ विरइयवित्रिहवट्टुत्तरपरंपरो गहिओ मोहणो महापडिनिवेसेण । 'पडिया- 30 राणरिहो' त्ति उवेक्खिओ जिणप्पिण्ण, भणिओ य राया 'देव ! धन्नो तुमं जमेवमच्चंतदुल्लहं सुणिचरियमज्ज-

१ 'सत्करणाओ जे०विना ॥ २ ज च नि' जे०विना ॥ ३ भायणो जे० ॥ ४ 'कडुच्छाहं जे०विना ॥ ५ 'पडणीओ जे०विना ॥ ६ न इ दी' जे० ॥ ७ जयमग्गं खं१ ॥

वसिओ सि, ता कल्लणभाईणमेव एवंविहमणोरहो वि संभवइ, ता पुज्जंतु ते मणोरहा देव-गुरुपायाणुभावेण, सहाओ एत्थाहं पि देवस्स, समागओ य हिज्जो इह नयरे उवसमसिरिकुलहरं हरहास-कासकुसुमसमुज्जलजसपसरो सरणागयजंतुवच्छलो छलमच्छरुच्छेयदच्छातुच्छवयणवित्थरकुसलो सलक्खणपाणि-पायतलो धम्मो व्व मुत्तिमंतो जयकंतो नाम मुणिवई, तयन्तिए साहेमो समीहियं'ति । तयणु पहट्टमुहपकओ 'तह'त्ति पड्डिवज्जिऊण गओ गुरु-वंदणवडियाए राया । सोऊण य असारयं जीवलोयस्स, अणिच्चयं जीविय-जोयण-धणाणं, अपरमत्थपेच्छित्तं पेमपरिणा- 5 मस्स, उवादेययं च मुणिधम्मस्स, संवेगभावियमई वीरसेणकुमारारोवियरज्जभारो सद्धिं जिणप्पिएण मंति-सामन्त-सेट्ठि-सत्थवाहाईहिं पियपणइणीहि य पवन्नो विहिणा पव्वज्जं ति । अहिज्जिओ एगारसंगाइं । 'विणीयविणओ'त्ति निउत्तो गुरुहिं वेयावच्चे अज्जिणिऊण य महंतं पुन्नसंभारं, छट्ट-ऽट्टमाइविगिट्ठतवोणुट्ठाणनिट्ठवियाणिट्ठकम्मंसो जाओ महासुक्के सुत्तिदो । जिणप्पिओ वि पत्तो तस्सेव सामाणियत्तं ।

सो वि वराओ मोहणो पड्डिनिवेसाओ विप्पड्डिवन्नो जईण जाओ छिद्धेसी निरुवेइ पमायखलियाइं, दट्टूण 10 य सेह-मंदधम्माईणं करेइ गुरुगणावन्नवायं, विपरिणामेइ उज्जुधम्मिए, विसेसओ दाणसद्धिए । एवमसब्भूयभाव-णाहिं भाविऊण परमप्पाणं च अणालोइयपड्डिकंतो तहाविहायंकसंपकपयट्टमहट्टज्जवसाणो कालं काऊण समु-प्पन्नो विज्ञारत्ते मायंगो, गहिओ वारिवंधप्पओगओ वणयरेहिं, उवणीओ हेडावणियस्स, तेणावि महुराहिवस्स, तेणावि 'सुरो'त्ति निउत्तो संगामेसु, निसग्गेण पडणीओ जइजणस्स ।

अन्नया पच्चासन्नउज्जाणे सोऊण सज्जायंते साहुणो भग्गालाणखंभो पहाविओ तयभिमुहं, 'कोहंधो'त्ति 15 पैडिओ अंतरखड्डाए, भग्गो अंगभारेण, वियारियं मोत्तियत्थीहिं कुंभयलं । तओ असुहलेसापरिणओ मओ गओ रयणप्पह । सद्धिऊण तत्थ दारुणवियणाओ तओ उव्वट्टो जाओ सेणपक्खी । तओ वि भरियपावभरो गओ वाल-गप्पह । तत्तो वि उव्वट्टो सीहभावमणुभविऊण कूरकम्मोवज्जियनरयाऊ पाविओ पक्कप्पह । तहिं चाणुभविऊण वयणगोयरावकंताओ दुरंतओ वेयणाओ समुप्पन्नो सिरिषणनयरे कामदत्तवाणियगस्स वसुयत्ताए कंताए पुत्तभावेण, कयसुमित्तनामवेओ पवड्डिहउं पवत्तो । 20

इओ य जिणप्पियसुरो सुराउयमइवाहिऊण पुन्नसेसेणोववन्नो तम्मि चेव नयरे विणयंधरधणड्डनेगमस्स सुर-सुंदरिसमहेलाए महेलाए सयलगुणवईए गुणवईए नीसेसलक्खणसंगओ अंगओ । सो वि निव्वत्तियगुणधरनामो संपत्तसयलकामो सुट्ठि-सयणजणमणाभिरामो असंपत्तमणसंतावं पाविओ तरुणभावं । पुव्वव्भासेण य पीई तस्स सुमित्तम्मि सव्भावेण, इयरस्सावि कइयवेण । अभिरमंति य दो वि एगत्य, 'अप्पधणो'त्ति लज्जइ नियतुच्छनेव- 25 त्येण सुमित्तो, तहा वि गुणधरो सविसेसं तमणुवत्तइ । अन्नया सकम्मवसएसु पंचत्तं गएसु जणणि-जणएसु लद्धाव-सरेणैव अभिभूओ सो दालिइसत्तुणा, परिभूओ सयणेहिं, जाओ अवमाणभायणं सहवासिलोयाणं । अवि य—

चित्तानडिओ अवमाणपीडिओ गलियवुद्धिचेयन्नो । दालिइग्गिपालित्तो जीवंतमओ मओ पुरिसो ॥ १५० ॥

वैज्जन्तो अन्नकहं अन्नकहं चेव कुणइ एगग्गो । चिट्ठइ निच्चोउलओ निच्चाऽऽउलओ विहवहीणो ॥ १५१ ॥

छंदमणुयत्तमाणो पियं भणंतो वि विणयनिउणो वि । रामेइ मणो धणइत्तयस्स न कयाइ धणहीणो ॥ १५२ ॥

लज्जइ छणम्मि, न मिलइ महायणे अंगभोगनिरवेक्खो । 'सिरिहित्तो पुव्वमयाण निद्धणो दुकरं जियइ ॥ १५३ ॥ 30

१ 'णमेवविह' ले०विना ॥ २ पवड्डिउं अं ले०विना ॥ ३ संपन्नसं ले०विना ॥ ४ संकेतः—“वर्जयन्नया कथा अन्नकथामेव” ॥ ५ संकेतः—“निच्चाउलओ [ निच्चाऽऽउलओ ] ति चाउला -तन्दुलास्तद्रहित नित्यमाकूलश्च” ॥ ६ सिरि- ३०



सो वि सुमित्तो सहत्रासिजणावमाणणोवणीयदीणभावो पुच्छंतो विचित्तदेसपडत्ति 'पवसिउमणो' त्ति सुणिओ गुणंधरेण, चित्तियं च—

5 'मरणं खु सउस्सासं अणग्गिदाहो अनामओ वाही । अविसं धारणमंगे दालिदं होइ पुरिसस्स ॥ १५४ ॥  
इद्विओगो रोगो सुहं सहिज्जइ अणिट्टजोगो वि । निद्वणभावो पुण माणसालिणो दुस्सहो नूणं ॥ १५५ ॥  
इय दुस्सहदुहततो पवसिउकामो व्व एस मम मित्तो । सरमाणो व्व पसिदं सुभासियं सुंदरं एयं ॥ १५६ ॥  
पुरिसेण माणधणवज्जिएण अच्चंतझीणविहवेण । ते देसा गंतव्वा जत्थ सवासा न दीसन्ति ॥ १५७ ॥

अन्नं च—

लज्जणयमइमहंतं ममावि मित्तो विसीयइ जमेवं । रयणायरकयसेवो किं नाम न सुत्थिओ होइ ? ॥ १५८ ॥  
दिज्जंते उण वित्ते न याणिमो कि पि गुरुजणो भणिही । एसो वि लहुत्तभया न गिन्दिही दिज्जमाणं पि ॥ १५९ ॥  
10 ता एयसहाओ गंतूण देसन्तरं करेमि धणज्जणं । एवमेसो वि अणवगयगरिमो समुद्धरिओ होइ । गुरुजण-  
स्स वि चित्तमन्नहा न होइ' । त्ति संपहारिऊण भणिओ सुमित्तो 'मित्त ! अत्थि मे दव्वमुवज्जिउं मणोरहो जइ तुमं-  
साहेज्जं पवज्जसि' । तेणावि कवडसीलयाए पडिवुत्तं 'जं तुममाणवेसि', चित्तियं च 'वच्चांमि सममेएण, तवो  
केणइ मायापवंचेण समत्थं पि रित्थं गिन्दिस्सामि' त्ति ।

तओ कह कह वि मोयाविऊण जणयं भूरिभण्डभरियविविहपवहणेहिं पयट्टो तस्सहाओ गुणंधरो । अणवर-  
15 यपयाणएहिं लंविऊणाणेगदेसे पत्ता एगं महाडविं । आवासिए य सत्ये कोउगवसेण दो वि जणा पवत्ता वणम-  
वलोइउं, पत्ता य उंवरतरुहेट्टा । तस्सरुवदंसणाओ पडियं गुणंधरेण—

'सिसिरच्छाओ वि तुमे समसुंवर ! तुलउ कह तरु अन्नो ? । जं मूलाओ फलसंपयाए उवयरसि पहियाणं' ॥ १६० ॥  
इयरेणावि 'अव्वो ! सज्जणगोट्टि व्व सीयला दुपरिच्चया य एयच्छाया, ता वीसमामो खणं' ति जंपंतेण  
रइया पल्लवसेज्जा । निवन्नो तदुवरोहेण गुणधरो । पवीइओ इयरो वि पत्तसाहाए । तओ मग्गपरिस्समाओ संतावो-  
20 वसमाओ विस्सत्यभावाओ य उवागया गुणंधरस्स निदा । 'एस अवसरो' त्ति पलाणो तुरए गहाय इयरो । 'सवरेहिं  
गहिओ गुणधरो, ता पलायह पलायह' त्ति भणंतेण पेळ्ळिओ णेण सत्थो अन्नमग्गेण । कवडसोएण पत्तियाविऊण  
परियणं पडिवन्नं भंडसामित्तं । 'अहो ! सयंवरा लच्छि' त्ति हरिसिएण चित्तियं च—

'अवलोइओ म्हि अज्जं नूणं विहिणा सिणिद्धदिट्ठीए । आलिंगिओ म्हि कमलालयाए देवीए जं एवं' ॥ १६१ ॥  
दुइयदिणे समागए मज्झंदिणे सहस त्ति तदीयपावोदयचोइओ व्व समुच्छलिओ कयंतजीहाकरालजालामाला-  
25 सहस्सालिंगियाणेगनगानिलीणदीणडज्जमाणकुलायविहंगविरुयरवाऊरियनहंगणो इओतओपलायंतरुरू-रोज्ज-सरह-  
संवर-वराह-मय-मयाहिव-जंनुय-वलीसुहपमुहवणयरविमुक्ककंदसहभेरवदिसायको फुडंतवेणुवणुच्छलन्ततडयडारवुव्वे-  
वियसमत्तसत्तसवणविवरो मुजवणपवणपेळ्ळणावन्नमणपसराइरित्तवेगो महया वित्थारेणं भुवणं पिव गसिउकामो  
नवपाउसमेहंमालायंतमहंतधूमपडलपिहियनहयलो महंतो दवानलो । तओ विमुक्कलल्लकपोकारवो अवहत्थियजीवि-  
यासो अन्नोघ्णाणवेक्खाए पलाणो सत्थियजणो सुमित्तो य । कयंतेण विय कवलियाइं खणद्धेण दवग्गिणा सयल-  
30 जाण-वाहणाइं । 'निव्वग्गसिरोमणि' त्ति चत्तो य भियगवग्गेण एसो मूढदिसायको तन्हा-लुहाभिभूयविग्गहो  
पविट्टो गिरिसंकडं, दिट्टो तस्संठियचिलाएहि, वट्टो अल्लचम्मेण । विन्नायतत्तेहि य विमुक्को तिरत्तावसाणे किच्छेण  
पाविओ वसिमं भिक्खावित्तीए पहिण्डिओ पुहइमण्डलं ।

डओ य सो गुणधरो तहाविस्सत्थपसुत्तो दिवसंते दिट्ठो तयासन्नपल्लिनाहेण भिगयागएण सेहरेण, चेयावि-  
ऊण पुच्छिओ पउत्तिं । तेणावि साहिऊण जहट्टियं 'कहिं पुण सुमित्तो?' त्ति सवियक्केण सडुक्खं भणियं 'अवि  
दिट्ठो तुव्वेहिं इह पएसे मम वीयसरीरभूओ सहायपुरिसो?' । पल्लिवरणा वि 'ण दिट्ठो, तहा वि मम भिच्चा लहुं  
लहिस्संति तप्पउत्तिं सत्थवुत्तं च, एह ताव पल्लि' ति भणंतेण सगोरवं नीओ नियपल्लिं । कयं न्हाण-भोयणाइ-  
वच्छल्लं, विसिद्धगोटीए वोळिया रयणी । ताव य निवेइयं पल्लिवरणो निउत्तपुरिसेहिं जहा 'तक्कालमेव तुरन्तो 5  
पउत्थो सो सत्थो, न य निरुविओ को वि कहवि अउव्वपुरिसो' त्ति । तओ 'किमेयमसंभावणिज्जं?' ति  
अणप्पवियप्पाउलमणो भणिओ गुणधरो सवरेसरेण 'अज्ज ! मा विसायं गच्छ, जओ सत्तसारा तुम्हारिसा न सिरीए  
सुच्चति । पढियं च—

वसणागमि न विसाउ मणि, विहवि न थड्ढिम जाहं । कुट्ठि लगी संपय सरइ, साहसरसियहं ताहं ॥१६२॥  
अन्नं च—वीरपुरपत्थिओ तुमं, सत्थो य तत्थ गिरिपरिरएण चिरेण पडुप्पिही, भवंतं पुण पयमग्गेणाणागयमेव 10  
तत्थ पडुत्तं करीहामि' ।

भणियं गुणधरेण वि 'निक्कारणवच्छले सुवंधुम्मि । तड सन्निहिए सज्जण ! को अवगासो विसायस्स ? ॥१६३॥  
अवि य—

संसारविसमविसपायवस्स अमयप्फलाडं एयाइं । अंगुट्टियगेयं सुयणसंगमो अवसरे पढियं' ॥ १६४ ॥

पल्लिवरणो पेवुत्तं 'सुंदर ! वणसावयाणमग्हाण । सारा-उसारावेइण केरिसं नाम सुयणत्तं ?' ॥ १६५ ॥ 15

गुणधरेण भणइ—

'विसहरसिरे वि वुत्थं विसहरणं किं न होइ मणिरयणं ? । अंगुट्टियगुणनिहिणो ठाणं सुयणस्स किं हरइ ?' ॥१६६॥

इय सुयणसमुच्चियालावसंकहापम्हुसियमणपीडं धरिऊण केइ दियहे विओयभीरुणा विसज्जिओ पल्लिवरणो  
समप्पिऊण सयसहस्सवेहिरसपडहच्छं तुंबयं, भणिओ य 'अज्ज ! अत्थलालसो तुमं ता गिन्हाहि एयं दिट्ठपच्चयं  
महारसं । अवि य— 20

तउ-तार-तम्ब-कालायसाण छिक्काणमेयलेसेण । जायइ कंचणभावो सहस त्ति किलेसविरहेण ॥ १६७ ॥

जइ कह वि दिव्वजोगा न मिलइ सत्थो तहा वि सुविसत्थो । एएण धणसमिद्धिं सुहेण संपाउणेज्जासि' ॥१६८॥

एवं भणिऊण पच्चइयसहाएहिं पेसितो वीरपुर गुणधरो । सो वि सवराहिवसोज्जावज्जियमणो पत्तो तत्थ,  
ठिओ विट्ठुदेवजुञ्जवाणियगमंदिरे पइदिणं सत्थमग्गावलोयणवावडो चिट्ठइ ।

अन्धया सुमित्तो वि लुहा-परिस्समाइसुसियमलीमससरीरो दुइंसणीयसेहरत्तमणुहवंतो समागओ गुणधरासन्ने, 25  
न य पच्चभिन्नाओ गुणधरेण । सो वि 'न एयं विणा भोयणसंपत्ती वि'त्ति पायडियक्कवडनेहो तं कंठे वेत्तूण  
परुओ । सहेण परिन्नाय समासासिओ गुणधरेण, पुच्छिओ वुत्तं । तेणावि परिकप्पिऊण निवेइयं घग्घरसरेण  
"तया तुह निद्दासुहमणुहवंतस्स सहस त्ति पुक्करियं सत्थिएहिं, तओ निद्दासुहविघायभयाओ भवंतमवोहिऊण पहा-  
विओ म्हि तओहुत्तं, दट्ठण सवरघाडीए लुडिज्जंतीओ सत्थविलयाओ भंडवक्खरं च पजुज्जिओ म्हि सकुलपुत्तओ  
सवरेहिं सद्धिं, देव्ववसएण पाडिऊण कुलपुत्तए वडो हं तेहिं, नीओ नियपल्लिं । विभाइयाइं कयाणगाइं, समीहि- 30  
याइरिच्चित्तसंपतीए पारद्धो अक्कालच्छणो । तओ तेसिं पमत्ताणं पडिया वइरिधाडी, पवत्तमाओहणं, पलाणो  
पल्लिजणो, अहं पि लद्धावसरो पलाइऊण समागओ पडिपहेण, भमिओ भवन्तमन्निसंतो सयलमरन्नं, न य कत्थइ

उवलद्धो सि । तओ 'कयाइ वीरपुरं गओ भन्निस्सइ'त्ति संभावणाए आगच्छमाणो पुत्रपुत्रेहिं एम मिच्छिओ म्दि नियबंधुणो"त्ति । गुणधरेणात्रि 'भोय ! सुहं गिहे निवसंतो मए पाडिओ सि किलेमगणम्मि, सुंदरं तु एयं जं जीवमाणो मिलिओ सि'त्ति समुल्लवंतेण नेऊण गिहं कारात्रिओ सरीरट्टिडं, गिट्टो रसत्ताभावनाणो सेट्टमंपओग-वइयरो, साहिओ पओगविही, भणिओ 'मा विसायं गच्छ, लद्धमिओ भंड-वाहणाड सविसेमं मंपाएमो'त्ति ।  
 5 इयरेणात्रि वंचणुज्जयमइणा भणियं 'एयं चेव वहामो, किमघभण्ड-वाहणाडंवरणे? सुहं गिहे कणयमुप्पाइज्जट्' । गुणधरेण भणियं 'सच्चमेयं, फिट्टु लज्जिज्ज सामगिरट्टिएहिं सट्टेसं विसंतेहिं' । इयरेण वुत्तं 'जइ एवं ता इहेव रसतुम्बयं चिट्टु, केड दिणे पेच्छामो देसंतराणि, न नज्जइ कयाड पुण गिहाओ निग्गामो होड'त्ति । तयणुरोहाओ देसदंसणकोउगाओ य पडिवन्नमेयं गुणधरेण ।

तओ अकहियपरमत्थयं तुंवयं नासयं समप्पिऊण जुज्जेट्टिणो निग्गया नगराओ, पडिण्डिया पुहडमण्डलं । ताहे  
 10 सुमित्तकुमित्तो 'न ममेयम्मि धरमाणे तं रसतुम्बयं थिरं होड, ता कइंचि वावाएमि एयं'ति कयाभिसंधी तहा-विहमुवायमलभंतो भणइ 'मित्त ! वचामो तामलित्ति, अवगाहेमो भगवंतं रयणायरं'ति । तओ गुणधरो 'कइमेयं नीवि विणा घडड ? अहवा न कायव्वो तुह वयणभंगो, ता पेच्छामो ताव वेलाउलं'ति भणंतो पत्तो तामलित्ति । समा-गयाणि य तत्थ तम्मि दिणे कडाहदीवाओ पवहणाडं, गया कोउगेण ते तत्थ । 'भइगिड'त्ति बहुमन्निओ जाण-वत्तसामिणा गुणधरो, भणिओ य 'गिन्हाहि उच्चत्ताए सव्वभंडमेत्तियमोल्लेण' । अणुक्कलसउणवलाओ पडिवन्नं  
 15 गुणधरेण, भणियं च 'इओ परं अहमेव भंडसामी, तुव्मेउण मोल्लसामिणो'त्ति । 'टिया सट्टि'त्ति तेहिं वुत्ते समागया पंचउल्लिगा महानेगमा य । 'को एत्थ सामिओ?'त्ति पुच्छिए दाविओ वहणसमिणा गुणधरो । तओ पंचउल्लिगेहिं निरुवियाइं कयाणगाइं, कओ सुंकपरिच्छेओ; ठविओ अग्यो, गहियं महाजणेण सव्वभंडं, जाओ लाभो गुणवरस्स दीणारकोडी । 'पढमदंसणे चेव तुट्टो णे तरंगिणीनाहो'त्ति जंपिरेण पसाईकया सा सुमित्तस्स । तहा वि सो तदु-वरिं अपीइपरिणामाओ रसलोभाओ य पभणियाइओ 'एयाए नीवियाए गिन्दिऊण परतीराचियं भंडं वचामो  
 20 चीणदीव ति । तओ 'महिच्छो एस न एत्तिएण संतुस्सइ, कायव्वो य मए एयस्स इच्छाडरित्तवित्तसंजोगो'त्ति भाविरेण गुणधरेण कया संजत्ती, पेत्थियं पसत्थवासरे जाणवत्तं । तओ पेच्छंता महामच्छपुच्छुच्छालियलोलकल्लो-लपणोल्लियुत्थल्लुक्कंरुज्जोइयजलुप्पीलं जलकरिकराहयइयहेसारवुत्तत्थनर-नक्ककसंकुलं, पाउसं व समुच्छलियघेण-घोस, महानरिंदसेन्नं व घणडिण्डीरपिंडपण्डुपुंडरीयं, नंदणवणं व वहुविहुंमोहसोहियं, महामुणिं व अणिट्टसंख-संगयं, भुयंगभोगं व विसालं नीरनाहं थेवदिणेहिं य पत्ता समीहियदीवं । तत्थ य लग्गो संववहारो, विट्ठं  
 25 मणोरहाइरित्तं वित्तं । तओ गहियपडिभण्डा पयट्टा पडिपहेण । तओ लंघियपाए पारावारे 'अज्ज पूएमि एएण जलनिहिं'ति निच्छियमणो ठिओ सुत्तजगिरो गुणधर काइयाकए जाणवत्तपेरन्तमल्लियन्तं परिवालिन्तो सुमित्तो । तओ मज्झरत्तसमए सुमिणे काइयाकरणनिविट्ठं तं दट्टूण दरविगयनिहो समुट्टिऊण पवत्तो तं पेत्थिउं, आवेसवसेण य नीसाहारो निवडिओ नीरनिहिम्मि, न लक्खिओ भियगेहिं । पहाए तमपेच्छंतो उव्विग्गो गुणधरो, विलविउं च पवत्तो । अवि य—

१ भाइ ! सुहं जे०विना ॥ २ गहे जे०विना ॥ ३ 'उच्च(गु०)' इति भाषायाम् ॥ ४ संकेतः—“ कुंधु(घ)ए ति मत्स्या ” । “ लुभमत्स्या ” ख२टि० ॥ ५ सङ्केतः—“ घनानां-भेधाना घोष, घनथासौ घोषश्च ” ॥ ६ सङ्केतः—“ पुण्डरीकाणि-छत्राणि, पुण्डरीकाक्ष-जलव्याघ्रा ” ॥ ७ सङ्केतः—“ विद्दुमा-विशिष्टा इमा, विद्दुमाणि च-प्रवालानि ” ॥ ८ सङ्केतः—“ न इष्ट सख्य-संग्राम सङ्गत च-स(स)ख्य केनापि यस्य, अनिष्ठैश्च-अनन्तै शस्त्रै सङ्गतम् ” ॥ ९ सङ्केतः—“ विसालं ति विषयुक्त विस्तीर्णं च ” ॥

“हा ! केण कयं पावं ? अवहरिओ केण बल्लहो मज्झ ? । हा ! कस्स मएऽवकयं ? निकारणवेरिओ को मे ? ॥१६९॥  
 हद्दी ! विहिणो ललियं पियमाणुससंगमं जवो काउं । एवमयंढे चण्डो विओयदण्डो कओ मज्झ ॥ १७० ॥  
 ‘काहामि लहुं सुहियं सुहियं सुहियं’ ति लालसावसओ । हा ! कह मए महन्तो कओ अणत्थो समित्तस्स ? ॥१७१॥  
 हा हा ! न जए जुत्तो आसाबंधो जणस्स तणुओ वि । पहवते बल्लवंते दड्ढकयंते दयावंते ॥ १७२ ॥  
 मित्तसिरीदंसणओ नयणाण सुहासियं किर करिस्सं । नवर दुरत्तो दाहो सोयानलजोगओ जाओ ॥ १७३ ॥ 5  
 मित्तविउत्तो वयणं कह दाइस्सं सवासिलोयस्स ? । ता हं पि अज्ज सज्जो जलहिं सरणं पवज्जामि” ॥ १७४ ॥  
 इय विविहं विलवंतो खिविउमणो जलनिहिम्मि अप्पाणं । कह कह वि वारिओ परियणेण एवं भणन्तेण ॥१७५  
 “सजोगोओ विओगो होइ, विओगा पुणो वि सजोगो । संसारघडीजन्ते जियाण तुम्वा-ऽरयाणं व ॥ १७६ ॥  
 विहुरे वि गया धीरा पयंगपडणं क्कणन्ति न कयाइ । ‘जीवन्तो भदसए लहइ’ ति जणप्पवायाओ ॥१७७॥  
 मरणम्मि धुवो विरहो, जीवंताणं तु घडड जोगो वि । संघडण-विहडणावावडस्स विहिणो निओगेण” ॥१७८॥ 10  
 अइमोहिओ वि भियगेहिं वोहिओ सो मओ न खलु तइया । अणुमरड जए को वा सुपिए वि गए परासुत्तं ? ॥  
 सोयंतो अणुसमयं पत्तो सो तामलित्तिमचिरेण । उत्तारिऊण भंडं गवेसिउं मित्तमारद्धो ॥ १८० ॥  
 सुइरं पि गविट्ठो जलनिहिस्स तीरेसु जाव न वि दिट्ठो । ता सो विसायविहुरो चलिओ सत्येण नियनयरं ॥१८१॥  
 वीरपुर संपत्तो गोरविओ जुल्लसेट्ठिणा धणियं । दाऊण रसमसेसं तस्स निरीहस्स मट्टाए ॥ १८२ ॥  
 उप्फालियसत्तगुणं सत्तगुणं मूलनीवियं काउं । पत्तो सिरिघणनयर खेमेण गुणधरो तुरियं ॥ १८३ ॥ 15  
 जाओ य महाणंदो बंधवलोयस्स तस्स आगमणे । नयरे वि साहुवाओ पघोसिओ सब्बलोएण ॥ १८४ ॥  
 मिलिओ वि बंधवाणं कयसक्कारो वि नायरजणेण । विदइ गुणधरो न हि रइं विओए वयंसस्स ॥ १८५ ॥  
 न वणे न जणे न धणे न पेच्छणे न च्छणे सुहिगणे वा । रमइ मइमोहिओ सो मित्तविउत्तो मुहुत्तं पि ॥१८६॥  
 अन्नदिणे उज्जाणे कारुन्नाओ सुहम्मरिसिणा सो । नाणनयणेण निउणं पलोइओ चोइओ एवं ॥ १८७ ॥  
 ‘परितप्पसि मित्तकए कीस तुमं सोम ! नेहमयमूढो । मित्ता-ऽमित्तसरुवं जहट्ठियं किं न लक्खणेसि ? ॥ १८८ ॥ 20  
 अन्नो सो नणु मित्तो जेण सहाएण निच्चकयरक्खो । पत्तो सि नेव निहणं तेण कुमित्तेण सह भमिरो’ ॥१८९॥

तओ ‘कहं सो कुमित्तो ? को वा मए सद्धिमवरो परिव्वमिओ ?’ ति सवियक्केण ‘नऽन्नहावाई मुणिजणो’ ति संभावणाए समुप्पन्नजिन्नासेण सविणयं वंदिऊण पुच्छिओ जेण मुणी परमत्थं । तेणावि से जिणप्पिय-मोहणाइपुव्व-वइयरमुप्फालिऊण निवेइओ सब्भावो—

‘जं वीणयराया पव्वज्जानिच्छिओ कओ तुमए । आसी समच्छरो तं तुमम्मि एसो तथा काले ॥ १९० ॥ 25  
 साहम्मिओ ति वाढं मेत्तीभावो इमम्मि ते आसि । तेण तड मच्छरी सो, तुह मेत्ती तम्मि इह जम्मे ॥१९१॥  
 मुक्को सि वणे घोरे तेण तुमं निग्घणेण सुहसुत्तो । जलहिम्मि वि पक्खिविउं समिच्छिओऽणज्जचरिएण ॥१९२  
 जम्मंतरसुकयजिणिंदधम्ममित्ताणुभावओ नवरं । पुट्ठो सि खणं पि न आवयाहिं, पत्तो सि सुहरिद्धिं ॥१९३॥

अवि य—

रणे वणे वइरिगणाण मज्झे, दहे पहे सावयसंपओगे । रुहे समुद्धे जलणे जलन्ते, रक्खेइ जंतुं खलु धम्ममित्तो ॥ 30  
 जगइ सुपसुत्ताण वि, अलसाण वि उज्जमी सया धम्मो । रक्खइ य अप्पमत्तो पमत्तचित्तं पि नियमेणं ॥१९५॥

१ संकेतः—“सुहियं सुहियं सुहियं ति सुहद सुष्ठहित सुखिनम् । लालसा-इच्छा” ॥ २ संकेतः—“दयावंते ति दयया वान्त-न्यक” ॥ ३ संजोगओ जे-विना ॥ ४ “प्रतिपादितसत्त्वगुणम्” ख१टि० ख२टि० ॥

ता सुंदर ! मित्तसिरोमणिम्मि धम्मम्मि कुणसु पडिवंधं । किं तेण कम्मगुरूणा सुहसंगाजोगमित्तेण ? ॥१९६॥  
आजीविगाभयाओ जइजणगुणनिन्दवं कुणंतेण । वद्धमसुहाणुवंधं मिच्छत्तं तेण मूढेण ॥ १९७ ॥

कुणमाणेण पओसा अवन्नवायं जईणमणवरयं । दुघ्नाम-गोयपमुहा अणुवद्धा असुहकम्मंसा ॥ १९८ ॥

भमियव्वमणेण चिरं भवन्नवे नरय-तिरियजोणीसु । मणुएसु वि दुह-दालिद-रोग-सोगाइतविण ॥ १९९ ॥

5 एत्तो चिय सो तुमए सव्भावसिणेहनिव्वभरेणावि । न हि सक्किओ वराओ सुहसंपयभायणं काउं' ॥ २०० ॥

एवं च ओहिनाणिमुणिणा पवेइए साणुक्कोसमाणसेण भणियं गुणधरेण 'भयवं ! सायरमरणानंतरं कथं सो वराओ उव्वन्नो ?' ति । मुणिणा भणियं 'सो तथा जलतरंगरंगंतविग्गहो, अंछविअंछीकीरमाणो क्रूरजलयरेहिं, नियासमिक्खियंकारियाणुतावी, संभावियमहावराहेहिं वाऽसुहकम्मरायभडेहिं मोयाविऊण देहगेहं छूढो सागेयनगर-वासिदुग्गयधेज्जाइगेहिणीकुच्छिक्कुडिच्छगुत्तीए महापावो ति, तत्थ धरिओ वरिसमित्तं, तओ नयणहरणपयंड-

10 ङंढेण दंडिऊण निच्छूढो किच्छेण, तत्थेव कयकेसवनामो खसु-खास-कच्छु-अच्छिरोगाइवेयणाविहुरो जणणि-जण-यजणिउव्वेवो संपयं परिवड्ढइ' ति ।

सोऊण तस्स पावस्स परिणइं जणियमाणसुकंपं । वेरग्गभावियमाणो गुणधरो भवममुव्वंभंतो ॥ २०१ ॥

मोयाविऊण जणए मुणिणो तस्सेव पायमूलम्मि । पडिवन्नो सामधं भवकंदुदलणकोदालं ॥ २०२ ॥

सम्ममहिज्जियसुत्तो सम्मं सच्चरणकरणगुणरसिओ । पत्तो य स्सरिपयविं गुरुजणपायप्पसाएण ॥ २०३ ॥

15 सो इं संपइ इहइं समागओ तुम्ह वोहणनिमित्तं । अक्खायं च तुहेयं पुव्वकयं केसवदियस्स ॥ २०४ ॥

वीरगओ वि राया चुओ तओ सत्तमाओ कप्पाओ । जाओ सि महाराओ तं नरवइ ! एत्थ नयरम्मि ॥ २०५ ॥

गुरुवेयावच्चकयं भोगफलं सग्गभुत्तपरिसेसं । चिरम्वभुत्तं तुमए संपइ कीरउ पुणो चरणं ॥ २०६ ॥

इय वज्जरिए गुरूणा जाइं सरिऊण जायसंवेगो । कयपंचंगपणामो पुरिसोत्तमपत्थिवो भणइ ॥ २०७ ॥

'साहु महायस ! पडिवन्नपालणे तं सि निच्छिउच्छाहो । जं मह विवोहणत्थं इहागओ सरियसंकेओ ॥२०८॥

20 ता एस रज्जमज्जेव वज्जिउं निज्जिउज्जियभवासो । तुह पयमूले पहु ! पव्वयामि काऊण करणिज्जं' ॥ २०९ ॥

एत्थंतरे सुमरियजम्मंतरइयरेण भणियं कविजलेण 'सुट्ट दिन्नो ममावि भगवया भववियडागडे निवडमा-णस्स इत्थावलम्बो, ता दिट्ठदुन्नयफलो संपइ अहं पि अंगीकरेमि मुणिचरियं' ति । पुणो पुच्छियं पुरिसोत्तमेण 'केरिसं पुण कविजलेण दुन्नयफलं दिट्ठं' ति । गुरूणा भणियं—

"एसो वि वराओ उज्जुयसहावो पडिवन्नाणुव्वओ सामाइयपोसहोववासाइकिरियारुई पडिवन्नवम्भचेरो  
25 वसतउरे चेव सिवदेवो नाम सावओ आसि । 'अपरिणयजिणवयणो' ति मोहिओ तथा मोहणेण । तओ अवहीरिय-  
मुणिजणवंदणाइविणओ परिवडियवत्था-ऽऽसणाइदानपरिणामो विराहियसम्मदंसणो असावगो सावगाभिमाणी  
अणालोइयपडिकंतो मरिऊण जइअवन्नोवज्जियनीयागोया-ऽसुहनामकम्मंसो उव्वन्नो किव्विसियवन्तरो । दोहग्ग-  
कम्मोदयाओ निद्धाडिओ महिडिहयवंतरेहिं मणुयलोयससाणाइसु जीवियमइवाहिऊण पत्तो चपाए चंडालभावं ।  
तओ वि जीवघायाइपावभरभाँरिओ धूमप्पभाए नेरइयत्तमणुभविय जाओ एस कविजलो । पीई य एयस्स केसवम्मि,  
30 अओ तव्वयणेण सिदिलिऊण कुलकमागयं परलोगाणुट्ठाणं लग्गो एस नाहियवाए । 'उज्जुसहावाओ न तिव्वमिच्छ-  
त्तमुवज्जियमणेण' ति जाइं सरिऊण पडिबुद्धो संपयं । केसवो उण तिव्वाभिनिवेसदोसओ चिरं भवाडवीए परिय-  
डिस्सइ ति । अत्रि य—

सम्भावेण वदंति संजमभरं जे भत्तिए सत्तिए, नाणुज्जोयतत्रोविहाणविहिणा तित्थुभईकारिणो ।  
 कुव्वन्ता सुमुणीण ताणमणिसं हीलं महावालिसा, अप्पाणं नरयानले मुहु मुहुं पाडिन्ति मूढा मुहा ॥२१०  
 कामा-ऽऽरम्भ-परिग्गहगहपरा भोगोवभोगत्थिणो, जे वम्भव्वयथारिणो मुणिवरे हीलन्ति मोहाउरा ।  
 ते काणं-ऽधय-कुंठ-मंट-वहिरा दालिदिणो रोगिणो, संसारे सुइरं सरन्ति सययं हीलिज्जमाणा जणे ॥२११  
 अन्नाणंधा एवं नरवर ! जिणसासणं पि लहिऊण । मज्जन्ति भवसमुद्दे अणोरपारे दुहालिद्धा ॥ २१२ ॥  
 ता पत्तविवेगाणं अणेगविग्वाउलम्मि संसारे । सत्ताण चरणकरणे समुज्जमो सव्वहा जुत्तो” ॥ २१३ ॥  
 इय मुणिय मुणियत्ततो संवेगमणुत्तरं समणुपत्तो । पुरिसोत्तमनरनाहो जाओ चरणे दडुच्छाहो ॥ २१४ ॥

तओ पुरिसचद कुमारं नरिंदपए निरुविऊण कविजलपमुहपहाणपरियणेण समं पव्वन्नो समणभावं, जाओ  
 जहुत्तकारी उज्जयविहारी महामुणि त्ति ।

अह कणयञ्जयराया सोउं दट्टूण ताण चरियाइं । विन्ध्यमणो मुणिदं वंदित्तु कयंजली भणइ ॥ २१५ ॥ 10  
 ‘जयसुंदर कुमारं रज्जे ठविऊण तुम्ह पयमूले । एस पव्वजामि अहं पि उत्तमासेवियं चरियं’ ॥ २१६ ॥  
 तं पडिभणइ मुणिदो भवियंभोरुहविवोहद्विसिंदो । ‘जिणमयंकयभसलाणं जुत्तमिणं चैव कुसलाणं ॥ २१७ ॥  
 चोज्जमिणं जं रज्जे रज्जंति भवारिसा मुणियतत्ता । वालोचियधूलिधरुल्लएहिं छेया न हि रमन्ति ॥ २१८ ॥  
 पुव्वज्जियसुकयाणं रज्जे को नाम तुम्ह पडिवंधो ? । न कुणंति कोडिधणिणो कुवल्लय-वणएहि वाणिज्जं ॥२१९॥  
 उत्तमतवारिहाणं छज्जइ रज्जट्टिइं न तुम्हाणं । रेहंति कयाइ न जच्चहीरया रीरियाहरणे ॥ २२० ॥ 15  
 छज्जइ जणो पच्चुद्धो पसाहिओ संजमेण परमेण । सोहइ सरएण अखंडमण्डलो पुन्निमायंदो ॥ २२१ ॥  
 ता सव्वहा न जुत्तो मुहुत्तमेत्तं पि संपड पमाओ । लोए वि पयडमेयं-तुरिओ धम्मस्स गइमणो’ ॥ २२२ ॥  
 इय मुणिवट्ठणाऽऽणत्ते राया वड्ढन्ततिव्वसंवेगो । ‘भयवं ! तह’ त्ति भणिऊण पमुडओ पडिगओ कडयं ॥२२३॥  
 सामन्त-मन्तिमण्डलपुरओ जयसुदरो वरकुमारो । तो तेण इमं वुत्तो ‘वच्छय ! पडिवज्ज रज्जधुरं ॥ २२४ ॥  
 अहयं पुण उत्तमपुरिससेवियं मुत्तिपुरवरीपयविं । गिन्हामि गुरुसमीवे दुरियंतकरिं महादिक्खं’ ॥ २२५ ॥ 20  
 पडिभणइ तं कुमारो ‘किं जुत्तं उत्तमाण पियवंधुं । छोदूण गुत्तिवंधे पलायणं अप्पणा तुरियं ? ॥ २२६ ॥  
 जइ सावज्जमणज्जं रज्जं वज्जेह सामि ! किर तुव्वे । अम्हे वि कह रमामो इमम्मि काराहरागारे ? ॥ २२७ ॥  
 गुरुत्रयणमुणियनिग्गुणभवस्सहावाण देव ! अम्हं पि । न रसइ मणयं पि मणो खणं पि विसयामिसे पावे ॥  
 ता किं बहुणा ? पहुणा सहिया सहियाय उज्जमिस्सामो । अम्हे वि, न कज्जमवज्जहेउणा पावरज्जेण’ ॥२२९॥  
 नाऊण निच्छय से राया कणयञ्जओ कणयकेउं । नियतणयं अहिसिचद रज्जे तुरिओ चरणकज्जे ॥ २३० ॥ 25  
 काऊण जहाजुत्तं माणं सामन्त-मन्ति-पत्तीणं । विच्छड्डेण सुवड्डेण वंधवा दो वि पव्वइया ॥ २३१ ॥  
 राया वि कणयकेऊ वयगहणमहामहं विहेऊण । तेसि कयवंदणो विरहविहुरिओ नियपुरिं पत्तो ॥ २३२ ॥  
 ते दो वि महासत्ता वियसियवत्ता समुल्लसियगत्ता । गुरुजणविणयपवत्ता महामुणित्तं लहुं पत्ता ॥ २३३ ॥

अवि य—

सिद्धं सिद्धंतत्तामयममयमणा अप्पमत्ता पियंता, चित्तं चित्तं पवित्ता सम-पसमपरा सत्तवं संतवंता । 30  
 सत्ता सत्ताण ताणे हियविहियविऊ वीयैरागेकराया, संताऽसंता सुक्किचेऽकलिलकळिलवा सच्चरित्तं चरन्ति ॥२३४॥  
 हेमंते निंति रत्तिं वसणविरहिया काणणे कदरे वा, आयावंते सुतत्ते पुहइ-सिलतले गिम्हमज्जन्हकाले ।

वासारत्ते सुगुत्ता गिरिगुहकुहरे ठन्ति संलीणकाया, झायंता वीयरायं सिवपयसुहयं सिद्धिवद्रापुराया ॥२३५॥

कमलविमलचित्ता कोम्लुईचंदसोमा, तरुणतरणितेया निव्भया केसरि व्व ।

सलिलनिहिगभीरा खंतिजुत्ता महीवा, समणगुणमणीणं पाविया ते निहित्तं ॥ २३६ ॥

तवखवियसरीरा सेलरायग्गधीरा, गरहियअइयारा पत्तसामघ्नपारा ।

5 अणसणथिरचित्ता देहगेहं रहित्ता, विजयवरविमाणं ते गया पुन्नठाणं ॥ २३७ ॥

सहे य रूवे रस-गंध-फासे, अणुत्तरेऽणुत्तरपुन्नजोगा । संवेयमाणा गयकामकामा, कालं वयंतं पि न ते मुणंति ॥२३८॥

ईसा-विसाएहि मणे अपुट्ठा, संपन्नसर्व्विदियकामियत्था । वत्तीसईसागरनामधेयप्पमाणमाउं विगर्मिमु तत्थ ॥२३९॥

॥ इय पुह्वीचंदचरिए कणयज्जयरायरिसिचरियं नवमं भवग्गहणं समत्तं ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-६०१ ]

## [ दसमो कुसुमाउह-कुसुमकेउभवो ]

जयइ जिणपायपउमं विमलंगुलिपंतिपत्तरेद्विहं । जम्मि निलीणा पार्विति निव्वुइं भव्वभमरोहा ॥ १ ॥  
अह अत्थि सुत्थदोणैयतरुणंगणगेयखित्तचित्तेहिं । मयजूहेहिं समंता पए पए मण्डिउदेसो ॥ २ ॥  
देसो देसंतरगिज्जमाणगयमाणगुणगणो विउलो । अगा नामेण अचोर-मारि-परचक्रभयसंगो ॥ ३ ॥

5

जत्थ—

गामा नैगरागारा, नगरागाराणि गामरुंदाणि । नगराणि हरंति सिरिं अमरावइ-जक्खनयरीणं ॥ ४ ॥  
ठाणे ठाणे वियरिज्जमाणदाणेहिं तह निवाणेहिं । पाहेय-नीरभाराऽविउणो पहिया सुहीयंति ॥ ५ ॥  
पत्तलवणेसु जत्थ य समियसमा गीयगाणवक्खेवा । न यंती पयाणखणं पंथियसत्था सुवीसत्था ॥ ६ ॥  
तुंगगिरिक्कुडमउडो सरकुंडलमण्डिओ नईहारो । हरइ हियं जणाणं महानरिंदो व्व सो देसो ॥ ७ ॥ 10  
तत्थ य सैप्पायारा संपुन्नायारसालिलोया वि । गर्यसंगया वि नीरोग-सोगनागरकयाणंदा ॥ ८ ॥  
असमा वि सिरिसमिद्धा अहंगसाला वि सर्व्वनित्रसिद्धा । जणमणपियाणुकंपा अत्थि पुरी पायडा चपा ॥ ९ ॥  
सिंमारकुलागारं पसज्जमज्जावओ सुभणियाणं । सोहग्गामयजलही पायं महिलाजणो जत्थ ॥ १० ॥  
अकलंककलाकलिओ चाई पडिवन्नसुंदरो सरलो । जत्थ य दक्खिन्ननिही कयपुरिसोहो सुपुरिसोहो ॥ ११ ॥  
जत्थ य वावीहिं मही, वावीओ जळेण, तं पि कमळेहिं । भमरेहिं पंकयाइं, भमरा विरुएण सुहयंति ॥ १२ ॥ 15

तहा—

छज्जइ विहवेण जणो, विहवो चाएण, सो सुवायाए । वाया सच्चेण, तयं दयाए, सा वि हु विवेगेण ॥ १३ ॥  
'सोहेहिं सहंति घरा, सोहाणि सहंति चारुतरुणीहिं । तरुणीओ सुवेसेहिं, ते वि विरायंति सीलेण ॥ १४ ॥  
किं वभिज्जउ तीए नयरीए जीए सव्वभवणाइं । सुरभवणाइं व सया निरंतराइं सुपव्वेहिं ? ॥ १५ ॥  
तत्थ देलियारविंदो सरो व्व पयावसोहिओ सुहओ । नवर वियासियकुमुओ अज्जियविजओ जओ राया ॥ १६ ॥ 20  
वभंति जस्स विउसा विउसत्तं, मग्गणा सया चायं । सूरत्तं सत्तुभडा सहासु, नारीओ सोहग्गं ॥ १७ ॥  
जेसं पमुडया तस्स सारं गायंति किन्नरा । जं सुणंता न उम्मत्ता सारंगायन्ति किं नरा ? ॥ १८ ॥  
मज्जायवित्तिं सुगभीरिमं च, अणन्नतुल्लं कलइ त्ति काउं । अहिद्विओ सायरसंक्रियाए, लच्छीए एसो सयमेव नूणं ॥ १९ ॥  
तस्स य मयंकवयणा कुवलयनयणा सियंगसमवयणा । कुंदकलियालिरयणा पियवयणा पियमई देवी ॥ २० ॥

१ निव्वुइं जे०विना ॥ २ “कुडम्बी” ख०टि० ख०टि० ॥ ३ सङ्केतः—“नागरा नागराण(नगरागारा, नगरागाराणि) ति [नगराकारा], नगरस्य अगाराणि-गृहाणि” ॥ ४ जानन्तीत्यर्थं ॥ ५ संकेतः—“स्वल्पाकारा सप्राकारा च” । ‘स्वल्पाकारा स्वल्पाकारा वा, विरोधपरिहारे दु-सप्राकारा सम्पूर्णाकारशालिलोका सम्पूर्णाचारशालिलोका च’ इत्यर्थं ॥ ६ सङ्केत—‘गजैर्गदैश्च सङ्गता’ ॥ ७ सङ्केतः—“सह मया-लक्ष्म्या वर्तते या सा समा, न समा असमा, अनन्यसदृशी च” ॥ ८ संकेतः—“सर्व्ववृषाणा सिद्धा-वशगता, प्रसिद्धा [च]” ॥ ९ सङ्केतः—“सोहोहो(हिहि) ति सौधै-धवलगृहै” ॥ १० संकेतः—“दलितानि-विकाशितान्य-रविन्दानि येन, दलितानि च-विदारितानि [आराणि-] अरिसत्कानि वृन्दानि येन । सुहय-सुदुरग, सुखदश्च । कुसुदानि-कैरवाणि, कौ च-पृथिव्या सुत्-द्वेष” ॥ ११ सङ्केतः—“प्रमुदिता सन्त किन्नरास्तस्य राज्ञो यथा सारभूत गायन्ति यथाश शृण्वन्त सन्तो नरा नन्मत्ता किं न सारज्ञायन्ते ?-मृगा इवाचरन्ति ?” ॥



अन्नत्थावीसंभा हरिऊण सुरा-ऽसुराण रमणीणं । तीए समप्पियं पिव विहिणा लायन्नसव्वस्स ॥ २१ ॥  
 सुद्धन्तकमलसण्डं सयलं आहिंडिऊणं नरवइणो । मणभमरो रमइ सया तीए च्चिय वयणकमलम्मि ॥ २२ ॥  
 तह तीए तणुईए रुद्धं मणमंदिरं नरिंदस्स । अन्ना ओगासं न हि विंदइ रुंदे वि जह तम्मि ॥ २३ ॥  
 सन्निहियसुहनिहिं तं धरणिं धरणिं च भुंजमाणस्स । समइच्छिया अणेगे समाण लक्खा समद्धं व ॥ २४ ॥  
 5 पालिति सावयत्तं असावयाइं पि दो वि किर ताइं । पडिवन्नऽणुव्याइं वि महव्वयायारकलियाइं ॥ २५ ॥

अन्नया कणयञ्जयमहारिसिजिओ तओ विजयविमाणाओ चुओ पियमइदेवीए कुच्छिमंदिरे वसहिमुवगओ ।  
 तओ सा पवसिउकामजामिणीदंसणाउ व्व मंदायन्ते चंदमण्डले, सूरपडिवक्खागमसंभावणाओ व्व विरलायंतेसु  
 तारएसु, पच्चासन्नदोसंतयाए व्व विमलायंते भुवणमंदिरोयरे, सुरसरिपुलिणविसाले नवणीय-सिरीसपसूण-  
 सोमाले परमरमणिज्जे दिव्वसयणिज्जे सुहपसुत्ता सुमिणं पेच्छियाइया-किर निवेसिऊण नियसिंहासणे समारोविओ  
 10 राइणा ममुत्तमंगे मणि-रयणकिरणपज्जलन्तो महामउडो त्ति ।

एत्थंतरे पवज्जिया जमलसंखा, पहयाइं मंगलतूराइं, कओ जयजयारओ मंगलपाढएहिं । तओ सा सहसा पवुद्धा  
 बुद्धारविंदसुंदरसुही हरिसनिव्वभरमणा देव-गुरुनमोकारपरायणा गया नरवइणो समीवं, निवेइऊण सुविणयं उवट्टिया  
 सोउं तप्फलं । राइणा वि अउव्वसुविणयायन्नविम्हिएण परिचितिऊण भणिया 'पिए ! विउलपुहइपरिवूढो महा-  
 नरिंदसइभायणं ते पुत्तो भविस्सइ' त्ति ।

15 तो सा पढट्टवयणा विसट्टकंदोइपत्तसमनयणा । अभिनंदइ निव्वभणियं समूसुया पुत्तलाभस्स ॥ २६ ॥  
 पत्तेण य अत्थाणं रत्ता विन्नायसुविणसत्थाणं । नेमित्थियाण सिट्ठो सुविणो विहिणा जहाट्टो ॥ २७ ॥  
 तेहि वि तं चेव फलं आट्टं पियमईए हियइट्टं । परिवड्ढियसंतोसा गव्वं परिवालए तो सा ॥ २८ ॥  
 जाया य तीए सद्धा संपत्ते पंचमम्मि मासम्मि । 'चेइय-जईण पूयं करेमि अच्चव्भुयव्वभूयं' ॥ २९ ॥  
 संपाइया य रत्ता सविसेसं तोसमुव्वहंतेण । ओसहमेगं मिट्टं वीयं वेज्जेण उवइट्टं ॥ ३० ॥

20 एत्थंतरे दुज्जणो व्व फंरुसवायाडंवरसंतावियजणो, कलिकालो व्व दोसासंगवहुमाणिमाणवमणो, पत्थिज्ज-  
 माणकिवणो व्व मलिणीकयासो, कुनरिंदो व्व कयविसयविणासो, चिरपीलियतिलखलो व्व सुकरुक्खो, निग्घि-  
 णनरो व्व जियलोयजणियगाढदुक्खो, कथंतो व्व अपत्थियागमो, महापित्तज्जरोदओ व्व पवड्ढमाणमहादाइतन्हु-  
 गगमो, अहम्मपुरिसो व्व परिगलियमेयप्पच्चाहो समागओ पढमनिदाहो । अवि य—

चंडत्तमुव्वहतो परिवड्ढियवासरु सुमंदगई । संतावइ जम्मि मणं मित्तोऽमित्तो व्व जंतूणं ॥ ३१ ॥

25 निधिडपडचोडया जे पेमपयं आसि सुत्थियजणस्स । जाया ते दोसपय, किं कस्स सया पियं लोए ? ॥ ३२ ॥  
 जायाओ छायाओ इट्ठा-ऽणिट्ठाओ आसि जा सिसिरे । घम्मोदए नराणं जायाओ अन्नहा ताओ ॥ ३३ ॥  
 करवत्तभारमुट्टिया विरलच्छायादुमेसु मग्गेसु । 'हहहा ! हह !' त्ति भणिरा पहिया किच्छेण वचंति ॥ ३४ ॥

१ सङ्केतः—“ सन्निहितसुखस्य निधिम, सन्निहिता शुभनिधयो यस्या ” ॥ २ घरिणिं जे०विना ॥ ३ संकेतः—“ अश्रावकौ  
 असाऽऽपदौ च, अणुत्रतानि अणुव्ययश्च, महात्रतानि महाव्ययश्च ” ॥ ४ “ दोहद ” खरटि० ॥ ५ संकेतः—“ [ फरुस० इत्यादौ ]-  
 पु(प)रुपवाचं पु(प)रुपवाताश्च । दोषा-पैश्चन्यादयस्तदासङ्ग, दोषा च-रात्रिस्तया सङ्ग । मलिनीकृतमास्य येन, मलिनीकृता आशा-  
 दिशो येन । कृतो विषयस्य-देशस्य विनाशो येन, कृतो वीनां शतस्य विनाश, विशदवीना वा-हसाना नाशो येन । श्रेय प्रवाह,  
 स्वेदप्रवाहश्च ” ॥ ६ सङ्केतः—“ चंडत्तमुव्वहतो० इत्यादौ, [ गा० ३१- ] सूरपक्षः सुगम, अमित्रपक्षे तु परिवर्द्धितानि-शुद्धिं नीतानि  
 वासराणि लोकानां येन, दु खार्त्तैर्दिनानि गमयितुमशक्यत्वेन वृद्धिप्रतिभासात्, अमित्रस्य च दुःखहेतुत्वात् । सुष्ठु मन्दस्येव-शून्यश्वरकूर-  
 प्रहस्य यया, गति-प्रकारो यस्य । [ गा० ३३- ] जाया.-भार्या इथ, स्त्रीतापहारित्वात् तदालिङ्गनस्य । वा( छा )मास्त्वनिष्ठा ” ॥

तहा जम्मि—

चंदो चंदणपंको जलं जलदा समीरणो हारो । पल्लवसेज्जा मल्लियफुल्लाइं हरन्ति हिययाइं ॥ ३५ ॥

एवंविदे गिम्हकाले भुत्तुत्तरं जयमहानरिंदो पियमईए समं जलकीलानिमित्तं पत्तलतमाला-ऽसोय-सहयारप-  
मुहमहामहीरुवतिरोहियमिदिरकरनिवायं इओतओवियरंतसारणीसलिलसंगसिसिरीभूयभमिरमणोहरमारुयं नववउल-  
पाडलावहलमयरंदलद्धमुद्धमहुयरशंकारमणहर कीलतहंस-सारस-सकुंतकूडयकोलाहलमुहलियदिसामंडलं पविट्टो गिम्हु- 5  
म्हसंतावसमणं पमयवणं । तओ विचित्तजन्तपुत्तियाहिं पुप्फंजलीहिं पूडज्जमाणाइं, जलभरियभिंगारेहिं न्हविज्जमा-  
णाइं, घुसिणकप्पूरसंवलियसरसगोसीसचंदणच्छडाहिं फेसलाइज्जंतगत्ताइं पत्ताइं घणसारघुसिणसुरहिंपिंजरजलासुं  
जन्तप्यओगभरिज्जन्त-रित्तिज्जतासु कीलावावीसु, पत्ताइं कीलिउं मच्छुव्वत्त-हंसुड्डीणाइविद्विहकरणेहिं । तओ—

अन्नोषपेणुल्लणलोलणोऽऽमज्जणाइरमणिज्जं । सुडरं रमिऊण जले गयाइं कयलीवणं रम्मं ॥ ३६ ॥

रमिऊण खणं तहियं पुण दक्खामंडवेसु रुंदेसु । सहयारवीडियाए वीसमणकए निसन्नाइं ॥ ३७ ॥

गहिऊण करे वीणं पारद्धं राइणा तओ गीयं । तारमहुरं सुललिय मणहरणं किन्नराणं पि ॥ ३८ ॥

एत्थंतरे राइणो रुवलायघ्नसुंदेरावज्जिया तदुज्जाणवासिणी देवया तिव्वमयणानलपलित्तहियया रायसंग-  
समूसुया चेडीरुवेण देविं गिहाभिमुहमाहूय गयाए तीए विउरुविऊणालंकारसिंगारहारिपोढंगणारुवं पत्ता राय-  
समीवं, पत्थिउं च पत्ता अणेगचडुकम्मरम्माहिं विचित्तउत्तीहिं । वयनिच्छियहियएण पडिसेहिया महीनाहेण,  
भणिया य— 15

“पावे ! पलायसु लहुं मा मद कोवानले पयंगि व्व । वच्चसु खणेण नासं नियदुन्नयदूसिया दुत्ति ॥ ३९ ॥

न खमामि खणं पि जओ नियरज्जे दुन्नयस्स येवं पि । ‘होइ अवज्झा नारि’ त्ति एत्तियं कित्तियं तुज्झ ॥४०॥

परदुन्नएसु असहो करेमि कह दुन्नयं सयं अहयं ? । तिमिरहरो न पयंगो करनियर झामलं कुणइ” ॥ ४१ ॥

तीए भणियं ‘पिययम ! मा परनारिं ममं वियप्पेहि । अवि उज्जाणसुरा हं तुह पडिवद्धा सयाकालं ॥ ४२ ॥

पत्थियसारो दक्खिन्नसुंदरो तमसि चारुकारुणिओ । ता निव्ववेहि हिययं मम मम्मणसिहिसिहालीहं” ॥४३॥ 20

रुट्टेण निट्ठुरयरं तो भणिया पत्थिवेण ‘हे दुट्टे ! । चिट्ठसि अज्जावि इहं !, लज्जाए किं न फुट्टा सि ? ॥४४॥

इय दुट्टचेट्टिया तं विग्गोवसि देवजाइमवि धट्टे ! । अलमुल्लविणएण तए समं ति ऊसरसु लहु एत्तो” ॥४५॥

इय नरिंदेण निव्वच्छिया हत्थमेव तिरोहिया वन्तरी । ‘मायापओगेण एस रमियव्वो’ त्ति अवसर निहो-  
लंती चिट्ठइ । राया वि ‘एयं देवीए निवेएमि’ त्ति सविम्हओ गओ सोवणयं । वाहराविया देवी । तओ लद्धा-  
वसरा वंतरी साहरिऊण दक्खिणावहे देविं कयदेविनेवच्छा हत्थमागया रायसमीवं । अऊसुयाए पवत्ता गयलज्ज- 25

मालवणा-ऽऽलिंगणाइववहारे । तओ ‘न एसा पियमई, कयतन्नेवच्छा नूणमेसा सा चेव वन्तरि’ त्ति कलिऊण

निट्ठुरसुट्टिताडणापुव्वं केसेसु गहिऊण निच्छूढा वासभवणाओ । ‘अहो मणा न भग्गं वयं ति, मा पुणो वि

एयाए छलिज्जिस्सं’ ति पडिवन्नो वंभवयं । निरासीभूया तिरोहिया वंतरी । राया वि ‘कहमाहूया वि देवी

चिरावट ?’ त्ति गओ से गिहं । ‘न दिट्ठा देवि’ त्ति आउलचित्तेण पुच्छिओ परियणो । ‘न कोइ सम्मं वियाणइ’

त्ति अवगयं राइणा ‘तीए खुइवन्तरीए अवडड’ त्ति, निउत्ता समन्तओ तयन्नेसगा । ‘नोवलद्धा कर्हिचि’ त्ति विसन्नो 30

जयराया, भाविउं च पयत्तो—

१ ‘त्तं संपत्तो पत्तलं जे० ॥ २ फेसलां ख१ ख२ । “कर्वुरित” ख१टि० ॥ ३ ‘णाऽऽइज्जणाइ’ ख२ ॥ ४ सद्धेतः-  
‘मम्मणसिहि त्ति मन्मयाग्नि” ॥ ५ निहालिती ख१ आ० ॥

- ‘जम्म-जर-मरणवेयण-इट्टविओगाइदुक्खभरियस्स । मायासुविणयजणो धिरत्थु संसारवासस्स ॥ ४६ ॥  
 खणसंजोय-विओए खणपरियट्टन्तसुह-दुहाभोए । खणदिट्ट-नट्टविट्टवे सारं किं नाम संसारे ? ॥ ४७ ॥  
 जेण विणा न हु सक्का धरिउं पाणे निभेसयेत्तं पि । तव्भिरहिणण विहिणो वसेण वासा गमिज्जन्ति ॥ ४८ ॥  
 पुत्त-कलत्तं सुहि-सयण-बंधवा संपया वि जीवाणं । कुणइ सुहं भवगुम्भे तं पि अणज्जो हरइ वेहा ॥ ४९ ॥  
 5 मुद्धा मए विउत्ता न याणिमो कं दसं समणुपत्ता ? । जइ ता धेरही पाणे ता गम्भशुणा धुवं जाणे ॥ ५० ॥  
 अमयमइओ व्व होही कयाइ सो वासरो सुकयजोगा । जम्मि वयणं पियाए पेन्डिस्समहं पमुइयाए’ ॥ ५१ ॥  
 इच्चाइ चित्तयंतो अवइज्झियभोयणाडव्वहारो । भवविरयनेट्टनडिओ संकिन्हरसो निवो जाओ ॥ ५२ ॥  
 आसासिओ य वहुसो अमच्च-नेमित्तिएहि निउणेहिं । दइयासंगमसंख्यणेण तह पुत्तलाभेण ॥ ५३ ॥  
 ‘दइयासमागमाओ परेण गेहासमे न ठाइस्सं’ । एवकयनिच्छओ तो पऊओ देहट्टिइं राया ॥ ५४ ॥  
 10 देवी वि वन्तरीए मुक्का घोरे विसालरत्तम्मि । विम्भय-भयाभिभूया चिन्तिउमेव समारद्धा ॥ ५५ ॥  
 ‘हा ! किमियमिंदयालं ? किं वेलविय म्हि दइहसुविणेण ? । कत्थ तयं मह गेहं ? कत्तो सुन्नं इमं रत्तं ?’ ॥ ५६ ॥  
 ‘हा अज्जउत्त ! तुरियं पडिवयणं जइ न देसि एत्ताहे । जलणपडियं व मयणं ता मज्झ विलिज्जए हिययं ॥ ५७ ॥  
 तइ पुहइस्सामिसाले केणइ खुद्रेण निरवराहा वि । नाहाऽणाह व्व अहं पेच्छारत्तम्मि लूह म्हि ॥ ५८ ॥  
 हा ! किं नु मए पुव्वं पावाए पावकम्ममायरियं ? । जेणातक्कियमेय समागयं दारुणं वसणं’ ॥ ५९ ॥  
 15 इय विविहं विलवन्ती बहुसावयसदसवणकयकंपा । उट्टइ सुदीणवयणा ‘नसो जिणाणं’ ति जंपंती ॥ ६० ॥  
 विहुरगयाण वि जेसिं जीहग्गे फुरट्ट जिणनमोक्कारो । ते धन्नाण वि धन्ना सुजीवियं जीवियं तेसिं ॥ ६१ ॥  
 ‘कत्तो वयामि संपड ? कत्तो वसिमं च ? निव्वभयं कत्तो ?’ । इय चिन्तावाउलिया चलिया सा दाहिणाहुत्तं ॥ ६२ ॥  
 कत्थइ सीहनिनायं वग्घघुरुक्कं च कत्थइ मुणंती । फेरवरवं च घोरं कंण्ड पव्वणाहयलय व्व ॥ ६३ ॥  
 रवितवियमेइणीएऽणुवाहणा उज्झमाणपायतला । गोखुरुकंठयविद्धा सोणियचित्तलियमहिवीहा ॥ ६४ ॥  
 20 अट्टवियड्डा चण्डे सुन्ने रत्तम्मि तम्मि चंकमिरी । वच्चइ कंहंचि मुच्छं, पव्वणेण य चेयणं लहइ ॥ ६५ ॥  
 चित्तइ ‘अत्तक्कियं कह महत्तमेयं समागयं वसणं ? । रूसांमि कस्स संपड अमुणियतत्ता भयदुहत्ता ? ॥ ६६ ॥  
 अहवा अन्नाणवसा कयं मए किं पि पावमइघोरं । तस्स विवागा दुक्खं विसहामि सुदुस्सहं इन्दि ॥ ६७ ॥  
 उव्वंजइ पुव्वकयं सव्वो वि जणो सुहा-ऽसुह सव्वं । नियकयकम्मवभोगे कं पड किर रूसिउं जुत्तं ॥ ६८ ॥  
 भाविंती जिणभणियं पुरओ दट्टूण वाहंसमुवितं । भयवेविरसव्वंगी पुणो वि तुरियं तओ नट्टा ॥ ६९ ॥  
 25 कत्थइ करिव्वरदैरिया, कत्थइ वणसेरिहाणमुत्तत्था । तन्हा-लुहाभिभूया रीणा दीणा दुहकिलंता ॥ ७० ॥  
 परिणयपायम्मि दिणे रुयमाणी तावसीहिं सा दिट्ठा । आसासिया कमण्डलुजलेण सिसिरेण विमलेण ॥ ७१ ॥  
 नेऊण आसमपयं गुरुणीए दंसिया दयासारं । तीए वि समणुसट्टा कारविया पाणवित्तिं च ॥ ७२ ॥  
 भणिया य नेहनिउणं ‘एरिसकल्लाणमुत्तिजुत्ता वि । कहमिव भीमे रत्ते पत्ता सि इमं महावसणं ?’ ॥ ७३ ॥  
 तीए वि ‘अकारणवच्छल’त्ति कलिऊण विणयपणयाए । सिट्ठो नियवुत्तंतो जइ वि न संभावणाजोगो ॥ ७४ ॥  
 30 तावसीहिं भणियं ‘ही ! निग्गुणो संसारो जत्थेवमसंभावणिज्जाणि पाणिणो वसणाणि पाउणंति, ता परि-  
 चय विसायं, अत्थि य ते पुण्णसंचओ जेण तवोवणमागया सि, ता चिट्ट ताव निव्वुया जाव कुलवइं विन्नविय

१ धरिही जे०विना ॥ २ गोखुरकं त्रा० ॥ ३ रूसिय जुं जे० ॥ ४ सड्डेतः-“वाहसं ति अजगरम्” ॥ ५ “भीता”  
 ख१टि० ॥ ६ वणसेरिहीणं ख१ स२ ॥

वसिमं ते दंसेमो'त्ति । तओ पियमई देवी संजायजीवियासा बहुमन्निऊण तव्वयणं ठिया तत्थ केइ वासरे ।  
अन्नया विन्नत्तो ताहिं कुलवई । तओ तेण परिणयतावसेहिं सह पेसिया सिरिउर । दंसिऊण वसिमं नियत्ता  
तावसा । इयरी वि गव्वभरालसा किच्छेण पत्ता नयरुज्जाणं, समासत्था सहयारच्छायाविस्सामेण, सोऊण य  
समासन्नवेडए जिणत्थुडनिनायं सहरिसा गया जिणहरं, वंदियाओ पूयासामग्गिविरहाओ अंसुजलपव्वालियगंडय- 5  
लाए कालोचियविहिणा जिणपडिमाओ, तयणंतरं च साहम्मियन्नगो । तओ बहुमाणसारमासासिया जणसुदरि-  
सावियाए, पुच्छिया य 'कओ साहम्मिणि ?'त्ति । पियमई वि सोयभरनिरुद्धकंठा किं पि अकहिऊण रोविउं चैव  
पवत्ता । तओ 'न एयागिईए एसा सामन्नमहिला, अवि उत्तमवंसुव्ववा का वि'त्ति भावितीए साणुणयं भणिया  
जिणसुदरीए 'महाणुभावे ! भावेहि संसारसरुवं, किमेट्ठणा सरीरसतावयारिणा रोइएण ? । अवि य—

एगंतदुक्खनिलए संसारे को दुहेसु उव्वेवो ? । अवगाहिऊण जलहिं तिम्मियदेहो किमुव्वियइ ? ॥ ७५ ॥

एयारिसे वि एयम्मि पाणिणो अभिरमन्ति मोहंधा । मन्नन्ति खरा खारे लोद्वन्ता निव्वुइं परमं ॥ ७६ ॥ 10

धन्नेहिं एस पावो भावियतत्तेहिं दूरओ चत्तो । न रमन्ति रायहंसा पेयवणे पूइगंधम्मि ॥ ७७ ॥

सुलहाणि सुयणु ! दुक्खाणि एत्थ, दुलहो जिणोइओ धम्मो । लद्धे इम्मि दिन्नो दुक्खाण जलंजली तुमए ॥

ता मुंच विसायं सुयणु ! संपयं संपयं कुणसु धम्मं । एत्तो परं न विज्जइ महोसहं सव्वदुक्खाणं' ॥ ७९ ॥

एवं मिउमणोहारिभारईसारणीए निव्वावियहियया जिणसुदरीए नीया सा नियमंदिरं, दंसिया जणणि-जण- 15  
याणं, तेहि वि पडिवन्ना धम्मदुहिया । साहियनियवुत्तन्ता जणयगिहे व्व सुहमच्छिउ पयत्ता ।

अह गिम्हचरडविद्वियजणत्रयं महियल निहालित्तो । पसरियघणतूररवो अवयरिओ पाउसनरिंदो ॥ ८० ॥

आयडिद्वयसुरधणुणा पूरसरासारवरिसिणा तेण । निव्वावियाइं सहसा हिययाइं कुडुंविलोयस्स ॥ ८१ ॥

पत्तघणोद्वयसंगा उच्छलियनवंकुरोरुरोमंचा । कुणइ धरा सिंगारं पैरिहियतणनीलकंचुलिया ॥ ८२ ॥

ददूण घणासत्तं पुहइसहिं लज्जिय व्व नहलच्छी । घणयणगहणंतरिया न हि नज्जइ कत्थइ पउत्था ॥ ८३ ॥

सुरगोव्वयच्छेणं पायडरागं महीवहुं दट्टुं । पमुइयमण व्व मेहा पहसंति वलायपंतीहिं ॥ ८४ ॥ 20

नाऊण चिरुव्वूढं घणसंगरयं गिरीहिं महिमहिलं । लज्जाए व्व मुहाइं घणनिविडपडेहिं ठइयाइं ॥ ८५ ॥

निज्जरदीहरहारा नवकुडय-कयं व्वपुप्फपरिमलिया । निव्वुयमण व्व गिरिणो विरलित्ति सिहण्डिदलकेसे ॥ ८६ ॥

घणरसियमुच्छियाओ पए पए पंथियाण घरिणीओ । आसासिउं व परिओ 'पियं पियं' विति वप्पीहा ॥ ८७ ॥

इय पाउसे पवत्ते सायं पायं पियस्स सरिऊण । नेहनडिया रुयंती रोयावइ पियमई सहियं ॥ ८८ ॥

साणुणयं च भणिया जिणसुदरिजणएण घणजएण 'पुत्ति ! तुहासामन्नसोजन्नरंजियमणाणमम्हाण वि महई 25  
मणपीडा वट्टइ, किन्तु गिरिसरीहिं दुग्गमा मग्गा, न संचलंति संपयं सत्था, ता चिट्ठ धम्मकम्मनिव्वुया वासारत्तं  
जाव, ततो परं सुत्थसत्थेण तुह समीहियसंपत्ती भविस्सइ'त्ति । पियमईए भणियं 'ताय ! तुह पायसुस्ससणपराए  
न मे काइ अनिव्वुई, किंतु दुरतो पेमतंतुवधो वला वि दुक्खमुईरेड, करिस्सामि य जहासत्तीए तायाइं' । ति  
भणंती निवडिया जणयचलणेसु । एवं च सुहं चिट्ठमाणी अन्नया सुहमुहुत्ते पसूया नयण-मणाणंदयारयं दारयं, गहिया  
हरिस-विसाएहिं, पडियरिया जिणसुदरीए, कारियं घणजएण रायाणमणुन्नविय चारयमोयणाइयं महावद्धावणयं । पस- 30  
त्थवासरे रुव्वगुणरंजिएण सेट्ठिणा कयं नामं दारयस्स कुसुमाउहोत्ति । बोलीणे वि पाउसे 'वालवच्छ'त्ति न विस-  
ज्जिया घणजएण, ठिया तत्थेव वरिसदुगं ।

१ सङ्केतः—'संपय ति श-सुख तस्य पद-स्थानम्, यद्वा साम्प्रत-युक्तम्' ॥ २ पवत्ता जे०विना ॥ ३ परहियं जे० स२ ॥

एत्थंतरे पत्थियो तन्नयरवासी वासवदत्तो सत्थवाहो चंपाउरि । 'अत्ताणनिव्विसेसो' त्ति दिग्घवाहणाइपरि-  
यरा भलाविया तस्स पियमई धणजणण । पैत्ता सिंधुवद्धणनयरं, आवासियो तयासभुज्जाणे सत्थो, तयासन्नसहयार-  
तले पियमई वि । तम्मि य नयरे सुंदरो नाम राया गुरुमूलधम्मसवणपडिवुद्धो पुग्दरभायरं रज्जेऽभिसिचिऊण पव्वइ-  
उमिच्छइ । सो वि संसारविरत्तमणो न तं पडिच्छइ । 'नत्थि अन्नो रज्जारिहो' त्ति अहिवासियदिव्वेहिं रायारिह-  
5 मन्निसावेड । कम्मधम्मसंजोएण पडिवन्नो दिव्वेहि कुसुमाउहो सदेवीओ नीओ रायमंदिर । 'कल्लाणागिइ' त्ति  
हरिसिया सुंदर-पुरदरा । 'माय !' त्ति भणिय पणमिया पियमई, भणिया य 'अम्ब ! पडिवज्ज रज्जभारं, उत्तरामो  
तुहप्पसाएण पडिवन्नसंजमजाणवत्ता दुत्तरं संसारसायरं' ति । पियमईए भणियं 'पुत्त ! अवला अवला चेव होइ,  
वालिसो य एस तुम्ह भाया, ता संपयं जमेत्थ जुत्तं तं सयं चेव वियारेह' ।

एत्थन्तरे विघ्नायवुत्तंत्तो समागओ तत्थ वासवदत्तो विघ्नविउं पैयत्तो 'देव ! एसा अगाहिवट्ठणो जयरायस्स  
10 महादेवी नासगभूया मम संपयं, ता सुंचह एयं जेणाहं नोवालंभभायणं भवामि' त्ति । तथो 'किं पियमई कलिगा-  
हिवधूया मम माउच्छा चेव तुमं ?' ति सुंदरेण पवुत्ता परुघ्ना देवी समासासिया सुंदरेण, सत्थवाहो वि भणियो  
'पत्ता एसा नियघरं, ता वच्च निव्वुयमणो, जाणावेज्जासि एयवइयरं जयराइणो' त्ति । ताहे देविमाउच्छिऊण गओ  
सत्थवाहो । सुंदर-पुरदरा वि 'अम्ह चेव बंधवो एसो' त्ति मंति-सामंताणं जाणाविय कुसुमाउहस्स कयाभिसेया  
समीहियमणुचिद्विउं पंवत्ता । कुसुमाउहो वि अखंडियसासणो राया संबुत्तो ।

15 अन्नया अवतिदेसाहिवो रायसेहरराया सोऊण तं वालरज्जं नियवल्लम्मत्तो कुसुमाउहस्स दूयं विसज्जइ, भणइ  
य 'सम्पेहि मे गय-तुरयाइयं, पडिवज्जाहि य भिच्चभावं जेण सुहेण चिट्ठसि । अवि य—

न जियइ सुहं विहंगो गहिणण महामिसेण चंचूए । पेच्छंतेसु लुहालयओलावय-ढंक्-क्केसु ॥ ८९ ॥  
होऊण मैईओ महिवईणसन्नेसि होसु मा गम्मो । चिट्ठसु निग्भयहियओ मउ व्व ताराहिवल्लीणो' ॥ ९० ॥  
इय दूयगिरं सोउं संदिट्ठं सालमंतिणा तस्स । 'सेवाविहिं न याणइ अज्ज वि कुसुमाउहो वालो ॥ ९१ ॥  
20 अज्ज वि कोलिउकामो गय-तुरयाइहि एस सयमेव । ता तुज्ज कइं पेसइ वालसहावा अवीहंतो ? ॥ ९२ ॥  
जइ पुण अवस्सकज्जं तुह पहुणो तुरय-दंति-भिचेहिं । पेसउ भण्डागारं जेण किणावित्तु पेसेमि' ॥ ९३ ॥  
इय सावन्नं भणियो दूओ पडिभणइ कोवपज्जलिओ । 'एरिसमंतीहिं चिरं काही कुसुमाउहो रज्जं ! ॥ ९४ ॥  
कारिज्जइ किर रज्जं राया मंतीहिं दीहदंसीहिं । वालत्तमवालत्तं न कारणं पुहइपालाणं ॥ ९५ ॥  
दाणेण पणामेण व साहिज्जइ दुव्वलेहिं वलसाली । लीलुल्लावेहिं न तस्स रोसणं संगयं एवं ॥ ९६ ॥  
25 पणईए जो पसज्जइ किं तस्स पव्वडिदएण कोवेण ? । न हि नहछेज्जं कज्जं कीरइ हु कुहाडयच्छेज्जं ॥ ९७ ॥  
देइ पसन्नो सोक्खं देवो इव रायसेहरो राया । कुविओ जमो व्व दावानलो व्व सहसा खयं नेइ' ॥ ९८ ॥  
इय जंपंतो दूओ भणियो सालेण मटविसालेण । 'अट्टावियमंतित्तं करेसि किं मूढ ! परगेहे ? ॥ ९९ ॥  
किं तस्स पसायाओ भुंजइ कुसुमाउहो उमं रज्ज ? । जं तुज्ज सामियो सो निल्लज्जो एवमाणवइ ॥ १०० ॥  
वालं कलिऊण उमं पडिवन्नो पौरुसेण तुह सामी । छलमन्निसंति निययं कीवा लीवां वि(? व) भसणाणं ॥  
30 रे दूय ! वुज्जसु फुडं एसो वालो वि तुम्ह न हि सज्जो । किं दुव्वलो वि सीहो गंजिज्जइ जंबुयाइहिं ? ॥ १०२ ॥  
इय निट्टुरवयणपयण्डकण्डसन्ताडिओ महाक्रोदा । साहइ जहट्टियं दुट्टमन्तियं नियनरिदस्स ॥ १०३ ॥

१ पत्ता सिंधुवद्धणं जे०विना ॥ २ पवत्तो जे०विना ॥ ३ जाणविज्जासि ख१ ॥ ४ माउच्छिऊण गओ जे०विना ॥  
५ पवघ्ना । जे० ॥ ६ 'मयीय' इत्यर्थ ॥ ७ संकेतः—'लीवा वि(? व) [ भसणाणं ] ति शुना चालका [ ? इव ] ॥

सो वि घयसित्तपावयपलित्तचित्तो महन्तकडएण । चलिओ चल्न्तहरि-करि-भडकंपियपुहइपिहुपीढो ॥ १०४ ॥  
इओ य वासवदत्तसत्थवाहो पत्तो चपाउरिं, गहियमहापाहुडो य गओ रायसमीवं, पाहुडोवणयणपुवं च  
दाविओ णेण राया ।

‘वड्ढाहि महामहिवड ! एकं वीयं पुणो वि तइयं च । दइया-सुयलोभेहिं पुत्तस्स य रज्जलाभेण’ ॥ १०५ ॥  
तओ विम्हिएण राइणा भणियं ‘कहमेयं ? ति नावगच्छामि सम्मं’ । तओ सत्थवाहेण निवेइओ जहादिट्ठ- 5  
नेसुओ सिंधुवद्धणागमपज्जवसाणो सव्ववइयरो । तमायन्निय हरिसिओ नरेसरो काऊण य सत्थवाहस्स महन्तं  
सायं उकंठाइरेगओ गओ सव्वसामग्गीए सिंधुवद्धण, मिलिओ घरणि-तणयाणं, पवत्तो नयरे महापमोओ । विन्नाय-  
पुत्तंत्तो समागओ तत्थेव पियमइजणओ माणतुगराया । सम्माणिओ जयराएण, सिट्ठो तस्समक्खं देवीए कडपूय-  
गावइयरो । तीए वि तस्स नियाणुभूयं अच्छरिय ति । विम्हिओ राया परियणो य । तओ—

चिरविरहसगमाओ नेहनिरंतरमणाण सव्वेसिं । सुहनिवभराण सहसा बोलीणा वासराऽणेगे ॥ १०६ ॥ 10  
अह रायसेहरो नरवई वि कयकडयगरुयसंरंभो । सोऊण वइयरमिणं विलक्खभावं गओ धणियं ॥ १०७ ॥  
चिन्तइ ‘धिरत्थु लोढो मइमोहो जंतुणो जओ होइ । पाडिज्जइ मूढजणो जेण महाऽऽयासपासेसु ॥ १०८ ॥  
किं किर न मज्झ पुज्जइ ? संपज्जइ किं न निययरज्जम्मि ? । पररज्जहरणकज्जे जमेवमायासिओ अप्पा ॥ १०९ ॥  
पत्तं परेण जइ सुकयजोगओ वालएण किर रज्जं । का नाम अक्खमा मे तत्थ महामोहनडियस्स ? ॥ ११० ॥  
को तरइ हंत ! हरिउं नरस्स नियपुन्नपावियं लच्छिं ? । तुट्ठो वि सुट्ठ को वा वियरइ गयभग्गसंगस्स ? ॥ १११ ॥ 15  
अहह ! धिरत्थु निरत्थं लज्जणयकरं मए समारद्धं । पत्तो अमित्तभावं मित्ताण वि जयनिवाइणं ॥ ११२ ॥  
खामेमि सव्वहा ता गंतूणं दो वि पत्थिवे तत्थ । भुल्लो वि सुंदरो सो लग्गइ मग्गम्मि जो झत्ति’ ॥ ११३ ॥

एवमवहारिऊणं संपत्थिओ तयहुत्तं रायसेहरो, पेसिओ पुव्वयरमेव पडिवत्तिवयणनिउणो सुदरमंती । तेणावि  
पणामपुवं संलत्तो जयनरवई ‘देव ! अविन्नायपरमत्थेण कओ तुह तणयं पइ महासंरंभो त्ति पच्छायावानलपलित्त-  
माणसो संपयमवराहरखामणत्थमागच्छइ अम्ह सामी, ता न तुव्वेहिं अन्नहासंभावणाए खेओ कायव्वो’ त्ति । जय- 20  
राइणा वि ‘जुत्तमेयं, खलियपच्छायाविणो चेव महाणुभावा भवंति’ त्ति भणमाणेण सक्कारिओ मन्ती, निरुविया  
आवास-घासाइसागयपडिवत्ती, अभिगमिओ उचियभूमिभागे । किं बहुणा ?—

अन्नोन्नगरुयपडिवत्तिरंजिया नेहनिवभरा सव्वे । अन्नोन्नविरहभीया चिरं ठिया पत्थिवा तत्थ ॥ ११४ ॥  
तप्पभिइं तं नयरं विक्खायं रायसगय नाम । इंतेहिं समंता वणियउत्त-भड-भट्ट-चट्टेहिं ॥ ११५ ॥  
दिन्नाओ वत्तीसं कन्नाओ रायसेहरनिवेण । कुसुमाउहस्स गोरवमहग्घमच्चंततुट्टेण ॥ ११६ ॥ 25

एत्थंतरे समागओ तम्मि नयरे सोमयाविणिज्जियमयलंछणो तेयसंपओवहसियसरयपज्जोयणो गंभीरिमातु-  
लियमयरहरो धीरिमाहरियधराहरवरो रूवाइसयविसाडयसिरिन्दणो वयणसिसिरत्तोहामियसरसचंदणो कमलदल-  
विमलचित्तो सारयसलिलनिम्मलचरित्तो नीसेसगुणरयणखाणी विमलकेवलनाणी पत्रड्ढमाणपसमरंसायरो  
गुणसायरो नाम सरी ।

निस्सामन्नगुणो जो सामन्नगुणोहमुव्वहंतो वि । परसासणनिम्महणो परसासणसत्तचित्तो वि ॥ ११७ ॥ 30  
सहसववणे विविणे सुरनिम्मियकणयपंऊयनिसन्नो । धम्मं वागरमाणो नाओ जयपमुहराईहिं ॥ ११८ ॥

१-°लामेहि य पु° जे°विना ॥ २ °ओ सिववद्धणा° जे°विना ॥ ३ “विषादितमदन” खरटि° ॥ ४ °रससायरो खर  
आ° ॥ ५ सङ्केतः—“नि प्रामा(श्राम)ण्या नि सामान्याश्च गुणा । परेपा श्रामनम्—आज्ञा मश्रा(थ्ना)ति, पर च प्रकृष्ट शासन-दर्शनम्” ॥

तो ते तओ वि भूवा भत्तिभरनिभरा सपरिवारा । तं वंदिऊण विद्धिणा उव्विट्ठा धम्मसवणाय ॥ ११९ ॥  
 मुणिणा वि महुरञ्जुणिणा करुणासहिण्ण तिहुयणट्टिण्ण । पारद्धा सुविसुद्धा गंभीरा देसणा तेसिं ॥ १२० ॥  
 'भो भो भवभीयमणा ! भव्वजणा ! पाविऊण मणुयत्तं । जलविंदुचले जीए अप्पहियं सव्वहा कुणह ॥ १२१ ॥  
 तं हणह जेण निहया, तं विजिणह जेण निज्जिया तुब्भे । तं धरह वसे निच्चं वसीकया जेण सव्वे वि ॥ १२२ ॥  
 तं कीरउ परमरणं परमरणं जत्थ नत्थि नियमेण । तम्मि रई कायव्वा जम्मि रई सव्वहा नत्थि' ॥ १२३ ॥  
 अह भणइ माणतुगो राया 'भयवं ! न याणिमो सम्मं । तुब्भेहिं जमाइट्ट इमेहिं गंभीरवयणेहिं ॥ १२४ ॥

जओ—

निहया वयं न केणइ, न निज्जिया, न य वसीकया जाउ । संच्छंदनरिंदाणं ता भणह किमेवमाडुट्टं ? ॥ १२५ ॥  
 किह वा तं परमरणं परमरणं जत्थ सव्वहा नत्थि ? । कह कीरउ तम्मि रई जम्मि रई नियमओ नत्थि ? ॥ १२६ ॥  
 अवितहवाई भयवं, तहा वि अम्हे अईवदुम्मेहा । सम्मं अवुज्झमाणा पुच्छेमो एत्थ परमत्थं' ॥ १२७ ॥  
 तो भणइ मुणिवरिंदो 'मोहनरिंदेण कारिया तुब्भे । अन्नाणमज्जपाणं तेण न लक्खेह परमत्थं' ॥ १२८ ॥

तओ पहसियमुहेण भणियं रायसेहरेण 'भयवं ! को एस मोहराओ ? कत्थ वसइ ? केरिसी वा तस्स रज्जट्टिइ ?  
 त्ति नाउमिच्छामो भगवओ पसाएण' । भगवया भणियं "अंतरंगो सो, जिणधम्मनरवइदूओ सुवोहनामो सुदंसण-  
 चुभं जया तुम्ह दाही तया जहट्टियं तं तुब्भे मुणिस्सह, आगतुकामो य सो तुम्ह समीवं, जावज्जवि न पहुप्पइ  
 तावाहं पि तुम्हमइकोउगं ति साहेमि तस्सरूवं केत्तियं पि—

[ ११. कम्मपरिणामरूवयं ]

अत्थि अणेगअच्छेरयपउरे जयउरे नयरे सुरा-सुर-नरिंदाखंडियसासणो सिट्टजणजणियपसाओ दुट्टलोयदावि-  
 याणिट्टनिट्टो कम्मपरिणामो नाम राया । तस्स य एगन्ताणुरत्ता छंदाणुवित्तिनिउणा कालपरिणई नाम सहयरी ।  
 तेसिमदिट्टविप्पओगदुहाणं सयलनायरजणाखंडियसासणाणं अणाइरज्जाणुपालणरयाणं कयाइ जाया चिन्ता 'केत्तिओ  
 अम्ह अंतरंगपरिवारो ? को वा केत्तियाहिगारकारी ? केवइयपसायारिहो व ?' त्ति । तओ—

दिट्टो मोहकुमारो अइवलवं राग-दोससुहडेहिं । नीसेसरज्जकज्जाणुचित्ते वावडो निच्चं ॥ १२९ ॥

अन्ने वि सत्त कुमरा नाणावरणाइणो जणगभत्ता । जयउरलयं सयलं अण्णचित्तं थिराविता ॥ १३० ॥

तो भणइ महाराओ देवि 'एवंविहेसु कुमरेसु । निहिऊण रज्जभारं चिट्टामो निव्वुया इन्दि' ॥ १३१ ॥

सा भणइ 'जुत्तमेयं पिययम ! पुरिसस्स बुद्धिमंतस्स । कुमराण वि पुत्तत्तं सलाहपिज्जं हवइ एवं ॥ १३२ ॥

25 भणियं च—

जाएसु जेसु जणओ पुर्वि पिव वहइ दुव्वहं भारं । बालेयाण व तेसिं सुयाण जम्मं मुहा मन्ने' ॥ १३३ ॥

तुट्टेण तओ तुरियं मोहकुमारो पइट्टिओ रज्जे । सेसाणं च पसाया कया महन्ता जहाजोगं ॥ १३४ ॥

भणिओ मोहो 'पुत्तय ! सव्वहिगारी पुरा वि तं आसि । इन्दि तु विसेसेणं पालेज्जसु पुरजेणं एयं ॥ १३५ ॥

अहयं तु निव्वुयमणो निच्चं पेच्छणयपेच्छणक्खणिओ । वियरिस्सामि जहिच्छं संपइ एत्थेव नयरम्मि' ॥ १३६ ॥

30 मोहो वि समुन्नद्धो जयउरलयस्स बहुमओ अहियं । अविभावियपडिक्खो संपत्तो रायरायत्तं ॥ १३७ ॥

अन्नदिणे सहस च्चिय धाहासदो पुरे समुच्छलिओ । 'किर निज्जंति पयाओ चारित्तनिवेण सिवनयरं' ॥ १३८ ॥

तो कोवारुणनयणो कयभीसणभिउडिभंगदुप्पेच्छो । वड्ढियगाढामरिसो मोहनिवो भणिउमारद्धो ॥ १३९ ॥

रे ! कत्तोच्चयमेयं मइ जीवंते वि मज्झ नयराओ । हीरन्ति मम पयाओ ? चारित्तनिवो वि को एस ? ॥१४०॥  
 रे राग-दोससुहडा ! तुरियं सन्नहह सव्वजत्तेण । नियनियसुएहि सद्धिं जयजगडणपत्तकित्तीहिं ॥ १४१ ॥  
 रे रे मिच्छादंसण ! मए निउत्तो सि रज्जचित्ताए । किं सुयसि सुवीसत्थो ? न मुणसि नयरं पि हीरंतं ! ॥१४२॥  
 रे रे ! संचलह लहुं नाणावरणाइणो महाजोहा ! । जेण मलेमो माणं अज्जेव चरित्तचरडस्स ॥ १४३ ॥  
 सिरखलमइमहंतं मइ विज्जंतो वि जयउरे एत्थ । उव्वहइ रायसइं अन्नो वि अखंडमाहप्पो' ॥ १४४ ॥ 5  
 एवाहित्थविहत्थो भणिओ अविवेगमंतिणा एस- । देव ! पसीय पसीयहि मा खिज्जंमु मोरकुल्लाए ॥ १४५ ॥  
 जं पुण धाहावणयं एत्थ इमं कारणं सुणउ देवो । तुह पिउणा वीवाहे अंगुट्टपमोयणनिमित्तं ॥ १४६ ॥  
 दिन्नं चिरट्टिईए तुह माउच्छाए नयरमज्झत्थं । सत्तरिअहियं पाडयसयं विसिट्ठ पि इट्ठं पि ॥ १४७ ॥  
 अन्नत्थाऽणासासा तीए कओ तत्थ पत्थिवो धम्मो । सोमो सरलसद्दावो सुसीलवं सुंदरो सरो ॥ १४८ ॥  
 सो पुण एगन्तहिओ वहिरंगजणस्स देव ! सव्वस्स । देइ सुह सुसमिद्धिं विहिसेवीणं विसेसेणं ॥ १४९ ॥ 10  
 तित्थयर-चकि-केसव-मण्डलिय-महिब्भसंपयासुइए । । अन्ने पासायाणं उवरिल्लतलेसु विलसंते ॥ १५० ॥  
 पेच्छंता निसुणंता तस्स पसाया सुहत्थिणोऽणेगे । वहिरंगजणा पायं तं चिय सेवंति जत्तेण ॥ १५१ ॥  
 जे वि य मिच्छादसणपमुहेहिं तुहंतरंगभिच्चेहिं । नरयाइगुत्तिखित्ता कयत्थिया दीहरं कालं ॥ १५२ ॥  
 निव्वेयाइसयाओ काल-सहावाइसन्निहाणेण । ते वि कह कह वि छुट्टा सरणं धम्म पवज्जंति ॥ १५३ ॥  
 परिवालिऊण सुइरं रज्जं तेणावि सुहियहियएण । उत्तमगुणमणिनिहिणो दिन्नं चारित्तपुत्तस्स ॥ १५४ ॥ 15  
 पडिवन्नधणं परकज्जउज्जयं पवरविरियसंपन्नं । वहिरंगनरा तं विन्नविंति दीणाणणा निच्चं ॥ १५५ ॥  
 'मोहाणुचरभयऽत्ता अम्हे तुह पाडएसु संपत्ता । ते पुण ववगयसंका एत्थ वि दीसति वियरंता ॥ १५६ ॥  
 ता तं तहट्टियं चिय अम्ह भयं सामि ! ता पसाएण । दंसेहि तं पएसं जत्थ पयारो न एएसि' ॥ १५७ ॥  
 भणियं च तेण 'मा भाह भइया ! अत्थि सिवपुर नयरं । सव्वभयविप्पमुक्कं अच्चंतागम्ममेएसि ॥ १५८ ॥  
 जाव य तत्थारोहुं न तरह निस्सेणिविरहओ तुव्वे । आरुइह ताव एयं विवेयसेलं महातुंगं ॥ १५९ ॥ 20  
 एत्थ य ठियाण तुव्वं एए दप्पुव्वभडा वि मोहभडा । अणुकूलकारिणो चिय होहिंति, न संसओ एत्थ ॥१६०॥

एयवयणाणंतरमेव निउत्तो सयागमो विवेगपव्वयारोहणे । तेणावि तमारोवियाऽणेगे वहिरंगनरा, दिन्ना  
 पसम-सवेगाइणो अंतरंगसहाया । तओ तत्थ केइ दिणे वीसमिऊण केवलनाणदंसियमग्गा सिवपुरमवि गच्छन्ति ।  
 जे य देवस्स चउरो अंतरंगभाउगा नाम-गोत्ताइया 'पवंचिऊण एए नियत्तिस्सामो' ति व आसाए गया आसि ते  
 वि निरासीभूया सपइ सगिहमागया, तेहि य एयं धाहावियं । ता देव ! अलं संरंभेण, माउच्छा चेव नियपाडय- 25  
 तत्तिं काही । मोहराएण भणियं 'भइ ! तहा वि पाएहि सव्वे वि संसारिजीवे अन्नाणमहामज्जं, जेणामुणियजह-  
 ट्टियधम्मगुणा न मम निव्विज्जंति' । तओ 'आएसो' ति भणंतो गंतूण तुरियमागओ अविवेगो, 'अणुचिट्ठियं देव-  
 सासणं' ति भणंतो निव्वडिओ मोहरायचलणेसु । तुरियागमणाओ तमसदहंतो सयमेव तं भुयाए गिन्धिऊण पहि-  
 षिडओ तं नयरं मोहराओ । दिट्ठमन्नाणमइरापणासियचेयणं अमुणियगम्मा-ऽगम्मं अविन्नायधम्मा-ऽधम्मं अपरिया- 30  
 णियकज्जा-ऽकज्जं अपरिहरियखज्जा-ऽखज्जं सचराचरं सव्वं नयरं । नवरं दिट्ठा पुव्वभणियपाडएसु नाणाविह-

१ सङ्केतः—“पवाहेच्छविहच्छो(पवाहित्थविहत्थो) ति एव किं कर्तव्यताव्यामूह ” ॥ २ खिज्जह मो' जे० ॥ ३ सङ्केतः—  
 'मोरकुल्लाए ति शुधा' ॥ ४ अंगुट्टयमो' खर ॥ ५ 'नाणदेसियं' जे० ॥ ६ चउरो भाउगा जे० विना ॥



भणियो मोहराएण अविवेगो 'अरे ! कहमेए मज्जं न पाइया ?' । तेण भणियं 'देव ! सुट्ठुयरमेए पाइया मज्जपरवसा  
चेव धम्ममुग्घोसिति, न उण जहट्टियं धम्मसरूव जाणंति त्ति सम्मं परिभावेउ देवो, न ताव एए विवेगगिरिमा-  
रूढा, न य चारित्तजणणीणं समिड-गुत्तीणं भत्ता, न तदीय वयसिरिहर रक्खंति, न य तदीयपसम-सवेग-निव्वेयाइअंत-  
रंगपरियणेण सममेएसिं मेत्तीभावो वि दीसइ' त्ति । मोहराएण भणियं 'अरे ! अविवेगो तुमं बुच्चसि ता कहमेव  
5 वियाणेसि ?' । तेण भणियं 'मिच्छादसणाएसाओ जीवाण हरणत्थं विवेगगिरिं गओ हं, न य तत्थारोहुं तरामि त्ति  
कुग्गाहाइभडे पेसिऊण वीसमंतेण सुया मए जिणागमस्स धम्माराहणविहि भणंतस्स केइ पडिसइ, तेण एत्तियं  
वियाणामि, एयम्मि अवसरे कुग्गाहभडेहिं ओयारिया केइ जीवा विवेगपव्वयाओ, तओ वेत्तूण तुरियं पलाणो म्हि' ।  
पुणो मोहराएण पवुत्तं 'होउ अन्नेण, कहेहि मे किमेत्थ माउच्छारज्जे केइ ममाणाकारिणो संति, न वा ?' ।  
पडिवुत्तमविवेगेण —

10 'सव्वे वि जणा तुह देव ! किंकरा जे विवेगगिरिहेट्ठा । उवरिं पि केइ विरला तुहाणुवित्तिं नहि कुणंति' ॥१६१॥  
इय निसुणंतो गहियो अत्तुक्करिसेण मोहमहराया । सविसेसं तम्मि पुरे उदामं रमिउमारद्धो ॥ १६२ ॥  
कयवहिरंगावेसो गायइ वायड य नच्चई हसई । कलहड हणड पलोट्टइ रमेइ रामइ विरमई य ॥ १६३ ॥  
सोयइ कंदइ विलवइ वीहइ वीहावई रुयइ सुयई । मुच्छागओ व्व चिट्ठइ सुउरं अन्नेसु पत्तेसु ॥ १६४ ॥  
आलिंणमसुइकलेवराणमवरोप्परं विगयलज्जो । कारेइ मुक्कवत्थो छन्नं पयडं च लोयाणं ॥ १६५ ॥  
15 चुम्बइ असुइमुद्दाइं कारेइ अणेगकवडचाइणि । अन्नेसु कयावेसो जुवईणं पडइ पाएसु ॥ १६६ ॥  
आवेसिऊण कोहाइणो भडे कुणड भीमसंगामे । पहरइ पडिपहरंतो मारइ मरइ य खणद्धेण ॥ १६७ ॥  
भोगंगदाण-पोसण-पालणओ किंकरत्तपत्तो वि । उव्वहइ पहुत्तमयं वहुण वहिरंगलोयाण ॥ १६८ ॥  
अइपरिओसरसाओ सहियो भाईहिं सपरिवारेहिं । वियरइ नवरसरम्मं तइं जणयस्स दावित्तो ॥ १६९ ॥

[ कम्मपरिणामरूवयं समत्तं. ११ ]

20 एवं च ठिए बुज्झह निहया सव्वे वि पाणिणो तेण । विजिया य पगामं लोभवेरिणा दुज्जयवलेण ॥ १७० ॥  
धरिया य वसे निच्चं मोहकुलुत्थेण इंदियगणेण । ते हणह जिणह धरइ य वसम्मि सोक्खाणि जइ महइ ॥१७१॥  
परमं पि रणं तं चिय मारिज्जइ नावरो जहिं जीवो । सो पुण सुसंजमो चिय विजई रागाइवेरीणं ॥ १७२ ॥  
रइ-अरइविप्पमुके रइसरहिए हिए हियत्थीणं । एगंतसुहसरूवे रई वि तत्थेव खलु जुत्ता ॥ १७३ ॥  
इय भो महाणुभावा ! मा मोहविडं वण मुद्दा सहइ । आरुहइ विवेगगिरिं चारित्तं सरणमल्लियह" ॥ १७४ ॥  
25 अह रायसेहरो रइयसेहरो करयलेहिं दोहिं पि । सह माणतुगरन्ना पमोयरोमंचिओ आह ॥ १७५ ॥  
'भयवं ! नज्जइ दिच्चो धम्माट्टेण वोहदूएण । अम्ह सुदंसणत्तुओ सक्खं पिव लक्खिमो जेण ॥ १७६ ॥  
माइंदयालसरिसं विरामविरसं असासयमसारं । संसारसुहं सयलं एगंतविडं वणारूवं ॥ १७७ ॥  
मोहंधो एस जिओ विनडिज्जंतो वि दड्ढमोहेण । मिच्छाभिनिवेसहओ हिया-इहियं नो वियाणाइ ॥ १७८ ॥  
ता उच्छामो हच्छं हाउं गेहं दुहोहपडहच्छ । मोहवलदलणदच्छं चरिउं चरणं च सइ पच्छं" ॥ १७९ ॥  
30 तो केवल्लिणा वुत्तं 'समुहं कल्लणमज्ज संवुत्तं । तुम्हाण जेण चित्तं जायं एगंतसुपवित्तं ॥ १८० ॥  
ता मा करेह विग्घं साहिज्जउ नियसमीहियं सिग्घं । चवलो करणगामो, दुलहो चारित्तपरिणामो' ॥१८१॥  
तो तेहिं जओ भणियो 'पडिवज्जसु अम्ह संतिए रज्जे । अम्हे उ उज्जमामो सम्मं परलोगहियकज्जे' ॥१८२॥

पभण्ड जओ 'ममावि हु संपेन्नो दाणि चिर कओ नियमो । पव्वइउमणो पुव्वयरमेव मोत्तूण ता रज्जं' ॥१८३॥  
पुन्नाहिओ त्ति कैलिउं दाउं कुसुमाउहस्स रज्जाइं । पव्वइया ते सव्वे केवल्लिणो पायमूलम्मि ॥ १८४ ॥

पव्वइउमणा त्ति दहं पियमइदेवी अवच्चनेहाओ । पिउ-पइ-अमच्चवयणा पपालिया वालरायं तं ॥ १८५ ॥

कुसुमाउहो त्ति राया पत्तो जणयस्स रायहाणीए । वालो त्ति जयपयासो संजाओ सरयस्सरो व्व ॥ १८६ ॥

सुविणीयमंति-सामंतचित्तियासेसरज्जवावारी । सुहसागरावगाढो पत्तो विद्धिं समिद्धिं च ॥ १८७ ॥ 5

आलिंणिओ य सव्वंगमेस सव्वेण गुणसमूहेण । अलहंतेण व अन्नं भुज्जणे त्ति त्ताव्हिं पत्तं ॥ १८८ ॥

निम्भरभरिए गुणसंपयाए अंगे पवेसमलहंतो । रुसिऊण व तस्स जसो त्तियरइ सेसेसु देसेसु ॥ १८९ ॥

न त्ता रमइ मणो से रज्जे सुहसंपयाभिरामे त्ति । जिणसासणम्मि जणयाणुसेविए जह महासुहए ॥ १९० ॥

गय-तुरयवाहणे मल्लजोहणे कोउगी त्ता नेसो । जह जिणमज्जण-पूयण-जत्तामहिमाविहाणेसु ॥ १९१ ॥

धम्मकमणं दट्टूण तं निवं मच्छरग्गित्तियं व । मध्ने दुत्ति पउत्तं मिच्छत्तं तस्स रज्जाओ ॥ १९२ ॥ 10

जिणसंवद्धं सव्वं भव्वं कव्वं मणोरमं गेयं । नड-नट्ट-भट्ट-चट्टाइया त्ति गायंति से रज्जे ॥ १९३ ॥

उज्झियदोसासंगे अमयकलंके अखण्डवित्तम्मि । उल्लसइ तम्मि लोणो दिट्ठम्मि अउव्वचंदे व्व ॥ १९४ ॥

गायंति जणा तं चिय, तं चिय मुमरंति विहुरकालम्मि । मरणे त्ति रणे त्ति महूसवे त्ति ज्ञायंति तं चेव ॥ १९५ ॥

अह अत्थि तस्स देवी अंगरुहा रायसेहरनिवस्स । लक्खणलक्खसणाहा छंदो-वागरणरयण व्व ॥ १९६ ॥

कुसुमावलि त्ति नामं रइसुहसोद्वग्गकुलहरसरीरा । आलाणखंभभूया नरनाहमणोगइंदस्स ॥ १९७ ॥ 15

अह जयसुदरदेवो वद्धकंठो व्व भाऊणो धणियं । अवयरिओ सुहचरिओ कुसुमावलिदेविकुच्छीए ॥ १९८ ॥

तो सा निद्धयतमं सत्तिसिहासोहियं सुहयकंतिं । दट्टूण सिद्धिं सुविणे सुहेण तुंदं पइ सरंतं ॥ १९९ ॥

पाहाउयतूरनिनायवोहिया कहइ राइणो सुइया । तेणावि समाइट्टा उप्पत्ती पवरपुत्तस्स ॥ २०० ॥

सोऊण रायभणियं धणियं देवी पमोयमावन्ना । अरुणोदयस्सइयस्सरदंसणा चक्कवाइ व्व ॥ २०१ ॥

कैयगुरुयपयत्ताए गव्वं परिवालिउं पवत्ताए । संवुत्तो डोहलओ कारियजिणभव्वणंसोहलओ ॥ २०२ ॥ 20

दिन्नाक्किवणाइदाणो संपाइयसाहुसंघसम्माणो । संपाइओ य विद्धिणा नरवइणा धम्मगुणनिहिणा ॥ २०३ ॥

तो सा वद्धियतोसा गहवलजुत्ते सुसोहणमुहुत्ते । पुत्तं गुणसंजुत्तं सुहं पयाया महाभाया ॥ २०४ ॥

तयणु सुमंगलसारं अणवरयं दिज्जमाणघणसारं । वियरिज्जमाणसारं कयसयलमलीमसासारं ॥ २०५ ॥

विच्छेहेण सुवड्डेण कोड्डिणा मड्डिमंडियजणोहं । वद्धावणयं कुसुमाउहेण कारावियं रम्मं ॥ २०६ ॥

संपत्ते मासंते पइट्टियं नेहनिम्भरमणेण । नियनामदसणाहं वरनामं कुसुमकेउ त्ति ॥ २०७ ॥ 25

नैक्खत्तचार्ड पइवासरं सो, विडप्पसंगेण अंगंजियप्पा । कालेण संपन्नकलाकलावो जाओ अउव्वो व्व गँहाहिवो सो ॥

गीए रसिओ, तिसिओ सुभासिए, भव्वकव्वकइनिउणो । खग्गग्गणी धणुद्धरपुरस्सरो चित्तनिग्घट्टो ॥ २०९ ॥

पत्तो जए पसिद्धिं साइसयकलाहि सो समग्गाहिं । रुवेण य जोवणसन्निहाणफारेण सारेण ॥ २१० ॥

अन्नया महुराहिवमहाक्कित्तिनरिंदमहन्तएण महावुद्धिणा विधत्तो कुसुमाउहो "देव! अत्थि अम्ह सामिणो मणोरमा-

इदेवीसंभूयाओ मयरद्धयनरिंदरायहाणिभूयाओ पच्चक्खा इव दिसाकुमारीओ अट्ट वरकुमारीओ, तासिं पुण वियद्धिह- 30

१ संपत्तो ख१ ॥ २ कलियं ख१ ॥ ३ "उदरम्" ख२टि० ॥ ४ कयगुरुयं जे०विना ॥ ५ "णल्लोहलओ जे०विना ॥

६ सञ्जैतः—"नक्षत्राणि प्रतिदिनं त्यजति । विडप्पो राहुस्तस्य सङ्गं, विटाना प्रसङ्गं च । अत्र विडप्पो इत्याद्येव विशेषणं व्यति-

रेक्यचकम्, अन्ये तु द्वे साधर्म्येण" ॥ ७ "चन्द्र" ख२टि० ॥

माथड्ठीकयाणं समाखूढनववयाणं पि न कोइ रायकुमारो मणमावज्जइ, सुयं च ताहिं जणयपुरओ वेयालिणा पढिज्जमाणं गाहाजुयलं—

‘नेहो सारो रइकीलियस्स, नेहस्स होइ सव्भावो । सव्भाव-नेहरहियाण रइरसो केरिसो होइ ? ॥ २११ ॥

वेप्यंतु धणेण पणंगणाओ धणसंगमेकरसियाओ । सव्भावगज्जहियया छेया कठ ताहिं वेप्यंति ? ॥ २१२ ॥

5 तओ ‘साहिप्पाओ महाकइ’ त्ति त्रिभिहियाण निवेइयं वेयालिणा ‘जयमहारायकुलनहयलामलमयंकस्स कुसुमाउहपुहइपालस्स नंदणो महापन्नछेप्पन्नहिययानंदणो सयलकलावियक्खणो सयाकलव्भासरसकयक्खणो विउ-सचक्कचमुक्कारहेऊ कुसुमकेऊ कुमारो एयासिं कइ’ त्ति । इयसवणपवणसाहेज्जपज्जलियपज्जुन्नजलणात्तिद्धमणकुंडि-च्छाओ पवडिद्वयतस्संगमिच्छाओ ताओ किच्छमच्छन्ति, अओ पेसिओ हं तुम्ह समीवं सामिणा, भणिओ य—

‘गुणलेसेण वि सैमयं न इति तुह नदणस्स एयाओ । मम धूयाओ तह वि हु तम्मि दढं वद्धरागाओ ॥२१३॥

10 एयाण निग्गुणाण वि महागुणो एस चेव किर एक्को । जं उत्तमसंगमलालसाओ नऽन्नं समीहंति ॥ २१४ ॥

ता सव्वहा महापुरिसादुल्लहं कारुन्नमुररीकाऊण पेसिऊण कुसुमकेउ कुमारं कीरउ एयासिं मणनिव्वुइ’ त्ति । अन्नं च—

छज्जइ नहउच्छंगे संपुन्नकलालओ वि हरिणंको । ताराहिं तारतेउज्जलाहिं परिवारिओ राओ ॥ २१५ ॥

जा सोहा किर करिणो लीलायन्तस्स करिणिमज्जम्मि । सा कत्तो वणयरसंकुले वि एगागिणो रणे ? ॥२१६॥

ता पत्तयालमेयं जइ वा वायालयाए किं अम्ह ? । जुत्ता-ऽजुत्तथवियारयाण देवो च्चिय पुरिल्लो” ॥ २१७ ॥

15 एवमुल्लविऊण विरए महावुद्धिम्मि भणियं कुसुमाउहेण ‘जुत्तमेव मंतियं महामंतिणा, किंतु एस मम सुओ संपत्तजोव्वणो वि न छिक्को मयणवियारेहिं । जओ—

वंकं न भणइ, न चलेइ तणुलयं, कुणइ नाइसिंगारं । न निहालइ ललणावलियलोयणं केलिसुहविमुहो ॥२१८॥

वन्नेइ न नारीणं जोव्वण-नेवच्छ-ललियभणियाइं । मज्जत्थमणो समणो व्व नीरसो एस रमणीसु ॥ २१९ ॥

ता न नज्जइ तस्स चित्तं, केवलमत्थि गुरुवयणाराहणमहव्वयं, तेण कयाइ करिस्सइ ममाएसं’ ति ।

20 जाव य एत्तियं राया वज्जरइ ताव पडिहारनिवेइओ पत्तो सागेयाहिवरविसेणमहन्तओ सुगुत्तो नाम, तेणावि विन्नत्तं “देव ! अत्थि अम्ह सामिणो सयलकलापत्तहाओ लट्ठाओ पंचसरपिययमाणुगारिणीओ जणमणहारिणीओ पुहइरयणागरसारियाओ अट्ट दारियाओ । तासिं पुण पुरिसद्देसणीणं हिययजाणणत्थं दाविया णेगे रायउत्तपडि-च्छंदगा, न य केणइ रंजियाओ । नवरं कुसुमकेउकुमारपडिविम्बावलोयणवावडाओ लद्धच्छिद्देण व ताडियाओ विसमसरेण । तव्वियाराविब्भूयभत्तारोययाइरोगाण ताण ‘न कुसुमकेउ कुमारं विणाऽवरो पउणीकरणसमत्थो’त्ति

25 पेसिओ म्हि तुम्ह समीवं रायरविसेणेण । तव्वयणाओ विन्नवेमि देवं- सव्वहा परोवयारसारचरिओ निरुवचरिय-सोज्जामयभरिओ दक्खिन्ननीरसायरो कारुन्नपुन्नरयणायरो देवो पेसिऊण कुमारं करेउ तासि जीवियरक्खणं”ति ।

जाव य पुव्वजुत्तीए तं पडिभणइ ताव पविट्ठो वच्छाहिवदूओ सुमणिओ नाम, सविणयं च भणिउं पवत्तो ‘देव ! विन्नत्तं साहावियगुणाणुराएण जयतुगराएण-अत्थि मम रूव-सोहग्ग-विज्जाविजियरइ-सिरि-सरस्सईओ मह-

30 विहवोहामियवहस्सईओ सयलविन्नाणवियक्खणाओ अंगोवंगपइट्टियपगिट्टलक्खणाओ उवहसियनागकन्नयाओ सोलसं कन्नयाओ । तासिं च समाऽट्ठो दिट्ठपच्चएण नेमित्तिएण कुसुमकेउनामो तुह तणओ पाणिग्गाही, ता ममाणुग्गहेण पडिच्छह एयाओ, पेसिज्जउ य तुरियं कुमारपुंगवो’ त्ति ।

१ सकेतः-“छप्पन्न त्ति विद्वास” । “छइल” ख२टि० ॥ २ “कुभीरम्” ख१टि० ख२टि० ॥ ३ “समताम्” ख२टि० ॥  
४ महाराइणा ख२ ॥

सोऊण तस्स वयणं वद्धियपरमुद्धवो भणइ राया । 'एगा एस कुमारो दिवसो एगो विवाहस्स ॥ २२० ॥  
 तिन्नि वि अलंघणिज्जा नरनाहा किमिह संपयं जुत्तं ? । पेसेमि जइ कुमारं एगस्स उ दोन्ह तो हीला ॥२२१॥  
 निदोसाण वि दोसो नियमेणाऽऽरोविओ हवइ दोन्हं । ता सव्वनिसेहो चैव संगओ अम्ह पडिहाइ' ॥२२२॥  
 तो भणइ महाबुद्धी 'लग्गविमुद्धी सुदुल्लाहा होइ । तेण न जुत्तो विग्घो कुमारियाणं विवाहेसु ॥ २२३ ॥  
 ता देव ! संपयं संपयं इमं सव्वरायदुहियाओ । एत्थेऽऽवायंतु सयंवराओ किं सेसजुत्तीहि ?' ॥ २२४ ॥ 5  
 मज्झत्थभणियमेयं जायं सव्वेसि बहुमयं तेसिं । कुसुमाउहो वि पभणइ 'साहु महाबुद्धिनामं ते' ॥२२५॥  
 'जुत्तमिणं जुत्तमिणं' भणंति अन्न वि धीधणा धणियं । होइ समाणा दिट्ठी विमुद्धवुद्धीण पाएणं ॥ २२६ ॥

तओ सम्माणिऊण भणिया तिन्नि वि दूया राइणा—

'भणियव्वा नियपहुणो तहा तहा चित्तेउजुत्तीहिं । अम्हाम्भु मंदनेहा जहा न जायन्ति मणयं पि ॥२२७॥

न य किंचि अपुचियत्तं निवकन्नाणं सयंवरागमणे । तम्हा पैहियव्वाओ कन्नाओ अण्णचित्तेहिं' ॥ २२८ ॥ 10

तओ 'एवं'ति भणिऊण सपरिओसा गया ते नियनियट्ठाणेसु । निवेइओ वुत्तंतो नियसामिसालाण । बहुमय-  
 मिणं सव्वेसिं । तओ—

पत्ताओ विभूईए निरुविए वासरम्मि सव्वाओ । परिणीयाओ तह कुसुमकेउणा जणयवयणाओ ॥ २२९ ॥

वत्ते वीवाहमहे महिद्धिओ सुरवरो व्व सुहमेसो । सुरवहुसमाओ ताओ रामितो रमइ सच्छंदं ॥ २३० ॥

पडभवमव्भासाओ विसयाण, वहुण 'गुणसमिद्धीओ । नवनेहनिव्वभरो सो जाओ एगंतरइरसिओ ॥ २३१ ॥ 15

एत्थंतरे गुरुपयपसायासाइयस्सरिपओ पुरदराइपवरमुणिपंचसयपरिगओ ओहिनाणोवल्लद्धकुसुमाउहपरिचाग-  
 समओ समागओ तत्थ सुदरायरिओ, ठिओ नागकेसरुज्जाणे । उज्जाणवालायाओ वियाणिओ कुसुमाउहेण घणुन्नइ-  
 दंसणाओ नीलकंठेण व पमोयमुव्वहंतेण, सव्वसामग्गीए गंतूण वंदिओ य । तओ असमपसमसंपयावलोयणहयहियओ  
 पप्फुल्लपंकयायमाणनयणजुयलो अणिमिसाए दिट्ठीए गुरुमुहपलोयणातिचचित्तो, निविट्ठो तयंतिए । संभासिओ  
 भयवया अमयरसनिसंसंदसुंदराए गिराए, भणिओ य— 20

'महाराय ! असारो एस संसारो, सारो एयस्स धम्मासेवणं, सावज्जं रज्जं बहुजणकम्मयरत्तरुवं परमत्थेण,  
 आहोपुरिसियापायाओ रिद्धीओ, तुच्छं भोगसुहं परिणामदारुणं नियमेण, विप्पओगदुहहेयवो सव्वसंजोगा, सव्वहा  
 सुविणिंदयालविव्वभमो सव्वसंसारव्वहारो त्ति, एवं च टिए जुत्तं महासत्ताण सत्ताणकारणं धम्ममासेविउं । अवि य—

सुइरं श्रुत्ता भोया, नरवइसदो समुज्जलो वूढो । संपाइया य पणईण निव्वुई दीहर कालं ॥ २३२ ॥

उवभुत्तसारमिन्दि रज्जं चइऊण सजमे जयसु । पत्तलिलिहणं पज्जत्तभुत्तभत्तस्स नहि जुत्तं' ॥ २३३ ॥ 25

इय मुणिवइवयणमहामएण सिच्चन्तचित्तकंदस्स । नरवइतरुणो रोमंकुरेहिं चच्चिक्रियं अंगं ॥ २३४ ॥

चित्तइ य 'अहो ! भयवं एगंतेणेव वच्छलो मज्झ । अहवा महाणुभावा परहियनिरय च्चिय हवति ॥ २३५ ॥

परिनिव्वविति गिम्हुम्हताविय पुहइमंडलं मेहा । जुन्हामएण भयणं तिप्पेइ निसग्गओ चंदो ॥ २३६ ॥

पच्चुवयारनिरीहा महादुमा दिति पुप्फ-फलनिव्वहं । पयईए च्चिय सव्वस्स वच्छलो मुणिजणो होइ ॥ २३७ ॥

तह वि सविसेसंसेसो भयवं मम वच्छलो जओ इमिणा । वालो वि अवालो इव पुहइवइत्ते निउत्तो म्हि ॥२३८॥ 30

इन्दि तु भीमभवचारयाओ मोडउमणो व्व मं एसो । सासेइ पस्सयं हिययसंसियं दंसयंतो व्व ॥ २३९ ॥

मूढो य अह अहियं जो पिउणा दंसिए वि सुहमग्गे । इंदियविसयवसट्ठो न पयट्ठो एत्तियं कालं ॥ २४० ॥

१ "युक्कम्" ख१टि० ख२टि० ॥ २ "प्रेषणीया" ख२टि० ॥ ३ भोत्ता जे० ॥ ४ महहुमा जे०विना ॥

- कट्टं मारिसपुरिसा पडंति हरिणं व्व ऋडपासेसु । दोग्गट्ठनिबंधणे रज्जबंधणे मोहधंतथा ॥ २४१ ॥  
जिणनाहम्मि वि नाहे जीवा जीयन्ति विसयवेरीहिं । न रमंति मुत्तिमग्गे, वलवं खलु कम्मपरिणामो ॥२४२॥  
ता किं बहुणा ? संपइ करेमि एयस्स भगवओ वयणं । किं कुच्छिएण इमिणा भीमेण भवाणुवन्धेण ? ॥२४३॥  
इय चिंताभावियमाणसेण वेरग्गमग्गलग्गेण । संवेगसारपणएण राट्ठणा मुणिवरो भणिओ ॥ २४४ ॥  
5 'जह आइंसति गुरवो निक्कारणनिद्धवंधवा बुद्धा । तं तह करेमि निस्संकमाणसो आयहियकामी ॥ २४५ ॥  
मन्ने धन्नाणमहं सिरोमणी जं गुरूहिं अणुसट्ठो । न कयाट्ठ मंदपुन्नाण मंदिरे पडइ वसुहारा ॥ २४६ ॥  
धन्नाण सुप्पसन्ना रोग-जरा-मरणहरणपडइच्छं । वियरंति मुत्तिमुहयं उवएसमहोसहं गुरूणो ॥ २४७ ॥  
ता सव्वहा कुमारं रज्जे अज्जेव जाव ठावेमि । गिन्हामि सामि ! निरवज्जसंजमं ताव पावहरं' ॥ २४८ ॥  
गुरूणा समणुन्नाओ सम्मं नमिऊण तस्स पयपउमं । पत्तो गिहं नरिदो साणंदं नंदणं भणइ ॥ २४९ ॥  
10 'वच्छ ! पडिबज्ज रज्जं अहयं गिन्हामि अज्ज पव्वज्जं । परिवज्जियसावज्जं तायाइनिसेवियं वैज्जं' ॥ २५० ॥  
तो भणइ वरकुमारो 'जुत्तमिणं ताय ! मुणियतत्ताणं । किंतु न विंदामि रइं तुह मुहकमलं अपेच्छंतो ॥२५१॥  
रज्जेण न मे कज्जं, न यावि भोएहिं, नेय लोएहिं । जइ ता पेच्छामि न इंदुसुंदरं मुहु मुहु मुहं ते ॥ २५२ ॥  
अन्नं च न जुत्तं चिय उत्तमसत्ताण वल्लहावच्चं । सुत्तं मोत्तूण पलित्तमंदिरे नासिउं तुरियं ॥ २५३ ॥  
भीमम्मि भवारन्ने तायय ! मयलीवकीवमइदीणं । दुहदवतविओ वि तुमं मं मोत्तुं मा पलायाहि', ॥ २५४ ॥  
15 भणइ पुणो नरनाहो 'पुत्तय ! दंतिदियाण पाएण । परिणयवयाण जुज्जइ निप्पच्चूहो समणभावो ॥ २५५ ॥  
तं पुण वालसहावो पवणुद्धयधयसुचंचलं चित्तं । न निरंभिउं समत्थो अज्ज वि ता कह णु पव्वयसि ? ॥२५६॥  
अज्ज वि रज्जविलासा न कया, न य माणिया समरकेली । सेच्छाविहारसारं न याणुभूयं पहुत्तं पि ॥ २५७ ॥  
उवलद्धविसयतत्तो पूरियनीसेसकोउगो वच्छ ! । पच्छिमवयम्मि नियय जिइंदिओ पव्वएज्जासि' ॥ २५८ ॥  
इय भणिओ नरवइणा जणणीए मित्त-भंतिपमुहेहिं । जणयसिणेहा न मुयइ पव्वज्जानिच्छयं कुमरो ॥२५९॥  
20 भणइ य 'तरंति मंदा वि तारुया पोढतारुयसहाया । जुज्जंति संगरे भीरुया वि सूरस्स निस्साए ॥ २६० ॥  
तायम्मि सत्यवाहे तारुन्नारन्नमेयमइदुग्गं । लंबेज्ज सुहेणाहं किन्नाम न निच्छिउच्छाहो ? ॥ २६१ ॥  
दिन्ते हत्थालम्बं ताए अच्चंतवच्छले सम्मं । तुंगं पि सीलसेलं लीलाए आरुहिस्सामि ॥ २६२ ॥  
ता हीरइ हियं निवसिरीए दारेहिं भोगसारेहिं । पुरिसस्स जा न छूढं पोढे संतोसपायारे ॥ २६३ ॥  
ता वियरइ सच्छंदो चवलो मणमक्कडो मणुस्सस्स । जा नाणसंकलाए निविडीसं नेव संजमिओ' ॥ २६४ ॥  
25 एवमेगंतनिच्छियमणं कुमारं नाऊण 'अहो ! धन्नो लहुकम्मो महासत्तो एसो' त्ति चित्तयंतो दाऊण  
देवसेणकुमारस्स रज्जं, कुसुमकेउपमुहपंचहिं पुरिससएहिं वत्तीसाए देवीहिं सुन्हाहि य सद्धिं कयचेइय-संयसकारो दवा-  
वियावारियसत्तो संपूरियसयलमैग्गणजणमणोरहो पुरिससहस्सवाहिणीए सिवियाए महया हय-गय-रह-जोहसाहणा-  
णुगएण देवसेणराइणाऽणुगम्ममाणो गंभीरतूरनिग्घोसवहिरियऽम्बरो अमंदाणंदविंदुसंदोहपप्पुयच्छो पत्तो गुरूसमीवं  
राया, उवसंपन्नो सपरियणो विहाणेण । गुरूणा वि पव्वाविओ चिइवंदणाइकमेण । भणियं च—  
30 चिइवंदण रयहरणं अट्ठा सामाइयस्स उस्सग्गो । सामाइयतियकडुढण पयाहिणं चेव त्तिक्खुत्तो ॥ २६५ ॥  
वत्ते निक्खमणमहामहम्मि विम्हइयसयलनरनाहे । नवनवसंवेगसुहारसेण संसित्तचित्ताणं ॥ २६६ ॥  
चरणपरिणामसाही नवप्परूढो वि पोढिमं पत्तो । तह जह जाया छाया जणमणनेव्वाणसंजणणी ॥ २६७ ॥

अवि य—

जा छक्खंडमहीपसिद्धिसमए चक्कीहिं नाऽऽसाइया, जा दप्पुद्धरकंधरारिमहणे पत्ता न सारंगिणा ।  
जा पत्ते पियसंगमे विरहिणा केणावि नो' पाविया, साऽऽउवा वयपत्तिओ समुइया तेसिं मणोनिव्वुई ॥ २६८ ॥  
तो ते सुदरसूरिणो पयकए फुल्लंधुयत्तं गया, सुत्त-ऽत्थोरुपरागपीणियमणा तत्थेव वद्धग्गहा ।  
निच्चं तिच्चतवोवहाणविहिणा कम्मक्खयाऽऽकंखिणो, जाया उज्जयसंजएसु निययं दिट्ठंतभूया लहुं ॥ २६९ ॥ 5  
जं कुणइ तवं जणओ तणओ वि तमेव कुणइ नियमेण । विहरंति ठंति एगत्थ दो वि नेहाणुबंधेण ॥२७०॥  
अह भणिया ते गुरुणा 'छिंदह भो ! नेहबंधण एयं । नीहरह जेण भवचारयाओ केणावि अक्खलिया ॥२७१  
जिणवयणभावियाणं समतण-मणि-सत्तु-मित्तचित्ताणं । न हि जुत्तं संजमिउं अप्पाणं नेहनियलेहिं ॥ २७२ ॥  
नेहेण तिला वि संहंति पीलणं, तह महिज्जए दहियं । मइलिज्जड अंगं अम्बरं पि नेहाणुसंगेण ॥ २७३ ॥  
चिट्ठउ ता सेसजणो भारियकम्मो अनायसद्धम्मो । भवसिद्धिया वि न लहंति केवलं नेहसंजमिया ॥ २७४ ॥ 10

अन्नं च—

को कस्स सया जणओ ? को वा तणओ सुही व बंधू वा । माया भइणी भज्जा धूया सुन्हा व संसारे ? ॥२७५॥  
सव्वो जणओ सव्वो वि नंदणो बंधवो रिऊं मित्तो । जाओ अणंतखुत्तो संसारे एकमेकस्स ॥ २७६ ॥  
भुत्तो लुहाइरेगा, निहओ वेरि त्ति मच्छरवसेण । परिवालियो य नेहा सव्वो सव्वेण सयखुत्तो ॥ २७७ ॥  
नमिओ गुरुबुद्धीए, मिच्चो दासो त्ति धणियमाणत्तो । वूढो य, वाहियो वि य सयसो सव्वेण सव्वो वि ॥२७८॥<sup>15</sup>  
इय परियत्तसहावे संसारे मुणियधम्मत्तत्ताणं । रागो रोसो वि न होइ संगओ संगरहियाणं' ॥ २७९ ॥  
तो भणइ कुसुमकेऊ 'भयवं ! भवभावणापरस्सावि । पसमइ न मज्झ नेहो, न याणिमो कारणं किं पि' ॥२८०॥  
कुसुमाउहो वि पभणइ 'एवमिणं सामि ! जं सुओ वयइ । जइ नवरं गुरुणो च्चिय एत्थ त्रियाणंति परमत्थं' ॥२८१॥  
आह गुरु 'चिरजाओ पइजम्मं पोसिओ य तुवभेहिं । दुपरिच्चओ य तेणेस संपयं तवरयाणं पि ॥ २८२ ॥  
एयाणुभावओ च्चिय जहुत्तजिणधम्मकारयाणं पि । न हि संवुत्ता सुत्ती अत्रिओगासंसओ तुम्ह' ॥ २८३ ॥ 20  
कहिऊण पुव्वचरियं नीसेसं ओहिणा परिन्नायं । संजायजाइसरणा पुणो वि गुरुणा समणुसट्ठा ॥ २८४ ॥  
ताहे संविग्गमणा गुरुवयणाओ पिहंपिहंभूया । भवभावभावणपरा मुणिचरियं चरिउमारद्धा ॥ २८५ ॥

अह अन्नया कयाई साहू कुसुमाउहो महासत्तो । पडिवन्नो गुरुवयणा एकल्लविहारियापडिमं ॥ २८६ ॥  
एगत्तभावणाभावणुज्जओ निम्मओ निरासंसो । निव्वभयनिप्पडिकम्मो अनिययचारी जियपमाओ ॥ २८७ ॥

वसइ गिरिनिगुंजे भीसणे वा सुसाणे, त्रणविडवितले वा सुन्नगारे व घोरे ।

25

हरि-करिपभिईणं भेरवाणं अभीओ, सुरगिरिथिरचित्तो द्वाणसंताणलीणो ॥ २८८ ॥

जत्थेव सरो समुवेइ अत्थं, तत्थेव द्वाणं धरई पसत्थं । वोसट्ठकाओ भय-संकमुको, रुइखुवेहिं अखोहणिज्जो ॥२८९  
एसइ उज्झियधम्मं अंतं पंतं च सीयलं लुक्खं । अक्कोसिओ हओ वा अदीणविदाणमुहकमलो ॥ २९० ॥  
इय शोसंतो देहं कम्मसमूहं च धिइवलसहाओ । पत्तो कयाइ धीरो गामम्मि सुभोमनामम्मि ॥ २९१ ॥  
तत्थ य सुन्नागारे धम्मज्जाणे सुनिच्चलमणस्स । परिमुद्धमुत्तरुत्तरसंजमठाणं चडंतस्स ॥ २९२ ॥ 30

जायं कह व पमाया पलीवणं मज्झरत्तकालम्मि । पलयसमए व्व जलणो पज्जलियो मारुयवसेण ॥ २९३ ॥

'उट्ठह धावह लमं कुक्कु' त्ति भणंतसंभमुव्वंभंतो । करगहियकडिल्लो च्चिय अडुवियडो जणो भमिओ ॥ २९४ ॥

१ नो वेइया जे०विना ॥ २ "भ्रमरत्वम्" स१टि० ख२टि० ॥ ३ रिवु जे०निना ॥

- समकालमुक्कगोहणनिरुद्धकुहणीसु गंतुमतरंतो । जाइ खलंतपडंतो हाहारवनिवभरो कोइ ॥ २९५ ॥  
 पहभग्गसगडसंघडणवावडो धरणिनिवडियकडिल्लो । न तरइ गंतुं मोत्तुं पि दुग्गओ जलणलीढो वि ॥ २९६ ॥  
 काउं कडीए एगं वीयं वाहाए कडिदरी वालं । गलियकडिल्लुवरिल्ला पलाइ भयनिवभरा काइ ॥ २९७ ॥  
 चिरनिग्गया वि अघ्ना वालं सरिऊण सयणपम्हुट्टं । पविसइ नेहपरद्धा जालावलिकवलियं निलयं ॥ २९८ ॥  
 5 डज्झंतवंसदंडयतडयडतट्टत्तडारवसुईओ । ठाणे च्विय कंडिल्लुट्टा का वि ठिया रमणभरसुंठिया ॥ २९९ ॥  
 डज्झंतसव्वसारे सव्वत्थ समुच्छलंतपुक्कारे । पवलानिलसंवलिए हुयासणे तम्मि पज्जलिए ॥ ३०० ॥  
 सहसा चेव पलित्तं सुन्नहरं जंत्य सो ठिओ भयवं । कयसज्झाणपइओ न पलाओ सो महाभाओ ॥ ३०१ ॥  
 छिन्नसमत्तमत्तो दढयरमन्नभभावणासत्तो । सुक्कज्झाणपवत्तो अचलियचित्तो महासत्तो ॥ ३०२ ॥  
 अवियाणियतणुदाहो हिययब्भंतरनिहित्तजिणनाहो । अविगलसंवेगरसो महायसो धरियवीररसो ॥ ३०३ ॥  
 10 जलणपलित्तं गत्तं चडऊण समाहिसंगओ भयवं । उववन्नो सुंहपन्नो सव्वट्टमहाविमाणाम्म ॥ ३०४ ॥  
 दहूण तं पहाए गामीणजणो विसायमावन्नो । पम्हुट्टनिययदुक्खो सोइउमेवं समारद्धो ॥ ३०५ ॥  
 'हा ! दुट्ठ दुट्ठ जायं एस महप्पा समाहिकयनियमो । निकखामिओ न केणइ एयाओ सुन्नगेहाओ ॥ ३०६ ॥  
 पत्तो कलंकपकं एयाओ दुक्कयाओ घोराओ । आजम्मं गामजणो अहो ! महापावमिहं जायं' ॥ ३०७ ॥  
 इय सोइऊण सुइरं काऊण य तस्स उचियकायवं । लग्गो उच्चिग्गमणो गामीणजणो सकज्जेसु ॥ ३०८ ॥  
 15 अह सुंदरमुणिवइणो निच्छियमइणो विसुद्धजोगम्मि । घणघाइक्कम्मघाया संजाया केवल्लुप्पत्ती ॥ ३०९ ॥  
 विहिया य महापूया सन्निहियसुरेहिं विम्हयपरेहिं । सावत्थिपुरवरीए सुदंसणे काणणे रम्मे ॥ ३१० ॥  
 तत्थ य लद्धावसरो पुच्छइ उकंठिओ कुसुमकेऊ । 'विहरइ कत्थेयाणिं कुसुमाउहमुणिवरो भयवं !?' ॥ ३११ ॥  
 वज्जरइ केवली से जहट्टियं सव्वमेव वुत्तंतं । उप्पत्तिं च विमाणे सव्वट्टे निट्टियाणिट्टे ॥ ३१२ ॥  
 भणइ 'सुलद्धं जीयं महरिसिणो तस्स पूयपावस्स । तह घोरे उवसग्गे जेण तहाऽऽराहिओ अप्पा ॥ ३१३ ॥  
 20 कीरइ संगच्चाओ, सुहेण तप्पिज्जई तवं घोर । विहुरावडियाण जयम्मि दुल्लहाऽऽराहणपडाया ॥ ३१४ ॥  
 तं थेज्जं तं थेज्जं सा लेसा सो परक्कमो विमलो । तारिए उवसग्गे जायइ तस्सेव धम्मस्स ॥ ३१५ ॥  
 तम्हा न सोइयन्नो स महाभागो तए समणसीह ! । मिलिहिसि असंसयं चिय तुमं पि से थेवकालेण ॥ ३१६ ॥  
 दलियमिव कम्मसेन्नं, तिओ व्व भवोदही भवंतेहिं । ता मा कासि महायस ! अधिइं थेवं पि हिययम्मि' ॥ ३१७ ॥  
 इय केवलिणाऽऽणत्तो संविग्गो कुसुमकेउमुणिवसमो । सविसेसं संसारासारत्तं चित्तिउं सुइरं ॥ ३१८ ॥  
 25 वेरग्गाइसयाओऽणुन्नाओ सरिणा समारद्धो । सुत्तमणिएण विहिणा सम्मं संलेहणं काउं ॥ ३१९ ॥  
 कासी य विचित्ततवं चउरो संवच्छरे सुइचरित्तो । विगईविवज्जियाइं पुणो वि चत्तारि वासाइं ॥ ३२० ॥  
 एगंतरोववासो दो वासे अम्बिलेण पारियवं । अविगिट्टतवं कासी छम्मासे परिमियाऽऽयामं ॥ ३२१ ॥  
 छम्मासे उ विगिट्टं तवं तवेसी तमेव पारणयं । संवच्छरं तु एकं कासी य निरतराऽऽयामं ॥ ३२२ ॥  
 परिसुसियपिसिय-रुहिरो चम्म-ऽट्टि-नसावसेसतगुलट्ठी । गुरुपयमूले सम्मं सल्लुद्धरणं तओ कासी ॥ ३२३ ॥  
 30 आहारपरिच्चायं काऊण गुरूणमणुमओ सम्मं । गिरिकंदरम्मि रम्मे पायवगमणं अह पवन्नो ॥ ३२४ ॥

१ संकेतः—“कुहणीसु ति रप्पासु” ॥ २ संकेतः—“कडिल्लुट्ट ति स्थूलकटितया” ॥ ३ संकेतः—“सुडिय ति श्रान्ता [ ॥१०॥ ]” ॥ ४ जत्थ संठिओ जे०विना ॥ ५ सुंहपन्नो जे० ॥ ६ 'से पारणे मियायामं जे०विना ॥ ७ तवं चरेसी जे०विना ॥

निष्पडिकम्मसरीरो गुरुवयणाओ मुणीहिं निउणेहिं । सम्मसुववृहणाए संवड्ढियसुद्धपरिणामो ॥ ३२५ ॥  
 पणुवीसवासरेहिं चइऊण कलेवरं पयइपूइं । धम्मो सो उववन्नो अणुत्तरे सुरविमाणम्मि ॥ ३२६ ॥  
 जं तं संसारसारं अपमयपमयं निट्टिएसा-विसायं, कामं निक्कामकामं परममविरमं नट्टनीसेसकेसं ।  
 संसुद्धं सुद्धलेसं गय-भयरहियं रुवसुंटेरसीमा, तं सपत्ता पवित्तं सुचरियचरणा दो वि ते धम्मदेवा ॥३२७॥

असमसमसमग्गा भग्गदोहग्गमग्गा, रइ-अरइविउत्ता सारसंतोसजुत्ता ।

तिगसमहियतीसं सागराइं निरीसं, धरिय सुरवरत्तं पुन्नपब्भारपत्तं ॥ ३२८ ॥

अणिच्चभावं भवसंभवाणं, भावाण सव्वाण वि दावयंता ।

भुत्तावसेसेण सुहेण सद्धिं, चर्विसु तत्तो लह्ठिउं व सिद्धिं ॥ ३२९ ॥

॥ इय पुहइचंदचरिए कुसुमाउहरायरिसिचरियं दसमं भवग्गहणं संमत्तं ॥

[ ग्रन्थाग्रम्-५६० ]

5

10



## [ एगारसमो पुहवीचंद-गुणसायरभवो ]

जयइ जिणवयणगंभीरसायरो जत्थ सीलरयणाइं । ल्हिऊण सुकयसुकया जंति परं निव्वुइं धीरा ॥ १ ॥

अत्थि सुविसयग्गामो बहुकणयालंकिओ घणवणो य । संपन्नवहुपसाओ सुहडो इव भरहसुपसिद्धो ॥ २ ॥

सुव्वंतविउलघोसो फलिओ व्व महादुमो सुनदकलिओ । पहियसमतावनासो रमणीओ कोसलो देसो ॥ ३ ॥

पुंहुच्छुवाडवहमाणजंतचुंकारमुहलदिसियको । सुवणसहयारकाणणविणिवारियमिहिरकरपसरो ॥ ४ ॥

सामोयकलमगोवीसंगीययसवणखलियशमणेहिं । पहिएहि मएहिं य निच्चलेहिं चच्चिकिउहेसो ॥ ५ ॥

सयलसिरीण निवासे देसे एयम्मि अत्थि सुपयासा । बहुपयइपूरियासा पुरी अउज्ज ति नामेण ॥ ६ ॥

दोसु वि समासु जीसे पढमजिणिंदस्स रज्जकज्जेण । कीरड चारुनिवेसो सुरेहिं सुररायवयणेण ॥ ७ ॥

छज्जइ पँसंडिघडिओ मणिकिरणावद्धसकक्रोदण्डो । पायारो परिवेसो व्व भाणुणो महियलावडिओ ॥ ८ ॥

भवणेहिं रयण-मणिनिम्मिएहिं सययं पयट्टनट्टेहिं । भोगुव्वभडलोएहिं य जा सुरनयरिं विसेसेइ ॥ ९ ॥

जत्थ वियरंतविलयामणिकुंडलकंतिदलियतिमिरेसु । उदय-उत्थंमणं रविणो न मुणिज्जइ जाउ भवणेसु ॥ १० ॥

सरला सुपत्तफलया जत्थ भडा पायवा वि सञ्छाया । नासेति ससियाणं परसेतावं समंतेण ॥ ११ ॥

जत्थ पन्नविलयासरीराणीव विडंकेसंसियाइं, कुट्टणीहिययाणीव महालोहगलाइं, महासराणीव कमलोदया-

विरहियाइं, सुपुरिसहिययाणीव सुविसालाइं, संसारचरियाणि व्व विचित्तचित्तसाराइ मंदिराइं । तथा मुणिणो व्व

सुहासया, हंसा इव विसुद्धोभयपक्खा, करिणो व्व पसरंतसम्मया, मयारिणो व्व सुकेसरा जणविसरा । तथा सज्जणा

इव नेहंवेहुला, जिणभत्ता इव सुयन्नपुत्ता, तरुणभावा इव पयासियमुत्ताहल्लुज्जलरयणा, वेसाविलासा इव दाविय-

वहुविहनेत्तवियारा, सुकइकव्वंधा इव सुवन्नयपसाहिया, जिणा इव दावियाभया, केसवा इव सामलया, येरो इव

१ संकेतः—“अत्थि सुविसयेत्यादौ, शोभनो विषयाणा-शब्दादीनां ग्राम-समूहो यस्य, शोभना विषया ग्रामाश्च यत्र । बहुना

कनकेन, बहुभिश्च कणै कैश्च-अलैरलङ्कृत । घनानि व्रणानि वनानि च यत्र । सम्पन्नं प्रमुप्रसादो यस्य, सम्पन्नानि बहूनि प्रकृतानि च शाकानि

यत्र । [गा० ३-] श्रूयमाणो बीना कुलस्य घोषो यत्र, श्रूयमाणाश्च विपुला घोषा-गोकुलानि यत्र । सुष्ठु नत्यादिभि(नतिभि नदीभि)श्च

कलितः । पथिकानां श्रम ताप च नाशयति” ॥ २ कोसलादेसो जे०विना ॥ ३ पहिपहिं य महिपहिं य निं ० ॥ ४ संकेतः-

“पसंडि ति सुवर्णम्” ॥ ५ ०त्थंमणं खर भ्रा० ॥ ६ संकेतः—“शरान् लान्ति-गृह्णन्तीति शरला [ सरलाश्च ] । सुष्ठु प्राप्त

फलक-खेटको ये, शोभनानि पत्राणि फलानि च येषु । सच्छाया-सश्रीका सातपाभावाश्च । परेभ्यः सन्ताप प्रकृष्टसन्ताप च” ॥ ७

संकेतः—“[ विडंकेत्यादौ, ] विटानामङ्के सश्रितानि, विटङ्कैश्च-वरण्डिकाभि शसितानि-लाघितानि । महता लोभेन अर्गलानि-अधिकानि,

महती च लोहागला येषु । कमलान्वितैरुदकै कमलोदयेन चाविरहितानि । सुष्ठु विशालानि, सुष्ठु विशिष्टाश्च शाला येषु । चित्राणि-

आश्चर्याणि आलेख्यानि च” ॥ ८ संसारिचं जे०विना ॥ ९ संकेतः—“[ सुहासयेत्यादौ, ] शुभाशया सुहास्यकाश्च । प्रसरन् सम्मदः

सम्मत च येषाम् । सुष्ठु केसराणि येषाम्, शोभनस्य च कस्य-सुखस्वेषरा” ॥ १० संकेतः—“[ नेहेत्यादौ, ] स्नेह-प्रेम घृतादि

च । सुष्ठु धन्या पुण्याश्च, सुधान्येन च पूर्णा । रदना-दन्ता, रतानि च-वज्रादीनि । नेत्राणि-चक्षुषि तेषा विकारा, वक्षुविशेषाश्च

तेषा विकारा । सुवर्णका-देशादिवर्णनानि, सुवर्णक च-कनकम् । दापिताभया, दर्शिता अभया-हरीतक्यो येषु । श्यामलकाः सामल-

काश्च । शोभनम् अक्षसूत्र-यज्ञोपवीतम्, अक्षाणां च-विमीतकाना सूत्रं-सूत्रणा येषु । महद् गर-विषम्, महच्च अगद-गन्धद्रव्यम् ।

सुरसेनया, सुष्ठु रसेन-पारदादिना, असुगता । सुष्ठु वेद्याना वारका येषाम्, वैश(वैस)वारश्च-प्रतीत । नागराजेन, नागरस्य च-सुण्ठया

आयेन-लाभेन, सारा । नानामार्गा, नाणावद्भू-प्रसिद्ध” ॥ ११ “ब्राह्मणाः” खरटि० ॥

सुयक्वसुत्ता, हरा इव संगहियमहागरा, सुरिंदा इव सुरसेणाणुगया, नरिंदा इव सुवेसवारा, पायालवासिणो च नागरायसारा, बहुदिण्डियमणुस्स च सुदिदुनाणावत्ता बहुप्पयारा महाहट्टा । किं बहुणा ?—

रंक्खसहिया सुरावणसारा लंकाउरि च सा तेण । रामाणुगयाण दहं नवा नराणं रई तत्थ ॥ १२ ॥

सुरयडज्जंतागुरुगुरुधूमसिहाकयंबुहंसंका । निचं पि घरमज्जरा कुणंति केयारवं तत्थ ॥ १३ ॥

सुविसट्टनट्टपेच्चयपडहच्छे रुंदहट्टचउहट्टे । न लहइ सया वि मगं तत्थ जणो कज्जतुरिओ वि ॥ १४ ॥

5

तीए य सोहग्गाडसयतुलियदामोयरो पणइपणइणीविंदाऽमंदमोयरो पच्चूहवृहोवगीयमाणपरऽकमो अलंघिय-कुलागयनीडपरकमो नीइचारेकमण्डणो निवारियदुन्नयपयारभंडणो अकयादोसयारिडण्डणो अणिट्ट-सिट्टदिट्ट-विसिट्ट-मगसण्डणो पॅरसंपयानिरीहो अवहुमन्नियदोजीहो कलाकोसल्लोवल्लपढमलीहो हरिसीहो नाम राया । अवि य—

जणओ जणस्स, धणओ धणत्थिणं, कुचरियाण कीणासो । मारो दइयाण, सुसेवयाण चिन्तामणी एसो ॥ १५ ॥

सरणागयाण वसणे, सयणे दइयाण, सगरेऽरीणं । दाणव्वसणी व घणं पुट्टिं न कयाइ सो देइ ॥ १६ ॥

10

चित्तं जं तस्स जसो ससंक्रुंदुज्जलं पि अणवरयं । गायंतीण वि कसिणं करेइ वयणं रिउवहूणं ॥ १७ ॥

अन्नं पि महाचित्तं उत्तमराओ वि जं इमो निचं । दरियमेराए मेइणीए उव्वहइ नाहत्तं ॥ १८ ॥

तस्स य सुवित्तमोत्तियगुणासया विहियहिययसुहसोहा । सुविसुद्धसमायारा मणोहरा हारलडय च ॥ १९ ॥

अन्तेउरप्पहाणा देवी देवि च सइ सुहाहारा । नयणविलासोहामियपउमा पउमावई नाम ॥ २० ॥

पवरोरुतोरणोवरिसुपइद्वियसिहिणमंगलियकुंभा । विहिणा विणिम्मिया सा रईए संवासवसहि च ॥ २१ ॥

15

वारियपरप्पवेसं पुहडं पिव तं पञ्चजमाणस्स । वोलेइ सुहमणेहा हरिणो जह तियसवासम्मि ॥ २२ ॥

अश्रया तीए कुसुमदंतपंतीए ललामलीलावईए पउमावईए मुणालवेल्लहलवाहियाए पुत्तजम्मणुम्माहियाए मयरद्धओ च लच्छीए अवयरिओ कुच्छीए कुंद-चंडुज्जलमहायसो कुसुमाउहतियसो । तओ सा नवणीय-सिरीसपल्लण-सोमाले सुरतरंगिणीपुलिणविसाले पवरपुन्नोदयभयणिज्जे सुहसयणिज्जे वाय-पित्ताइवियारविप्पउत्ता सुहपसुत्ता रयणीए पँच्छिमे जामे पाहाउयतूररवाभिरामे तिरोभवंततारयजाले पहायकाले विरायन्तथंभसयं सव्वरयणमयं पव- 20  
णुदुयथयवडवमालं टंकारभरियसुवणोयरघंटियाजालं लंवरिमणहरमणि-मोत्तिओऊलं विविहविच्छित्तिविरइयसुरदुगूलं महप्पमाणं सुरविमाणं वयणे पविसमाणं पलोइऊण संपत्तपडिवोहा पमोयरसुल्लसियधाराहयकयंवसंवाइसरीरसोहा गंतूण सविणयं तं महासुंमिणयं राइणो निवेयाइया ।

तेणावि समाइट्टं 'देवि ! तुमं सयलपत्थिववरिट्टं । पसविहिसि महातणयं समग्गजणनेव्वुईजणयं' ॥ २३ ॥

बहुमयनिववयणाए कलहंसवहसमाणवयणाए । गन्धमणुवाल्लिरीए वडुहंतीए तणुसिरीए ॥ २४ ॥

25

पियमहुरालावाए अरोसणाए सुसीलभावाए । पंचममासे सद्धा जाया सद्धम्मपडिवद्धा ॥ २५ ॥

'पूणमि देवयाओ, करभररहिया करेमि य पयाओ । कयमुणिजणसम्माणं देमि जियाणं अभयदाणं' ॥ २६ ॥

संपूरिया य एसा नरवइणा पमुइएण सविसेसा । जाया जणस्स तुट्टी, गन्धस्स य उत्तमा पुट्टी ॥ २७ ॥

१ सङ्केतः—“रक्षसाना हिता, रक्षया सहिता च । सुरावणेन, सुरापणैश्च-देवदृष्टे कुत्रिकापणै, सारा । रामचन्द्रानुगताना वानराणां न-नैव रतिस्तत्र, रामाभिश्च-स्त्रीभिरनुगताना नराणां नवा-प्रत्यग्रा रतिस्तत्र” ॥ २ ‘हरसंक्रं । जे० ॥ ३ संकेतः—“अमन्दम् आमोद-प्रमोदं रा- [ती]ति अमन्दामोदर । प्रत्यह्व्यूहेषु कर्तव्येषु परैरुपगीयमान आक्रम-आक्रमण यस्य, परशन्दश्च(स्य) चाग्रे पात प्राकृतत्वात्, यद्वा परश्चासावाक्रमश्च” ॥ ४ परप्पसायानिं जे० विना ॥ ५ सङ्केतः—“उत्तमे रागो यस्य, उत्तमश्चासौ राजा च । मुक्कमर्यादाया मेदिन्या मे(१ए)व भिय य (१), दूरे मर्यादा यस्यास्तस्या पृथिव्या” ॥ ६ पच्छिमजामे जे०विना ॥ ७ सुविणय जे०विना ॥

तओ पसत्ये तिहि-करणजोगे सव्वदोसविप्पउत्ते नक्खत्ते कूरग्गहानिरिक्खिए सुहग्गहदिट्ठे गहवलसमग्गे लग्गे उव्वलद्धसूरोदया कमलकलिय व्व वहलमयरंदं पसूया सेयणालिहिययहारयं दारयं । तयणु वद्धाविओ हरिसीहराया रोमचंचियदेहाए पियगुलेहाए मयहरिगाए । तेणावि कयचारयमोयणं नयरनर-नारीजणप्पमोयणं नच्चंतवारविलयं पाउव्वभूयदुरियवारविलयं तूररवापूरियंवरं अन्नोन्नमैवहरियम्बरं पवत्तजणमैहाभोगं सुमहाभोगं कारियं महावद्धावणयं ।

- 5 वड्ढियपरमाणंदं मासे समडच्छिए सुहुत्ते व्व । निव्वत्तेइ नरिंदो नामं नियबंधुपच्चक्खं ॥ २८ ॥  
जाएण वासभवणं पभासियं नडयल व चंदेणं । पुहईवई य होही एसो ता पुहइचदो त्ति ॥ २९ ॥  
अह पंचधाडकरकमललालिओ जाडसरणंसंबुद्धो । कयजणयसम्मओ सम्मओ य नवजोवणं पत्तो ॥ ३० ॥  
नवरं न कुणइ केलिं, न य दूमइ कं पि फरुसवयणेहिं । न हसइ, न चेव विलसइ सुपसंतो वीयरगो व्व ॥ ३१ ॥  
वाहइ न गय-त्तुरंगे, न य पहरणगुणवणे कुणइ कोड्डं । मल्ला-डलंकारपसाहणाणि व्वहारओ कुणइ ॥ ३२ ॥  
10 भत्तो माइ-पिळ्ळणं, भत्तो जिणचेइयाण साहूण । भत्तो जिणमुणिसेवापराण साहम्मियाणं पि ॥ ३३ ॥  
तो चितइ हरिसीहो 'कह नाम इमो अणंगसरिसंगो । भोगोवभोगमग्गे लग्गिस्सइ रायसुयजोग्गे ? ॥ ३४ ॥  
सलहिज्जइ जियलोए रायकुमाराण जोवणारंभे । सिंगारहारि चरियं समुज्जमो वेरिविजए य- ॥ ३५ ॥  
एवं विप्फुरइ जसो सव्वत्तो सरयससरपयासो । तेओ सिरी पहुत्तं जायइ अप्पडिहयं एवं ॥ ३६ ॥  
एस उण मुणिवरो इव पसंतचित्तो अणिट्टपरपीडो । होही गम्मो उज्जियपरक्कमो दुव्विणीयाणं ॥ ३७ ॥  
15 ता पत्तयालमेयं कारेमि कलत्तसंगहं ताव । तव्वसगओ सयं चिय काही सव्वं जओ भणियं ॥ ३८ ॥  
ता लेओ ता माणी ता धम्मी ताव उज्जुओ सोमो । जाव घरट्टो व्व नरो न भामिओ दड्ढमहिलाहिं ॥ ३९ ॥  
करिणो सिणीहि, वग्गाहिं वाइणो, गोसुर्यां वि नत्थाहिं । कीरंति वसे पुरिसा मराललीलाहिं महिलाहिं' । ४० ॥

- एवमालोडऊण पेसिया जयउर महंतया । तेहिं वि जाइओ कुमारमाउलगो विजयदेवराया पुव्वपडिव्वं  
ललियसुवरिकन्नं । पेसिया तेण सममन्नाहिं सत्तहिं कन्नाहि । संपत्ता महया भडचडयरेण रायउर, पविट्ठा तयहिचइणो  
20 माउलगस्स दंसणनिमित्तं, अत्थिय तस्स रुव्व-गुणगव्वियाओ कणगवईपमुहाओ अट्ट धूयाओ, 'न अन्नो एयाणमणु-  
रुव्वो वरो' त्ति कयसंपहारेण पेसियाओ ताओ वि तीए समं तेण । पत्ताओ ताओ महासामग्गीए सव्व्वाओऽडब्बा-  
उरिं, सम्माणियाओ राइणा, भणिओ य कुमरो 'महानरिदेहिं गोरवेण पेसियाओ, अओ सव्वहा विवाहियव्वाओ  
एयाओ, एवं कए मम जणणीए य परमनिव्वुई ढोड' त्ति । तओ अक्कामेणावि जणयाणुरोहाओ भणियं कुमारेण  
'जं ताओ आणवेड' । तओ पत्तपरमप्पमोएण गणयनिरुव्विए सुमुहुत्ते निव्वत्तिओ विवाहमहूसवो । केरिसो ?—  
25 सिंगारहारिपमुइयनर-नारिणणेण मुरसरुवेण । अवयरियतियसलोय व्व पुरवरी जम्मि संजाया ॥ ४१ ॥  
सयलं तं वोलकरं तं वोलकरं जणं निहालिंता । चिट्ठंति निच्चला चंचला वि गयणे जहिं खयरा ॥ ४२ ॥  
गंभीरतूरगुंजियर्पडंमुयं नडयलं पि तम्मि दिणे । वड्ढियपरमाणंदं नज्जड परमूसवं कुणइ ॥ ४३ ॥  
रोलंतवहलकप्पूरपरिमला भमिरभमरकयरोला । संबड्ढियप्पमोया पगाइया तम्मि धरणी वि ॥ ४४ ॥  
आसीवायपरायणपुरंगणाणं गणेहिं सुट्टएहिं । गिज्जंतचारुच्चरिरासयरम्मा पुरी जाया ॥ ४५ ॥  
30 एवविहविच्छइ कयवहुकोइ पढंतवहुडोइ । दिसिदिसिविसट्टनट्टे पमुइयचट्टे वहुपयट्टे ॥ ४६ ॥

१ सयणगणहिययं जे०विना ॥ २ भवहारियं जे० ॥ ३ महाभोग कारियं जे०विना ॥ ४ णपडिबुद्धो जे०विना ॥  
५ "हयं" म२टि० ॥ ६ गोमया जे० ॥ ७ सद्धेतः—'तं वोलकरं ति त जन कोलाहलकरम्' ॥ ८ संकेतः—'परिप्पु(पडंसु)यं  
ति प्रतिशान्दितम्' ॥

पुह्वीचदकुमारो निज्जियमारो त्रिवेयगुणसारो । वट्टइ मज्झत्थमणो अरुट्ठत्तो जहा समणो ॥ ४७ ॥  
 चित्तइ य 'अहो ! गहणं संसारे मांढविलसियं सयलं । जेण जणो विनडिज्जइ अनायतत्तो मुहा एस ॥४८॥  
 गीयं पलावपायं, सममेत्तं तूरताडणमसेसं । नट्टं पि गहाहिट्ठियचरियाओ निव्विसेसमिणं ॥ ४९ ॥  
 खेइज्जइ खलु अप्पा मल्ला-SSभरणाइभारवहणेण । पर्यइअसुंदरो पुण न हि देहो सुंदरो होइ ॥ ५० ॥  
 दीसंति सुंदरा जइ मल्ला-सलंकार-वत्थमाईया । देहस्स किमायायं असुईवीभच्छपयइस्स ? ॥ ५१ ॥ 5  
 को कस्स सुओ ? को कस्स वंधवो ? सामिओ त्रि को कस्स ? । पमुट्ठयमणो जणोऽयं जरस्स कए रमइ अविरामं ॥५२  
 पेच्च जणयाण मोहो कइवच्छरसाहियम्मि संवासे । खिज्जंति मज्झ कज्जे जमेवमुदामनेहेण ॥ ५३ ॥  
 एयाओ वि वट्टओ मोत्तूण सुवल्लहं सयणवग्गं । दूराओ आयाओ अनज्जमाणस्स मह कज्जे ॥ ५४ ॥  
 इय मोहविनडियजणे संसारे अकतरुफलासारे । न खमं खणं पि रमिउं भावियतत्ताण सत्ताणं ॥ ५५ ॥  
 अट्ठगरुओ निव्वंधो जणणी-जणयाण एत्थ वत्थुम्मि । नेहनडियाइं ताइं न सहंति खणं पि मह विरहं ॥ ५६ ॥ 10  
 उव्वाहियाओ दूरागयाओ पेमुत्तमडाओ एयाओ । मुच्चन्तीओ वालाओ मोहाओ हुंति दुहियाओ ॥ ५७ ॥  
 अन्नो त्रि जणो मोहा निंदइ मं पव्वयंतमेत्ताहे । तायाणुरोहओ ही ! पडिओ कह संकडे अहयं ? ॥ ५८ ॥  
 अहवा न किं पि नट्टं, संपड वोहेमि कह वि एयाओ । मा कम्मलहुययाए सव्वाओ वि पव्वइस्संति ! ॥५९॥  
 महुरभणिएहिं जणए त्रिवोहिउं पव्वयामि जइ अहयं । ता सविसेसमिमेसिं उव्वयरियं होइ सव्वेसिं' ॥ ६० ॥  
 इय हियए आयंतो निव्वत्तियसयलदिवसकरणिज्जो । पत्तो पियार्हिं सहिओ वेसहीए वासवसहीए ॥ ६१ ॥ 15  
 भदासणे कुमारो इयरीओ विमलरयणपट्टेसु । सैन्धुमियतणुलयाओ उवविट्ठाओ जहाजेट्ठं ॥ ६२ ॥  
 रेहइ सोमसहावो कोमुइचंदो व्व सो वरकुमारो । उव्वहसियतारताराछायाहि वट्टहिं परियरिओ ॥ ६३ ॥  
 मंथैरमुहीहि समयं खिप्पंतकडक्वतिकखवाणाहिं । सो तार्हिं न संविज्जइ अंगीकयसमतणुत्ताणो ॥ ६४ ॥  
 चलपम्हलं सुतारं सुसिणिद्धं महुरमणहरं दिट्ठिं । देइ न खणं पि कुमरो तार्सिं उकंठियाणं पि ॥ ६५ ॥

अवि य—

20

होइ अमयाओ अहिओ नवनेहे लज्जमाणमिहुणाणं । परियणमज्झे चोरियनिरिक्खिए दिट्ठिसंजोगो ॥ ६६ ॥

तं पुण कुमारमीसिं पि अकयदिट्ठिविआरमवल्लोइऊण पदियं ललियसुंदरिवियड्ढवेडीए—

'नवरसभरियासु त्रि कमलिणीसु विलसंतकमलनेत्तासु । खिवइ न दिट्ठिं हंसो न याणिमो कारणं किं पि' ॥६७॥

तओ ललियसुदरीए भणियं—

'पियसहि ! जलासयाणं न तारिसी जोगया कमलिणीणं । रजिज्जइ जीए मणो सुवियक्खणरायहंसस्स' ॥ ६८ ॥ 25

तओ ईसि हसिरुण भणिओ कुमारो विट्ठुवडुएण 'सामि ! वेरग्गिओ व्व तुम्ह परियणो लक्खीयइ, ता कीरउ एयस्स मणनिव्वुई' । कुमारेण भणियं 'वेरग्गकारणं चेव संसारो, जओ कूडवडुओ व्व विनडिज्जइ एत्थ पाणिगणो' त्ति । सविम्हएण 'को सो कूडवडुओ ?' त्ति वडुएण भणिओ पकहिओ कुमारो—

[ १२. केसववडुयदिट्ठंतो ]

अत्थि परित्तुलियालायउरीए महराउरीए कुलक्कमागयदालिहो केसवो नाम वडुओ । कविला य तस्स गेहिणी' 30  
 पर्यइए फरुसभासिणी दुव्विणीया वीभच्छदंसणा झिखणसीला य । तीए पावपरिणईए व्व वसीकयस्स तस्स चक्क-

१ सङ्केतः—'वसहीए २( वासवसही)ए त्ति वसतौ-आवासे वासाय वृषाभ्या( ? यां)-प्रधानाया[म्], यद्वा वासवस्य-  
 इन्द्रस्यैव रमणीयतया सख्य [यस्यास्तस्याम्]' ॥ २ "प्रच्छादित" खरटि० ॥ ३ "वट्ट" खं०रटि० ॥

यरवित्तीए बोलीणो णेगकालो । अन्नया आवन्नसत्ताए वुत्तो तीए 'अज्जेहि किं पि घय-गुलोसहाड पाउग्गं' । इय-  
रेण भणियं 'निव्विन्नाणो हं, तुममेव साहेहि किं पि उवायं' । तीए भणियं 'गच्छ सुवन्नभूमि, तत्थ कम्मयरा  
सुवन्नमेव वित्तिं लहंति, तओ सुवहुं सुवन्नसुवज्जिय तुरियमागंतव्वं' ति । तओ सो तयाएसपवणपणोल्लिओ पत्तो  
सुवन्नभूमि, उवज्जियं च पभूयं सुवन्नं । सिद्धप्पओयणो पडियागच्छंतो दिट्ठो इंदयालियधुत्तेण 'कुओ किमत्थं वा  
5 परियडसि ?' ति पुच्छिओ । सुवखत्तणओ निवेत्तओ सन्भावो वड्डएण । तओ इंदयालिणा दंसिया नवतारुन्नय-  
पसाहिया माहणकन्नया । जायाणुराएण जाइयाणि से जणयाणि । तेहिं भणियं 'जइ सुवन्नसहस्सं देहि' । पडि-  
वन्नं वड्डएण । 'इयाणिमेव लगं' ति कओ विवाहो, दंसियाइं अणेगाइं खज्ज-पेज्जाइं, परितुट्ठो वड्डओ सुकलत्त-  
लाभेण । खणंतरे उवसंहरिऊणमिंदयालं गहियसुवन्नो पलाणो इंदयाली । 'हा! किमेयं?' ति विसन्नो वड्डओ  
चित्तिउं च पवत्तो—

10 'कुविओ कस्स कयंतो ? अवहरिया केण पिययमा मज्झ ? । को सप्पडोड्डियाए कोट्टाकंडूयणं कुणइ ? ॥६९॥  
जइ पविसइ पायालं जइ वि सुरिंदं पवज्जए सरणं । पावेमि धुवं निहणं नराधमं पिययमाचोरं' ॥ ७० ॥  
इय डोड्डजरा विहुरो कंपंततणू पहाविओ तुरियं । परिभमिओ य वराओ पउत्तिमेत्तं पि अलहंतो ॥ ७१ ॥  
तन्हा-लुहाभिभूओ सुइरं भमिऊण भूरिदेसेसु । वियलियदप्पो दीणो पुणो वि कविलाए संभरइ ॥ ७२ ॥

चित्तइ य 'अहो! मे मूढया जमज्जिऊण मुहाए हारियं सुवन्नयंति, खिज्जिस्सइ कविला वराई ममादंसणेण, ल-

15 ज्जामि धणविरहिओ पडिगच्छंतो, ता किं पुणो वि सुवन्नभूमिं चैव वच्चामि ? चिरविरहविहुरियं पणइणिं वा समणुस-  
रामि ?' ति चित्ताविलासिणीए दोलाविज्जमाणमणंदोलओ पत्तो कंचि गामं । देव्वजोगेण भोइओ केणावि दहिक्करं,  
जाओ समासत्थो, पसुत्तो नग्गोहतलुखायाए, सुविणं च पेच्छियाइओ 'किर खणमाणेण मए गिहहेट्ठा मणि-कणय-  
दिव्व-वत्था-ऽऽभरणभरियं महन्तं भूमिगिहसुवलद्धं, तओ कारियं वद्धावणयं, भोयाविओ सयणवग्गो, सम्माणिया  
राय-नायरया, मिलिया य तत्थ नवपरिणीयवभणी, वहुमन्निया कविलाए' । एत्थंतरे खरखरारावखीणनिट्ठो पडिबुद्धो  
20 केसवो, पमुडयचित्तो पुणो वि चित्तेइ 'अरे ! अत्थि चैव मम मदिरे पज्जत्तमत्थजायं, ता कीस गहग्गाहिउ व्व  
एवं हिण्ढेमि' ति । चलिओ सउल्लासपहसियमुहो, कहाणयविसेसेण पत्तो गिहं । मुह-नयणवियासेहिं 'विदत्तधणो'  
त्ति वियाणिओ कविलाए, मज्जण-भोयणाइणा दहं गोरविओ य । जाहे न किंचि विदत्तं दावेइ ताहे अक्कोसिऊण  
भणिओ भट्टिणीए 'किं न दंसेसि वेदंति ? किं ममं पि वंचिउमणो सि ?' । केसवेण वुत्तं 'मा ऊसुगा होहि,  
थिराण चैव लच्छी-होइ, उज्जलीकरिस्सं ते मुहं, किन्तु निमंतेहि हिज्जो सयणवग्गं, आणिऊणाऽवमिच्चएण घय-  
25 गुल-तंडुलाइ करोहि सव्वरसोववेयं महापागं, तओ भुत्तुत्तरे विन्हावियसयणवग्गं दाइस्सं ते कयचित्तचमुक्कारं  
विदत्तसारं' । तीए भणियं 'तहा वि दंसेहि ताव केत्तियं ? जं विणोइऊण करोमि भोयणवित्थरं, न खलु उद्धारय-  
लद्धं चित्तनिव्वुइं कुणइ' । केसवेण भणियं 'अइ ! ववहियं खु त, ता सयणसमक्खमेव पायडिज्जिही, मा पुन्वि व  
मम वयणमियाणिं पि पडिक्कलेहि जइ मम सिरिं माणित्तिच्छसि' । तमेवं सावट्टंभजंपिरसुवल्लभ 'सयणो इव  
आणवेइ' ति संभंताए निमंतिओ कविलाए सयणवग्गो, निव्वत्तिओ भोयणविही । 'केसवो समज्जियधणो वद्धा-  
30 वणयं कुणइ' ति पवायाओ सकोउगो मिलिओ कोऊहलाउलियमणो नायरजणो । तओ जिमियसयणपच्चक्खं  
पारड्ढो सुविणोवल्लपएसं खणित्तं केसवो । 'किमेयं?' ति पुच्छिओ सयणेहिं भणइ 'मम सव्वसारमिह चिट्ठइ' ।  
सयणेण भणियं 'केण कया निदित्तं ?' । सो भणइ 'न याणामि, किंतु दिट्ठं मए अमृगगामे वड्डेट्ठा पसुत्तेण' ।

इयरेहिं वुत्तं 'तव्वेलमेव कीस न गहियं ?' । सो पडिभणइ 'गहियमणो जग्गाविओ म्हि रारडंतेण दुट्ठगहभेण तेण न गहियं पारियं' ति । ताव य 'अहो ! महामूढो सुविणाणुमग्गेण धावइ' त्ति कोलाहलमुहलियनहयलेहिं दिन्तताल-  
मुवहसिओ समाणमाणवेहिं, खित्ताओ छार-क्यारमुट्ठीओ सिरम्मि, खिसिओ गेहिणीए, तहा वि अच्चंतमूढयाए न उवरओ खणणाओ ताव जाव कुड्डपडणेण मोडियकडियडो पत्तो एगंतसोयणिज्जमइदारुणमवत्थंतरं ति ।

[ केसववडुयदिद्वंतो समन्तो. १२ ]

5

\*

एवं सुणमाणीओ लज्जोणयवलियकथरं ताओ । सव्वाओ गलियलज्जं कहकहसइं पदसियाओ ॥ ७३ ॥

अह भणइ पुहडचंदो 'भो विट्ठु ! कहेहि सच्चयं मज्झ । हासयरं होइ न वा केसववडुयस्स चरियमिणं ?' ॥ ७४ ॥

आह पदट्ठो विट्ठु "हासयर कुमर ! सुट्ठु एय ति । किंतु 'कह तेण तुल्लो पाणिगणो एस सव्वो वि ?' ॥ ७५ ॥

एयं तुम्ह पसाया इच्छामो जाणित्तं सभावत्थं" । इय पुट्ठो परितुट्ठो वज्जरइ कुमारवरसीहो ॥ ७६ ॥ 10

“ भट्ट ! सव्वो वि जीवो मुक्खवंभणसमो, जओ न याणाइ हिया-ऽहियं, न बुज्झइ कज्जा-ऽकज्जं वसीकओ पयइफरुसाए पडिकूलसहावाए पावाए कम्मपरिणइवंभणीए भूरिभवगहणभवेणभमणवित्तीए कालमइकमेइ । तन्नि-  
ओगओ चेव कयाइ सुवन्नभूमिं व पुन्नसुवन्नपत्तिरमणिज्जमुवेड मणुयजोणिं । भवियव्वयावसेण य दाणा-ऽणुकंपा-  
-ऽकामनिज्जराईहिं समज्जियसुकयकणओ वि मोहिज्जइ मयणमाइंदजालिएण । तओ परमत्थओ अविज्जमाणाए वि सज्जइ विसयसेवामायाकन्नयाए । तस्संपत्तिनिमित्तं च पवत्तमाणो नाणारम्भेसु घाएइ पाणिणो, वंचेइ अलियप्प- 15  
लावेहि परं, हरेइ परधणाइं, मग्गेइ परदाराइं, पिण्ढेइ परिग्गहं, करेइ कलहडमराइं, दूमेइ परपरिवाय-पेसुन्नय-ऽ-  
ब्भक्खाणदाणेहि पाणिगणं । एवं च हारियपुव्वज्जियसुकयकंचणो अणासाइयसमीहिओ भमइ नरय-तिरियगइरूवेसु विचित्तदेसेसु । पुणो वि कत्थइ भवसन्निवेसे जायाणुकपेण केणइ धम्मायरियगाहावइणा तवचरणदहिकूरदाणेण  
समासत्थीकओ पाविज्जण नग्गोहंगंवेह्लिं व वीसामथामभूयं राय-तलवर-महेसराइ-कुलुप्पत्तिं सुवइ मोहनिदाए । तओ मोहिज्जइ सुविणोवलंभविब्भमेण खणदिद्वनट्टेण भोगसुह-संपया-सयणपरियणसंपओगेण । तओ अन्नाणदोसओ पुणो 20  
पुव्वपरिचियं कम्मपरिणइवंभणीमणुसरइ । परिकप्पइ अविज्जमाणं पि आयमंदिरे सुहसमिद्धिं । कहं ? —

हय-गय-कोस-वसुंधर-भिच्चऽज्जण-पालणप्पयासं पि । मन्नइ अणन्नसामन्नसुहमहो ! मोहमाहप्पं ॥ ७७ ॥

रमइ निकामं कामाउरेण हियएण वाहिरम्भेसु । मल-मंसं-वच्चपरिपूरिएसु जुवईणमंगेसु ॥ ७८ ॥

दीसतामुडजल-जैलुस्स-दूसियादूसणं पि रमणीणं । मन्नइ लोयणजुयलं सरिसं सरसारविदेण ॥ ७९ ॥

निच्चपरिकम्मरम्मं चम्म-ऽट्टि-सिरावियाणसन्नद्धं । सुइणा सारयससिणा वयणं तोलेइ कीलाणं ॥ ८० ॥ 25

तुंदासुडरसर्पच्चालियं पि दंतुल्लिदुरहिगंघं पि । मन्नइ अहरो अहरोट्टमिद्वममयं व पमयाणं ॥ ८१ ॥

दिद्वद्विसरूवाओ चित्तइ कंताण दन्तपंतीओ । मूढो मणहरपरिमलकलियाओ कुंदकलियाओ ॥ ८२ ॥

तयमेत्तगुत्तदोसे उरोरुहे मंसवुव्वुए थीणं । कप्पेइ मोहधुत्तीरयाउरो कणयमयकुंभे ॥ ८३ ॥

मंस-ऽट्टिनिम्मियाओ मोहमहातिमिरभरियदिद्विल्लो । महिलाहिल्लोओ मन्नइ कोमलकंकैल्लिकणईओ ॥ ८४ ॥

१ "गृह" खरटि० ॥ २ "मंस-मज्जपरि" जे०विना ॥ ३ "जल्लस-दू" आ० ॥ ४ "इ सुगंधिसुइणा सरिसं जे० ॥ ५ संकेतः—“कीलाणं ति क्षोणाम्” । “नववधूनाम्” खरटि० ॥ ६ “जठर” खरटि० ॥ ७ संकेतः—“पच्चालियं ति प्लावित-  
माच्छादित वा” ॥ ८ संकेतः—“हिलाओ ति भुजा” ॥ ९ संकेतः—“कणईओ त्ति शाखा” ॥

- मुत्त-ऽत-पित्त-जंवालवहुलमुयरं पि वच्चहरसरिसं । रामाण मुणंति सुमोहमोहिया वज्जमज्जं व ॥ ८५ ॥  
 अणवरयझरंतासुइनिद्धमणमणं पि मयणमयणंधा । रमणीण रमणफलयं सुरसरिपुलिणं ति मन्नति ॥ ८६ ॥  
 पिसिय-ऽट्टिभरियभत्थाजुयलाऽऽभं जंधिओरुजुयलं पि । तोलेड वालरंभाथंभेहिं वहुण मोहहओ ॥ ८७ ॥  
 वत्था-ऽऽहरणाडम्वरपसाहणुप्पन्नन्नसोहं पि । सुरसुंदरिसुंदेर जुवइतणं मुणट् मोहंधो” ॥ ८८ ॥  
 5 एवं मुणमाणीओ अवइज्जियरुवरिद्धिगन्वाओ । लज्जीणयवयणाओ पंचितियाओ नववहूओ ॥ ८९ ॥  
 ‘फुडमेयमज्जउत्तो मन्नइ, अंगे न चंगिमा अत्थि । अम्हारिसीण, नवरं पुरिसाण त्रि तं समं चेव ॥ ९० ॥  
 ता कीस एस निंदइ एगंतेणेव इत्थियादेहं ? । अहवा ताव सुणेमो पत्थुयवत्थुं अवहियाओ’ ॥ ९१ ॥  
 ताव पभणइ कुमारो “मोहिज्जइ महिलियाहि जह पुरिसो । महिला त्रि एवमेयारिसेहिं पुरिसाण देहेहिं ॥ ९२ ॥  
 एरिसनर-नारीणं संगे परमत्थओ सुहमसंतं । पेच्छइ सरीरगेहे पसंजिओ कूडवडुओ व्व ॥ ९३ ॥  
 10 विसएसु नत्थि सोक्खं, सुहाहिमाणो जियाण पुण एसो । धुत्तीरयनडियाणं उवलम्मि सुवन्नवुद्धि व्व ॥ ९४ ॥  
 इय उवएसपहाणं सासिज्जंतो वि वंधवसमेहिं’ । अइवच्छलेहि धम्मिअजणेहि तत्तं न वेएड ॥ ९५ ॥  
 भंजइ तओ तयत्थी मेराभित्ति कुचेट्टियकुसीहिं । अयसेण कयारेण व गुंडिज्जइ दुन्नयनरेहिं ॥ ९६ ॥  
 तो कम्मपरिणईए खिसिज्जइ जीवियन्तकरणेण । निवडइ य महादुक्खे भग्गकडी केसवदिओ व्व ॥ ९७ ॥  
 इय केसवाओ अहियं उवहासयरं विवेयरहियाणं । अम्हारिसाण चरिय तुमं पि भावेहि ता भट्ट ! ॥ ९८ ॥  
 15 इय विविहकम्मपरिणामविनडिए सयलजीवलोयम्मि । विप्फुरइ सया हियए वेरग्ग जाण ते घन्ना” ॥ ९९ ॥

एवं च समुवलद्धकुमारमज्जत्थभावाहिं परिन्नायासारसंसारसहावाहिं संवेगरसभावियाहिं भणियं रायदारि-  
 याहिं ‘अवितहमेयमज्जउत्तेणं साहियं भवसरुवं, अह को उण एयपरिहरणोवाओ ?’ त्ति । कुमारेण भणियं ‘सुगुरु-  
 वयणाओ सुद्धधम्मासेवणं, सुगुरु वि जो इमिणा सुविणिंदयालविन्भमेण भोगसुहेण न मोहिज्जइ’ त्ति । ताहिं  
 भणियं ‘अज्जउत्त ! तुममेव परमत्थवोहणेण अम्ह गुरु, कयत्थीभूयाओ वयं तुह धरिणीसहेण, वियलिया तुह वय-  
 20 णाओ भोगतन्हा, ता करेहि संपइ सुगुरुसमप्पणेण सुद्धधम्मचरणसंपत्तिमम्हाणं, तुम्हाणं पि मुणियतत्ताणं न जुत्तं  
 सुहुत्तं पि एत्थ पमाइउं, पलित्तमंदिरोवेहणं खु एयं, अहवा तुममेव वहुं वियाणासि’ त्ति । तओ ‘पडिवुद्धाओ  
 एयाओ वि’ त्ति पमुइएण भणियाओ कुमारेण ‘साहु, सुंदरो भे विवेगो, न दुल्लहो भे सुद्धधम्मो, सफला भे  
 मणुयत्त-खेत्त-कुल-रुवविघ्नाणाइसामग्गी, समासंन्ना ठियाऽसेसकिलेसविप्पउत्तमुत्तिसंपत्ती, ता चिट्ठह ताव पंचपर-  
 25 मेट्टिपरिट्ठित्तिट्ठाओ सव्वसत्ताणुकंपिरीओ पियभासिरीओ अपरोवयाविणीओ जाव समीहियसाहणेऽवसरं लभामो’  
 त्ति । पडिवन्नमेयं सव्वाहिं । तप्पभिइं च धम्मवियाराभिरयाण वच्चमाणेसु दिणेसु विट्ठुवयणाओ विन्नाओ एस  
 वुत्तंतो राइणा, चित्तियं च ‘न एस महिलाहि वसीकओ, अवि महिलाओ चेव इमिणा विरागीकयाओ, ता  
 निउंजेमि एयं रज्जदंदे, जेण तव्वाउलयाए वीसारेड धम्मवत्तं पि’ । त्ति निच्छिऊण निवेइयं देवीए । तीए वि  
 भणियं ‘देव ! दिट्ठो मए सुमिणंओ, किर कुमारो तुमए उज्जल्लाए निवेसिओ नियसीहासणे, तओ ससिहासणो  
 30 अहं तुमं चाऽऽरोवियाइं तत्थेव, पणमियाइं सव्वलोएणं ति, अओ सुविणोवलंभाओ नज्जइ सोहणं संपहारियं देवेण,  
 भविस्सइ परमवुद्धयभायणमेवं कुमारो’ त्ति ।

१ °हिं । पडिवच्छं जे० ॥ २° ण सिट्ठं भव° जे० विना ॥ ३° ण ‘सुंदरो जे० विना ॥ ४° सन्नावियाऽसेसं’ खं १  
 आ० ॥ ५° ‘सेवा’ खरटि० ॥ ६° सुविणओ जे० विना ॥ ७° सङ्केतः—‘उज्जल्लाइ ति वलात्कारेण’ ॥

सामत्थिऊण एवं गोसे पयपणमणत्थमणुपत्तो । दिन्नासणोवविट्ठो भणिओ कुमरो दुवेहिं पि ॥ १०० ॥  
 'धम्मो सि वच्छ ! कयसुकयसंचओ, वल्लहो सि जणयाणं । उम्बरपसूणदुलहो जीवियसव्वस्सभूओ सि ॥ १०१ ॥  
 तं जाव नियच्छामो वच्छं नयणेहि सुकयनेवच्छं । जोव्वणसिरिरुडरंगं मन्नेमो निव्वुइं ताव ॥ १०२ ॥  
 जइ पुण रायसिरीए पसाहियं पणयमंति-सामंतं । सेणाणुगयं वच्छं नियच्छिमोऽस्तुच्छविच्छइ ॥ १०३ ॥  
 वियरंतं नयरे रुद्धरायमग्गेण तरुणिवग्गेण । दिज्जंतमहासीसं होमो ता खलु कयत्थाइं ॥ १०४ ॥ 5  
 जरज्जरियतणूणं जीवन्ताणं पि कित्थियं कालं । रज्जपडिवज्जणाओ जणेहि णे निव्वुइं जाय !' ॥ १०५ ॥  
 इय नेहघणं भणिओ ढक्खिन्नमहोयही पुहइचदो । पडिकूल्लिउमसमत्थो वैयणं जणयाण विणयाओ ॥ १०६ ॥  
 चित्तइ 'अहो ! विरुद्धं रज्जारुहणं तवुज्जयमईणं । सायरगमणमणाणं हिमवंताभिमुहकमणं व ॥ १०७ ॥  
 निव्वंधो य गुरूणं लक्खिज्जइ गुरुत्तमो इहत्थम्मि । दुप्पडियारा य इमे न लंघियव्वा सयन्नेहिं ॥ १०८ ॥  
 संभाविज्जइ पच्छा वि पत्थणा एरिसी खलु इमेसिं । धम्मायरियागमणं मए वि नियमेण सहियव्वं ॥ १०९ ॥ 10  
 तम्हा करेमि वयणं संपड एयाण नेहनडियाणं । तत्तो वि जहाजुत्तं पत्तावसरो करिस्सामि' ॥ ११० ॥

एवमवहारिऊण भणियं कुमारेण 'पहवन्ति अम्म-तायाणि नियमणोरहाणुगएसु नांमुक्कसिएसु निओइउं  
 नियतणयं, न करेमि य गुरुआणाखण्डणमहं, किंतु ताओ चेव रज्जभारसमुद्धरणधुरंधरत्तं धरमाणो धवलो व्व  
 छज्जइ, न उण मारिसो कावुरिसकसरो, अहवा तुव्वे चेव पमाणं, आणवेह जहाजुत्तं पुत्तकिंकरं' ति । तओ 'अहो !  
 जणयव्वच्छलो विणीयविणओ य मे नंदणो' ति भणन्तेण अग्घाइऊण मत्थए गणयनिरुविए पसत्थमुहुत्तेऽभिसित्तो 15  
 सुवह्विच्छइण रज्जे पुहइचदो, पणमिओ सयं, तयणु सामंताईहिं । 'जयइ महाराओ' ति पवत्तो वंदिविंदवहल-  
 मँलहरो, पवज्जियाइं मंगलनूराइं, पणच्चिओ वारत्रिलासिणीसंदोहो, उवणयाइं गय-तुरय-रह-पहरण-रयणा-ऽलंकाराइ-  
 पाहुडाइं, जाओ नयरीए महामहो ।

दट्टण पुहइचदं दिप्पंतं तहनरिंदरिद्धीए । कयकिच्चो इव जाओ मुइओ राया सदेवीओ ॥ १११ ॥

नवनरवई वि तीए रायसिरीए न रंजिओ किं पि । कुणइ तद्वा वि पवित्तिं उचियं जणयाणुरोहेण ॥ ११२ ॥ 20

कयमुस्सुकं रज्जं, सव्वाओ मोइयाओ गुत्तीओ । घुट्ठो य अमाघाओ नियरज्जे तेण धीरेण ॥ ११३ ॥

उवसामिओ य पायं तेण जणो धम्मकहणनिउणेण । आहाणं सच्चियं 'जह राया तह पया होइ' ॥ ११४ ॥

वैज्जियविसयासाओ विसयासाओ सुधम्मनिरयाओ । निरयाओ जायाओ जायाआ ताओ भीयाओ ॥ ११५ ॥

सुंदमणो अणवरयं वरयं जिणसासणं पहावित्तो । भावित्तो संसार सार पालेड सो रज्जं ॥ ११६ ॥

अह सो अत्थाणत्थो अत्थाणत्थो कयाइ नरसीहो । भणिओ पणामपुव्वं दुवारपालेण सहस ति ॥ ११७ ॥ 25

'देव ! तुह दंसणत्थी देसंतरवाणिओ सुधणनामो । पाहुडविहत्थहत्थो चिद्धइ पडिहारभूमीए' ॥ ११८ ॥

'पेसेहि' ति निउत्ते नरवइणा पडिगओ पडीहारो । पप्फुल्लुप्पलवयणो सुधणो वि समागओ तुरियं ॥ ११९ ॥

पहुपयमूले निहिऊण पाहुडं विणयविहियसुपणामो । कयसम्माणो रत्ता वुत्तो 'विन्नत्थियं कुणसु' ॥ १२० ॥

तेण भणियं 'महापह ! दिट्ठञ्चयभूयपुरिससच्चरियं । विम्भयरसपडहत्थं फुट्टइ पोट्टं वला मज्झ ॥ १२१ ॥

तेण न तरामि सुवह्वं पयंपिउं तह वि साहिमो तत्तं । देव ! तुह दंसणत्थी पत्तो म्हि, न अत्थि विन्नत्ती' ॥ १२२ ॥ 30

१ वयणं सोऊण विणं जे० ॥ २ सङ्केतः—“नामुक्कसियाइं कार्याणि” ॥ ३ संकेतः—“मलहरो ति कोलाहल.” ॥  
 ४ सङ्केतः—“वर्जितविषयाशा विशदाऽऽस्या” ॥ ५ कुणमाणो अणवरयं जे० ॥ ६ संकेतः—“अत्थाणत्थो ति अर्थियुव्वनेसु न  
 विद्यते आस्था यस्य सोऽर्थात्थ्ये)नास्य” । “अस्तानर्थ.” खरटि० ॥



राइणा भणियं 'कहेहि, काणि ताणि सुचरियाणि ? । सुधणेण भणियं 'एगं नियनयरे चेवोवलदं, वीयमिह नयरीए' । राइणा भणियं 'केरिसं केरिसं ? ति साहेहि अमहं पि' । तओ 'जमाणवेइ देवो' ति वोत्तूण पिसुणि-यं सुधणेण—

अह खु वत्थव्वो देव ! देवलोगायमाणे सुमहप्पमाणे सुपुरिसुधयपायारे सुसमायारे मणिकोट्टिमाभिरामघरं-

5 गणे लीलारसुल्लासिवरंगणे सुरसुंदरीहिययहारिनरविभमे अविन्नायपरचक्क-तकरसंभमे कुरुजणवयविभूसणे अणु-वल्लभमाणजणदूसणे नड-नट्ट-जल्ल-मल्लपउरे गयउरे नयरे । अत्थि य तत्थ नयरप्पहाणो कयसयलदुन्नयप्पहाणो, निज्जियवम्महो रूवेण, अहरियकिन्नरेसरो विहवेण, अणन्नसमो चाएण, सव्वंगमालिंणो साहुवाएण, सुनिम्मलो चित्तेण, अणुद्धओ चित्तेण, पियभेणिइवियक्खणो अविरयपरोत्रयारकरणक्खणो अपरिमियधण-धम्मसंचओ परावंचओ रयणसचओ नाम सेट्ठी । तस्स य रूवेण रई, कलाकोसल्लेण सरस्सई, सोहग्गेण लच्छी, नवविउद्धकमलच्छी परहुय-

10 महुरवाणी गुणरयणमहाखाणी गइगुणोवहसियसियविहंगा लक्खणवंजणाभिरामसव्वंगा विणयनयनिउणा धम्म-धणज्जणाइपउणा मण-नयणनिव्वुइकारिया सुमगला नाम भारिया । अवि य—

'सो चेव तीए उचिओ, तस्स वि उचिया जयम्मि सा चेव' । मन्ने विहिणा वि विचिन्तिऊण तं जोडयं मिहुणं ॥

सुयजम्मलालसाणं तेसिं पच्चक्खपुन्नरासि व्व । जाओ तणओ जणओ जणयाण मणप्पसायस्स ॥ १२४ ॥

नयरच्छेरयभूयं विसिट्ठमह सेट्ठिणा सुत्तुट्ठेण । विहियं वद्धावणयं विम्हावणयं पुरजणस्स ॥ १२५ ॥

15 गव्भावयारसमए पीओ जणणीए सागरो सुविणे । गुणसागरो त्ति नामं सुयस्स जणएण तो द्विन्नं ॥ १२६ ॥

सो पंचधाइकरकमलालिओ पालिओ विहाणेण । काराविओ य काले कलाण सयलाण संगहणं ॥ १२७ ॥

पत्तो नवतारुन्नं पयडियसंपुन्नपुन्नलायन्नं । गलियमरइतरट्ठीकडक्खजुन्हाधवलियं ॥ १२८ ॥

चंक्रमणे आलवणे दाणा-ऽऽयाणे सुदिट्ठिखेवेसु । सिक्खंति तम्मि नयरे तरुणा लीलाइयं तस्स ॥ १२९ ॥

वाला पोढा गयजोवणा वि सीलाणुपालणपरा वि । न तरइ धरिउं दिट्ठिं वला वि जंतिं तओहुत्तं ॥ १३० ॥

20 सो पुण महाणुभावो कमलं व जलेण पुरसरे तम्मि । निवसंतो वि न छिप्पइ मणयं पि मणोभवरसेण ॥ १३१ ॥

अह संति तम्मि नयरे अट्ट महासेट्ठिणो गुणगरिट्ठा । गुणसुंदरिपमुहाओ तेसिं कन्नाओ अट्टेव ॥ १३२ ॥

सव्वकलाकुसलाओ नवजोवणरायरायहाणीओ । रूव-गुणसालिणीओ सक्खं व दिसाकुमारीओ ॥ १३३ ॥

तासिं पुण संगयसंगयाण एगत्थ कीलमाणीणं । संपत्तो दिट्ठिपहं सव्वयंसो सेट्ठितणओ सो ॥ १३४ ॥

तत्तो अतित्तेत्तं ताण नियंतीण नयणविसयाओ । बोलीणो तुरियं पिव मंदं मंदं पि वच्चंतो ॥ १३५ ॥

25 तो नीसासायंपियलीलाकमलालिरोलसवलियं । भणियं सव्वाहि 'अहो ! न देइ देवो सुह सुइरं ॥ १३६ ॥

भणियं च—

आसासिज्जइ चक्को जलगयपडिविम्बदंसणसुहेणं । तं पि हरंति तरंगा, पेच्छह निउणत्तणं विहिणो ॥ १३७ ॥

तहा—

किं जोवणेण ? किं वा धणेण ? किं वा गुणेहि रमणीणं ? । जइ रमित्ति न कामं कामं व मणोरमं एयं ॥ १३८ ॥

30 एवमाइसंलावपराहिं 'न इमाओ अन्नस्स करे लग्गियव्वं' ति कओ सव्वाहिं निच्छओ, मुणिओ जणणि-जणएहिं । 'ठाणाणुराइणीओ' त्ति परित्ठुवाणि सव्वाणि । अन्नया बहुमाणमहग्घं भणिओ णेहिं रयणसचओ 'दिन्नाओ

अम्हेहिं तुह तणयस्स कन्नाओ जइ भेऽभिरोयइ' । सेट्ठिणा वि 'नाणुचिओ पूग-नागवेल्लीणं संजोगो' त्ति वयणपुव्वं पडिच्छियाओ ।

एत्थंतरे वायायणगएण मित्तमंडलपरिगएण नयरतिय-चउक्क-चच्चरालोयणपरेण गुणसायरेण दिट्ठो उवसम-विसिट्ठो तवतावियतणुलट्ठी जुगमेत्तमेइणीनिहित्तिदिट्ठी धम्मो व्व मुत्तिमंतो अतुरियचवलं परिब्भमंतो रायमग्गे एगो महातवस्सी । तं च दट्ठूण चिंतिउमारद्धो 'अहो! सुंदरो एयस्स वेसो, सुट्ठुलट्ठो सरीरंगोवंगनिवेसो, मणोहरो गइपसरो, सुगुत्तो इंदियविसरो, अणन्नसामन्ना विरागया, सब्बसज्जणसंसणिज्जा निस्संगया, दिट्ठपुव्वमिव ममेरिसं नेवच्छं' । ति त्रिविहमीहमाणो धस त्ति गओ महासुच्छं । संभंतेहिं मित्तेहिं सित्तो सिसिरोदएण, विलित्तो सरसगोसीसचंदणेण, वीइओ तालवेटेहिं । पत्ताणि दुहत्तचित्ताणि माया-वित्ताणि । खणंतरे लद्ध-चेयणो पुच्छिओ जणएण 'पुत्त! किमेयमयंडविट्ठुरो व समावडियं ? ति, अवि दिट्ठा का वि तए तरुणजणहिय-यहारिणी नयररच्छाविहारिणी रायकन्नया मंति-सामंतकन्नया वा काइ असंभावणिज्जलाभा जेणेवंविहमवत्थमावन्नो 10 सि ? कहेहिं सब्भानं, संपाएमि जेण ते तं, अन्नं पि किं पि जं हिययवल्हं' ति ।

भणइ गुणसायरो तं 'ताय ! न कज्जं अणज्जइट्ठेहिं । रोगेहिं व दुक्खत्रिवड्ढणेहिं माणुस्सभोगेहिं ॥ १३९ ॥

असुइअसारेसु असासएसु खणभंगुरेसु भोगंसु । को रमइ मुणियतत्तो नरयपुरीपउणमग्गेसु ? ॥ १४० ॥

भुत्ता य मए भोगा अणेगसो सुरगणेसु चिरकालं । तेहिं न जाया तित्ती, इमेहिं तुच्छेहिं कह होही ? ॥ १४१ ॥

सुरभोगा वि न हिययं हरंति मे माणुसेसु का वत्ता ? । अमए वि निष्पिन्नासो पियइ विसं को वि किं विउसो ? ॥ १४२ ॥ 15

जइ सपसाओ ताओ मणोरहे महइ पूरिउ मज्झ । ता अणुमन्नउ तुन्नं सामन्नमहं पत्रज्जामि ॥ १४३ ॥

मुणिदंसणाओ संपड संभरियं मे चिरन्तणं चरणं । न तरामि तेण खणमवि ठाउं संसारगुम्मम्मि' ॥ १४४ ॥

तो भणइ नेगमवरो 'मा पुत्तय ! एरिसाइं मंतेहिं । अज्ज वि नवतारुन्ने नावसरो धम्मचरणस्स ॥ १४५ ॥

धम्मो अत्थो कामो पुरिसत्था वन्निया तओ लोए । तिन्हं पि जहावसरं सेवा संसिज्जइ बुहेहिं ॥ १४६ ॥

पुव्वज्जियधम्माओ संपत्ती होइ अत्थ-कामाणं । विलसिज्जइ तेहिं न जोव्वणे वि जइ ता मुहा धम्मो ॥ १४७ ॥ 20

दाणोवभोगविलसियधणाण माणियमैणुन्नविलयाणं । परिणयवयाण पुत्तय ! पुणो वि धम्मज्जणं जुत्तं' ॥ १४८ ॥

पडिभणइ नंदणो तं 'सच्चमिणं ताय ! सुहफलो धम्मो । तं पुण तित्तीओ द्विय न कामभोगेहिं सा होइ ॥ १४९ ॥

तथाहि—

जं भुत्तमणाइभवे जीवेणाऽऽहार-भूसणाइयं । एगत्थपुंजियं तं अहरेइ धरुद्धुरं धरणि ॥ १५० ॥

पीयाइं जाइं सुमणोरमाइं पाणाइं पाणिणा पुव्वं । विज्जंति ताइं न हि तत्तियाइं सलिलाइं जलहीसु ॥ १५१ ॥ 25

पुष्पाणि फलाणि दलाणि जाणि भुत्ताणि पाणिणेगेण । विज्जंति न तिहुयणतरुणणेसु किर वट्टमाणेसु ॥ १५२ ॥

भुत्ता य घरिणिभूया एगेण जिएण णंतसो सेसा । पत्तो य घरिणिभावो अणंतसो एगमेगस्स ॥ १५३ ॥

किं बहुणा ?—

ते नत्थि जए भोगा अणन्तसो जे न पाणिणा भुत्ता । न य संजाया तित्ती रोरस्स व सुमिणभुत्तीए ॥ १५४ ॥

अहवा—

चिट्ठउ ताव भवंतरवत्ता जीवस्स संपइ भवे वि । सुविणोवलंभपाय सब्बमईयं सुहं होइ ॥ १५५ ॥

ता ताय ! न तित्तिमुहं चिरं पि भुत्तेहिं होइ भोगेहिं । बुज्जसु, मा मुझ फुडं पच्चक्खं पेच्छमाणो वि ॥ १५६ ॥

- न य भोगसुहासाए कीरइ धम्मो विवेगिलोएहिं । अवि एगन्तऽच्चंतियमुत्तिसुहासायतिसिएहि ॥ १५७ ॥  
 न य तं जइधम्माओ अन्नेण नएण लब्भइ कयाइ । ता मा करेह विग्घं सिग्घं गिन्हामि जिणदिक्खं' ॥१५८॥  
 विघ्नायनिच्छओ से जा न तरइ किं पि जंपिउं जणओ । ता भणियं जणणीए वाढोल्लकवोलफलयाए ॥१५९॥  
 'पुत्तय ! तुह जम्मदिणे हिययधराए समुग्गओ मज्झ । आसादुमो तए चिय पवडिहओ विणयनीरेण ॥१६०॥  
 5 तं मा करेहि वंझं संपइ पडिक्कलभावदुव्वाया । फुडइ फुडं तुह विरहे मह हिययं परिणयफलं व ॥ १६१ ॥  
 पालेहि ताव पियरो जरजजरिए सिणेहरसभरिए । पच्छा वच्छ ! न कोई मणिच्छियं ते निवारेही' ॥१६२॥  
 गुणसायरेण भणियं 'मायाए जुत्तमेव संलत्तं । नवरं न चेव मैच्चू मैच्चाण कं पडिच्छेइ ॥ १६३ ॥  
 धरइ चिरं झांमरयं रोगसयालिगियं पि किर एसो । हरइ सिंसुं पि अतक्कियचंडकवाउ व्वऽथक्के वि ॥ १६४ ॥  
 जो जाणइ अमरो हं, मेत्ती वा जस्स मच्चुणा सद्धिं । नासट्ठाणं व जयम्मि जस्स सो कुणइ कैल्लासं ॥१६५॥  
 10 इय सन्निहिए मरणे अविज्जमाणे तहाविहे सरणे । आसंसियसिवसम्मो करेमि समणत्तमहम्मो ! ॥१६६॥  
 अन्नं च अं व ! संसारसायरे विविहभत्रपरावत्ते । पत्ता सव्वे सत्ता सहस्ससो तुम्ह पुत्तत्तं ॥ १६७ ॥  
 पाणेहितो वि पिया सव्वे ते आंसि, तमवि सव्वेसिं । संजुत्ता य विउत्ता य ते तथा कम्मदोसेण ॥१६८॥  
 ता कह मह चेव कए खिज्जइ गुरुनेहनिव्वरा अम्वा ? । सइ संजोग-विओगेसु निच्छिए भवपवंचम्मि ॥१६९॥  
 अह इट्टयरो मि अहं अम्वाए तह वि भीसणभवाओ । निगंतुमणस्स महं निवारणं हंदि ! नो जुत्तं ॥ १७० ॥  
 15 किं को वि पियं पुत्तं पलायमाणं पलित्तगेहाओ । निक्खममाणं व लहुं घोराओ अंधकूवाओ ॥ १७१ ॥  
 जलहिगयं व तरंतं, रणंगणे रिउगणे व पहरंतं । रोगाउर व किरियं सुवेज्जवयणेण कुणमाणं ॥ १७२ ॥  
 मल्लिणं व सिणायंतं, दालिदहरं निर्दिं व गिन्हंतं । वारेइ रज्जमणवज्जमज्जिणंतं व जाणंतो ? ॥ १७३ ॥  
 ता पसिय पसिय गुरुनेहमोहिए ! पुत्तवच्छले ! माए ! । लहु निस्सरामि तुमएऽणुमन्निओ भवकुवासाओ' ॥१७४॥  
 पभणइ भुज्जो वि तयं सुमगल गलिरवाहजलवाहा । 'सोमालो तं पुत्तय ! कह काहिसि सुद्धसमणत्तं ? ॥१७५॥

20 तहादि—

पंचमहव्वयपव्वयमारो सययं सियेण वोढव्वो । सोढव्वो दुव्विसहो उवसग्गपरीसहुप्पीलो ॥ १७६ ॥  
 दुक्करमाचेलकं अन्हाणा-ऽदंतघंसणं लोओ । धरणीयलम्मि सेज्जा भिक्खाभुत्ती मणोगुत्ती ॥ १७७ ॥  
 केत्तियमेत्तं सीसइ ? दीसइ अइदुकरा सुजइचरिया । मा पुत्त ! तयासत्तो गिहिधम्माओ वि चुक्किहिसि' ॥१७८॥  
 गुणसागरो वि वागरइ तं पुणो 'नरय-तिरियजोणीसु । दुक्खाइं दुम्सहाइं सहियाइं इमेण जीवेण ॥ १७९ ॥

25 अवि य—

असिवण वेयरणी कूडसामली तत्तवाल्लयापुलिणं । करवत्तदारणं सुल्लरोवणं कुंभिपायं च ॥ १८० ॥  
 खग्गच्छेयण कुंतग्गभेय मोग्गर-मुसुंढिचूरणयं । साणय-सिवाइगसणं विलुंपणं ढंक्-क्केहिं ॥ १८१ ॥  
 गणणाईयपयारं सुमरंतो दासुणं नरयदुक्खं । कह न रमिस्सं धम्मे रोगि व्व सुवेज्जकिरियाए ? ॥ १८२ ॥  
 डहणं-ऽऽरुण-नत्त्यण-वाहणाइं हणणं कसं-ऽकुसाईहिं । तिरिएसु संभरंतो कह न करिस्सं समणकिरियं ? ॥१८३॥  
 30 मणुएसु वि भीसणगव्वभास-जम्मण-जराइदुक्खाइं । घोराइं नियच्छंतो कह न जइस्सं जइत्ते हं ? ॥ १८४ ॥

१ करेह जे०विना ॥ २ मत्तू भ्र० ॥ ३ "नराणाम्" खरटि० ॥ ४ "वृद्धम्" खरटि० ॥ ५ "विद्युत्" खरटि० ॥  
 ६ "भाविविनाशम्" खरटि० ॥ ७ आसि, त पि सं जे०विना ॥ ८ सालरोचणं जे० ॥

एवं च विन्नायतन्निच्छयाए चलणेसु निव्वडिऊण जंपियं जणणीए 'वच्छ ! निच्छियमणो वि करेहि मे  
 ढीणसत्ताए द्विययसंधीरणं नवपरिणीयमुहदंसणेण, जेण कयत्थीभूया अहं पि तुमए चेव सममणुपव्वयामि' त्ति ।  
 तओ गुणसागरेण 'अलंघणीयवयणा एसा एत्तियमेत्तेण वि निव्वुया होउ' त्ति भाविऊण भणियं 'न को वि  
 एवंकेए गुणो, तहा वि अंवाए धिइनिमित्तमेयमव्वुवगयं, नवरं न तओ परमव्वाए विवंधो कायव्वो' त्ति । तओ  
 'इयकयनिच्छयाओ एयाओ एत्तियलाभो वि परमकोटि' त्ति संभाविंतेहिं सपरिओसं पडिवन्नमेयं जणएहिं । जाणा- 5  
 वियं वेवाहियसेट्ठीणं जहा 'पव्वइउमणो गुणसायो, ता इच्छाए कुणह लहुं वीवाहमहं । ते वि 'किमुचियमियार्णि ?'  
 ति मंतवाउला विन्नाया कन्नयाहिं, भणिया य 'न कुलकन्नयाओ दोवारे दिज्जन्ति, ता कीरउ तुरियमेव वारेज्जयं,  
 तग्घरिणिसइपवित्तियाओ तमेवाणुपव्वइस्सामो चेव, अविवाहियाओ वि एयमेवाणुगमिस्सामो, नऽन्नस्स करेण  
 करं गाहिस्सामो' त्ति । विन्नायकन्नाचित्तेहिं पारद्धो तेहि महावीवाहो, पउणीकया संप्पासंगाइचंगमणि-मोत्तिओ- 10  
 ऊलविमलदुगुल्लुओयालंभ्विरमणितारियानिउरुम्बुप्पाइयकोउगौययगयणंगणासंका ठाणे ठाणे पयट्टसविल्लासलास-  
 तंडवा महामंडवा, मेलिओ मणि-रयणाभरणभारनमिरातुच्छनेवच्छतरुणनर-नारिवारविब्भमतुलियपायाल-सगो  
 सयणवग्गो, निरुविया सुरहिविलेवण-गंध-मल्ल-पूग-नागवेल्लिदलुप्पीलसारा दाणप्पयारा, पारद्धाओ सयलसंभविष्प-  
 यारमणोज्जखज्ज-पेज्ज-चुस्स-लेज्जरसवित्थरवईओ महारसवईओ । किं बहुणा ?—

रणिरमहुरतूरोरल्लिगंभीरगज्जू, सुरहिसलिलवासाकदमुप्पंकदुग्गो ।

चलतरुणिविलोलाणप्पलंकारविज्जू, घणसमयसमाणो संपवत्तो महो सो ॥ १८५ ॥

15

एवं च महाभोगभोगाभिरामे पूरिजंतपणईयणकामे अलब्भमाणनिग्गम-प्पवेसपहे वट्टमाणे महामहे निव्व-  
 त्तियासेसकुलायारो कयपमक्खणाइवावारो टिप्पतो व्व दिव्वदिवायरो समागओ सपरियणो गुणसायो । तओ कीरं-  
 तेहिं कोउएहिं, पिज्जंतेहिं मंगलेहिं, गुजंतेहिं मद्दलेहिं, नच्चंतेहिं पाउलेहिं, पढंतेहिं भट्टेहिं, थुणंतेहिं चट्टेहिं, दिज्जं-  
 तेहिं आसीवाएहिं, कीरंतेहिं सीहनादेहिं, वियरिज्जमाणेहिं महादाणेहिं, विद्विज्जमाणेहिं परोप्परसम्माणेहिं,  
 संपुन्नसयलमणोरहो कमेण वत्तो वीवाहमहामहो । 20

तो नववहूहिं सडिओ सिवियाए नरसहस्सवोज्झाए । गुणसायो गिहं पइ संचल्लो वंधुपरिकिन्नो ॥ १८६ ॥

चंदं व तारियाहिं, वरच्छराहिं व सुरवइं सुहयं । तं रायमग्गगामिं ददुं नयरंगणावग्गो ॥ १८७ ॥

उज्झियघरवावारो अव्वहीरियरोयमाणपियडिंभो । हम्मियगवक्ख-सुरघर-रच्छासु समंतओ मिलिओ ॥ १८८ ॥

उभयकरधरियपसिदिलधम्मिल्लुवरिल्लनवकडिल्लाओ । धन्नाउसासयाइं तेसिं वियरंति एगाओ ॥ १८९ ॥

अन्ना भणति 'एसो अब्भहिओ नूण पंचवाणाओ । निज्जियरईहिं वरिओ किमन्नहा अट्टहि वहूहिं ?' ॥ १९० ॥ 25

अन्ना भणति 'सच्चं एया मोत्तूण जइ न पव्वइही । अन्नह मन्ने अन्नो नाऽहन्नो तिहुयणे एत्तो' ॥ १९१ ॥

अन्ना भणाइ 'मुद्धे ! दूरे एयस्स पव्वयणवत्ता । हरिणस्स व अट्टहि वैउराहि गहियस्स समकालं' ॥ १९२ ॥

अन्ना वयन्ति 'धन्नो जइ एया भोत्तु एस पव्वइही । संतचाई चाई खल्लाडो मुंडिओ चेव' ॥ १९३ ॥

अन्नाए भणियं—

'पव्वइउमणो एसो वरिओ एयाहि पेच्छ मूढाहिं । जइ सोवन्ना छुरिया ता किं घाडज्जए अप्पा ?' ॥ १९४ ॥ 30

इय विविहुल्लावपरायणाहिं पुरसुंदरीहिं दीसंतो । पत्तो वंदणमालारम्मं नियमंदिरदारं ॥ १९५ ॥

१ सङ्केतः—“सस्या(प्पा)सगाइचंग त्ति वीर्धानि(ति)रम्या” ॥ २ 'लम्बिमणि' जे० ॥ ३ 'गागय' जे०विना ॥ ४ 'विला-  
 सतंइवा जे०विना ॥ ५ वग्गुराहि जे०विना ॥ ६ चाई खेह्लुउडो जे० ॥

- कयमंगलोवयारो सुमगलाए सुमंगलुगीयं । पत्तो पमुडयसुहि-सयण-परियणं पवरपासायं ॥ १९६ ॥  
 उवविट्ठो वामेणं रुंदे भद्दासणम्मि जणयस्स । वामेण य से जणणी तयंतिए नववेहूवंद्रं ॥ १९७ ॥  
 वज्जंतवराउज्जं कलवीणावेणुसुद्धसंगीयं । कयसयलजणक्खेवं पुरओ नट्टं अह पयंट्टं ॥ १९८ ॥  
 गुणसागरो वि नासानिमियच्छो रुद्धइंदियपयारो । चिंतड एगगमणो 'समणोऽवस्सं सुए होहं ॥ १९९ ॥  
 5 एवं तवं चरिस्सं, एवं विणयं गुरूण विरइस्सं । इय संजमे जडस्सं, एवं ज्ञाणम्मि ठाडस्सं' ॥ २०० ॥  
 इय निहुयं ज्ञायंतो सुमरंतो पुव्वजम्मियं सुत्तं । संपावियसज्जाणो संपत्तो केवल्लमाणं ॥ २०१ ॥  
 ताओ वि नववहूओ तह निच्चल्लोयणं तमेगगं । पेहंति पढ्ढाओ लज्जामउल्लितनेत्ताओ ॥ २०२ ॥  
 चिन्तन्ति 'अहो धन्नो उवसमलच्छीए रंजिओ धणियं । अम्हारिसासु कत्तो रज्जड सावज्जचरियासु ? ॥ २०३ ॥  
 अम्हे वि सउन्नाओ संपत्तो जाहि सुत्तिमुद्दरसिओ । सोमसहावो एसो सिद्धिपुरीमगसत्थाहो ॥ २०४ ॥  
 10 एयाणुमगलगा सम्मं धम्मं सुनिम्मलं चरिउं । काहामोऽसेसभवुव्वभाण दुक्खाण वोच्छेयं' ॥ २०५ ॥  
 इय चिन्ताविन्तीओ अणुमोयंतीओ सुद्धभावाओ । पत्ताओ केवल्लसिरिं खणेण ताओ वि सव्वाओ ॥ २०६ ॥  
 आवूरियं च तव्वेलमेव गयणंगणं सुरगणेहिं । पडुपडहपाडपडिरवमुहलियपासायकोडेहिं ॥ २०७ ॥  
 परिमल्लिमिलितवहलालिजालकल्लवलयमुहलदिसियक्को । बुट्ठो घराजिरे सुरहिवारिमीसो कुसुमपयरो ॥ २०८ ॥  
 घोलंतकन्नकुण्डलसुरमण्डलमण्डियंगणं भवणं । तं दट्टूण पवुत्तो सविम्हओ पुरजणो एवं ॥ २०९ ॥  
 15 'भो भो ! पेच्छह चोज्जं जमज्ज वारेज्जए वणिवरस्स । पुन्नोहसमाइट्ठा सुरा वि वद्धावया पत्ता' ॥ २१० ॥  
 ताव य 'अहो ! सुविवाहो, अहो ! समाणगुणपत्तजोगो, अहो ! दुक्करकिरिया, जमेरिसे मोहोदयकारिसामग्गी-  
 जोगे वि निम्महिओ मोहमल्लो, समज्जिया महासुणीणं पि दुरप्पा केवल्लसिरी महासचेहिं भवंतेहिं, ता कयकिच्चाणि  
 वि पडिवज्जह दव्वल्लिंगं' ति सुरेहिं विन्नत्ते कओ पंचमुट्ठिओ लोओ वहु-वरेहिं, पडिवन्नं सुरसमप्पियं दव्वल्लिंगं । तओ  
 वंदियाइं देवविंदेहि, कया महामहईं केवल्लमहिमा । तं च दट्टूण रयणसच्चय-सुमंगलाण वि समागयतिव्वसंवेगाण  
 20 वियलिओ कम्मरासी, समुप्पन्नं च तमेव महानाणं । विन्नायवुत्तंतो समागओ सिरिसेहरराया, वंदिऊण य निविट्ठो पुरओ ।  
 अहं पि देव ! इहाऽऽगंतुमणो पुव्वपेसियजाणवाहणो वि तमसंभावणिज्जमब्भुयमायन्निऊण कोऊहलाउलिओ  
 पत्तो तमुद्देसं, वंदिऊण य तं महासुणिं 'कि सच्चमुप्पन्नमेयस्स केवल्लनाणं ? उयावरो कोइ एत्थ परमत्यो ?' ति  
 सवियक्को चिट्ठामि । तयणु दंतपन्तिकंतिसमुज्जोइयंभवणोयरेण वज्जरियं सुणिवरेण "सोम सुधण ! पत्थिओ तुम-  
 मओज्जाउरीए, कोउगवसेण य इहागओ सि । तहा—  
 25 'दूर पत्तो सत्थो, न य सुलहं कोउगं पुणो एयं' । इय चिंतावाउलिओ न तरसि गंतुं न वा ठाउं ॥ २११ ॥  
 ता केत्तियमेत्तमिणं चित्तं चित्तं तुहं जमक्खित्तं ? । दल्लिसि एत्तो अब्भहियमव्भुयं तत्थ संपत्तो " ॥ २१२ ॥  
 इय केवल्लिवयणामयपसमियसंसयविसो तयाऽट्टं । दट्टुमणो सुपहट्ठो आयाओ हं इह पुरीए ॥ २१३ ॥  
 उम्मुक्कसुंरुव्वहारहरिसिए देसिए महावणिणो । दट्टूण सउकंठो पत्तो देवन्तियमियारिणि ॥ २१४ ॥  
 एयं च निसामित्तो गुणाणुरागाइरेगओ राया । पावियपरमाणंदो ज्ञाइउमेवं समाढत्तो ॥ २१५ ॥  
 30 'सव्वगुणसायरो सो महाणुभावो महासुणी जेण । तह साहियं सकज्जं निज्जियमोहाणुंवंधेण ॥ २१६ ॥  
 धन्नाण त्रिणिज्जियवम्महाण तुंगा वि भोगसामग्गी । न तरड काउं धम्मंतरायमच्चन्तसन्ता वि ॥ २१७ ॥

हा ! कह जाणंतो चिय पडिओ हं रज्जुकूडजंतम्मि । गुरुजणदक्खिन्नवसा वसारसा मत्तदंति व्व ? ॥२१८॥  
 होही सुवासरो सो कइया हं जम्मि धम्मियजणम्मि । अगमणीण मुणीणं मज्झे गणणं लहिस्सामि ? ॥२१९॥  
 कइया गुरुपयपणओ नाण-चरित्ताण भायणं होहं ? । कइया उव्वसमलच्छी वच्छे रमिही मम जहिच्छं ? ॥२२०॥  
 समसत्तु-मित्तचित्तो सुसाण-सुन्नहर-सेलसिहरेसु । उस्सग्गे ठाइस्स कइया सज्जाणथिरभावो ? ॥ २२१ ॥  
 इय उल्लसन्तसंवेगगुरुरसोऽपुव्वकरणलाभेण । सिवपयगमनिस्सेणिं व खवगसेणिं समारूढो ॥ २२२ ॥ 5  
 सियज्ञाणघणेण खणेण तेण घणघाइकम्मसंघाय । संचुच्चिज्जण संपत्तमुत्तमं केवलघ्णाणं ॥ २२३ ॥  
 पत्तो य तयणु सोहम्मसुरवई सुरचरोहि सह सहसा । गज्जन्तगहिरगुरुनूरघोससदालसुरमग्गो ॥ २२४ ॥  
 पडिवन्नदव्वलिंणस्स तक्खणा पुहइचदकेवल्लिणो । जयजयरव्वमुहलसुराहिवेण विट्ठिया तओ महिमा ॥२२५॥  
 कणयकमलोयरंके ठविज्जण महासुणिं मुणियत्ततो । हरिसियमणो सुरिंदो साणंदो थोउमारद्धो ॥ २२६ ॥

‘जय रायलच्छिसंगमनिरीह !, मयरद्धयमत्तगइंदसीह ! ।

जय भावियभाव ! विहूयदोस !, तणतुल्लगणियधण-कणयकोस ! ॥ २२७ ॥

गेहे वि वसंतह तुह न लित्तु, विसयासुइपंकिण धीर ! चित्तु ।

उम्मूलियमोहमहल्लसाल !, पई पाविय केवलसिरि विसाल’ ॥ २२८ ॥

इय थोऊण सुरिंदो पुणो पुणो भालफुसियरिसिचलणो । उव्विट्ठो मुणिपुरओ सिरम्मि करसंपुडं काउं ॥२२९॥  
 हरिसीहो वि धरेसो सहिओ पउमावईए देवीए । संपत्तो जंपंतो ‘अहो ! किमेयं किमेयं ?’ ति ॥ २३० ॥ 15  
 केवललच्छिसणाहं नाऊण य नंदणं गहियदिकखं । दंसियहरिसं-विसायं कयप्पणामं पवुत्ताइं ॥ २३१ ॥

‘जुत्त कुलक्कमागयजिणिंदधम्माण पुत्तयऽम्हाणं । सामन्नभरुव्वहणं चिरभुत्तनरिंदरिद्धीणं ॥ २३२ ॥

तुह विरहभीरुएहिं न कयं तं वाढमूढचित्तेहिं । तुमए पुण लीलाए कह पुत्तय ! साहिओ अप्पा ? ॥ २३३ ॥

अन्नोन्नमणोरहमोहिएहिं जं रज्जपंजरे छूढो । तं पुत्त ! सरिसियव्वं मिच्छा मिह दुक्कडं तरस्स’ ॥ २३४ ॥

एत्थंतरे विन्नायकेवल्लुप्पत्तिवुत्तंताओ आणंदवाहम्भुपप्पुयनेत्ताओ रोमंचंचियचारुगत्ताओ संपत्ताओ ललिय- 20  
 सुंदरि-कणगवइपमुहाओ सोलस वि देवीओ, पणमिऊण य मुणिं ठियाओ पउमावइदेविपिट्ठओ । संवेगाइरेगओ समु-  
 प्पन्नमेयासिं केवलं, कओ सव्वाहिं दव्वलिंणपरिग्गहो, पणमियाओ पसंसियाओ य देवरायोईहिं । ‘एयं तं गुणसायर-  
 केवल्लिवज्जरियमच्चब्भुयं’ ति भावियं सुधणसत्थवाहेण ।

एत्थंतरे पारद्धा पुहइचंदकेवल्लिणा धम्मदेसणा-भो भो महासत्ता ! मा चिट्ठ विसयपसत्ता, दूरियदुरिया-  
 रिसंगमं करेह सुद्धसंजमं, -जओ जम्म-जराइनीराहारो रोग-सोगाडुक्खलक्खोहारो दुव्वारविसोत्तियावीदसंचारो 25  
 कुगइवेत्तलयागुम्मरुद्धप्पयारो कसायागाहपायालो कुमयदुव्वायाभिहयभमिरभूरिजलजंतुजालो गंभीरमोहमहावत्तो  
 महावयासयसहस्सोसत्तो अणोरपारो एस संसारपारावारो, न खल्लु सम्मदंसणसुवंधं संवरनिरुद्धरंधं सन्नाणकन्नधारं  
 चारित्तजाणवत्तमंतरेण तरिउं पारीयड, न य एय मणुयत्त-खेत्ताइसमग्गसामग्गीविरहे पाविज्जड, दुल्लहा य एसा  
 वैणिसुयविणोडयरयणसंपिंडणनाएण । तहाहि—

[ १३. वणिस्सुयविणिओइयमहग्घरयणसंपिंडणदिट्ठंतो ]

अत्थि समुन्नयसाला पुरुपुप्फ-फलोहभारनयसाला । भमिरवरनाभिरामा मंजीरयरवसमभिरामा ॥ २३५ ॥

‘नयरीह तामलित्ती राया तत्थाऽऽसि मलियवल्लिकित्ती । सिट्ठाहिट्ठपविच्ची सुनओ नामेण सिरिकित्ती ॥ २३६ ॥

१ अन्नन्नं जे०विना ॥ २ सङ्केत -“ओहार ति मत्स्या” ॥ ३ वणिस्सुयविणियोजितरत्नसम्पिण्डनज्ञातेनेत्यर्थ ॥

- तूसइ पयाण बहुसंपयाण, दीणाण देइ सुपयाणं । लज्जइ जणेण परिमियधणेण सीयंतविमणेण ॥ २३७ ॥  
 एत्तो च्चिय जत्य जणो महाधणो रिद्धिविद्धिपरिओसा । उव्वेइ मंदिरोवरि कोडिपडायाओ सव्वो वि ॥ २३८ ॥  
 जस्सऽत्थि जत्थियाओ घणकोडीओ धरोयरगयाओ । तावइयपडायादावणेण सो गव्वमुव्वहइ ॥ २३९ ॥  
 चारणगणेण गिज्जइ सयलासु सहासु तस्स माहप्पं । जो अट्ठिओ सो पढमं सव्वत्थ वि लहइ सम्माणं ॥ २४० ॥  
 5 अह अत्थि तत्थऽणग्घेयभूरिरयणेसरो धणयसेट्ठी । न य ऊसवेइ सो ऊसवे वि किर वेत्तयन्तीओ ॥ २४१ ॥  
 तस्स य सुया पयामं पसिद्धिसद्दालुया अगिज्जंता । मन्नन्ति माणहार्णि समवयमित्ताण मज्झगया ॥ २४२ ॥  
 ते विन्नविन्ति जणयं पुणो पुणो कोडिकेउकरणत्थं । सो भणइ 'नो मुणिज्जइ पुत्तय ! तुम्हाण धणसंखा ॥ २४३ ॥  
 संखानिच्छयविरहा न हि जुत्ता केउकप्पणा एसा । अलियवयणं खु एयं नेवुच्चियं उत्तमजणस्स' ॥ २४४ ॥  
 वारं वारं विनिवारिया वि ते वणिवरेण दुम्मेहा । विरमंति नो वराया दुव्ववसायाओ एयाओ ॥ २४५ ॥  
 10 पडिक्कल्लिउमसमत्था वयणं जणयस्स सन्निहिगयस्स । चिद्वंति देसकालं विमग्गमाणा महऽन्नाणा ॥ २४६ ॥  
 अन्नम्मि दिणे घणओ निमंतिओ निद्ववंथुणा धणियं । कत्थइ कज्जे भव्वे पत्तो नयरंतरं अन्नं ॥ २४७ ॥  
 लद्धावसरेहि तओ धणेसराईहि धणयतणएहिं । सव्वाइं रयणाइं विकीयाइं तुरतेहिं ॥ २४८ ॥  
 गणिऊण धणं तत्तो विहिया कोडिज्जया पमुइएहिं । जाया सव्वजणाओ अह अहिया तेसि परिसंखा ॥ २४९ ॥  
 तो वंदिर्विदवन्निज्जमाणकुल-चाय-भोयमाहप्पा । सव्वे वि हट्टवुट्ठा मतिन्ति परोप्परं एवं ॥ २५० ॥  
 15 'अव्वो ! निरत्थयं पत्थरेहिं घरसंठिँएहिं मुट्ठा मो । बुड्ढत्तविवड्ढियदुम्मइस्स तायस्स बुद्धीए' ॥ २५१ ॥  
 ते वि य गाढगनिगमा रयणाइं ताइं नियनियपुरेसु । अन्नदित्तागयनेगमाण वियरिसु सव्वाइं ॥ २५२ ॥  
 घणओ वि गिहं पत्तो पुत्ते पुच्छइ 'किमेयमारियं । नियकुललहुत्तहेऊ केउविहाणं भवंतेहिं ?' ॥ २५३ ॥  
 ते च्चिय कहंति सव्वं जहट्ठियं तुट्टमाणसा तस्स । रयणविणिओगवत्तं नियमइविहवं पसंसंता ॥ २५४ ॥

पढंति य—

- 20 'किं तीए सिरीए सुपीवराए छन्नाए गेहनिहयाए । विप्फुरइ जए न जओ मियंककिरणुज्जला कित्ती ?' ॥ २५५ ॥  
 इय सिट्ठे आरुट्ठो पभणइ ते सुट्ठ निट्ठरं सेट्ठी । 'दुज्जम्मजायनिव्वभग्गसेहरा ! रे महासुक्खा ! ॥ २५६ ॥  
 सव्वं पि वित्तमेयं न होइ मोहं ममेगरयणस्स । इय हारिऊण रिद्धिं पंडियवाएण कह भग्गा ? ॥ २५७ ॥  
 ता निस्सरह तुरन्ता मम गेहाओ कुवुद्धिया सव्वे । आणेह वा तुरंता सव्वाइं मज्झ रयणाइं' ॥ २५८ ॥  
 परियाणियदुच्चरिया पिउणा निव्वमच्छिया तओ सव्वे । वणिनाम-धाम-विन्नाणविरहिया ते समुच्चलिया ॥ २५९ ॥  
 25 भमिया य चिरं महिमंडलम्मि विउलम्मि ते विगयभग्गा । न य सव्वरयणजोयं पत्ता ते संभवाभावा ॥ २६० ॥

[ वणियसुयविणिओइयमहग्घरयणसंपिंडणदिद्वंतो समत्तो. १३ ]

\*

इय भो महाणुभावा ! पुणो वि मणुयत्त-खेत्तपामोक्खा । पत्तविउत्ता जंतूण दुल्लहा धम्मसामग्गी ॥ २६१ ॥  
 भणियं च—

- 30 माणुस्स खेत्त जाई कुल रूवाऽऽरोगमाउयं बुद्धी । सव्वणोग्गह सद्दा संजमो य लोगम्मि दुलहाइं ॥ २६२ ॥  
 ता मा हारेह इमं विसय-रुसाएहिं मोहिया तुव्वे । नेव्वाणंठाणजाणं करेह तव-संजमुज्जोयं ॥ २६३ ॥

१ 'इ 'न हि मु' जे०विना ॥ २ 'इ भव्वे पव्वे पत्तो जे०विना ॥ ३ अन्नमहिया जे०विना ॥ ४ 'सत्तिपहिं त्रा० ॥  
 ५ 'णगमणजाणं त्रा० ॥

एवं च केवलिवयणारविंदमयरंदमिव सर्व्विदियाणंदजणणिं सुदेसणमायन्निऊण पवुद्धो भूरिभव्वजणो, पडि-  
वन्नो सामन्ना-ऽणुव्वय-सम्मत्ताइय नियजोगयाणुगुणं धम्मगुणं । तओ, पणमिऊण भणियं पडमावइदेवीए 'भयवं !  
कीस पुण भावियजिणवयणाणं पि अम्ममेवंविहो तुमम्मि नेहो ?' त्ति । केवलिणा भणियं 'पुव्वभवे एस राया  
जयनरिंदो, तुमं पियमइदेवी, अहं च तुम्ह नंदणो कुसुमाउहो अहेसि ।

संजमगुणेण तुव्वे विजयविमाणे सुरा समुप्पन्ना । अहयं पुण सव्वट्ठे संजोगो इह पुणो जाओ ॥ २६४ ॥ 5

एयनिमित्तो संपड ममोवरिं तुम्ह नेहनिव्वंधो । पुव्वव्भासा नेहो होइ पओसो य जं पायं ॥ २६५ ॥

सुमरियपुव्वभवाणं तत्तो संवेगभावियमईणं । सहस त्ति सुद्धनाणं जायं नरनाह-देवीणं ॥ २६६ ॥

तेसिं पि कया महिमा सुरवइणा भत्तिभारनमिरेण । जाओ परमाणंदो नयरीए जणियजणचोज्जो ॥ २६७ ॥

अह सुधणसत्थंवाहो नमिऊण मुणिं पपुच्छिओ एवं । 'तुम्ह गुणसायरस्स य समाणगुणया कहमिवेसा ?' ॥२६८॥

साहइ तओ मुणिंदो सख-कलवइभवाओ आरब्भ । सव्वं नियत्तुत्तं वरकेवललाभपेरन्तं ॥ २६९ ॥ 10

'ममसममुच्चिन्नधम्मो तणुइयकम्मोऽणुभूयसुरसम्मो । सो कुसुमकेउतियसो सुंदर ! गुणसायरो जाओ ॥ २७० ॥

पुन्नं सुहाणुवंधं समपरिणामेण पइभवं पुट्टं । समसुहपरंपराए परिणयमम्हाण भो ! एवं ॥ २७१ ॥

आसन्नसिद्धिसुहसंपयाण पाएण विसयसंगम्मि । न रमइ जियाण संसारभाविभावेसु नणु चित्तं ॥ २७२ ॥

एयाओ वि व्हूओऽणंतरभवभारियाओ दोन्हं पि । कयसंजमाओऽणुत्तरसुरेसु वसिऊण सुहजोगा ॥ २७३ ॥

जायाओ जायाओ एवं भवियेव्वयानिओगेण । संपत्ताओ केवलसिंरिं च सामग्गिओगेण ॥ २७४ ॥ 15

समगुण-धणाण पाणीण पायसो पीइसंभवो होइ । न रमंति रायहसेसु हंत ! कावंजुयव्हूओ' ॥ २७५ ॥

इय सोऊण पवुद्धो सुधणो वि सुसावयत्तमणुपत्तो । अन्नो वि व्हू लोगो सुचरियचरणुज्जओ जाओ ॥ २७६ ॥

वहुजणकयपडिवोहो भयवं अन्नत्थ विहरिओ तत्तो । हरिणा हरिसीहसुओ ठविओ रज्जम्मि हरिसेणो ॥२७७॥

अह पुहइसरंके भव्वपंकेरुहाणं, कयविमलव्विवोहा कुग्गहाजेयतेया ।

विहयजयतमोहा तेयसा केवलेण, सुवहु विहरिया ते चंद-सूर व्व दो वि ॥ २७८ ॥ 20

निन्नेहा पडिपुन्नधारियगुणा दोसधयारप्पहा, नंदंता वि जणस्स लोयणसुहा विससप्पयासक्खमा ।

दंसिता भवमंदिरे अवितहं वत्थुस्सरुवं फुडं, नेव्वाणं पि गया सुदूमियजणा तेऽउव्वदीवा इव ॥२७९॥

सीलंगाइमहामहग्घरयणं खंताइमुत्तासयं, सामन्नं सुनिहिं व संजमतत्रोभाणिककच्चिकियं ।

जे सिद्धंतसुकप्पवुत्तविहिणा गिन्हंति सुद्धासया, कल्लाणाणि लहित्तु जंति पुहइचदो व्व ते निव्वुइ ॥ २८० ॥ 25

\*

इय पुहइचदमहरिसिचरियं संवेगदिव्वरसभरियं । मंदमइहियं कहियं फुडक्खर थेवगंथेण ॥ २८१ ॥

एत्तो च्विय कविधम्मो अप्पो, अप्पो य वन्नओ एत्थ । अइवहुयं खु कहंगं तेहि वला वित्थरसुवेड ॥२८२॥

विविहोवकहारम्मं साहियगुरुभत्तिसारजइधम्मं । सोयव्वमिणं सम्मं दुलहं लहिऊण नरजम्मं ॥ २८३ ॥

'केई गज्जापिया जयम्मि पुरिसा अन्ने वि पज्जत्थिणो, केई भंग-सिलेसभंगुरमणा अन्ने वि तक्कोडिणो ।

सव्वेसिं पि अणुग्गहाय रइयं संखेव-वित्थारओ, एयं चित्तरसं पसत्थचरियं दोन्हं मुणीणं मए ॥२८४॥ 30

\*

आसी कुंदिंदुसुद्धे विउलससिक्खुले चारुचारित्तपत्तं, सूरी सेयवराणं वरतिलयसमो सव्वदेवाभिहाणो ।

नाणासीसप्पसाहापयडियमहिमो कप्परुक्खो व्व गच्छो, जाओ जत्तो पवित्तो गुणसुरसफलो सुप्पसिद्धो जयम्मि ॥



तेसिं चासी सुयजलनिही खंतदंतो पसंतो, मीसो वीसो सियगुणगणो नेमिचंदो मुणिंदो ।  
जो विक्खाओ पुहइवलए उग्गचारी विहारी, मन्ने नो से मिहिर-ससिणो तेय-कन्तीहि तुल्ला ॥२८६ ॥  
तेसिं च सीसो पयईजडप्पा, अदिट्टपुव्विहलविसिट्टसत्थो । परोत्रयारेकरसावियेज्जो, जाओ निग्गणेण कइत्तकोट्ठी ॥

जो सब्बदेवमुणिपुंगवदिक्खिण्हि, साहित्त-तक्क-समएसु सुसिक्खिण्हि ।

5 संपाविओ वरपयं सिरिचदसूरिपुज्जेहि पक्खमुवगम्म गुणेसु भूरि ॥ २८८ ॥

संवेगंनुनिवाणं एयं सिरिसत्तिमूरिणा तेण । वज्जरियं वरचरियं मुणिचंदविणोयवयणाओ ॥ २८९ ॥

जइ किंचि अजुत्तं वुत्तमेत्थ मइज्जु-रहसयिच्चीहि । तमणुगहवुद्धीए सोढेयव्वं छट्ठेहि ॥ २९० ॥

इगतीसाहियसोलससएहिं वासाण निव्वुए वीरे । कत्तियचरिमतिहीए कित्तियरिक्खे परिसमत्तं ॥ २९१ ॥

जयइ पयइसुद्धं अंगुलीवत्तवत्तं, सहयमुहयगंधं भव्वभिं गोहजुट्टे ।

10 वियसियममिलाणं पावपंककमुक्कं, कयजयसरसोहं वीरपायारैविंदं ॥ २९२ ॥

॥ इय पुहइचंदचरिए एकारसमं भवगहणं समत्तं ॥

॥ पुहइचंदचरियं समत्तं ॥

→ गंयसिलोयपमाणं सत्त सहस्साइं पंच य सयाइं । इय पुहइचंदचरिए विणिच्छियं पायसो गणियं ॥ १ ॥

अंकतोऽपि ७५०० ॥ समाप्तं पृथ्वीचन्द्रचरितमिति ॥

15 भव्याम्भोरुहभानुभिर्भवमहीभृच्छेददम्भोलिभिर्मोहानोकहमातरिश्चभिरलं शीलामृताम्भोधिभिः ।

विश्वे विश्वकवीन्द्रचक्रतिलकैर्नो केवलं नाम्नावि(नामभिर्वि)भ्राणैर्मनसा च --(शान्ति)मतुलां चारित्रिणां नायकैः १

पूज्यैर्निजैर्दलितदर्पककार्मुकज्यैर्योऽचीकरत् कृतनतिश्चरणारविन्दे ।

पृथ्वीविधोश्चरितमुत्तममेतदादौ तेनैव चारुमुनिचन्द्रमसा --( व्यले )खि ॥ २ ॥←



१ संकेतः--“अचि[य]ज्जो ति आयत्त ॥ ११ ॥ इति सङ्कत आख्यायि देश्य-श्लेषादिबोधक । श्रीपृथ्वीचन्द्रचरिते श्रीरत्न प्रभसूरिभिः ॥” सर्वाङ्कप्रमाणम् ८००० [ख]र्णेन्द्रयाण्डिसख्यश्लोके ॥ छ ॥ श्री ॥ अष्टौ सहस्राङ्कमिते समस्ते ग्रन्थेऽत्र पृथ्वीशशिन- चरित्रे । (अत्र सर्वाङ्क इत्येतस्मादारब्ध पाठो भ्रा०प्रतिलेखकस्यावगन्तव्य, न तु सङ्केतस्य) ॥ २ अंगुलीचारुवत्त जे० ॥ ३ रविंदं ॥२९२॥ पृथ्वीचन्द्रचरितस्यैकादशमं भवग्रहण समाप्तम् ॥ छ ॥ ५७७ ॥ ग्रन्थाग्रम् ७५०० ॥ मगलं महाश्रीरिति ॥ छ ॥ सवत् १२२५ वर्षे पोष शुदि ५ शनौ अद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीविराजितमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरममहारिकउमापति- चरलब्धप्रसादप्रौढप्रतापनिजभुजविक्रमरणागणविनिर्जितशाकभरीभौपालश्रीमत्कुमारपालदेवकल्याणविजयिराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महा- मालश्रीकुमरसीहे श्रीश्रीकरणादौ समस्तमुद्रान्यापारान् परिपन्थयति सती(ति) जे० । (जे० पुस्तकस्येतोऽग्रतन पत्र विनष्टम्) ॥ ४ सम्मत्तं ॥ एकादशमवयुत्त पृथ्वीचदस्त नरवडदस्त । चरित सपूर्णमिद सजात सर्वेसुखजननम् ॥ १ ॥ ५७७ ॥ गथसिलोयपमाण सत्त सहस्साइ पंच य सयाइ । इय पुहइचंदचरिए विणिच्छिय पायसो गणित् ॥ १ ॥ अकतोऽपि ७५०० ॥ श्री ॥ संवत् १५१२ वर्षे । पञ्चेन्द्री- न्द्रियचन्द्रवत्सरमिते श्रीचित्रकूटाचले पुण्ये भाद्रपदे कुजस्य दिवसे शुद्धे नवम्या तिथौ । पृथ्वीचन्द्रचरित्रमेतदखिल पूर्णं यथार्थं मुदा हर्षाद् हेमसमुद्रसूरियुरुणा सलेखयामास च ॥१॥ ( अस्मिन् वृत्ते ‘पुण्ये’ इत्यस्योपरि ‘मासे’ इति प्रती लिखितमस्ति ) । भद्र श्रीनागपुरीय- मुनीश्वराणाम् । कल्याणमस्तु श्रीपार्श्वप्रमादात् ॥ भ्रा० ॥ ५ →←एतच्चिह्नान्तर्गत पाठ ख१प्रतेरेव ज्ञेय । एतत्पाठगतान्यपद्यद्वय प्रस्तुत- पृथ्वीचन्द्रचरित्ररचनाविषये विज्ञप्ति कुर्वता ग्रन्थकारश्रीशान्तिसूरिक्षिष्येण मुनिचन्द्रमुनिना विरचितमस्ति । अत एव ख१- प्रति मुनिचन्द्रमुनिलिखितप्रथमादर्शानुसारिणी निधीयते । ख१प्रते प्रशस्ति पुष्पिका च प्रस्तुतग्रन्थप्रस्तावनाया द्रष्टव्या ॥

पुहवीचंदचरियस्स  
प रि सि द्वा णि ॥



## प्रथमं परिशिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानुक्रमः ।

नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
	अ			उ		कविला	ब्राह्मणी	२०९, २१०
अउज्ज्मा	} नगरी	२०६	उज्जेणी	नगरी	१३४	कविजल	पुरोहित	१७७, १७८, १८६, १८७
अउज्ज्माउरी		२०८	उत्तरकुरु	क्षेत्रम्	१२०	कंचण	श्रेष्ठी	५३
अमोज्ज्माउरी		२१८	उत्तरवह	देश	१३८	कंचणपुर	नगरम्	१६५
अट्टणमाला	व्यायामशाला	१७६	उम्मायंती	राजपुत्री राज्ञी		कंपिल्लपुर	"	१६८
अह्दभरह	क्षेत्रम्	१७६		देवी च ७० त ७३		कामदत्त	श्रेष्ठी	१८१
अणगवेग	विद्याधरराजा	१२८	उवरिमोवरिम	देवलोक	१७१	कित्तिचद्	युवराज	१६०, १६१
अणतविरिअ	तीर्थङ्कर.	६९		क		कित्तिमई	राज्ञी	६५
अणुत्तर	देवलोक	२०५, २२१	कडाहदीव	द्वीप	१८४	किन्नर	विद्याधरपुत्र	१२८
अभय	द्वीप	२१	कणगचई	राजपुत्री		किराय	देश	१६७
अमियतेअ	निग्रन्थ - आचार्य	१६, २५		राज्ञी च २०८, २१९		कुवेर	श्रेष्ठी	५३
		२८	कणयकेउ	विद्याधरराजा	१४७	कुमुइणी	राज्ञी	९०
अयलउर	नगरम्	१२८	"	राजपुत्रो राजा च १८७		कुरु	} देश	३९, ४०, २१४
अरिमहण	राजा	१६७	कणयज्झअ	राजपुत्रो राजा	१७३,	कुरुदेस		
अवराइअ	राजपुत्र.	१५७		निर्गन्थो देवश्च १७४, १७६, १८७, १९०		कुसुमकेउ	राजपुत्रो	१९९ त
अवराइया	विद्या	१००, १६७	कणयमंजरी	राज्ञी	६१		निर्गन्थो देवश्च	२०४, २२१
अवसेायणी	"	५०	कणयमाला	विद्याधरराज्ञी	१४०	कुसुमरमण	उद्यानम्	१५३
अवंति	देश	६१, १९४	कणयवई	"	१४७	कुसुमाउह	राजपुत्रो राजा	१९३, १९४,
असोगदत्ता	राजकुमारीषखी	१०४ १०६	कणयसुदरी	राजपुत्री राज्ञी	६१, ६२,		निर्गन्थो देवश्च	१९५, १९९ त
अंग	देश	१८९, १९४		देवो च ६३, ८० ८२				२०४, २०७,
अगदेस	"	३२, ३४	कणयावली	विद्याधरपुत्री	१४७	कुसुमागर	उद्यानम्	१६४
अगसिरी	कृननारीरूपो देव	३२	कमलसुदरी	राज्ञी	३७	कुसुमावली	राज्ञी	१९९
	आ		कमलसेण	राजपुत्रो राजा ३१, ३४, ५५ त		कुसुमुजाण	उद्यानम्	१३
आइजिण	तीर्थङ्कर.	१७७		निर्गन्थो देवश्च ५९, ६१		कुंजर	राजपुत्र	१६७
आणयकप्प	देवलोक	१०२, १०३	कमला	श्रेष्ठीपुत्री राज्ञी च १७		कुंडल	नगरम्	८३
आयामुही	नगरी	८१	कलावई	राजपुत्री राज्ञी ६, ८, ११, १२,		कुंभ	पल्लोपति	११०
आरण	देवलोक	१२४, १२७		निर्गन्थी देवी च १५, २७, २८, २९, ५४, १४७,		कुंभनयर	नगरम्	१२८
आरोग	ब्राह्मणपुत्र	१३६		२२१		कुडवहअ	} ब्राह्मण	२०९, २१२
आसाऊरिया	देवी	११५	कलिग	देश	१९४	केसव		
	ई		कल्लाणिगा	दासी	१३९	केसव	ब्राह्मण	१७८, १८६
ईसर	निर्गन्थ - आचार्य	१३२,	कविल	ब्राह्मण - श्रोत्रिय	२१, २२	कोसल	देश	२०६
		१३६	"	ब्राह्मण.	११४, ११५, ११७	कोसला	नगरी	९०
"	श्रेष्ठी	१३३, १३४, १५८						
ईसाणकप्प	देवलोक	७३						

नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
गज्जणय	नगरम्	१३८, १४०, १४७, १५२	चउरमइ	राजपुत्रमित्रम्	६७	जयवेग	विद्याधरपुत्रो	१२८, १२९
गय	श्रेष्ठी	४, १२, १३, १५, १६	चकउर	नगरम्	१००, १०१	राजा च		१३०
गयउर	नगरम्	२१४	चडसीह	योध'	४०	जयसुंदर	राजपुत्रो	१७३, १७४, १७६
गयपुर	"	७६	चडाली	विद्या	७४	देवश्च	१७७, १८७, १९९	
गयणवल्लह	"	१४७	चद	राजा	३९ त' ४३	जयसेण	राजपुत्र	६, ८ त १२, १५
गयसीस	"	३६	"	"	१६५	"	राजा	११०
गंगा	नदी	३, ९३, ९४	"	राजपुत्र'	११० १११	जयंत	विद्याधरराजा	१२८
गंगाइच	श्रेष्ठी	९३	चढकता	विद्याधरराजपुत्री	७३ ७४, ७५	जया	श्रेष्ठिपुत्री	९३
गंगातीर	सन्निवेश'	२१	चंदगइ	विद्याधरपुत्र'	८३, ८४	जया	श्रेष्ठिपत्नी	१२०
गंगादेवी	देवी	९४	चदञ्जय	राजा	१४०, १४४	जयादेवी	राज्ञी	१०४, १०७
गंशेयसिरि	पर्वत	१५५	चदञ्जय	राजा	१४५, १४६	जस	श्रेष्ठी	१९४, ११५
गंधञ्च	विद्याधरराजा	८३	चंद्रण्णभा	विद्याधरपुत्री	९९, १००	जंबुद्वीप	द्वीप	३, ३०, ४६, ६५, ७३, ८९, १०३, १३८
गंधार	नगरम्	१६०, १६२	चंद्रमई	राज्ञी	१४०	जालिणिदेवी	देवी	१२६
गिरिसुंदर	राजपुत्रो राजा	१५५, १५६, देवश्च १५९, १६१, १६२, १६३, १६८, १६९, १७२, १७३	चंद्रगय	राजा	१६५	जिणपिपथ	श्रेष्ठी	१७९ त' १८२, देवश्च १८५
गुणमाला	राज्ञी	१२५, १२७, १२९	चद्रसेण	राजपुत्रो राजा च	१३२, १३७	जिणसुंदरी	श्रेष्ठिपत्नी	१९३
"	राजपुत्री	१४२, १४३,	चदाभा	राज्ञी	६९	जुञ्जसेडि	श्रेष्ठी	१८४, १८५
"	राज्ञी च	१४४	"	निर्ग्रन्थिनी	१३७	त		
गुणवई	श्रेष्ठिपत्नी	१८१	"	नगरी	११५	तामलिची	नगरी	४५, ४९, १७२, १८४, १८५, २१९
गुणसागर-	श्रेष्ठिपुत्रो	२१४ त २१९,	चंपा	नगरी	३२, ३३, ५६, १४२, १८६, १८९, १९४, १९५	तारवेग	विद्याधरराजा	१४०, १४७
सायर	निर्ग्रन्थश्च	२२१	चारायण	बटुक'	१०६	तारा	श्रेष्ठिपुत्री श्रेष्ठिपत्नी च	५३
गुणसायर	निर्ग्रन्थ -आचार्य	१५०, १५३, १९५	चित्तंगय	श्रेष्ठी	४५	तिदुज्जाण	उद्यानम्	३६ टि०३
गुणसिरी	निर्ग्रन्थिनी	३८	चीणद्वीप	द्वीपः	१८४	तुरुक्क	देशः	१३२
गुणसुंदरी	पुरोहितपुत्री	३७, ४९, ५०,	चोञ्जडवर	परिव्राजकः	१२५	थ		
"	पुरोहितपत्नी च	५१, ५२, ५३	छुप्पन्नय	ग्रन्थ	११७	थाणेसर	सन्निवेश'	४७
"	श्रेष्ठिपुत्री	२१४	ज			द		
गुणसेण	राजा	३३	जय	राजा	१८९, १९१, १९४, १९५, १९८ त २००, २२१	दक्षिणगावह	देश'	१९१
गुणसेणा	राज्ञी	५५, ५९, ६१	जयउर	नगरम्	११०, ११६, ११७	दत्त	श्रेष्ठिपुत्र'	४, ५, ७ त १२, २३, २४
गुणसेहर	निर्ग्रन्थ'-आचार्यः	११७	जयकंत	निर्ग्रन्थ -आचार्य	१८१	दहवाल	चौर'	१५८
गुणहर	श्रेष्ठी	११९, १२०, १२१, १२२	जयतुंग	राजा	२००	दाहिणभरहद्ध	क्षेत्रम्	६४, १२५
गुणंधर	श्रेष्ठिपुत्र'	१८१ त १८६	जयतथल	सन्निवेश	११९, १२०, १२२	दीणार	नाणकम्	१८४
गुणायर	श्रेष्ठी	११९, १२०, १२१, १२२	जयनंदण	तीर्थङ्करः	७३	देव	श्रेष्ठी	११४
			"	निर्ग्रन्थ'- आचार्य	१६४, १६५, १६८, १७०	देवई	श्रेष्ठिपत्नी	१२०
						देवकुरा	क्षेत्रम्	१६६
						देवगुत्त	ब्राह्मण.	१३४

नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
देवनंदि	देश	५,७	नरसेहर	राजा	६५, ६७, ६८, ६९	पुत्रचद	राजपुत्रो राजा	१०४, १०५,
देवपसाभ	राजा	१६१, १६२	नदण	नगरम्	३९, ४२, ५४		देवक्ष	१०७, १०८,
देवरह	राजपुत्रो	८२, ८४, ८७,	नदणत्रण	उद्यानम्	१६, ३१, ३३, ५४			१२३, १२७
	राजा देवक्ष	१०२, १०३	नंदा	ब्राह्मणी	१३४	पुत्रजसा	श्रेष्ठिपत्नी	३७
देवसाल	नगरम्	४, ५, ६, ११, १५	नद्विपुर	नगरम्	९०	पुत्रभद	अमात्य.	९८
देवसीह	राजपुत्रो	६१ त ६४,	नागकेसर	उद्यानम्	२०१	पुत्रमनोरह	तीर्थम्	१५७
	राजा देवक्ष	७८, ८१	निकरुण	भट्ट	१३	पुत्रसम्म	पुरोहित	४९, ५०, ५२, ५३
देवसेण	राजपुत्रो	७३ त ७६,	निहिकुडल	राजपुत्रो देवक्ष	६५ त ६९	पुत्रसार	श्रेष्ठी	५३
	राजा च	२०२	नेमिचंद	निग्रन्थ - आचार्य,	२२०	पुष्कमाला	राज्ञी तापसी	१४२, १४३,
देवी	श्रेष्ठिपुत्रा श्रेष्ठिपत्नी च	५३		( प्रस्तुतग्रन्थकारगुरु )			च	१४४
	घ			प		पुष्कवई	राज्ञी	७३
घण	श्रेष्ठिपुत्र	१८, १९, १११,	पइहाण	नगरम्	१६५	पुष्कसाल	उद्यानम्	१०८
		११२, ११३	पउम	राजा	१७, २१	पुष्कसुदरी	राजपुत्री	१०४ त १०७,
घणय	श्रेष्ठिपुत्र	१८, १९	"	विमानम्	२९		राज्ञी देवक्ष	१२३, १२४, १२९
"	श्रेष्ठी	२२०	पउमदेव	श्रेष्ठी	१२०	पुरदर	श्रेष्ठी	११५, ११६
घणंजय	श्रेष्ठी	१२०, १९३, १९४	पउमरह	राजा	१६६, १६७	"	निर्ग्रन्थ	२०१
घणेत	निर्ग्रन्थ - आचार्य	२	पउमसंड	नगरम्	१३३, १६६	"	युवराज	१९४
	( प्रस्तुतग्रन्थकारगुरुस्थानीय )		पउमाणण	राजा	९०	पुरंदरजसा	राजपुत्री, राजपुत्र-	६६ त
घणेतसर	श्रेष्ठी	१३३	पउमादेवी	राज्ञी	१६६		पत्नी देवी च	७०
"	श्रेष्ठिपुत्र	२२०	पउमावई	राज्ञी	२०७, २१९, २२१	पुरिसचद	राजपुत्रो राजा च	१८७
घन	श्रेष्ठी	१८	पउमावई	राज्ञी	२०७, २१९, २२१	पुरिसोत्तम	} राजा	१७७, १७८,
घम्म	श्रेष्ठी	४५ त ४९	पउमिणी	श्रेष्ठिपत्नी	५३	पुरिसोत्तिम		
"	श्रेष्ठिपुत्र	१८, १९	पउमुत्तर	राजपुत्रो राजा	१३९, १४०,	पुव्वविदेह	क्षेत्रम्	८१
"	निर्ग्रन्थ	७९		निर्ग्रन्थो देवक्ष	१४४ त	पुहइचंद	राजपुत्र	२, २०८, २११,
घम्मकित्ति	बौद्धाचार्य	५८	पडविजा	विद्या	१६७		केवली च	२१३, २१९,
घम्मदेव	निर्ग्रन्थ - आचार्य	१२०, १२३	परमभूमण	नगरम्	७०	पुहइपुर	नगरम्	१७
घम्मवसु	"	८८, ८९, १०२	पंकप्पहा	नरक	१८१	पुंड	देश	१५५, १६३
घम्मेतसर	"	१३४	पियमई	राज्ञी	८१, १८९, १९०,	पुंडउर	नगरम्	११४, १५५, १५८,
घर	विद्याधरराजा	१२८			१९१, १९३, १९४,			१५९, १६३, १६६,
घरण	श्रेष्ठी	५३			१९५, १९९, २२१			१६७
"	श्रेष्ठिपुत्र	१११, ११२, ११३	पियकर	राजपुत्र	७६, ७७	पृथ्वीविधु	निर्ग्रन्थ - केवली	२२२
घर्मकीर्ति	बौद्धाचार्य	५८ - टि० १, ४	पियकरा	सखी	७३	पोयणपुर	नगरम्	३०, ५४, ५६, ५७
धीघण	अमात्य	७, ९	पियगुदत्ता	दासी	१०५		च	
धूमप्पभा	नरक	१८६	पियगुमंजरी	सखी	१०३, १०७	वंधुजीव	अमात्य	१३२
	न		पियगुलेहा	दासी	२०८	वंभलोय	देवलोक	५९, ६१, ७६
नरकेसरि	राजा	३७	पुक्खल	क्षेत्रप्रविभाग	१०३	विंदुजाण	उद्यानम्	३६
नरसीह	राजपुत्रो राजा च	८०	पुन्नकलस	राजपुत्र	२७, २८	बुद्धिसायर	अमात्य	७६, ७७
"	राजा	१२५, १२६, १३१	पुन्नकेउ	राजा	७०			

नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
बुद्धिसुंदरी	अमात्यपुत्री	३७, ४३, ४४	महोदय	तापसाश्रम	१४१	रथणावली	विद्याधरपुत्री	१४७
सुंदरी	अमात्यपत्नी च	त ४७	मंतमुक्ति	कापालिक	१२२	रविकंता	विद्याधरराज्ञी	७३, १२९
बुद्धमंति	अमात्य	७१	मंतियावह	सन्निवेशः	१२१	रविकिरण	विद्याधरराजा	७३, ७४, ७५
	भ		माइदत्त	श्रेष्ठिपुत्र	११४, ११५	रविकिंद	राजा	१६०
भरह	क्षेत्रम्	३, ३०, ३६, ४६, ७६, १३८, १७४, १७७, २०६	माणतुग	राजा	१९५, १९६, १९८	रवितेभ	राजा	८२, ८५, ८६, ८७
भाईरही	नदी	२१	मिहिला	नगरी	१२५, १२८, १३०	रवितेय	निर्ग्रन्थ - चारणमुनि	९९
भारह	क्षेत्रम्	३, ७७, ८९, १६५, १७८	मुणिकिंद	निर्ग्रन्थ (प्रस्तुत- ग्रन्थकारशिष्य)	२२२	रविसेण	राजा	२००
भूयंतत	विद्यासिद्ध	९५	मुत्तावली	राज्ञी	६०, ६१	रायउर	नगरम्	२०८
भूयरमण	यक्ष	१६१	"	विद्याधरपुत्री	१२९, १३०, १३२,	रायसंगय	"	१९५
	म			राज्ञी निर्ग्रन्थिनी	१३३, १३६, देवश्च १२७, १४०, १५०, १५१	रायसेहर	राजा	१९४, १९५, १९६, १९८, १९९
मइवद्धण	अमात्य.	३३, ३४, ५७	मेह	राजा	६०, ६२, ६३, ७९	रिद्धिसुंदरी	श्रेष्ठिपुत्री, श्रेष्ठिपत्नी च	३७, ३८, ४५ त ४९
मइसागर	अमात्यपुत्र	६६, ७६, ७७	मोहण	आजीवकश्राद्ध	१७९, १८०, १८१, १८५, १८६	रिद्धी	राजपुत्री	१६५
मइसार	राजमित्रम्	७, ८, ९		र		रूवपरावत्तिणी	विद्या	१५७
मइसुंदर	अमात्य	१७४				रेवई	विद्याधरपुत्री राज्ञी च	१२८
मज्झिमज्झिम	देवलोक	१५४				रोग	ब्राह्मणपुत्र	१३४, १३५
मणिपिगल	देश	३०	रइचंद	राजपुत्री राजा च	१६०, १६१		ल	
मणोरमा	राज्ञी	१९९	रइसुंदर	विमानम्	५३	लक्ष्मणा	अमात्यपत्नी	३७
मलय	सन्निवेश	१२१	रइसुंदरी	राजपुत्री राज्ञी च	३७, ३९ त ४२, ५३	"	युवराजपत्नी	१५५
महसेण	राजा	६९, १६३, १६६	रइसेणा	गणिका	९२, ९५, ९६, ९७	"	राजपुत्री	१६६, १६७
महाकच्छ	क्षेत्रप्रविभाग	६९	रकखसदीव	द्वीप	९५	लच्छी	श्रेष्ठिपत्नी	३७, १०९
महाकित्ति	राजा	१९९	रमणिज्ज	क्षेत्रप्रविभाग	६५	"	राज्ञी	७६
महाजालिणी	विद्या	६८	रयणउर	नगरम्	१०९, ११०	ललियसुंदरी	राजपुत्री	२०८, २०९, २१९
महापभा	राज्ञी	९९	रयणचूड	राजा	६६ त ६९	ललियंग	राजपुत्री राजा देवश्च	७० त ७३
महापुर	नगरम्	९४, ९५, ९७	रयणघण	नगरम्	१२८	ललिया	पुरोहितपत्नी	३७
महावल	राजा	१६६	रयणप्पभा-प्पहा	नरक	१२०, १८१	लवणोयहि	समुद्र	३
महाबुद्धि	अमात्य	१९९, २००, २०१	रयणमाला	राज्ञी	७०	लोयण	श्रेष्ठो	४६, ४७, ४८, ४९
महालच्छी	श्रेष्ठिपत्नी	५३	रयणवई	विद्याधरपत्नी	१४७		व	
महावेयाल	मन्त्र	१२२	रयणसंचय	श्रेष्ठी केवली च	२१४, २१८	घच्चहर	वर्चोशुद्धम्	११३
महावेयालिणी	विद्या	१४४, १४६	रयणसार	श्रेष्ठी	३७	वच्छ	देश	५५, २००
महासाल	नगरम्	९१, ९५, ९७	"	युवराजपुत्र	१५६, १५९, १६२, १६३, १६४, १६८, १७०, १७३	वणमाला	राजपुत्री	१४४
महासुक्क	देवलोक	१८१	रयणसिह	राजपुत्री	९०, ९९, १००, राजा च १०१, १०२	वरंग	अमात्य	१०
महिदसीह	राजा	३९, ४०, ४१, ४३	रयणायर	निर्ग्रन्थ - आचार्य	१५३, १५४	वरुण	श्रेष्ठी	१७, १५२
महुमुह	दूत	१४०	रयणावली	राजपुत्री राज्ञी	८२, ८५, ८७, देवश्च १०२, १०४	वल्हीय	देशः	१३२
महुर	द्वीप	१४४				वसंत	राजा ऋषिश्च	१४२, १४३, १४४
महुरा	नगरी	६०, ६२, ६३, ७९, १४०, १४५, १८१, १९९				वसंतउर		१८६
महुराउरी	नगरी	१४४, २०९				वसंतपुर		१७८

नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
वसंतदेवी	राज्ञी	८२	विमलकित्ति	राजा	८१, ८२, ८७, १०२	ससिकुलः	निग्रन्थकुलम्	२२१
वसंतसेणा	राज्ञी	३०	वियारधवल	राजा	३६	ससिलेहा	राजपुत्री	१४०
वसुतैय	राजा	९९, १००, ११४	खिलासवई	राज्ञी	१६६	ससिवेग	विद्यावरपुत्रो	९९, १००,
वसुदत्त	श्रेष्ठिपुत्र*	११४, ११५	विसाल	सामतराजा	१०४, १०७		विद्याधरराजा च	१०१
वसुपाल	श्रेष्ठी	११७, ११८	विसालच्छ	नगरम्	११४	सहसंबवण	उद्यानम्	१९५
वसुयत्ता	श्रेष्ठिपत्नी	१८१	विसाला	नगरी	६१ ६३	संख	राजा	३, १०, ११, १७, २९,
वसुहारा	,,	५३, ९३	विस्सउरी	,,	७३, ७४, ७५			३०, ५९, १४७, २२१
वसुंधरा	,,	५३	विंझ	श्रेष्ठिपुत्र	१६५	संखउर	नगरम्	३, ४, २४
वंग	देश*	१७२, १७३, १७४	विंझारत्न	अरण्यम्	१८१	संगअ	कर्षक*	८९
वंगाल	मन्निवेश*	११५	वीर	तीर्थंकर	१ २२२	संजमसीह	निग्रन्थ - आचार्य	५९
घालुगप्पहा	नरक	१८१	वीरपुर	नगरम्	१८३, १८४ १८५	संखिम्भ	देश	१०
वासवदत्त	सार्थवाह	१९४, १९५	वीरसेण	राजपुत्र	१७९, १८१	संतिसूरि	निग्रन्थ - आचार्य	२२२
विजय	तीर्थंकर	७६	वीरंगध	राजा	१७८ १७९ १८५		( प्रस्तुतग्रन्थकार )	
"	निग्रन्थ - केवली	११३			१८६	सापयपुर	नगरम्	३७, १७७
"	देवलोक	१८८, १९०, २२१	"	राजपुत्रो राजा च	९०, ९१ ९६	साकेय		४५
विजयउर	नगरम्	९०, १६६, १६७	वीरुत्तर	राजपुत्र	१२४	सागेय		४९, १४५ १८६, २००
विजयपुर	नगरम्	२०८	वेडन्वियविज्जा	विद्या	८४	सागेयपुर		१०१
विजयदेव	राजा	२०८	वेयडूढ	पर्वत.	३, ६४, ७०, ७३,	साल	अमात्य	१९४
विजयनयर	नगरम्	६९			८३, ९९, १०८, १४०,	सावथी	नगरी	४९, ५०, ५१, २०४
विजयराया	राजा	६, १०, ११, १५	वेयरुइ	पुरोहितपुत्र	४९, ५१, ५२, ५३	सिद्धदत्त-यत्त	श्रेष्ठिपुत्र	११४ ११५
विजयचन्द्रण	नगरम्	११७	वेयसम्म	पुरोहित	४९			११६
विजयसन्तु	राजा	६१				सिद्धिकर	वनम्	६४
विजयंती	राज्ञी	३४, ३५, ५४, ५५				सिरिउर	नगरम्	१९३
विजया	श्रेष्ठिपुत्री	९३				सिरिकित्ति	राजा	२१९
विजयावई	नगरी	६६, ६९				सिरिकेउ	,,	३४
विट्टु	वण्ट	१८				सिरिगुत्त	सिद्धपुत्र.	१६६
"	श्रेष्ठी	११९, १२०, १२२				सिरिचंद	निग्रन्थ - आचार्य	२२२
"	ब्राह्मण	२०९, २११, २१२					( प्रस्तुतग्रन्थकारगुरोर्युरुभ्राता )	
विट्टुदेव	श्रेष्ठी	१८३				सिरितेय	निग्रन्थ - आचार्य केवली	१४७
विणयंधर	श्रेष्ठिपुत्र*	३४ त ३७, ५३,				सिरिदत्त	अमात्य	३७
	श्रेष्ठी च	५४, ५५				सिरिदेव	श्रेष्ठी - श्राद्ध	१८६
"	श्रेष्ठी	१८१				सिरिदेवी	राज्ञी	६
विणया	श्रेष्ठिपुत्री, श्रेष्ठिपत्नी च	५३				सिरिघण	नगरम्	१८१ १८५
विदुर	राजा	१४५, १४६, १४७				सिरिद्धभ	विद्याधरराजा	८३
विदेह	क्षेत्रम्	६५				सिरिप्पहा	राज्ञी	१७२
विदेहा	नगरी	१२९				सिरिबल	राजा	१५५, १५६, १५८,
विदेहादेस	देश	१२५						१५९, १६३, १६४,
विद्धी	राजपुत्री	१६५						१६६ त १६९
विवुह	अमात्यपुत्र	८२				सिरिमंगल	देश.	३, ७
						सिरिमंदिर	नगरम्	६५, ६७, ६९
						सिरियापची	श्रेष्ठिपत्नी	१८




नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्	नाम	किम् ?	पत्रम्
सिरिवाहण	राजा	७६,७७	सुमहा	श्रेष्ठिपुत्री	१५८,१५९	सुसम्म	परिव्राजक	९३
सिरिसेहर	"	२१८	सुभीम	राजा	९४,९५	"	नगरम्	१५७
सिरी	श्रेष्ठिपुत्री श्रेष्ठिपत्नी च	५३	सुभोम	नगरम्	१४०,१४७,१५२	सुसीम	नगरम्	४३,१२२
सिवदेव	श्रेष्ठी-श्राद्धः	१८६	"	ग्राम	२०३	सुसेणकुमार	राजपुत्र	५९
सिवी	नगरी	१०३	सुमह	अमात्य	६६	सुहम्म	निर्ग्रन्थ-आचार्य	५६
सिंधु	नदी	३	सुमगल	निर्ग्रन्थ-केवली	१००	सुहम्मरिसि	"	१८१
सिंधुदेवी	देवी	१४	"	राजा	१७२,१७३ १७४, १७६	सुदर	राजा निर्ग्रन्थश्च	१९४,२०१ २०३,२०४
सिंधुपार	देश	१३२	सुमगला	श्रेष्ठिपत्नी	२१४,२१६	सुदर	अमात्य	१९५
सिंधुवद्धण	नगरम्	१९४,१९५	सुमाला	निर्ग्रन्थिनी च	२१८	सुंदरी	श्रेष्ठिपुत्री	११७,११८
सिंहलहीव	द्वीप	४५	सुमिन्त	श्रेष्ठिपत्नी	११७	सूर	राजपुत्र	११०
सिंहसेण	निर्ग्रन्थ-आचार्य	१२३	सुमिन्त	अमात्यपुत्र	९० त ९३, ९५, ९६, ९७	"	राजा	११८
सीलसुदरी	श्रेष्ठिपत्नी	११७,११८	"	श्रेष्ठी	३७,४५	सूरण	विद्याधरराजा	९९
सीलंघर	निर्ग्रन्थ-आचार्य	५७,५९	"	श्रेष्ठिपुत्र	१८१ त १८४	सूरतेय	राजा	७३,७४,७५
सीहसेण	राजा	१०३,१०७,१०८ १२३	"	ब्राह्मण	१४२	सूरमई	राज्ञी	१४०
सुकच्छ	क्षेत्रप्रविभाग	७३,८१	सुमह	दासी	३० १२९	सूरलेहा	राजपुत्री	१४०
सुकित्ति	अमात्य	४३	सुमहा	विद्याधरपुत्र	८४	सूरवेग	विद्याधरपुत्र	९९,१०१
सुकोसा	राजपुत्री	९०	"	कुलपुत्रः	१६५	"	विद्याधरराजा	१७३,१७४
सुककप्प	देवलोक	८०	सुय	राजपुत्र	१४२,१४३	सूरसेण	निर्ग्रन्थ-आचार्य	३६
सुगिरि	पर्वत	९९	सुयसागर	निर्ग्रन्थ-आचार्य	७७	"	राजपुत्रो राजा च	७५,७६
सुगुत्त	अमात्य	२००	सुगगुरु	निर्ग्रन्थ	६३,७९	"	देश	६०
सुगगाम	ग्राम	८९	सुरवह	राजा	१३८,१४०,१४६, १५१	"	राजपुत्रो राजा	१२९,१३१, १३६ त १३९, १४७
सुगगीव	नगरम्	९९,१००	सुरवेग	विद्याधरराजा	१७३ १७४	सूरंगय	राजा	९०
सुघोस	पुरोहित	३७	सुरसंगीय	नगरम्	९९	सेयवर	जैनधर्मशाखा	१७५,२२१
सुजस	तीर्थङ्करः	१०१	सुरसुंदर	निर्ग्रन्थः-आचार्य	१०८,१२४	सेहर	पल्लोपति	१८३,१८४
सुदत्त	श्रेष्ठी	९०,१११,११२	"	श्रेष्ठिपुत्र	१०९	सोम	श्रेष्ठिपुत्र	१८ १९, २०
सुदत्ता	अमात्यपत्नी	७६	"	नगरम्	७३	सोहम्म	देवलोक	६९,१२०,१३५ १३६,१६६
"	सखी	१०६	"	राजपुत्रो राजा च	१७०	"	देव	२१९
सुदसण	निर्ग्रन्थ-आचार्य	११०	सुगद्विपुर	नगरम्	१४०,१४३	हरिवेग	विद्याधरपुत्रो विद्याधर-	१४०,१४७
"	उद्यानम्	२०४	सुलक्खणा	राज्ञी	१५५,१६७	राजा निर्ग्रन्थो देवश्च	त १५३,१५५	
सुघण	श्रेष्ठी	१०९,२१३,२१४, २१८,२१९,२२१	"	राजपुत्री	१६६	हरिसीह	राजा	२०७,२०८,२१९, २२१
सुनदण	नगरम्	१११,११२	सुवन्नभूमि	प्रदेश	२१०	हरिसेण	निर्ग्रन्थ-आचार्य	१६८
सुपहह	"	८२,८४	सुवप्पा	राज्ञी	६६	"	राजपुत्रो राजा च	२२१
सुप्पह	तीर्थङ्कर	७७	सुवयण	वृत्त	५६,५७	द्विमवत	पर्वत	३,९४
सुमणिअ	दत्त	२००	सुचिट्ठ	श्रेष्ठी	११९,१२०	हेट्ठिमहेट्ठिम	देवलोक	१३७
सुमह	नगरम्	९३,११२,११३	सुवेग	विद्याधरराजा	९९,१००,१०१			
"	श्रेष्ठी	११७,११८						

## द्वितीयं परिशिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतविशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमः ।

[ परिशिष्टेऽस्मिन् प्रथमपरिशिष्टगतविशेषनाम्नां तत्परिकल्पिता विभागा अधस्तादुल्लिखिता इतं तत्तद्विभागदिदृक्षुमिस्तत्तदङ्काङ्कितो विभागोऽवलोकनीयः ]

१ अमात्यपत्नी- पुत्र्य ।	८ क्षेत्र-क्षेत्रप्रवि- भागा ।	१७ देव्य ।	२६ निग्रन्थिन्य ।	३३ ब्राह्मण-पुरोहित- पत्न्य* ।	३९ विद्याधर-विद्याधर- राज-तत्कुमारा ।
२ अमात्या अमात्यपुत्राश्च ।	९ गृह-शाले ।	१८ देशा ।	२७ परित्राजक-कापा- लिक-विद्यासिद्ध- सिद्धपुत्रा* ।	३४ योध-भटौ ।	४० विद्याधरराज्ञी- कुमार्य ।
३ आजीवकश्राद्ध ।	१० ग्रन्थौ ।	१९ द्वीपा ।	२० नगर-नगरी- ग्राम-सन्निवेशा ।	३५ राजमित्रे ।	४१ विद्या-मन्त्रा ।
४ आश्रम* ।	११ चौर- ।	२१ नदी-ममुद्रा ।	२१ नदी-ममुद्रा ।	३६ राज-युवराज- राजपुत्रा ।	४२ विमाने ।
५ उद्यान- वनारण्यानि ।	१२ तीर्थम् ।	२२ नरका ।	२२ नरका ।	३७ राश्यो राज- कुमार्यश्च ।	४३ श्रेष्ठिपत्नी-पुत्र्य ।
६ कर्षक* ।	१३ तीर्थङ्करा ।	२३ नाणकम् ।	२३ नाणकम् ।	३८ वण्ठ ।	४४ श्रेष्ठि-श्रेष्ठिपुत्राः ।
७ कुलपुत्र ।	१४ दूता ।	२४ निर्ग्रन्थकुल- जैनधर्मशाखे ।	२४ निर्ग्रन्थकुल- जैनधर्मशाखे ।	३९ ब्राह्मण-पुरोहित- तत्पुत्रा ।	४५ सखी-दास्य ।
	१५ देव-यक्षा ।	२५ निर्ग्रन्था ।	२५ निर्ग्रन्था ।		४६ सार्धवाहः ।
	१६ देवलोक* ।				



## (१) अमात्यपत्नी-पुत्र्य\*

बुद्धिसुदरी सुदरी }	लक्षण सुदत्ता
------------------------	------------------

## (२) अमात्या अमात्यपुत्राश्च

धीघण	वरंग
पुत्रभद्र	विबुह
वधुजीव	साल
बुद्धिसायर	सिरिदत्त
बुद्धमति	सुकृति
मङ्गवदण	सुगुप्त
मङ्गसागर	सुमङ्ग
मङ्गसुदर	सुमित्त
महाबुद्धि	सुदर

## (३) आजीवकश्राद्ध\*

मोहण

## (४) आश्रम

महोदय

## (५) उद्यान-वनारण्यानि

कुसुमरमण	पुष्पसाल
कुसुमागर	विदुजाण
कुसुमुजाण	विज्ञारञ्ज
विदुजाण	सहस्रववण
नटणवण	सिद्धिकर
नागकेसर	सुदसण

## (६) कर्षक\*

सगञ्ज

## (७) कुलपुत्र

सुमेह

## (८) क्षेत्र-क्षेत्रप्रविभागा\*

अड्ढमरह	भरह
उत्तरकुरु	भारह
दाहिनभरहद्व	महाकच्छ
देवकुरा	रमणिञ्ज
पुक्खल	विदेह
पुत्रविदेह	सुकच्छ

## (९) गृह-शाले

अट्टणसाला	वच्चहर
	(१०) ग्रन्थौ
छप्पन्नय	सप्तप्रकरणी
	(११) चौरः
दडवाल ।	

## (१२) तीर्थम्

पुत्रमनोरह

## (१३) तीर्थङ्करा

अणतविरिअ	वीर
जयनदण	सुजस
विजय	सुप्पह
	(१४) दूता*
महुमुह	सुवयण
सुभणिय	

## (१५) देव-यक्षा

अगसिरी	सोहम्म
भूयरमण	

## (१६) देवलोका.

अणुत्तर	महासुक्क
धाणयकप्प	विजय
आरण	सुक्ककप्प
त्रैमाणकप्प	सोहम्म
उत्तरिमोवरिम	हेट्टिमहेट्टिम
बभलोय	

## (१७) देव्य.

आसाकरिया	सरस्सइ
गगा	सिधुदेवी
जालिणीदेवी	

## (१८) देशा

अत्रति	पुड
अग + देम	मणिपिगल
उत्तरवह	वच्छ
कलिग	वल्हीय
किराय	वग
सुरु + देस	विदेहदेस
कोमल	सडिब्भ
तुरुक्क	सिरिमगल
दक्खिणावह	सिधुपार
देवन्दि	सूरसेण

## (१९) द्वीपा

अमय	महुर
कडाहर्दव	रक्खसदीव
चीणदीप	सिहलदीव
जउदीन	

## (२०) नगर-नगरी-ग्राम-सन्निवेशा.

अउज्जा + उरी	}	सुमनयर
अशोउज्जटगी		कोमला
अवन्पुर		गज्जगय
आपानुदी		गण्डर-पुर
उज्जिणी		गयनवाह
कुण्डल		गणसीस

गगातीर

गधाग

चक्कउर

चदाभा

चपा

जयउर

अयत्थल

तामलित्ती

थाणेमर

देवगाल

नदण

नट्टिपुर

पडट्टाण

पठमसड

परमभूमण

पुहडपुर

पुडउर

पोयणपुर

मलय

महापुग

महामाल

महुरा + उरी

मत्तियावड

मिहिला

रयणउर

रयणघण

रायउर

रायजगय

वसतउर-पुर

वगाल

विजयउर-पुर

विजयनगर

विजयवद्धण

विजयावड

विदेहा

विसालच्छ

विसाला

विस्मउरी

वीरपुर

सम्बउर

साणयपुर

साकेय

सागेय+पुर

सावत्थी

सिरिउर

सिरिधण

सिरिमदिर

सिन्धी

सिधुवद्धण

सुग्गाम

सुग्गीव

सुनदण

सुपइट्ट

सुभद्द

सुभोम

सुरसनीय

सुरसुदर

सुग्घिपुर

सुमम्म

सुसीम

## (२१) नदी-समुद्रा.

गगा	लवणोयहि
माइरही	सिधु

## (२२) नरका

धूमप्पमा	वालुगप्पहा
पक्कप्पहा	सद्धरप्पमा
रयणप्पमा-प्पहा	

## (२३) नाणकम्

दीणार

## (२४) निर्ग्रन्थकुल-जैनधर्मशाखे

ससिकुल सेयवर

## (२५) निर्ग्रन्था.

अमियतेअ	रयणायर
ईसर	रवितेय
कणयज्जय	विजय
कमलसेण	सव्वदेव
कुसुमकेउ	संजमसीह
कुसुमाउह	सतिसुरि
गुणसागर-सायर	सिरिचड
गुणसेहर	सिरितेय
जयकत	सिहसेण
जयनदण	सीलधर
घणेस	सुदसण
धम्म	सुमगल
धम्मदेव	सुयसागर
धम्मवसु	सुरगुरु
धम्मसेर	सुरसुदर
नेमिचद	सुहम्म
पठमुत्तर	सुहम्मरिसि
पुरदर	सुदर
पृथ्वीविधु	सूरसेण
सुणिचद	हरिसेण

## (२६) निर्ग्रन्थिन्य

कलावई	चदाभा
गुणसिरी	सुमगला

## (२७) परिव्राजक-कापालिक-विद्यासिद्ध-

सिद्धपुत्रा

चोज्जडवग	सिरिगुत्त
भूयतत	सुसम्म
मतसुत्ति	

## (२८) पर्वता

गणेयमिदि	सुगिरि
वेयट्ट	हिमवत

## (२९) पल्लीपती

कुम	सेह
-----	-----

(३०) प्रदेअ

सुवन्नभूमि

(३१) वौद्धाचार्य

धम्मकित्ति धर्मकीर्ति

(३२) ब्राह्मण-पुरोहित-तत्पुत्राः

आरोग पुन्नसम्म  
कविल रोग  
कविजल विट्ठु  
कूडवडुअ वेयरुइ  
केसव वेयसम्म  
चारायण सुधोम  
देवगुत्त सुसुह

(३३) ब्राह्मण-पुरोहितपत्न्यः

कविला ललिया  
नंदा

(३४) योध-भटौ

चडसीह निकरुण

(३५) राजमित्रे

चउरमइ मडसार

(३६) राज-युवराज-राजपुत्रा

अरिमहण जयसेण  
अवराडय देवपसाअ  
कणयकेउ देवरह  
कणयज्जय देवसीह  
कमलसेण देवसेण  
कित्तिचद नरकेसरि  
कुसुमकेउ नरसीह  
कुसुमाउह नरसेहर  
कुजर निहिकुडल  
गिरिसुदर पडम  
चद पडमरह  
चदज्जय पडमाणण  
चदराय पडमुत्तर  
चदसेण पियकर  
जय पुन्नकलस  
जयतुग पुन्नकेउ  
जयसुदर पुरदर

पुरिसचद

पुरिसोत्तम }  
पुरिसोत्तिम }

पुहडचद

महसेण

महाकित्ति

महावल

महिंदसीह

माणतुग

मेह

रडचद

रयणचूड

रयणसार

रयणसिह

रविचद

रवितेअ

रविमेण

रायसेहर

ललियग

वसत

वसुतेय

विजयदेव

विजयराया

विजयसत्तु

विदुर

विमलकित्ति

(३७) राश्यो राजकुमार्यश्च

उम्मायती

कणगवई

कणयमजरी

कणयसुदरी

कमला

कलावई

कुसुइणी

कुसुमावली

गुणमाला

गुणवई

गुणसेणा

चदमई

चदाभा

वियारधवल

विसाल

वीरसेण

वीरगअ

वीरुत्त

सत्तुजय

समरसीह

सयवल

सम्भ

सिरिकित्ति

सिरिकेउ

सिरिचल

सिरिवाहण

सिरिमेहर

सीहसेण

सुसीम

सुमगल

सुय

सुरवड

सुरसुदर

सुसेण

सुंदर

सुर

सुरगय -

सुरतेय

हरिसीह

हरिसेण

जयादेवी

पडमादेवी

पडमावई

पियमई

पियगुमजरी

पुफमाला

पुफवई

पुफसुदरी

पुरंदर जसा

मणोरमा

महापभा

सुत्तावली

रइसुदरी

रयणमाला

रयणावली

रिद्धी

रक्खणा

लच्छी

वणमाला

वसतदेवी

विजयती

विद्धी

विलासवई

(३८) वण्ठ

विट्ठु

(३९) विद्याधर-विद्याधरराज-तत्कुमाराः

अणगवेग

कणयकेउ

किन्नर

गधव्व

चदगड

जयवेग

जयत

तारवेग

धर

(४०) विद्याधरराजी-कुमार्य

कणयमाला

कणयवई

कणयावली

चंदकता

चदप्पभा

(४१) विद्या-मन्त्रा

अवरोडया

अवसोयणी

चडाली

पडविज्जा

महाजालिणी

पडम

(४२) विमाने

रइसुदर

सई

सयपभा

ससिलेहा

सिरिदेवी

सिरिप्पहा

सुकोसा

सुलक्खणा

सुवप्पा

सूरमई

सूरलेहा

(३८) वण्ठ

विट्ठु

(३९) विद्याधर-विद्याधरराज-तत्कुमाराः

रविकिरण

ससिवेग

सिरिद्धअ

सुमेह

सुरवेग

सुवेग

सूरण

सूरवेग

हरिवेग

(४०) विद्याधरराजी-कुमार्य

सुत्तावली

रयणवई

रयणावली

रविकता

रेवई

(४१) विद्या-मन्त्रा

महावेयाल

महावेयालिणी

रुवपरावत्तिणी

वेउव्वियविज्जा

(४२) विमाने

रइसुदर

## (४३) श्रेष्ठिपत्नी-पुत्र्यः

कमला	वसुहारा
गुणवई	वसुधरा
गुणसुदरी	विजया
जया	विणया
त्रिणसुदरी	सई
तारा	सिरियाएवी
देवई	सिरी
देवी	सीलसुदरी
पठमिणी	सुभदा
पुत्रजसा	सुमगला
महालच्छी	सुमाला
रिद्धिसुदरी	सुदरी
लच्छी	
वसुयत्ता	

## (४४) श्रेष्ठि-श्रेष्ठिपुत्राः

ईसर	धण
कामदत्त	धणय
कुचेर	धणजय
गय	धणेशर
गगाइघ	धघ
गुणसागर	धम्म
गुणहर	धरण
गुणधर	पटमदेव
गुणायर	पुत्रमार
चित्तगय	पुरदर
जस	माइदत्त
जिणरिपय	रयणसचय
जुन्नसेट्टि	रयणसार
दत्त	लौयण
देव	वरुण

वसुदत्त	सिवदेव
वसुपाल	सुदत्त
विट्ठ	सुधण
विट्ठुदेव	सुमद्
विणयधर	सुमित्त
विस्त	सुरसुदर
सवर	सुविट्ठु
मिद्धदत्त-यत्त	सोम
सिरिदेव	

## (४५) सखी-दास्यः

असोगदत्ता	पियगुलेहा
कल्लाणिगा	सुदत्ता
पियकरा	सुसुहा
पियगुदत्ता	
	(४६) सार्थवाहः
वासवदत्त	

३

## तृतीयं परिक्षिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतापभ्रशभापानिवद्धपद्यानां सविषयस्थलनिर्देशः ।

अशुभोदये ।	पत्रम्- पद्याङ्क	तीर्थप्रभावनायाम् ।	पत्रम्- पद्याङ्क	सुनिवन्दनायाम् ।	पत्रम्- पद्याङ्क
उद्यमे ।	१२०- १४८, १४९	दुहितृष्टु से ।	२८- ४५७	शुभोदये ।	२१९- २२७, २२८
कामविकारे ।	४- ३९	धर्मप्रभावे ।	६- ६६	सज्जनवचने ।	१२०- १४६, १४७
कामादिविकारपरीक्षणे ।	९३- १४०	नायक(राजकुमार)-	९७- १६२	सज्जनसयोगे ।	७- ७५
जिन(अर्हद्)दर्शने ।	६७- १०६	रूपवर्णने ।	१०५- ४३, ४४	सत्सारासारतायाम् ।	११- १२८
जिनधर्मे ।	३६, ३७- १२८	नारीदेहवर्णने ।	४९- ४७५	स्नेहे ।	१०९- ९३, ९४
	१६८- १७२, १७३				४३- ४२१

## चतुर्थं परिशिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतस्तुति-वन्दनानां स्थलनिर्देशः ।

	पत्रम्-	पद्याङ्क		पत्रम्-	पद्याङ्क		पत्रम्-	पद्याङ्क
आचार्यवन्दनम् ।	१-	५	जिनस्तुति ।	१८९-	१	वीरजिनवन्दनम् ।	१-	२
उपाध्यायवन्दनम् ।	१-	६	जिनस्तुति			श्रुतवन्दनम् ।	२-	८
श्रुतमजिनवन्दनम् ।	१-	१	(एकस्वरमयी) ।	१०१-२१२	२१६	सरस्वतीवन्दनम् ।	२-	९
जिनस्तुति ।	१६९-१९५	त १९८	मुनिवन्दनम् ।	२-	७	सिद्धवन्दनम् ।	१-	४
„	१७७-	८८ त ९२	„	२१९-	२२७ त २२८			

## पञ्चमं परिशिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां वर्णकानामकारादिक्रमेणानुक्रमः ।

वर्णक	पत्रम्	पङ्क्ति	वर्णक	पत्रम्	पङ्क्ति	वर्णक	पत्रम्	पङ्क्ति
अटवीवर्णनम् ।	५-६	२७-२९, १-४	नगरीवर्णनम्			राजवर्णनम् ।	१०३	१०-१३
कान्तारवर्णनम् ।	९८	१३-१७	„ (तामलिस्ती) ।	१७२	८-१५	„	१२५	९-११
गुरुवर्णनम् ।	२६	१०-१९	„ (अउज्जा) ।	२०६-२०७	८-१८, १-५	„	१३१	२४-३०
श्रीधमवर्णनम् ।	१९०-१९१	२०-२७, १-२	नदीपूरवर्णनम् ।	५८	२०-२३	„	१३८-१३९	१७-२२, १-२
जम्बूद्वीपवर्णनम् ।	७	१८-२२	नारीदेहासागता- वर्णनम् ।	२११-२१२	२२-२९ १-४	„	१५५	८-११
जिनमन्दिरवर्णनम् ।	७९	२२-३१	रूपप्रसाणवर्णनम्			„	१७२	१६-२१
देववर्णनम् ।	२६	३-८	(पितृनगर प्रति) ।	५७	४-१०	„	१८९	२०-२३
देशवर्णनम्			पाणिग्रहवर्णनम् ।	११	१३-१७	राज्ञीवर्णनम् ।	३०	१५-१६
(सिरिमगलदेस) ।	३	९-१०	पाणिग्रहणोत्सव- वर्णनम् ।	१०७-१०८	२८-३०, १	„	८१	१५-१८
„ (मणिपिंगलदेस) ।	३०	४-५	वर्णनम् ।	१२९-१३०	२४, १-५	„	१०३	१४-१६
„ (अगदेस) ।	१८९	४-१०	वर्णनम् ।	१३४	५-१०	„	१२५	१२-१३
„ (कोसलदेस) ।	२०६	४-७	प्रमदवनवर्णनम् ।	१९१	३-१०	„	१३९	४-६
धर्मजागरिकावर्णनम् ।	२८	१०-१४	प्रियाविरहवर्णनम् ।	८	६-११	„	१७२	२२-२५
नगरवर्णनम् (सखडर) ।	३	११-१८	भरतक्षेत्रवर्णनम् ।	३	१-३	„	१८९-१९०	२४, १-३
„ (देवसाल) ।	४	२१-२६	राजकुमारजनमोत्सव- वर्णनम् ।	२७	१८-२४	„	२०७	१३-१५
„ (पोतनपुर) ।	३०	६-११	वर्णनम् ।	१३९	२१-२४	राज्ञीयुतराज्ञौ नगरप्रवेशवर्णनम् ।	२७	६-१३
„ (गज्जणय) ।	१३८	६-१६	राजकुमारदेहवर्णनम् ।	१०५	२३-२७	वर्षावर्णनम् ।	५८	७-१६
„ (पुडडर) ।	१५५	१-७	वर्णनम् ।	१३९	२१-२४	„	१९३	८०-८७
नगरीवर्णनम् (चपा) ।	३३-३४	२७-२८, १	राजकुमारदेहवर्णनम् ।	१०५	२३-२७	वसन्तवर्णनम् ।	३१	१२-२१
„	१८९	११-१९	वर्णनम् ।	५७	१३-१६	„	१०४	१७-२६
„ (महुरा) ।	६०	४-९	राजकुमारग्नगरप्रवेश- वर्णनम् ।	५७	१३-१६	वृद्धदेहवर्णनम् ।	१३१	८-२०
„ (आयामुही) ।	८१	५-११	वर्णनम् ।	३-४	१८-२०, १-२	शरद्वर्णनम् ।	१३२	४-१२
„ (सिन्धी) ।	१०३	१-९	वर्णनम् ।	३०	१२-१४	स्वयवरमण्डपवर्णनम् ।	७०	११-१३
„ (मिहिला) ।	१२५	५-८	वर्णनम् ।	८१	१२-१४	„	८४	२१-२४
			वर्णनम् ।	८१	१२-१४	सूर्योदयवर्णनम् ।	८	३-४

## षष्ठं परिशिष्टम् ।

## पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतसुभाषितपद्यानामकारादिक्रमेणानुक्रमः ।

पद्यादि	विषय	पत्रम्- पद्याङ्कः	पद्यादि	विषय	पत्रम्- पद्याङ्कः
अश्चलह पि अद्दुल्लह	कन्यादाने	१४२- ५६	उल्लसियतेयपसरो	तेजस्विनि	८- ७८
अकयसुकया अणेगे	अशुभोदये	७७- २७१	उभुजइ पुव्वकय	कर्मोदये	१९२- ६८
अकलक दिणभुत्ति	रात्रीभोजननिषेधे	१३३- १५७	उवयार उवयारीण	नि सत्त्वे	९२- १३९
अह्वियद्वार्हिडण-	कर्मविपाके	७७- २६९	उवरिमुवरि नियतो	लीभ-सन्तोषयो	१२०- १५१
अड्ढाण दरिहाण य	अपत्यस्नेहे	५७- ६७२	उव्वहउ पुरिसत्राय	पुरुषार्थे	९८- १६८
अणवरयझरतामुड-	नारीनितम्बामारतायाम्	२१२- ८६	एगस्म पाणनासो	मृगयानिषेधे	१४३- ७३
अत्यन्नाएण सरीररक्खण-	शरीररक्षणे	१३५- २१४	एग जस्म कन्तं	एकपत्नीव्रते	११९- १३८
अज्ञाणदिमिमोहेण	अज्ञाने	१७५- ४९	एगतदुक्खनिलए	संसारस्वरूपे	१९३- ७५
अज्ञाणटोमा पुण जे भणति	चारित्रनिन्दके	२९- ४९०	एगो हरी करी वा	सन्तोषे	५९- ७०८
अज्ञाण चिय कट्ट	अज्ञाने	२२- ३४८	एइया वा महुराहर-	प्रियाविरहे	८- १८२
अपरिगमहाण जा होइ	अपरिग्रहे	११९- १४०	कज्जसहे इयरम्मि य	सुजने	८३- ३८
अमराण माणवाण य	गुणिनि	७३- २०२	कड्ढटि गुरु पि भरं	एकवाक्यतायाम्	१९- २७९
अवमाणकारण चिय	सन्तोषे	७५- २३१	कड्ढिज्जति गइदा	/सुजने	४७- ४२५
अवयारसयाणि वि पम्हुसति	सुजने	४८- ४४०	कणयस्म गुणो कसत्रट्टयम्मि	योस्यतायाम्	१४०- ४०
अविहयडच्छापमरो	लोभे	१२१- १५४	कयवगविष्पओगो	त्रिप्रयोगकारिणि	१४३- ७१
अव्वणणेगभोगगसगया	देवपूजायाम्	६४- ६०	कर-चरणडेयण सूल-	अदत्तादाने	११४- १२१
असुडअमारेसु असासएसु	विषयासारतायाम्	२१५- १४२	करिणो सिणीहि वग्गाहि	नारीमङ्गे	२०८- ४०
असुहक्खएण घणिय	सन्मार्गादरे	६५- ७७	कस्स थिरा रायसिरी ?	कर्मविपाके	१६०- ६८
अगीराउममत्ता	विषयासक्तौ	१५१- २१०	कट्टि-कट्ट-कुथू-[गाथादिक्रम]	रात्रीभोजनदोषे	१३३- १५४, १५५
अगुट्टिय गुण सज्जणहं	सुजने	९१- १२९	का तस्स छेयया ? का	गुणिवहुमाने	१०- १०९
आओवमाणपरिगणिय-	ऋषौ	१७९- ११९	काम कामकिलतगत सोया-	कामे	६७- १०६
आयज्जपूरियसरो	निर्वेदे	१३६- २३३	कामाऽऽरभ-परिगमहगहपरा	मुनिनिन्दानिषेधे	१८७- २११
आयासहिं अप्पाणु नाहिं	शुभोदये	१२०- १४७	किवि भुजहि वर रायलच्छि	शुभाशुभोदये	१०९- ९३
आरभिणो कामगुणेषु गिद्धा	साधुनिन्दके	२९- ४९१	कि एत्तो लज्जणय	मृगयानिषेधे	१४२- ६६
आवइगय पि सुहयइ	अपत्यस्नेहे	१४- १८५	कि होही सा राइ	प्रियाविरहे	८- ८१
आवइमहस्मकसवट्टएसु	पौरुषे	९७- १६५	कि कुणइ चल चित्त	कर्तव्यनिष्ठे	१८०- १३१
आसासिज्जड चक्को	देवे	२१४- १३७	कि कुणउ पडिय-सुणिय	पठितमूत्रे	२०- ३०३
इट्टविओगोऽणिट्टागमो	समारदुःखे	७२- १९४	कि जीविण ? कि वा	शरणदाने	१६०- ५८
इट्टविओगो रोगो	दारिद्र्ये	१८२- १५७	कि तीए सिरीए सुधीवराए छज्जाए	कृपणधने	२२०- २५५
इदियविजओ आरभवज्जण	दिनभोजनगुणे	१३४- १६२	कि तीए सिरीए सुधीवराए जा मदिरिसु ,,		१६५- १४६
ईसि पि लद्धपसरो	प्रमाद-धर्मयो	१०८- ८५	कि न गमिज्जइ कालो	अनुचितानुरागे	७५- २२९
उच्चिट्ट चट्टि पिव	परदारविरमणे	३२- ३३	कि पेम ? को व पिओ ?	निर्ग्रन्थीप्रशंसायाम्	७५- २३६
उत्तमकुल्ले वि जाया	नारीनिन्दायाम्	८५- ७३	कि वा कुल्लुगयाण	कुल्लजे	१०- ११४
उत्पत्ती सुयणाण	परोपकारे	३४- ५०	कीरउ परिगमहस्स वि	परिग्रहपरिमाणे	११९- १३७
उत्पाडिज्जण गरुय	सममपालने	१८०- १३३			

पद्यादिः	विषय	पत्रम्- पद्याङ्क	पद्यादिः	विषय	पत्रम्- पद्याङ्क
कुप्पहा वह्नो जेण	विपरीतधर्मे	१७५- ४४	छज्जइ नहउच्छगे	भार्यासाहचर्ये	२००- २१५
कुलगिरिसमुच्चमन्नाण	पात्रस्नेहे	७- ७०	छज्जइ माणो तेओ[गाथाद्विकम्]	शीलवत्याम्	११७-१३०,१३१
कुमलासयहेउओ	पुण्ये	६६- ९३	छदमणुयत्तमाणो	दरिद्रे	१८१- १५२
कुसुमियत्तिलपिजो इव	निर्वन्दे	१३६- २३४	छायालच्छो तुच्छा	शक्यसेवास्तुतौ	१६५- १४७
केरिसओ सो भिओ	दासे	२०- ३३०	छुहियाण भोयणम्मि व	अनुरागे	७२- १८०
को अद्भारु समत्यहँ ?	रक्षमे	४- ३९	छूढ सजमकोट्टे	तप-सयमयो	३८- १७०
को उत्तमाण माणो	पितृजनपरिभोगे	९८- १६७	जइ कइवि कम्मदोसा	विघ्नानालम्बने	१८०- १३६
को एत्थ निघमुह्निओ ?	अनित्यतायाम्	१५- २००	जइ कोइ कम्मदोसा	सयमस्खलनानालम्बने	१८०- १३५
को कस्स मया जणओ ?	एकत्रभावनायाम्	२०३- २७५	जइ वि न दीमइ पयढा	धनवति	९२- १३२
को कस्स सुओ ? को कस्स	"	२०९- ५२	जई वि मणुञ्जा कन्ना	कन्यादाने	१४२- ५७
को किं कुलाभिमाणो ?	धरणदाने	९०- १२७	जग्गइ सुपसुत्ताग वि	धर्मे	१८५- १९५
को जज्जरेड कुमे	असत्प्रायश्चित्ते	१३५- २१३	जत्तियमेत्तो लोहो	लोभ-सन्तोषयो	१२०- १५०
को तत्तो पावयरो	धर्मनिषेधके	१८०- १४१	जत्तो जत्तो वच्चइ	दैवे	१४१- ४९
को तरड हंत हरिउ	शुभालुभोदये	१९५- १११	जत्थइत्थमेइ तरणी	शूरे	३३- ४३
को नाम गुणमरट्टो	अपुत्रत्वे	६०- ८	जम्म-जर-मरणनीरे	धमे	७७- २६६
को नाम नरडुरिट्टय-	देहादाने	९८- १६६	जम्म-जर-मरणवेयण-	ससारासारतायाम्	१९२- ४६
को नाम पुरिमयारो	मृगयानिषेधे	१४३- ७२	जयड जिणकण्णसालो	कामत्यागे	६९- १३४
खज्जइ चढप्फडतो	अगहायदशायाम्	१४५- ११५	जयड जिणवयणगसीर-	जैनधर्मे	१३८- १
खण्डसियरायरमा	पुरुषनिन्दायाम्	१४- ११६	जयइ जिणाणा गगा	जिनप्रवचने	२०६- १
खण्डसंजोत्र-विओए	ससारासारतायाम्	१९२- ४७	जयणाए वट्टमाणो	"	१७२- १
खेडज्जइ चल्ल अण्णा	देहासारतायाम्	२०९- ५०	जयणा उ धम्मजणणी	"	२९- ४७७
भउज्जकुरगोराण	गणिकानिन्दायाम्	९२- १३३	जयपयउ जइवग्ग	यतिद्वेषिणि	१८०- १४८
भज्जति मिय महुरं वरिसति	सौजन्ये	९- ९९	जइ वि हु पत्थिति परं	धनवति	९२- १३१
भयरोय-सोय-दोहग्ग-	जिनधिम्मनिर्माणे	६४- ५९	जरिओ त्ति मओ मूढो	विघ्नानालम्बने	१८०- १३७
भरुयाण चिय भुवणम्मि	धारे	४७- ४२५	जह दुलइ कप्पतरु	विषये	३८- १६१
भरुयाण चिय त्रिवयाओ	धारे	१२८- ६६	जह पत्थणालसाण	धर्माचरणे	३८- १६७
भिन्हुम्हसोमियाण वि	धैर्य	४८- ४४६	जह पीडेइ हणतो	अदत्तानादाने	११४- १२०
भीय पलावपाय	त्रिरक्तौ	२०९- ४९	जहि जम्मण-जर-मरण-रोग-	धर्मश्रवणे	१०९- ९४
घणगुणरसपुञ्जाइ	श्रीदत्त्वे	१०- ११८	जहि जिणप्य जिणिदभत्ति	तीर्थप्रभावनायाम्	२८- ४५७
घेत्तध्वमप्पदोस	दोषविवेके	१३३- १५२	ज काऊण वि पाव	दुर्जन-सुजनयो	४८- ४५७
घेपति सुहेण चिय	सुजने	१९- १२६	ज गम्भगया वियलति	हिंसादोषे	११०- १०९
घेपतु घणेण पणगणाओ	सद्भावे	२००- २१२	ज छन्न आयरिय	दुःशीले	४०- २०९
चरणपडिवत्तित्रिघ	व्रतान्तरायदोषे	१८०- १४०	ज दुग्गहु ज जं जि दूरि	धर्मे	९७- १६२
चदो गहाण मेरु [गाथाद्विकम्]	जैनधर्म	२- १५,१६	ज न मणोरहविसओ	दैवे	५- ५४
चाएण वलेण परक्कमेण	दैवे	६१- १०	ज पट्टसुय-देवदूस-तसरी-	धर्मे	८९- १२६
चिट्टउ ता सेसज्जणो	स्नेहापाये	२०३- २७४	ज पीम भोगसुह	विषयासारतायाम्	१७०- २०७
चिट्टतु ताव सयणा	देहामारतायाम्	१७९- १२९	ज पुण सोमसहावेसु	मृगयानिषेधे	१४२- ६९
चिरजीवियमारोग	अहिंसायाम्	११०- १०६	जपेच्छया हु पुरिसा	गृह्यौ	४८- ४६१
चित्तानडिओ अवमाण-	दरिद्रे	१८१- १५०			



पद्यादि	विषय	पत्रम्- पद्याङ्क	पद्यादि	विषय	पत्रम्- पद्याङ्क-
ज मङ्गलिज्जइ वमो	परदारविरमणे	४२- २७७	त सज्जन जपति वयणु	सज्जनवचने	७- ७५
ज लोथणेहि वयण	एकवाक्यतायाम्	१९- २७८	ता छेओ ता माणी	नारीसङ्गे	२०८- ३९
जाइयमाहरण पिव	सन्तापे	७५- २३०	ता जिणवयणपरिघ्ना	धर्माचार्यं	१४७- १३९
जाईसराड नूण	अनुरागे	५५- ६३४	ता जीवहँ बहुदुक्खलक्का	जैनधर्मे	१६८- १७२
जाएसु जेसु जणओ	कुपुत्रे	१९२- १३२	ता हुत्तगे नईमो	पुरुषार्थं	६१- ११
जाणति पिय चिय वोत्तु-	प्रियवचमि	१०- १२०	ताप सुहओ गडरो	मामर्त्यं	४०- २०६
जायतिय दीणिम जणति	दुहितरि	६- ६६	ता विशरड सच्छदो	ज्ञानपरिणामे	२०२- २६४
जा मोहा किर करिणो	भार्यामाहचर्ये	२००- २१६	तासि सुलद्धं जीय	शीलव्रत्याम्	७६- २३७
जिणनाहम्मि वि नाहे	कर्मपरिणामे	२०२- २४२	ता हीरड हियय निव-	सन्तोपे	२०२- २६३
जिणवयणभावियाण	विरक्तौ	२०३- २७०	तुद्धे वि फळे वत्थु	दोषविवेके	१३३- १५३
जीए चलम्मि खणभयुरेसु	अनित्यतायाम्	६९- १३३	तुगाण मणोदुक्ख	समर्थे	८४- ३९
जीवाण पुण घाओ	हिंसादोषे	११०- १०८	तुगा मायगपूगा सुतरल-	पुण्योदये	१७४- ३३
जुज्झइ जणएण सम	दासत्वनिन्दायाम्	१३- १७२	तुदानुडरसपच्चालिय	नार्यधर्गमारतायाम्	२११- ८१
जुत्त च नायतत्तस्म	सुकृते	४८- २४९	ते केड मिलति मही-	सुजने	६- ६२
जुत्तीहि ज न जुज्झइ	दौषे	१४१- ४८	ते चिय सुया सुजाया	मैत्रोनिर्वहणे	३९- १९३
जूय जूइयरो सुर सुरपिओ	व्यमने	१२३- ७८	ते दीणवच्छला इह	महानुभावे	३०- ३४
जे ङण विमयपरम्मह-	विषयनिवृत्तौ	४९- ४६६	ते घना सप्पुरिसा	संयने	७९- २९८
जेठण रणे रिठणो	युद्धनिन्दायाम्	५९- ७०७	ते धीरा साहसिणो	धीरे	४६- ८८८
जेण विणा न हु सक्का	निर्वेदे	१९२- ४८	ते नतिय जए भोगा	विषयपरिहारे	२१५- १५४
जेथु गणतेहि अत्थु वइज्झइ	कृत्रिमस्नेहे	४३- ३२१	थक्काथक्काणामिणि	निर्वेदे	१३६- २३५
जे पुण चवति अलिय	अनृतदोषे	१११- ११६	थभइ खणेण जलण	शीले	२५- ४१३
जे भुजति न रत्ति	रात्रीभोजनविरतौ	१३३- १६०	दया सगस्स सोवाण	अहिंसायाम्	११०- १०७
जे कुणइ नियमभग	नियमभङ्गे	४४- ३२४	दाण पुत्ततरस्म मूलमणह	सुपात्रदाने	३७- १४१
जेदना वि धम्मरयणस्स	धर्माचार्यं	१७७- १३७	दालिइ दोहग्ग	परदारविरमणे	४०- २७८
जे चरइ मणभिरामे	पात्ररागे	३५- ७८	दिट्ठिसिख्खाओ	नारीदन्तामारतायाम्	२११- ८२
जे जाणइ अमरो ह	कृतान्ते	२१६- १६५	दियहाई दो व तिज्जि व	प्रेम्ण क्षणित्त्वे	५६- ६७१
जे जारिमफलजोगो	योग्यतायाम्	१५१- २०६	दिति अवारियसत्तु केवि	शुभोद्ये	१२०- १४६
जे थेवसपयाए	असन्तोपपुष्टौ	१०१- १५५	दीसतासुडजल-जलुस्स-	नारीनयनाधारतायाम्	२११- ७९
जे मन्निज्झइ सयणो	स्वजनकलत्रगौरवे	३९- १९७	दीसति जे पमाए	अनित्यतायाम्	७२- १९३
जे ओक्खफलो धम्मो	धर्म	१६४- १४३	दीसति सुदगा जड	देहासारतायाम्	२०९- ५१
जेयणमय न दूरं	लोभ-सन्तोषयो	१००- १५०	दुपरिच्चयघरणिघरो	देशाट्टने	४- ३६
झडिऊण पल्लविला	धैर्यं	४८- ४४७	दुलह मणुस्सज्जम	धर्माचरणे	३८- १६५
त्तणुत्तित्तिफला भुत्तो	रात्रीभोजननिषेधे	१३३- १५६	दूरनिहित पि निर्हि	कौशल्ये	९- १०२
तण्हाणुगया वप्पीहया	अनुरागे	७२- १८१	देवाण य धम्माण य	देवादिपरिज्ञाने	१४८- १४५
तप्पति तवमणेगे	देवसाधने	९१- १२८	देहगय वज्झमल	बाह्यशुचौ	२२- ३६०
तयमेत्तयुत्तदोसे	नारीकृचासारतायाम्	२११- ८३	देहो धुव विणासी	अप्रमादे	३८- १७१
तवसज्जे सुत्तिसुहे	निर्वेदे	१३६- २३७	दोग्गइमूलं अयसस्स	परदारविरमणे	५३- ५९०
त जपति सुपुरिसा	मर्यादायाम्	१४५- १११	दोसे वि गुणे चिय पर-	सुजने	१०- १९९
त दाण त च वय	अहिंसायाम्	११०- १०५	घन्नाओ ताओ मन्ने	निर्घन्थीप्रशसायाम्	७५- २३५
तं नत्थि ज न सिज्झइ	शीले	२५- १५	घन्नाण सुप्पसन्ना	गुरूपदेजे	२०२- २४७

पद्यादि	विषय	पत्रम्-पद्याङ्क	पद्यादि	विषय	पत्रम्-पद्याङ्क
धम्मस्स ताव मूल	अहिंसायाम्	११०- १०४	परमेष्ठिनमोक्षारो	धर्म	१३५- १९३
धम्मणे एगच्छत्त	धर्म	१०८- ९१	परलोयम्मि दरिहा	अदत्तादाने	११४- १२२
धम्मणे धणमणत्त	"	२- १४	परिनिव्वविति मेघा	साधूपमाने	२०१- २३६
घावत्त-खलत्त-पडत्तयाड	सन्ततौ	६०- ९	पसयच्छि । रडत्रियक्खणि ।	प्रियात्रिरहे	३४- ७३
धीरेहिं कायरेहि य	धर्म	४६- ३८७	पहरड रणे पुरत्थ	पुण्योदये	९१- १३०
न चयड मेरं सुयणो	शीले	४३- ३१४	पहरत्ते सत्तुगणे	धर्म	१०८- ८७
न जियड सुह विहगो	निर्वले	१९४- ८९	पहु सेवहि वाणिज्ज करहि	अशुभोदये	१२०- १४८
नज्जनि चित्तमासा	देशाट्टने	४- ३७	रयणायरु लघहि	समानशीले	५३- ६०३
न तहा ञ्णड अणत्थ	मनीपीडने	५३- ६०९	पाएण सपओगा	पापकरणनिषेधे	१७९- १२८
न तहा तवेड तवणो	अविचारिकायं	१६- २१३	पाव करेड मूटो	शुभा-शुभोदये	२४- ३८६
न तहा दिट्ठसरुत्ते	आकर्णनोत्पन्नरागे	३४- ६६	पाविण होड दुक्क	आत्मघाते	२३- ३७५
नमिओ गुरुवुद्धीए	ससारस्वरूपे	२०३- २७८	पासाए वमरी मही वसगया		
न य खलणामेत्तेण वि	प्रायश्चित्त	१८०- १३४	तारं तहत्तेउरं	धर्म	८९- १२५
न य घेतव्व सव्व	अदत्तानादाने	११४- ११९	त्रियजीवियाण जीवाण	हिंसादोषे	१७९- १२७
न य भोगसुहासाए	वर्मविवेके	२१६- १५७	पियदसण-रण-जस-जीवियाण	सुजनसमागमे	११- १३८
नरेसु न चिर थिरा			पियपणङ्गीण पुरओ	शौर्ये	५५- ६५२
खयर-किन्नराईसु वा	भोगासारतायाम्	१३२- १४१	पिसियट्टिमरियमत्था	नार्युवमारतायाम्	२१२- ८७
न हि पत्तियति पावा	दुर्जने	५२- ५७३	पीडलत्रो पुण विसए	सन्मार्गादरे	६५- ८२
नाएण ज न सिद्ध	अन्याये	५०- ५१४	पुत्त-कलत्त सुहि-सयण-	द्वैवे	१९२- ४९
नाम पि भवत्तरवडहस्स	वज्रमे	७३- २०१	पुरिसेण माणरणवज्जिएण	दरिद्रे	१८२- १५७
नाम पि सुय पडिरुवय	अनुरागे	६२- २६	पेच्छड खूणमयाड	रागान्धे	१८- २६०
निच्चपरिकम्मरम्म	नारीवदनामारतायाम्	२११- ८०	पेच्छड दुद्ध मुद्धो	पापिनि	१७९- १२३
नियगरिमगुणेण सुणति	उदात्ते	५१- ५६४	पेच्छड लुद्धो दुद्ध	विषयासक्तौ	१००- २०४
नियमच्चाया टेहो	नियम-टेहविवेके	१३५- २१६	घज्जति गडदा पन्नगा	द्वैवे	१५८- ३०
निग्गतूण गिहाओ	देशाट्टने	१७६- ७४	घज्जति मुक्खविहगा	सद्भावे	३९- २०३
निरएसु तिव्वदुक्खं	परदारविगमणे	४२- २७९	यहिरध-काण-खुच्चा	हिंसादोषे	११०- ११०
निरुवमसुहसताणे	निर्वेदे	१३६- २३६	वभवयममड्घोर	मोक्षोपाये	१५१- २०९
नेहस्स फलमिण चिय	कन्यादाने	१४२- ५८	भणियव्व निच्च सच्चमेव	सत्ये	१११- ११३
नेहेण तिला वि सहति	स्नेहदोषे	२०३- २७३	भद् कुल्लगणाण	शीले	१७- २३८
नेहो सारो रड्कीलियस्स	सद्ध(व-स्नेहयो	२००- २११	भद् ते देव ! जेणं	पियाविरहे	८- ८०
पच्चुवयारनिरीहा	मुनौ	२०१- २३७	भद् सज्जणचदण-	सुजने	४८- ४३९
पच्छाडज्ज तेओ	अमहायपरिहारे	१४५- ११६	भयकायराण सरण	धीरे	१६- २०९
पज्जलिओ वि पयाम	शूरे	३३- ४४	भरियभुवणतरेहिं वि	गुणग्राहिणि	१०- १२५
पडड अथक्के सव्वत्थ	मरणे	७७- २६७	भरिय भडागारं	अर्थमन्धयपरिहारे	५९- ७०९
पटिओ अगाहनीरे	धर्म	१०८- ८६	भिच्चेहिं धण रक्खह	आत्मरक्षायाम्	४०- २१३
पडम चिय रोमभरे	कोपनिषेधे	२०- ३३१	भुज्जता महुरा विवागविरसा	भोगासारतायाम्	१३२- १४०
पणइए जो पसज्जड	नीतौ	१९४- ९७	भुत्ता य घरिणिभूया	ससारस्वरूपे	२१५- १५३
परदव्वहरणविरसा			भुत्तो छुहाइरेगा	"	२०३- २७७
[ गाथाद्विक्रम ]	अदत्तानादाने	११४-१२३,१२४	भुवणचन्नुयभूया	गुणिनि	७३- २०२
परपीडाकरणाओ	परपीडा-प्राणहरणयो	१४३- ७०			

पद्यादिः	विषय	पत्रम्-पद्याङ्कः	पद्यादि	विषय	पत्रम्-पद्याङ्कः
भुजतो परदारं	परदारविरमणे	४४- ३४४	लज्जति महासत्ता	शूरे	१४२- ६३
भोगन्गहगहगहिया	विषयासक्तौ	१०० २०३	लब्धन्ति दिव्यभोगा	सम्पत्तौ	२६- ४२१
भोत्तूण सुदिसुन्दरे सुरवहू-	भोगासारतायाम्	१३३- १४२	लुब्धो धनेण रमणीहिं	असन्तोषे	१७- २२९
भो भो भावेह फुड	निवदे	१३६- २३१	वचति सिव तिविद्य	धर्म	१०८- ९०
मइलड विमल पि कुल	परदारविरमणे	३२- ३२	वज्जन्तो अन्नकह	दग्धि	१८१- १५१
मगति विन्दिह्या जह	,,	४४- ३४८	वत्थाऽऽहरणाऽऽगर-	नारीदेहामारतायाम्	२१२- ८८
मणि-रथणकिरणउज्जोइएसु	जिनमन्दिरनिर्माणे	६४- ५८	वरमिह विसमुवभुत्त	इन्द्रियदगे	४८- ४६२
मणुया वि पेच्छ निघ	इन्द्रियपारवश्ये	४८- ४६४	वसणागमि न विसाउ मणि	माहमिके	१८३- १६२
मत्ता वि बहुगइदा	सामर्थ्ये	१४५- ११८	वम-मम-हट्ट-सोणिय-		
मत्तो वि मयारिगणो	,,	१४६- ११९	[गाथापद्यम्]	देवमारतायाम्	४१-२५१ त २५५
मन्नइ असुड पि सुइ	अज्ञाने	२२- ३४६	वमह-गय-तुरगाण	गुणागुणतारतम्ये	१४८- १४४
मयलुद्धमुदमहुर-	धर्मे	१०८- ९०	वाया सहस्रमइया	मुज्जने	४०- २०४
मरणम्मि धुत्रो विरहो	आत्मघातनिषेधे	१८५- १७८	विटसाण कुलीणाण	सख्ये	३८- १५१
मरण खु सउस्सास	दारिद्र्ये	१८२- १५४	विणयविणयाण थडूटा	रागान्धे	१८- २६१
मरणे अवस्सभाविणि	विलासत्यागे	६९- १३५	विणयाओ गरुधत्त	विनयादौ	९७- १६१
मल्लिणी वि अण्णिती	कामे	१८- २५९	वियरंति नावयार	सत्ये	१११- ११५
मसट्टिनिम्मियाओ	नारीभुजामारतायाम्	२११- ८४	विल्लत्तति टिटि एगे	समारारतायाम्	१७०- २०५
मा कृणह कालहरण	प्रमज्ज्योपदेशे	१५३- २५३	विमएसु नत्थि सोक्ख	विषयामारतायाम्	२१२- ९४
मा मा मा हु पमायह	प्रमाद-धर्मयो	१०८- ८४	विसम कज्जारभ	अमात्ये	७१- १७४
मायग-भीण-पन्नग-	इन्द्रियपारवश्ये	४८- ४६३	विसयम्मि पीइलेसो	सन्मार्गादरे	६५- ७९
मायगा गिरिसिगतुगतणुणो	धर्मे	८९- १२४	विसयविसरुक्खेसु	विषयासक्तौ	१७५- ४७
मित्तरुवेहिं धुत्तहिं	परमार्थधूर्ते	१७५- ४८	विसयसुह निस्सार	मोक्षप्राप्तौ	२८- ४५९
मिती परोवयारो	मुज्जने	३९- १९९	विसयाण कए मूढा	विषयासक्तौ	४९- ४६५
मुत्तत-पित्त-जवाल-	नार्तुदरासारतायाम्	२१२- ८५	विसयाभिमलद्धमणा	,,	७७- २६८
मुचति साणुराय	कामे	१८- २५८	विसहरमिरे वि वुत्थ	गुणिनि	१८३- १६६
मुचति सिरिं तुरिय	विरक्ते	१००- १९७	विहडति निविडघडिया	प्रमाद-धर्मयो	१०८- ८८
मूया अणिव्वयणा	अनृतदोषे	१११- ११७	विहलियसुयणुद्धरणे	निर्माल्ये	८४- ४०
मोहधयारनडिया	मोहान्ध	१७८- ९८	विहिसार कीरतो	द्रव्यस्तवे	६४- ६१
रज्जति जाव कज	कृत्रिमस्नेहे	१४- १९५	विहुरगयाण वि जेसिं	परमेष्ठिनमस्कारे	१९२- ६१
रज्जति धणेसु पणगणाओ	गणिकानिन्दायाम्	९२- १३४	विहुरे वि गया धीरा	आत्मघातनिषेधे	१८५- १७७
रणे वणे वडरिगणाण मज्जे	धर्मे	१८५- १९४	वेल्लहल्ला-सल्लइ-	उचितानुरागे	७५- २२८
रमड निकाम कामाडरेण	नारीदेहासारतायाम्	२११- ७८	व्यवसाय विदधात्यन्य	देवप्राधान्ये	११६- १२६
रजइ सउणे महुर-	सौजन्ये	९- ९८	सुग्गु घरगणु भोक्खसोक्खु	जैनधर्मे	१६८- १७३
रुजड एगेसि घरे	निर्वेदे	१७०- २०४	सच्च वामो कामो	कामे	४९- ४८३
रूव कलाकलावो	सुपात्रदाने	३७- ९४०	सच्छ पि फलिहरयण	दुर्जनचेष्टिते	३५- ८१
रूव कुल कलाओ	स्नेहे	८५- ७२	सज्जाय-ज्ञाण-तवसुट्टियाण	विरक्ते	१८०- १३२
रोहणु खणहिं वमति घाड			सद्धम्मकप्पपायव-	परमेष्ठिनमस्कारे	८९- १२२
देवय आराहहिं	अशुभोदये	१२०- १४९	सप्पाकणतर्किक्किणि-	धर्मे	१०८- ८९
लुच्छी करिकलचला	अनित्यतायाम्	७२- १९२	सब्भावी सव्भावियजणम्मि	विचक्षणे	१६३- ११०
लज्जड छणम्मि न मिलइ	दरिद्रे	१८१- १५३	सब्भावेण वहति संजमसर	मुनिनिन्दानिषेधे	१८७- २१०

गाथादि	विषय	पत्रम्-पद्याङ्क	गाथादि	विषय	पत्रम्-पद्याङ्क
सरियाण नरिदाण	नीतौ	३२- २९	सी-उन्ह-तन्हपमुह[गाथाद्विकम्]	मृग्यानिषेधे	१४३-७४,७५
सरूत्र सुद्धमगस्त[गाथात्रिकम्]	जैनधर्मस्वरूपे	१७५-५२त ५४	सीलड्डाण जणाण	शीले	२५- ४१४
सलह्विज्जइ जियलोए जम्मो	परोपकारे	३४- ४९	सीलविउत्ता सत्ता[गाथात्रिकम्]	दु शीले	११७-१३२त १३४
सव्वस्म सच्चवाई	सत्ये	१११- ११४	सील कुल्लुधइकर	शीले	२५- ४११
सव्वं चिय सुहदुक्ख	शोकपरिहारे	४८- ४४८	सील दोगइमहण	,,	२५- ४१२
सव्वो जणओ सव्वो	ससारस्वरूपे	२०३- २७६	सुट्टु वि कयावराहे	शरे	१४२- ६८
सव्वो मुव्वकयाण कम्माणं	कर्माविपाके	२५- ३९९	सुट्टु वि पियस्स विरहे	प्रेम्ण क्षणिकत्वे	१०९- ९८
सव्वो भणाइ महुर पुरओ	स्नेहे	९- १००	सुद्धे वि दले पडिमा	धर्माचार्ये	१४७- १३८
सह कोज्जरोहि गिरिणो	सुजने	१२८- ६८	सुहि-सयणसपओगा	निवेदे	१३६- २३२
सहजाय पि सिणेह	दुर्जन-सुजनयो	१६२- ९४	सुयइ सुह गयराओ	रागे	३६- १०३
सजोगओ विओगो	सयोग-वियोगयो	१८५- १७६	सुयणाण निद्धणत्त	प्रजापत्युपालम्भे	२२- ३४४
चधुणइ विणयपणओ	दासे	९- १०१	सुयणो सरलो विउसो	सुजने	३३- ४५
सदेसगस्स लक्खं	वल्लभवचने	१७- २४६	सुलहाओ विवयाओ	निवेदे	४६- ३८५
सपत्तीसु पमोओ	निवेदे	४६- ३८६	सोयति महिलियाओ	साहसे	१२४- १६७
सपाइमसुहुमतसा	रात्रीभोजननिषेधे	१३४- १६१	हय-गय-कोस-वसुन्धर-	मोहान्धे	२११- ७७
ससारविसमविसपायवस्स	ससारसारतायाम्	१८३- १६४	हद्धी अणत्थजणओ	अर्थनिन्दायाम्	५९- ७०१
सायर-निसायराण	भैत्रीनिर्वहणे	३९- १९४	हारेइ खणेण जिओ	विषयासक्ते	१५३- २३७
साहुविहाराभावे	मुनिविहारे	१४७- १४०	होइ अमयाओ अहिओ	अभिनवस्नेहे	२०९- ६६
सिद्ध पि महाविज्ज	प्रमादे	३८- १६६	होति पओसो विसए	सन्मार्गद्वेषे	६५- ७८
सिसिरच्छाओ वि तुमे	उदुम्बरवृक्षे	१८२- १६०			
सिगारवुडिटजणणी	देवार्चने	८- ७९			

## ससमं परिशिष्टम् ।

पृथ्वीचन्द्रचरितान्तर्गतानां सूक्तिरूपाणां गद्य-पद्यांशानामनुक्रमः ।

सूक्ति  
अइसुत्तस्स वि जग्गइ नरस्स पुव्वज्जिय पुञ्ज ।  
अक्के रक्खो, वडे जग्खो ।  
अखलियसीलाण जओ जणयइ मरण पि सुहमेव ।  
अणुभूयवेयणो खिय जाणइ परवेयण जणो पाय ।  
अणुमरइ जए को वा सुपिए वि गए परासुत्त ? ।  
अणुमाणमतर्गे परोक्खगुणवज्जण नेहे ।  
अप्पेइ पन्नगो किं जीवतो मत्थयाभरण ? ।  
अमए वि निप्पिवासो पियइ विस को वि किं विउसो ? ।  
अमराण माणवाण व गिज्जति गुणा मयक्करघवला ।  
अलघणीयवणो गुरुयणो ।  
अलियसुहासानडिया पढति वयणे कयतस्स ।  
अवगाहिउण जलहिं तिम्मियदेहो किमुज्जियइ ? ।  
अवयारकारणम्मि वि कारुणिया सज्जणा हुति ।  
अवराहेसु गुणेषु य निमित्तमेत्त परो होइ ।  
अव्वो ! साहसभरिय उत्तमचरिय महच्छरिय ।  
असुहस्स कालहरण सेय ।  
अहवा, अमग्गिय चिय लहति सोक्ख जिणमयत्था ।  
अहवा, महाणुभावा परहियनिरय खिय हवति ।  
अगुट्ठियगुणनिहिणो ठाण सुयणस्स किं हरइ ? ।  
अधस्स कूवपढणे को देइ वुहो उवालभं ? ।  
अधस्स खुलियपढणे को अवराहो वरायस्स ? ।  
अघाण पुरो तेउज्जलो वि किं दीवओ कुणठ ।  
आसावराहविहुरा सकति असंकणिज्ज पि ।  
आयास-किलेस-महाविरोहअणण खु परदार ।  
आया हु रक्खियव्वो सव्वपयत्ता ।  
आरंभा पुज्जविवज्जियाण कत्तो फल देति ? ।  
आवइपडिया सुयणा सुयणेहिं समुद्धरिज्जति ।  
आसानडिया पुरिसा वासाण सय पि विसहति ।  
इय, खलखोलाओ खल्ल खलिय अक्खलियचरियस्स ।  
इह-परभवसुहअणणो पहाणमतो नमोक्कारो ।  
इंदियवसेण मूढा लहंति वह-अध-मरणाइ ।  
ईसिं पि लद्धपसरो कुवियपुयाइ व्व पीडइ पमाओ ।  
उच्चिद्ध चट्ठिं पिव परनारिं परिहरंति सप्पुरिसा ।  
उच्छलियलुहो को वा मिट्ठामिट्ठ वियारेइ ? ।  
उत्तमकुले वि जाया महिला पाय अणुत्तमे रमइ ।  
उत्तमजणाण नूण न अज्जहा होइ पडिबज्ज ।  
उत्तमजसा हु सुयणा नियकुलमेरं न लघति ।

वियय'	पत्रम्-पङ्क्ति
शुभोदये	११-१०
रक्षो-यक्षस्थाने	१-टि० १
शीले	३६-१
समवेदने	१८ २
रागपरिहारे	१८५-११
स्नेहे	१-८
स्वमाने	४०-९
विरक्तौ	२१५-१५
गुणे	७३-२०
गुरुजनगौरवे	१२७-५० २६
कल्पितसुखासारतायाम्	४८-२८
अगण्यकृष्टे	१९३-९
सज्जने	४७-११
माध्यस्थ्ये	२५-५
उत्तमे	१००-८
कालक्षेपे	१६-५० २२
जैनधर्मे	४५-२४
महानुभावे	२०१-२७
गुणप्राधान्ये	१८३-१७
अज्ञाने	४८-२५
,	१५३-११
,	२०-१
सदोषे	५२-२७
परदारविरमणे	५३-१३
आत्मरक्षणे	४०-११
अशुभोदये	४९-२४
सुजने	४७-१८
शुद्धौ	४७-४
दुर्जने	३५-१४
नमस्कारमन्त्रे	१०२-८
विषयदुःखे	४८-३०
प्रमादे	१०८-१७
परदारविरमणे	३२-१२
क्षुधि	०२-६
नारीनिन्दायाम्	८५-३०
वचनपालने	४९-२०
कुलजे	३९-२९

उदन्मि दहनसीले अवणेमो कथ गिम्हुह ? ।  
उपभ्रविलीया खलु वमति भुक्त मणुञ्ज पि ।  
उवभुञ्जइ पुक्कय सव्वो वि जणो सुहासुह सव्व ।  
उवरिसुवरि नियतो विहाइ धणी वि अइदरिहो व्व ।  
उववूह च्चिय उच्चिया चरणाभिसुहाण पुणरुत्त ।  
एगओ वग्घो, अञ्जओ दुत्तही ।  
एगतदुक्खनिलए ससारे को दुहेसु उच्चवे ? ।  
एगतसुहावहा जयणा ।  
ओसहमेग मिट्ट चीय वेजेण उवइह ।  
कज्जम्मि सामसज्जे को दड चडमाडवइ ? ।  
कज्जसहे इयरम्मि य उवयारपरा निसग्गओ सुयणा ।  
कज्जाकज्जविवेगो अभाणीण कुओ अहवा ? ।  
कज्जेहि सच्चविज्जइ पटुम्मि भत्ती सुभिच्चाण ।  
कडिहज्जति गइंदा पके खत्ता महागइदेहि ।  
कत्तो कयाइ जायइ दुक्खयनिरयस्स कल्लण ? ।  
कमलायर पमोत्तु कथ व कमला रइ कुणउ ? ।  
कयवग्गविप्पओगो उज्झइ पियविप्पओगजलणेण ।  
करगज्जे वि पयत्थे सतुट्ठो नाऽऽयरं कुणइ ।  
करिमरिगहणेण परित्थियाओ भुजति नेह भिल्ला वि ।  
करुणेक्करसा सुयणा जुत्ताजुत्त न हि वियति ।  
कस्स थिर पेमसुह ? ।  
कस्स थिरा रायसिरी ? ।  
कस्स व लच्छी अखडियच्छाया ?  
कस्स व विवरीयत्त न होइ भयणेण मूडस्स ? ।  
कस्स व समवर्त्तणा सम पेम ? ।  
कारिज्जइ क्रि रज्ज राया मतीहि वीहदसीहि ।  
किं अमयाओ अन्न क्षरिउ भयलछणो मुणइ ? ।  
किं कस्स सया पिय लोए ? ।  
किं कुच्छिण्ण इमिणा भीमेण भवानुवघेण ? ।  
किं कुणउ पडिय-सुणिय मडविहवविवज्जियाण पुरिसाण ? ।  
किं कुणउ पुरिसयारी नरस्स दइवे पराहुत्ते ।  
किं दुब्बलो वि सीहो गज्जिज्जइ जयुयाइहि ? ।  
किं नाम न कल्लणं जइघम्मो कुणइ भव्वाण ।  
किं लब्भइ वररयणं पडियमगाहे सलिलनाहे ।  
किं वा कुल्लगयाण पुरओ परिजपिएण वहुएण ? ।  
किं वा सुपत्तदाणा जायइ अच्चन्भुय न जए ? ।  
कीरंति राग-दोसोदएण स-परिसि धुइ-नंदा ।  
कुल्लगिरिसमुब्भवाण ठाण रयणायरो हु सरियाण ।  
कुल्लसेलया वि सरिया नीय नीययरमणुसरइ ।  
केरिसओ सो भिच्चो हियाहिय सामिणो न जो मुणइ ? ।  
को अइमार समत्थहँ ? ।  
को उत्तमाण माणो कुल्लकमेणागयाए भूइए ? ।

शरणभये	६८-१९
विरक्ते	१००-१०
माध्यस्थे	१९२-२३
लोसे	१२०-२९
चारित्रोपवृहणे	१८०-१७
किङ्कर्तव्यस्थितौ	९३-पं २९
उद्वेगत्यागे	१९३-९
यतनायाम्	२९-९
अनुकूलप्रसङ्गद्वये	१९०-१९
नीतौ	४३-१८
सुजने	८३-९
अज्ञाने	२२-७
सुदासे	९-९
सुजने	४७-१८
अपात्रे	१६८-७
उचितानुरागे	१०-१४
विप्रयोगकरणफले	१४३-२
सन्तोषे	१२०-३०
परदारविरमणे	३६-२
सुजने	१५९-९
स्नेहक्षणिकत्वे	१५-११
राज्यश्रीक्षणिकत्वे	१६०-२६
लक्ष्मीक्षणिकत्वे	१५-१०
कामान्धे	३४-३६
आयु क्षणिकत्वे	१६०-२६
अमात्ये	१९४-२३
प्रियभाषणे	१०-२५
प्रियाप्रिययो	१९०-२५
निर्वेदे	२०२-३
पठितमूर्खे	२०-१
दैवे	२२-३५४
क्षीणबलसमर्थे	१९४-३०
चारित्रे	१६४-२६
विनष्टकार्ये	१७९-१०
कुलजे	१०-१७
सुपात्रदाने	३७-९
राग-द्वेषयो	७४-७
पात्रस्तेहे	७-२
नारिनिन्दायाम्	८५-३०
सुदासे	२०-१९
सामर्थ्ये	७४-१७
जनकघनोपभोगे	९८-२

को एत्थ निच्चसुद्धिओ ? ।  
 को कद्दमेण मद्दइ धोयणहेउ अहयवत्थ ? ।  
 को खल्ल नयपरहँ ? ।  
 को गुणइ लक्कुडाइ कडगरुकुडियावाडिओ ? ।  
 को जज्जरेइ कुमे जउविणिओयत्थमेत्थ जाणतो ? ।  
 कोडिगुण पिव जायइ दुक्ख खल्ल परिचियजणगे ।  
 को णु विएसु वियड्ढहँ ? ।  
 को तरइ हत ! हरिउ नरस्स नियपुन्नपाविय लच्छि ? ।  
 को नाम पलित्तकुडिच्छसच्छहे रमइ ससारे ? ।  
 को नाम पलित्तगिहे धरेइ डज्जतमप्पाण ? ।  
 को नाम पुरिसयारो जीवे तणजीविणो हणत्स ? ।  
 को परिणयमायद मोत्तु निवप्फल असड ? ।  
 को परु पियगिरहँ ? ।  
 को पुण जाणइ तत्त हिययगय गुरुगमीराण ? ।  
 को फल्लियवयपत्तो दूरत्थ सिर्वलि मद्दइ ? ।  
 को भजइ नियनियम पायच्छित्तानुचरणत्थ ? ।  
 को लहइ साहुवाय धावतो घेर-पगुलय ? ।  
 को वा चिरमिह जीवइ जीवो विसभोयणासत्तो ? ।  
 को वा जलासयाण मालिच्चनिवधण न भवे ? ।  
 को सुकय-दुक्कयाण फल न पावेइ कम्माण ? ।  
 खज्जइ चडप्फडतो अलसकिमो कीडियाहिँ एग्गामी ।  
 खणरत्तखणविरत्ता नारी ।  
 खलिय न समागय कस्स ? ।  
 खड्दुम्मोसियसत्तुकुंडि घयवाहु पलोट्टइ ।  
 खायति आमिस कुक्कुरा वि तुट्ठा पहुविदिच्च ।  
 गरुयाण चिय भुवणम्मि आवया हुति, न उण लहुयाण ।  
 गरुयाण चिय विवयाओ हुति भुवणम्मि, नेव इयरेसि ।  
 गहक्कल्लोलगलत्था ससि-सूराण, न ताराण ।  
 गघकरिणो वि वहवो भज्जति मयारिणा तुरिय ।  
 गिम्हुम्हसोसियाण वि पुणो सिरी होइ नइ-त्तलायाण ।  
 गुणमवि सुणति दोस कामग्गहमोहिया पाय ।  
 घणगुणरसपुञ्जाइ पुरिसफलाइ हवति परिणामे ।  
 घघलसएहिँ सुयणा विणिम्मिया हयकयतेण ।  
 घेतत्वमप्पदोस, मोत्तव्व सव्वहा महादोस ।  
 घेप्पति सुहेण चिय सहावधिमलाइ सुयणाहिययाइ ।  
 चलणं दाऊण घणीण म्पत्थए सुवइ संतुट्ठो ।  
 चाउज्जायउ कडियदुद्धि ल्हसि हत्थह पडियउ ।  
 चिट्टइ निच्चाउलओ निच्चाऽऽउलओ विह्वहीणो ।  
 चित्तसहावे भुवणे सव्वस्स पियकरो को वा ?  
 चित्तामणि-कप्पमहातरु व्व धम्मो सुह देइ ।  
 छलमज्जिस्सति नियय कीवा लीवा वि (व) भसणाण ।

अनित्यतायाम्	१५-१०
विशेषक्षयादल्पलामनिपेधे	१३५-२६
नीतिपति	४-१७
विशेषक्षयादल्पलामनिपेधे	१४९-२३
"	१३५-२७
अनुभूतदु खस्य स्नेहिदर्शने	२४-११
पाण्डित्ये	४-१७
शुभोदये	१९५-१५
निर्वेदे	१३६-२३
नीतौ	२८-१८
भृगयानिपेधे	१४३-३
उचितानुरागे	४६-२१
प्रियभाषणे	४-१७
गम्भीरे	९९-२७
उचितानुरागे	५०-२१
विशेषक्षयादल्पलामनिपेधे	१३५-२७
दुर्बलपीडने	१४३-३
पापिनि	१५८-२९
जडस्वभावे	५८-१५
कर्मपरिणतौ	१६०-२६
असहायदशायाम्	१४५-२९
नारीनिन्दायाम्	१४-११
क्षतौ	१५-११
सुजनसयोगे	११-७
पितृघनोपभोगे	९८-२
धैर्ये	४७-३१
"	१२८-१४
"	४७-३१
सामर्थ्ये	१४५-३२
धैर्ये	४८-१२
कामान्धे	१८-१३
प्रौढत्वे	१०-२१
सुजने	१२८-१६
दोषविवेके	१३२-२२
सुजने	११-४
सन्तोषे	१२०-२८
सुजनसयोगे	११-८
दरिद्रे	१८१-२८
सर्वजनारजने	५८-१४
धर्मे	१०८-१७
छिद्रदृष्टि	१९४-२९

छाया वि करं करिणी क्व काही कक्कडकरीरे ? ।  
 छायाहर पि न मुयइ हिमकिरणो लक्षण जेण ।  
 छुद्धियाण भोयणम्मि व राओ रमणीसु होइ कामीण ।  
 छेयाण बधण पुण नऽन्न सन्भावभणियाओ ।  
 जइ सोवन्ना छुरिया ता किं घाइज्जए अप्पा ? ।  
 जत्तियमेत्तो लोहो तत्तियमेत्त जियाण दालिइ ।  
 जत्थ जणो उच्चियन्नु वसइ विएसो स किं होइ ? ।  
 जत्थऽत्थमेइ तरणी त जणयविट्ठत्तय वणं हरिणो ।  
 जम्हा पोत्तम्मि पिए होइ पिय पोत्तवेढणय ।  
 जयणा उ धम्मजणणी जयणा धम्मस्स पालणी चेव ।  
 जयपयइ जइवग्ग न नियइ मिच्छत्तछाइओ जीवो ।  
 जलपाणट्ठनिविट्ठो उट्ठितो कहइ पथिओ वत्त ।  
 जह राया तह पया होइ ।  
 ज कतविट्ठत्ताण मरण सरण कुलवहुणं ।  
 ज ज वा भुवणे सुह सुहयरं धम्मेण त लम्भए ।  
 ज जीवतो जीवो पावइ भद्दाइं रुदाइ ।  
 ज रागग्गहग्गहिया कजाकज्ज न बुज्झति ।  
 ज लोयणेहिं वमण, वयणेण य लोयणाइ रेहति ।  
 जाईसराइ नूणं नयणाइ मण व हुति लोयस्स ।  
 जाणति पिय चिय वोत्तुमुत्तमा अमयमुत्तिणो नूणं ।  
 जाणतो रयणावलिं कुणइ को कायस्स कठे सुहो ? ।  
 जीयति त्रिसपमुत्ता निसुणता गारुड मत ।  
 जीय सरयुम्मचल ।  
 जीवतो भइसए लहइ ।  
 जुज्झति सगरे भीरुया वि सूरस्म निस्साए ।  
 जुत्त च नायतत्तस्स जतुणो सुकयसाहण निययं ।  
 जेणुवलद्धा चोरा सो चिय किर पहरय दाही ।  
 जो भञ्जिज्जइ सयणो तस्स कलत्त पि गडरवट्ठाण ।  
 जो मोक्खफलो धम्मो संसारफलेसु तस्स किं चोज्जं ? ।  
 जोयणसय न दूरं पडिहासइ लोहमोहियमणस्स ।  
 झडिळ्ळण पल्लविळा पुणो वि जायति तरवरा तुरिय ।  
 झीणो वि ससी कडवयदिणेहिं भुज्जो हवइ पुज्जो ।  
 डारस्स मरणसमओ मणिगज्जइ पचहिं सएहिं ।  
 डयरु वि पडिळ्ळिज्जइ, अवि वचिज्जइ जमो वि निउणेण ।  
 टण्हाणुगया वप्पीहया वि बहुसो पिय पिय विति ।  
 तरतमजोगेण नराण पोरुसं फुरइ जियलोए ।  
 त सज्जण जपति वयणु पुणु पुणु परिभाविउ, सकहि  
 कालविहीणु जस्स सच्चप्पणु दाविउ ।  
 ता गइहस्स कक्का पडिहासइ सामिणो जाव ।  
 ता न विमुज्झइ कमल जा नवि छिप्पइ रविकरोहिं ।  
 तारुभे वम्महवेयणाओ कस्स व मण न पीडति ? ।

उचितानुरागे	७५-१४
सुजने	१०-२३
कामे	७२-३
सद्भावे	३९-३२
असीष्टमर्यादायाम्	२१७-३०
लोभे	१२०-२८
सुजने	३३-२६
शूरे	३३-२२
औचित्ये	३९ २६
यतनायाम्	२९-९
अज्ञाने	१८०-२७
औचित्ये	९६-७
राज्ञि १३९-१०, २१३-२२	
शीले	४७-१
धर्मे	
कालयापने	५२-३
रागान्धे	४६-३०
भ्रातृस्नेहे	१९-६
अनुरागे	५५-९
प्रियभाषणे	१०-२५
सुपात्रकन्यादाने	७-७
प्रियनामश्रवणे	७३-१७
जीवितव्ये	७२-२२
आत्मघातनिषेधे	१८५-९
वलवत्सहाये	२०२-२०
सुकृतार्जने	४८-१६
नपुण्ये	७-२४
स्वजनकलत्रे	३९-२६
धर्मे	१६४-२९
लोभे	१२०-३०
धर्म्ये	४८-१३
,,	४८-१२
निर्मूल्यादरे	४१ ३०
नैपुण्ये	१०७-८
अनुरागाभासे	७२-४
पौरुषे	१४६-१
अमोघ-	७ २१
वचसि	
निर्वले	१७९ २
सजनससर्गे	१४७-२९
कामे	१७-१७



तित्तकडुय पि पत्य ओसहमिह सन्निवाइण ।  
 तिमिरहरो न पयगो करनियर झामल कुण्ड ।  
 तुट्टो वि सुट्टु को वा वियरइ गयभगसगस्त ? ।  
 तुरिओ धम्मस्स गइमगो ।  
 तुल्लकिरियापवित्ती सारो नेहस्स ज होइ ।  
 तुल्ले वि फले वत्तु बहुदोस परिहरंति सप्पुरिसा ।  
 तेयगुणऽव्वमहियाण किमसज्ज जीवलोगम्मि ।  
 तेयस्सी वि मणुरसो एगो एगो चिय वराओ ।  
 दसणसाराइ पेमाइ ।  
 दाऊण निहाणं न हु कयाइ जुत्तो सिरच्छेओ ।  
 दाणेण पणामेण व साहिज्जइ दुव्वलेहिं वलसाली ।  
 दाल्हिग्गिपलित्तो जीवतमओ मओ पुरिसो ।  
 दियहाइ दो व तिन्नि व रणरणओ होइ पवसिए दइए ।  
 वीवतरह वि रयणु विहिं जोग्गि जोग्गु जोइवि नमइ ।  
 वीहाणुपेहिणो खल्ल हुति सयाणा नयपहाणा  
 दुक्खस्स विनिम्महणो धम्मादणो न विज्जइ उवाओ ।  
 दुलहा सुविसुद्धधम्मसंसिद्धी ।  
 दुलहो गुरुसजोगो ।  
 दुहगहण पाणिघायाओ ।  
 देहो धम्मस्स साहण पढम ।  
 दोसे वि गुणे चिय परजणस्स पेच्छति उत्तमा लोया ।  
 धन्नतिथणो किसीए पलाललामे किमच्छेर ? ।  
 धम्माय भवे सिणाण तु ।  
 धम्मेण जओ ।  
 न कणय घडणमोल्लेण वाहिज्जइ ।  
 न कयाइ मदपुण्णण मदरे पडइ वसुहारा ।  
 न कयाइ रायलच्छी आइच्छइ तुच्छपुनघण ।  
 न कुणति कोडिघणिणो कुवल्लय-चणएण वाणिज्ज ।  
 न कूरो उल्लणेण धरिज्जइ ।  
 न खमं खु अक्खमाए करण नाए वि नीइसाराण ।  
 न खल्ल उल्लविद्याऽनिव्वहणे वि लाघव वालिसाणं ।  
 न चयइ मेरं सुयणो ताविज्जतो वि तिव्वदुक्खेणं ।  
 न जइं जयम्मि जायइ जाउ नरो नायपडिक्कलो ।  
 नणु पत्तिनिहित्तमरा सुविसत्था हुंति भूवाला ।  
 नस्थि असज्जं जयम्मि पुरिसस्स ।  
 न दूसमालवणतप्परेहिं पमाइयव्वं मुणिपुगवेहिं ।  
 न देइ देव्वो सुह सुइरं ।  
 न नियच्छइ जच्चो घड-पड-कणगाइ सत पि ।  
 न पमायसमो सत्तु ।  
 नयणेहिं अपेच्छता कुसला बुद्धीए पेच्छति ।  
 न य मित्तो धम्मसारिच्छो ।

सुग्गमूलकदु खे	१००-२९
नीतिप्रवर्तने	१९१-१८
अशुभोदये	१९५-१५
धर्मकरणे	१८७-१७
स्नेहे	१६२-२८
दोषविवेके	१३३-२३
तेजस्विनि	८-२
असहायपरिहारे	१४५-३०
प्रेम्णि	५६-३२
वियोगदातरि	१६२-२३
निर्वले	१९४-२४
दरिद्रे	१८१-२७
प्रेम्ण क्षणिकवे	५६-३२
सुजनसम्बन्धे	११-९
सुजने	१७९-८
धर्मे	२१-११
”	४६-७
गुरौ	१३६-३०
हिंसायाम्	६८-२८
देहरक्षणे	१३५-१९
सुजने	१०-२३
आनुपङ्गिकलामे	१६४-२९
स्नाने	२३-२
धर्मे	११२-४
असङ्गतौ	१५७-२३
मन्दपुण्ये	२०२-६
”	८६-१
उचितकार्यकरणे	१८७-१४
असङ्गतौ	१५७-२३
क्षमायाम्	१४५-२६
मूर्खे	१५६-५० २०
शीले	४३-२२
अन्याये	१४५-२६
आरक्षके	१५६-११
पौरुषे	१६४-२
अप्रमादे	२९-२४
दैवे	२१४-२५
अज्ञाने	१८०-२७
प्रमादे	१७८-१६
कौशल्ये	९-१४
धर्मे	१०८-१६

न रमइ लच्छी कमलासरस्स रुवियवणे कह वि ।  
 न रमति रायहसा पेयवणे पूङ्गंधम्मि ।  
 न रमंति रायहंसेसु हंत ! कावजुयवहुओ ।  
 न रोसणो रिसिजणो होइ ।  
 न सहेति हत ! घरिणीपराभव जाउ माणघणा ।  
 न हि नहछेज्ज कज्ज कीरइ हु कुहाडयच्छेज्ज ।  
 न हि पत्तियति पावा चलभावा सरलमज्जणार्णं पि ।  
 न हि पावविलसियाण सुहावहो होइ परिणामो ।  
 न हुति दुद्धे पूयरया ।  
 नदति न जाउ चिर दुम्मडणो देवपरिचत्ता ।  
 नाम पि भवतरवल्लहस्स निसुय सुहावह होइ ।  
 नियक्कयक्कम्मवभोगे क पइ किर रुसिउ जुत्त ? ।  
 नियगरिमगुणेण मुणति नेय खुद्दाण विलसिय गरुया ।  
 निय-परदेसवियप्पो होइ फुड मदसत्ताण ।  
 नियसामिय पमोत्तुं रयण को महइ अन्नस्स ? ।  
 निवडति तणोत्थयकूवियासु जुगा वि मायगा ।  
 निहओ चडप्फडतो अहिययर घसण लहइ ।  
 नेहो पुण विरलाणं जो मरणते वि निव्वहइ ।  
 पक्खालणसुद्धीए को लिपइ असुइणा निय देह ? ।  
 पञ्चुवयारनिरीहा महादुमा दिति पुप्फ-फलनिवह ।  
 पच्छाहज्जइ तेओ सरस्स पयाविणो वि हु घणेहि ।  
 पज्जालिण भवण को उज्जोय दुणइ मइम ।  
 पडइ विडप्पझडप्पा रवि ससिसु, न तारनियरेसु ।  
 पडिकूलस्स वि पइणो हियमेव मण कुलवहुण ।  
 पडिबिन्निज्जइ अप्पा किर केण न दप्पणुच्छगे ? ।  
 पडिवन्नपालिणो सुयणा ।  
 पणइए जो पसज्जइ कि तस्स पवड्डिण कोवेण ? ।  
 पत्तलिलिहण पज्जत्तभुत्तमत्तस्स नहि जुत्त ।  
 पत्ते चितारयणे दोगच्च केच्चिर होइ ? ।  
 पत्थातो आरोग्गं ।  
 पयईअसुदरो पुण न हि देहो सुदरो होइ ।  
 पयईए श्विय सव्वस्स वच्छलो मुणिजणो होइ ।  
 परघाया पावयरो भणिओ नियपाणघाओ वि ।  
 परपीडाकरणाओ पइजम्म लहइ वाहिवियणाओ ।  
 परिनिव्वविति गिम्हुम्हताविय पुहइमडल मेहा ।  
 पहओ वि चडमरुया लघड कि सायरो सीमं ? ।  
 पाठसजलहरु करिवि गज्जु तक्खणि जलभरियउ पसमइ जणहँ असेसु दाहु पूरियगिरिसरियहु ।  
 पाएण संपओगा समाणपुत्राण हुति ससारे ।  
 पाणहरणेण पावइ पुणरुत्तमकालमरणाइ ।  
 पाय त्थल्लगुणाण जायइ जीवाण मित्तत्त ।  
 पालिति सिरिं किविणा कस्सइ कजे सउन्नस्स ।

अनुरागसीमि	५२-२०
„	१९३-११
„	२२१-१६
ऋषौ	१७९-४
पत्नीगौरवे	१६७-२६
नीतौ	१९४-२५
दुर्जने	५२-२७
पापफले	१६०-२७
गुणिनि	३५-७
दैवे	५५-१९
दल्लमे	७३-१७
अशुभोदये	१९२-२३
उदात्ते	५२-१८
निर्वले	३३-२२
सुसेवके	७-१
अज्ञाने	५२-१८
नेष्फल्ये	५०-२५
अनुगमे	७२-३
विशेषक्षयादल्पलामनिषेधे	-१३५-२६
परोपकारे	२०१-२९
असहायदशायाम्	१४५-३०
अनुचितकार्यपरिहारे	१६-१६
धर्मै	१२८-१४
पतिभक्तौ	२४-२०
स्त्रिये	११-४
सुजने	१४-११
नीतौ	१९४-२५
अकार्यपरिहारे	२०१-२५
दुर्लमलामे	२५-३१
पथ्ये	९७-१४
देहासारतायाम्	२०९-४
सुनौ	२०१-२९
आत्मघाते	२३-१६
हिंसाफले	१४३-१
परोपकारिणि	२०१-२८
शीले	४३-२२
अमोघवचसि	७-२२
समानशीले	५३-२६
हिंसादोषे	१४३-१
सख्ये	३८-१
कृपणे	१४२-१८

पादुम्भवदुक्खाणं पुञ्जं धम्ममुच्चमं खु पडिवक्खो ।  
 पावेण खओ ।  
 पावेण होइ दुक्ख, पाव पुण पाणघायणाइहिं ।  
 पियस्स वयण पुण अमोल ।  
 पेच्छइ दुद्ध मुद्धो मज्जारो, न उण लसडयपहारं ।  
 फोडेइ विरालो लोलयाए सारं पि उत्तिवडिं ।  
 वज्झति मुखविहगा नेहविहूणेण उज्झदाणेण ।  
 वहुरयणा पुहई ।  
 बहुविग्घा सेयसपत्ती ।  
 वालयगव्भविघाई पइजम्म होज्ज निरवच्चो ।  
 वालोचियधूलिघरुहिएहिं छेया न हि रमति ।  
 भवियव्वयानिओया को नाम न पावए वसण ।  
 भमणसहावा भसणा गसणसमत्था न खल्लु हुति ।  
 भावगय पुण पाव सुज्झइ परिणामसुद्धीए ।  
 भिक्खाहारा त्रिप्पा ।  
 भुक्खियवसेण पच्चति उवरा, नेह कइया वि ।  
 भुज्झइ नरिंदलन्धी कुलक्कमेणागया वि किच्छेण ।  
 भुल्लो वि सुदरो सो लग्गइ मग्गम्मि जो झत्ति ।  
 भुंजतो परदारं दारं पत्तेइ नरयगुत्तीए ।  
 भोगग्गहृगहृगहिया क्काकज्ज जिया न याणति ।  
 भोत्तमणा वि अरिह्ठा भुजति न नालिकेरलुवीओ ।  
 मत्तगओ वि दमिज्झइ पडियारनरेहिं बहुएहिं ।  
 मत्ता वि बहुगइदा झत्ति पलायति गवकरिहितो ।  
 मत्तो वि मयारिगणो पहवइ राययुयस्स न कयाड ।  
 मन्नइ असुड पि सुई अजाणविमोहिओ सुइगवेसी ।  
 मञ्जंति खरा खारे लोद्धता निव्वुइ परमं ।  
 मरणम्मि धुवो विरहो, जीवताण तु घट्टइ जोगो किं ।  
 माणणीओ मुण्णिजणो ।  
 मुचंति सिरिं तुरिय विरत्तचित्ता नरत्ति किं चोज्जं ? ।  
 मोत्तूण लुह्हीर गहत्तरे घट्टइ किं जुण्हा ? ।  
 रक्खंतएण पाए गम्माए वोलिय सीस ।  
 रज्जति घणेसु पणगणाओ, न गुणेसु कुंदधवलेसु ।  
 रंजइ सउणे महुरप्फलेहिं वडपायवो अपुप्फो वि ।  
 रागी उ हंसतूलीगओ वि निहं न पावेइ ।  
 रामेइ मणो घणइत्तयस्स न कयाइ घणहीणो ।  
 रूव सज्जाणुरायसमयेज्ज ।  
 रूसति नेव रिसिणो पगिह्ठुद्धे पउट्टे वि ।  
 रेहत्ति कयाइ न जच्चहीरया रीरियाहरणे ।  
 रोरो वि ईसरायइ सतोसरसायणे पीए ।  
 रोसो वि तओ छज्जइ फलइ पसाएण जो पच्छा ।  
 लच्छी करिकज्जचला ।

धर्मे	२३-१८
पापे	११२-४
,	२३-१६
वाह्मपन्नमि	१७-३०
आसक्तौ	१७९-९
रागान्धे	५२-१९
निस्नेहयन्धने	३९-३२
गुणिनि	६-२८
श्रेयसि	१३६-३०
वाल-गर्भघाते	१४३-२
औचित्ये	१८७-१३
दैवे	१५८-११
निर्वलगर्जने	१४६-२
शुभपरिणामे	२२-३१
विप्रे	१४८-१२
कालयापने	३५-२४
राज्याधिकारे	५५-१८
क्षतिशुद्धौ	१९५-१७
परदारविरमणे	४४-२३
विपयासक्ते	१००-२४
अनधिनारे	१४८-११
असहायपरिहारे	१४५-२९
समर्थे	१४५-३२
,	१४६-१
अज्ञाने	२२-७
मोहान्धे	१९३-१०
आत्मघातनिषेधे	१८५-१०
मुनौ	२३-२२
विरक्ते	१००-१०
उचितानुरागे	७-२
अविवेके	२२-१७
गणिकायाम्	९२-१३
सुजने	९-४
रागे	३६-६
दरिद्रे	१८१-२९
रूपे	७२-२२
ऋषौ	१७९-५
अनुचितयोगे	१८७-१५
सन्तोषे	१२०-२९
प्रशस्यरोषे	१६१-९
लक्ष्म्याम्	७२-२२

लक्ष्मणसरा खलमहिलिया वि न सहइ सवत्तीणं ।  
 वणिणो वि हु कागिणीगणनिउणा ।  
 वयण कज्जविहूण समुन्नयणं पि लाघव कुणइ ।  
 वरिसति बल्लरे कल्लरे वि मेहा सहाणेण ।  
 ववसायसहायहँ पुरिसहँ किं किर दूरु जइ ? ।  
 ववसायाओ मणिच्छिया लच्छी ।  
 वसवत्तिपुरविमाण सील चिंतामणिसमाण ।  
 विउसेहिं वि विहिंविहिय न तीरए अन्नहा काउ ? ।  
 विणयाओ गरुयत्त ।  
 विप्फुरइ सया हियए वेरग्ग जाण ते घन्ना ।  
 वियरतो खल्ल सूगे करेइ भुवणस्स उवयारं ।  
 वियारसारा जओ विउसा ।  
 विसयाण कए मूढा कुणति चित्ताइ पावकम्माइ ।  
 विसहरसिरे वि युत्य विसहरण किं न होइ मणिरयण ? ।  
 विहडति निविडघडिया पुरिसत्था नियमओ पमाएण ।  
 विहुगवडियाण जयम्मि दुल्लहाऽऽराहणपढाया ।  
 विहुरे वि गया धीरा पयगपडण कुणति न कयाइ ।  
 वोळइ हुलिय जीय ता मा घम्मे पमाएह ।  
 सक्करच्चुभमज्झि घयपुन्नु विलोड्ड ।  
 सग्गो भोकलो वि घम्माओ- ।  
 सच्चमिण ज मारड गामिल्लो गोइहिल्लेण ।  
 सच्चमिण, वच्चिज्जइ लुद्धो अलियप्पलावीहिं ।  
 सच्च जं, सिक्करिओ पल्लुसिओ मेज्झमज्झम्मि ।  
 सच्छ पि फलिहरयण उवहाणवसा कलिज्जए काल ।  
 सज्जति विलीणे मच्छिउयाओ घणचंदण मोत्तु ।  
 सन्भाविय पिपय पुण नज्जइ कज्जेहिं विहुरेसु ।  
 समगुण-घणाण पाणीण पायसो पीइसमवो होइ ।  
 समुदाये चिय सोहा जायइ सव्वस्स जियलोए ।  
 सरिससहावाण होइ किर पेम ।  
 सव्वस्स जणियपणया मण कस्स न बल्लहा सुयणा ? ।  
 सव्वो पुव्वकयाण कम्माण पात्रए फलविवाग ।  
 सव्वो भणाइ महुर पुरओ रिउणो वि छदवित्तीए ।  
 सहजाय पि सिणेइ मुचति खला तिल व्व पीलाए ।  
 सहयारपायवाओ न होइ कइया वि किपाय ? ।  
 सहोयरा दुल्लहा लोए ।  
 सतत्ताडे चाइ खल्लाडो मुडिओ चेत्त ।  
 सतिन्नसायराण का चिंता गोपउत्तरणे ? ।  
 सधुणइ विणयपणओ पहु कुम्भिओ वि विविहवयणेहिं ।  
 सपत्तोसु पमोओ न हु जुत्तो आवईसु य विसाओ ।  
 सामग्गिगुणेण गुणो उव्वासइ सुद्धमणिणो वि ।  
 सालेहिं पल्लवा, पल्लवेहिं साला विरायति ।

सपत्न्याम्	१३९-१२
वणिजि	१४८-१२
निष्फलवचसि	५८-१३
दाने	८३-९
उद्यमे	४-१८
”	९७-१४
शीले	२५-२२
दंवे	६१-१
विनये	१९७-१४
विरक्ते	२१२-१५
शूरे	३३-२०
विदुषि	५०-२४
विषयासक्ते	४९-१
सहजगुणे	१८३-१७
प्रमादे	१०८-२०
धर्मारिाधने	२०४-२०
आत्मघातनिषेधे	१८५-९
प्रमादपरिहारे	३८-२४
सुजनसयोगे	११-७
धर्मे	९७-१४
निर्वले	१४३-४
लोभे	१२७-४
अविवेके	२२-१८
दुर्जनचेष्टिते	३७-१४
हीनासकौ	९२-१३
असुरागे	७२-४
सरल्ये	२२१-१६
एकवाक्यतायाम्	१९-५
सरल्ये	१०७-२०
सुजने	३९-२७
कर्मविपाके	२५-५
चाट्टभाषणे	९-८
दुर्जने	१६२-६
कुलजे	११-५
भ्रातरि	२०-११
त्यागात्यागयो-	२१७-२८
समर्थ	१२६-१३
कुदासे	९-९
धैर्ये	४६-८
सरसङ्गती	१४०-६
एकवाक्यतायाम्	१९-६

साहसु माणु वहतहँ दुकर कि कुण्ड ? ।  
 सिरिर्हितो पुन्वमयाण निद्धणो दुकर जियइ ।  
 सील कुल्लुन्नइकर ।  
 सील जए जयइ ।  
 सील जीयस्स भूसण परम ।  
 सील परम सोय ।  
 सील परमावयामोय ।  
 सील दोगगइमहण ।  
 सील दोहगगकदनिद्लण ।  
 सुइ घरणिगय तोय ।  
 सुदुह वि क्यावराहे पहरति न उत्तमा अपहरंते ।  
 सुदुल्लह देवदसण भुवणे ।  
 सुद्धे वि जीवदब्बे न गुणुप्पत्ती गुरुविओए ।  
 सुद्धे वि दळे पडिमा न होइ नणु सुत्तहारविरहेण ।  
 सुपरिच्छिय खु कज्ज परिणामसुहावहँ होइ ।  
 सुमिणसमो पेमपरिणामो ।  
 सुयइ सुहँ गयराओ घणकट्टयसगाए वि सयणीए ।  
 सुलहाओ विवयाओ ।  
 सुविणिदयालसरिसे को ससारे रइं कुण्ड ? ।  
 सुहड्डाण सुहड्डभावे रणगण चेव कसवट्टो ।  
 सुहसुत्त पच्चसुहँ खल्लियारिय को णु जाइ खेमेण ? ।  
 सोहइ सरएण अखडमडलो पुन्निमायदो ।  
 हुति खल्ल मुणियतत्ता खमापहाणा महासत्ता ।  
 हुति रक्खसाण पि मेक्खसा ।  
 हुति सहैज्जा विहुरे कुविया वि सहोयरा चेव ।  
 होइ अमोहो सुरालोओ ।  
 होइ अवज्झा नारी ।  
 होइ समाणा दिट्ठी विसुद्धसुद्धीण पाएण ।

साहसे	४-१८
दरिद्रे	१८१-३०
शीले	२५-२१
,	५३-४
,,	२५-२१
,,	२५-२१
,,	२५-२१
,	२५-२२
,,	२५-२२
जलसुद्धी	२३-९
शूरे	१४२-३०
देवतादर्शने	१६१-८
गुरी	१४७-२४
,,	१४७-२४
विमग्गे	२०-२९
प्रेमपरिहारे	७०-२२
विरागे	३६-६
विपदि	४६-७
निर्वेदे	१३६-२२
सुभटे	५५-२५
वीरे	५५-२७
उचितसयोगे	१८७-१६
महासत्त्वे	१७८-२९
समर्थे	९५-२०
भ्रातरि	२०-१२
देवतादर्शने	१६१-७
नारीघातनिषेधे	१९१-१७
विचारसाम्ये	२०१-७




## शुद्धिपत्रकम् ।

पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्ध	शोधनीयम्	पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्धं	शोधनीयम्
१	१२ शा ला°	शा-[शोभा] ला°	२६	३७ सष्टु	सुण्डु
„	१३ आसातना°	आशातना°	२७	१ जपिय	जपियं
„	२४ वीना-भ्रमराणा [ भ्रम.-अस्तित्वसशयस्तेन ] च हितम्, व(र)हितम्,	वीना भ्रमराणा च हितम्,	„	१५ °लिय सुय°	°लियसुय°
२	३२ गत(त)दन्त शो°	गत दन्तशो°	„	२६ पुत्रपुत्तो	पुत्रपुत्तो
३	२१ सु०	सु°	„	३१ चक्षुसि	चक्षुषि
„	३४ रवि., वीरश्च	रवि वीरश्च,	„	„ रदना,	रदना ,
„	„ कमलोप°	कमलोप°	२८	३१ ( वृत्या )	( टया )
५	१७ तुरिय तु°	तुरियतु°	„	३२ श	श
„	३२ शेषाथ,	शाषाथ,	„	३४ ( त	( त )
„३२-३३	विलासा[ ] सोगादीना(१),	विलासा -भोगादीनाम्,	३०	२७ सङ्कत	सङ्केत
६	२२ °कुमरस्म	°कुमरस्म	३२	३० हता°	हता°
„	३० द्वोपिना	द्वोपिन°	३३	२६ उचियन्न	उचियन्नु
„	३७ °सा (स) कोशलादेशो	°सा कोशलाः-देशो	३४	३२ °न्त (न्ताम् ),	न्तम् ,
८	३१ ख१	ख१	„	„ °न्तश्च (न्ता च),	°न्तश्च,
९	२८ °मुखाग°	°मुखग°	३५	१२ सा	सो
„	३० गन्धाम°	गन्धम°	„	३२ खोलो	खोलो-
१३	शीर्षके छद्वावण	छद्वावण	३६	२९ उस्म°	ओस्°
„	८ वल्लहो वरो	वल्लहोऽवरो	३७	१ नयणहँ	नयणहँ
१७	३२ (१ शुचि)	(१ सुष्टु)	„	१८ वुत्तत	वुत्तंत
„	३३ सुगन्धश्च	सुगन्धश्च (१)	„	२७ °णहँ ख १ विना ॥	नयणहँ ख १
१८	९ सचेयणो	सचेयणो	३८	३२ [°गणश्री० ]	[ गुणश्री० ]
„	३० त छिन्न (१ सुरतम्) ॥	तं ॥	४५	२९ कया	कया°
„	३२ हारयत्यन्येषा वृत्त- काराणाम्, उद्भि°	हारयति, अन्येषा वृत्त- काराणामुद्भि°	४७	शीर्षके लोवण°	लोवण°
१९	७ °यद्भि°	°यद्भि°	„	३२ कह मि वे°	कहमिवे°
२०	६ उवइष्ट	उवइष्ट	४८	९ च	व
„	१८ इम चोज्ज	इम चोज्ज	४९	१२ कुलवय	कुलवय
„	१९ °चउक्कऽवक्खा°	°चउक्कविवायछेयगप- सुवालऽवक्खा°	५१	२० व छि°	व । छि°
„	२० सच्च सच्च	सच्च सच्च	५४	२६ अज्ज	अज्ज ।
२१	११ वि निम्म°	विनिम्म	५५	१५ °चियामो	°चिया मो
२२	१ °वाणियाण	°वालियाण	५८	२९ °सकाश°	°सकाश°
„	१८ °ओऽमेज्ज°	°ओऽमेज्ज°	६४	१ नियमओ	नियमओ
२५	३३ सत् शो०	सत्-शा°	६८	२७ क	किं
२६	५ जो	१जो	६९	३१ °दिनम्	°दिनम् ।
			„	३२ गा	गा
			७१	९ कक्षा व°	कक्षाव°
			७२	३१ जलस्य,	जलस्य
			७४	३३ १ पुन )	( १ खल्ल

पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्ध	शोधनीयम्	पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्ध	शोधनीयम्
७५	१० गिहे ।	गिहे ?	११९	१० मुणति कुणति,	मुणति कुणति
७६	१६ भव्वा	भव्वा ।	१२१	२ एमाइसुं	एमाइ सुं
७९	१ दितो	दितो	१२२	२४ लक्स्	लक्स्
८०	१३ जीणां	जिणां	१२३	३२ प्रधानान	प्रधानान्
८१	१७ सरो	सुरो	१२४	३४ ? व्रता )	( ? व्रता )
८१	२७ दौपि(भ्य)काणां वर्मास ( ? वज्राणां )	दोपिकाणा वर्मास- ( ? तमसि )	१२५	१५ सङ्केतः	सङ्केतः
८२	२८ अनव्यया,	अनव्यया,	१२५	२० सोहतवा	सो हत वा
८२	२७ कमार	कुमार	१२६	१० सिज्जती	मिज्जति
८६	३० ' सहस्य सो विकल्पेन ' [ ] " ॥	सहस्य सो विकल्पेन " ॥	१२६	१० तिलोका	तेलोका
८८	२६ ( बाल )	पोत	१२७	२७ विगहि	वि गहि
९१	१० अइसुं	अइ सुं-	१२७	५ सर्	सर्
९२	३१ गुज्जं	गज्जं	१२७	५ वलि	वलि
९३	४ च '	व ? '	१२९	२६ रुतं	रुतं
९५	१९ वइ कुतह	वइकुत( ? ठ ) ह	१३१	३१ पूजो	पूजा
९५	२५ रोहिआ	रोहिओ	१३२	५ गो-विस	गोविस
१०१	१७ मुन्नयं	मुत्तयं	१३४	२९ कयजं	कयजं
१०२	२० निरतरं	निरतरं	१३५	५ पिय तस्स	पियतस्स
१०२	शीर्षके पचमे पुण्णचद-पुप्फ- सुदरीभवे	चउत्थे देवरह-रयणा- वलीभवे देवरह-रयणा- वलीणं देवलोगगमण ।	१३५	३२ सच्चमं	सच्चमं
१०५	२३-२४ ससि मोमत्तु दिण्दिद तेउ सायर गंभीरिम, नह वड्ढिम सुरपहु पहुत्तु नगनायग धीरिम । मयवइ विक्कसु मयण रुत्तु घणवइ चाइत्तण	ससिसोमत्तु दिण्दिदतेउ सायरगभीरिम, नहव- ड्ढिम सुरपहुपहुत्तु नग- नायगधीरिम । मयवइ- विक्कसु मयणरुत्तु घणवइ- चाइत्तण	१३७	१९ लुष्ठा	लुत्ता
१०६	१ गुधुं	गधुं	१३७	२२ मुंजिसु	मुजिसु
११०	३३ जा-शो	जा — शो	१३८	२७ क्रियवि	क्रियावि
११४	१५ परं	परं	१३९	३१ ल )	( ल )
११६	४ साइत्तण	साइत्तेण	१३९	३० शक ,	शक्क
११७	३० छप्पनयं	छप्पन्नयं	१३९	३० शुष्क सुश्रुता	शुष्क-सुश्रुता
११८	१ सूर	सुरो	१४०	३२ शुष्क सुश्रुता	शुष्क-सुश्रुता
११९	३३ जा-शो	जा — शो	१४१	५ दक्खा	दक्खा
१२०	१५ परं	परं	१४३	२६ आणाह	अणाहं
१२२	३२ दव्वहं ॥	दव्वहं आ० ॥	१४४	३२ मियाआ	मियाओ
१२६	४ साइत्तण	साइत्तेण	१४४	३ दहति	दहंति
१२७	२३ देव	देव	१४५	१ अहमहिमगाए	अहमहिमगाए
१२८	३० छप्पनयं	छप्पन्नयं	१४६	१० नीट्ठुरं	निट्ठुरं
१२९	१५ ताओ, अं	ताओ अं	१४६	२५ पणइ	पणइ
१३०	१९ या ' सुदरी वि न	या, सुदरी वि ' न	१४७	१५ खखं	सखं
			१४८	१८ मुणचं	मुणिचं
			१४८	३० सिद्धा-ड	सिद्धाड
			१४९	१८ किसि-वा	किसिवा
			१५०	२७ गुरुणाविसगो	गुरुणा वि संगो
			१५१	११ हलसामि	हलसामि

पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्ध	शोधनीयम्	पत्रस्य पङ्क्तौ	अशुद्ध	शोधनीयम्
१५१	२८ सुणदं	मुणदं	१७५	३० ँगमितिरं	ंणतिमिर
"	३२ जहद्विया	जहद्विया	१७६	८ भुजति	भुजति
१५३	२० पत्ता	पत्तो	१८१	५ ँजोयणं	ंजोव्वणं
१५५	३ अतः	अतः	१८४	१९ तीराचिय	तीरोचिय
"	२४ पुत्तमां	पुत्तमां	"	३० ँक(गु०) शत मां	ंक' इति गूर्जरभां
"	३१ वंतिद्वीं	वंति द्वीं	१८५	२० लक्खेसि	लक्खेसि
१५६	१९ ?	!	"	३३ त्यक्क" ॥	त्यक्क" ॥९॥
"	२४ हुत्त	हुत्त,	१८९	३१ गायन्ति	गायन्ति,
१५८	१६ पत्ताभा	पत्ताभो	१९०	३० पैशुन्यां	पैशुन्यां
"	२० सुट्ठं	सुट्ठं	१९२	२५ वणं	वणं
१६०	१७ राय भाव	रायभाव	१९३	५ जणसुं	जिणसुं
१६२	१४ रायंत	रायत	२०१	१ एगा	एगो
१६३	३ भावा	भावो	"	७ अन्न	अन्ने
१६४	१६ सगल	सगलो	१०४	१० विमाणम्म	विमाणम्मि
१६६	१२ यत्तदुं	यत्तदुं	२०५	टिप्पणौ सम्मत्त	सम्मत्त
१६८	६ सइ मं	सइमं	२०६	३१ गर.	गरं
१७२	८ पिप्फुं	विप्फुं	२०७	७ अणिट्ट-सिट्टदिट्ट-विं	अणिट्टसिट्टदिट्टविं
"	२० कलक्किआ	क्कलक्किओ	२१०	१२ ँजरा विं	ंजराविं
१७३	३१ किं कायक्कं	क्किंकायक्कं	२१३	३२ भुवनेषु	भवनेषु
१७४	९ ल-कलावं	लकलावं	२१५	३२ मुज्झ	मुज्झ
"	२३ सुदप्पा	सुदप्पा	२१९	२९ विणोइयं	विणिओइयं
१७५	२८ तित्थे से	तित्थेसे	२३८	शीर्षके विशेषनाम्ना- मकारादिक्रम' ।	सुभाषितपद्यानामनुक्रम ।







## शब्दसूचिः

[ 'पुहृइचंदचरिय' अन्तर्गत देश्यादिकतिपयविशिष्टशब्दानां सूचिः ]

[सङ्केतविवरणम् .

D. = हेमचन्द्रीया देशीनाममाला

DMP. = A Critical Study of the  
Desya and Rare Words  
from the Mahāpurāna of  
Puspadanta (1969).

H = Siddhahema chapter VIII

PSM = पाइअसद्महण्णवो

पृष्ठपङ्क्तिसंख्यानुसारेण स्थाननिर्देश कृत ]

अकस्त्रण(य) ८६ २२, ९६ १२, १०१  
११, २०० ६, २१४ ८  
fondness

अकस्त्रणिय ८७ २४, १०८ ४, १४१  
१४ व्याकुल full of devoted  
to given to.

अगड ४४ ३१ अवट, कूप

अगला ९२ १६ अग्रला, मुख्या ( Old  
Gujarati आगल )

अजझा ७ १, ५९ १०, ५१ २६ एषा  
this ( feminine ), युवती,  
young lady ( D 1 50 )

अंछण १२१ ५ आकर्षण

अंछविअंछी १८६ ७ ( v | अच्छवियच्छीकी )  
Pulling and dragging

अड्वसट्ट ४९ २७ [ आर्तवशार्त ]

Under the sway of grief

√ अडुव ५१ २८ to pawn

cf Konkani अडव ' to pawn ',

Guj अडाणु ' Pawned '

अहुवियड्ड ७७ २५, ८३ ४, ८५ ६,  
१४३ १८, १९२ २०, २०३ ३२  
helter-skelter, cross-wise  
( DMP 790 )

अणुवाय ५९ २७ अखिन्न see उध्वाय.

अणेहा १२९ २२ अनेहस, काल

अत्ता १०५ २८ पितृश्वसा, father's  
sister ( D 1 51 )

अथक ७ ४, ६७ १८, ६९ २०, १२३ ६  
अप्रस्ताव ( D 5 24, DMP 521 )

अद्धच्छिपेच्छिअ ३३ १८

sidelong glance

अद्धच्छिपेच्छिरि १०६ १६

casting sidelong glances

अतरीव १५५ ३ अतरीप, अन्तर्द्वीप

अप्पाण १२५ १८ अवल, निर्बल

अप्पाहिय ९४ २५ सदिष्ट

अप्फुन्न १३२ २०, १५९ ३, १६३ १८  
पूर्ण filled ( D 1 20 )

अव्भडवच ७८ २९ going some way  
to see somebody off,  
accompanying someone upto  
a short distance to see him  
off ( H 4 395, cf DMP 792

√ अम्मणुअच )

अभिमर ११० २२, ११० २३ हत्या

अमाघाय ८० ४ अमाघात, अमय-घोषणा

अम्मोगइय ७४ २८, १७४ ३ संमुख-गमन,  
going forward to welcome  
or receive

अरि ८१ १३, १०२ १४ चक्र

अरिड्ड १४८ ११ काक

अलंड ५१ २५ आलम् false charge

अवइज्जिय ४९ १८ त्यक्

अवमिअ २१० २४ अपमित्यक bought  
on credit?

√ अवयच्छ ६ ९, ५८ २८ इत् to see,  
to look at ( H 4 181 )

अवरज्ज ६९ ११ अतिक्रान्तदिन, yester-  
day यदाह-'गयभाविवासरेसु दिव-  
सारमे य अवरज्जो' ( D 1 56 )

अवारियसत्त १२० १८ अवारितसत्र  
continuous almsgiving

अवियज्ज २२२ ३ आयत्त

अव्वंग ११३ ५ [ अव्यङ्ग ] सपूर्ण

अव्वो १० १९ an interjection exp-  
ressing wonder ( D 1 5,  
DMP. 74३ )

असणाभा १५९ २२ अशनाया, बुभुक्षा

आइच्छइ ८६ २ आदित्सति, गृह्णाति

√ आइद्ध १२ ३१, ६७ १ परि+ √ धा  
to wear, to put on

आइंधण ८३ २८ परिधान

आगमेसि ६५ ७ आगामी

आयल्ल ८६ ९ longing, yearning  
( DMP. 800 )

आयल्लिम ९३ ३१ उत्कठित,

आलजाल १५९ २४ prattle, nonse-  
nsical words

आलिद्ध ८२ २ व्याप्त

आलोडिय ९९ ३ churned

आसकलिय ६५ १७ प्राप्त

आसंधिय ६७ ११ ११६ १८ आश्रित

आसुवत्त ९५ २ शीघ्र-कुद्ध, अतिक्रुपित

आहित्थविहत्थ १९७ ६ किर्तव्यताव्यामूढ  
[ D 1 67 आहित्थ=आकुल;  
PSM विहत्थ=व्याकुल ]

आहित्थण ७७ २५, ८३ ४ भ्रमण

इकण ५० ७ चोर ( D 1 80 )

इण १३१ ५ इन सूर्य

ईर्दिदिर ३३ ४, १४७ ३१ अमर  
a large black bee (D I  
79, DMP 606)

इदियाल ३२ ३ इन्द्रजाल, मायाकर्म

ईरिण ३४ १२, ८४ २१ सुवर्ण  
gold (D I 79)

ईसर १०४ ९ मन्मथ

ईहामञ्ज ८९ १ ईहामुग, वृक

उक्कुरुडिया १४९ २२ (v) उक्कुरिडिया)  
अवकरराशि a heap of sweepings  
(D I 110)

उक्कृय ९६ १७ [उक्कृजित] shouted,  
raised a hue and cry

उक्कर ५३ ३०, १२१ १७, १७२ १६ समूह,  
उत्कर a collection, a heap

उक्कोवण ६६ १०, १०५ ६ उद्दीपन,  
exciting or evoking love  
(DMP 276, 277, 278 and  
279)

उक्कुडिय १६९ २२ dislocated

उच्चत्ताप १८ ४ १४ 'उच्चक' इति भाषायाम्  
buying or selling in a lot,  
not according to the  
prices of individual items

✓ उच्चिड ३६ ३ लग् to stick (?)

उच्छाह १२९ १३ तन्तु, सूत्रतन्तु  
(D I 9२)

उज्जहा २१२ २८ बलात्कार force,  
violence (D I 97)

उट्टामा ६३ ४, ९६ १५ उट्टी 'सादणी'  
इति लोकभाषायाम् female camel

उडुमर ८३ ४ उडुद, प्रबल (PSM  
उडुमर)

उडिय ३२ २० उडिय

उत्ताल २४ ७ १०९ २२ शीघ्रकरी  
hurry ng, full of haste

उत्तिविदि ५२ १९ (v) उत्तिविदि,  
माण्डकानलि a series of objects  
placed one upon another  
(D I : 22, DMP १२1 and १२२)

उत्थय ५२ १८ आच्छादित covered over

उत्थल्ल १८ ४ २२ turned topsy-turvy

उदन्ना ९९ २ उदन्ना तृषा thirst

उद्दालिय ११५ ५ snatched

उद्धव २३ २०, २४ २२, ८२ २, ८८  
१६ प्रमोद, उत्सव

उद्धारय २१० २६ buying on credit

उद्धुमाय ३७ ४, १०८ १ परिपूर्ण

उन्नामिय ३७ २० अतिसमृद्धीकृत

उप्यंक १५० १५ सघात समूह  
collection, multitude  
(D I 131)

उपरवट्ट १३९ ७ superior (Gujarati  
उपरवट)

उपित्य ८७ ३० विधुर, आकुल  
(D, I 129)

उपपील ९९ ३, १०४ २२ समूह, संघात  
a collection (D I 126)

उपेहड ४९ २१, ८७ १० उद्धृता  
(D I 116)

✓ उपफाल १० १८ २१ २३, ४७  
२७, ६४ २२, ११९ ४, १८५  
१५, १८५ २४ कथ् to tell  
(H 2 174)

उव्वुडुणनिव्वुडुण ५८ २३ उव्वुडुणनिव्वुडुण  
४६/५, ७७/२५ उन्मज्जननिमज्जन

उम्महा ५ १५, ७१ १० बलात्कार  
force, violence (D, I 1१1)

उम्माहिय ६९ ३० उत्कृष्ट

उल्लण २ १८ उत्पलवन

उल्लालिय ४६ १ उत्क्षिप्त

उल्लोय १५८ १८ वितान canopy  
awning (D I 98 उल्लोय  
DMP 828 उल्लोव=canopy)

उवरिल्ल ८३ १९ उत्तरीय आच्छादनवत्

उविय ३६ २८ शीघ्रम् (D I 89)

उव्वर ८९ ११ उव्वरा, सर्वसम्याटया भूमि

उव्वस १५९ २६ उव्वस deserted

उव्वाय ५५ २५, १६९ २४ उव्वात,  
वातलग्न, खिन्न (H 4 240,  
I 1 102)

उस्सुक १५२ ११ उच्छुल्क free  
from customs duty

पद्दमेत्तं ६० २४ एतावन्मात्रम्

ओऊल ७० ११, ७७ १४, ८४ २१  
अवचूल, प्रालम्ब

✓ ओह ३२ २० to offer (one's  
shoulder)

ओमंथिय ६९ १०, १०६ ९ किंचिदव-  
नामित bent down

ओरल्लि ३१ १४, ६४ २६ १७७  
१८, २१७ १४ मधुरवीर्षशब्द  
(D I 1 4)

✓ ओलग १३२ १४ to serve  
(DMP 744)

ओलग्गा १६६ ३० सेवा

ओलावय ७० २७ १९४ १७ इयेन  
hawk (D I 160)

ओलुग्ग ४१ १६ विच्छाय devoid  
of lustre (D I 164)

ओसत्त १३ ४ अवसक्त, सबद्ध, सयुक्त

✓ ओहड ५८ २४ to ebb, to  
reduce in level, to recede  
(H 4 419)

ओहामिय १०७ ३० अमिभूत  
defeated, conquered  
(DMP 3५)

ओहार २१९ २५ मत्स्य fish

कक्कड ७५ १४ कर्कश

कंक १९४ १७ कक

ककेल्लि ६६ ९, २११ २९ अशोकवृक्ष  
(D 2 12)

कंजुलिय १९३ १८ कजुक

कडयडरव ५८ २१ sound of  
falling tree

कडपूयणा १९४ ८-९ कटपूतना

- कडिल ९८ १४, ११७ ३ गहन wilderness (D 2 12)
- कडिल ८३ १९ २०३ ३२, २०४ २ परिधान, चटीवस्त्र a lower garment, a dhoti (D 2 52, DMP 469)
- कहुयालय ८ १३ लघुमत्स्य a small fish (D 2 57)
- कड्डेयाड्डि १९ ७ वर्षापकर्ष pulling and dragging
- कणई १५ १५, ६६ ९ लता, १३८ ३ २११ २९ शाखा (D 2 27)
- कटि १०१ २८ a thorny shrub
- कटोल्ल १३३ १४ a kind of vegetable of G कटोला
- कत्तोच्चय १९७ १ wherefrom
- कंदोह ९८ ३०, १९० १५ नीलकमल blue lotus (D 2 9, DMP 852)
- कम्मरिअ १५१ १५ कर्मकर
- कय १७५ २ कज, कमल lotus
- कयार २११ ३ कचवर rubbish, dirt (D 1 11, DMP 841)
- करचंडा ११९ २२ (?)
- करय ५३ २ करक बार्धटिका a pot for fetching water
- करिमरि ३६ २ बर्दिणी a slave girl (D 2 5, DMP 856)
- करीर ६ ४ हस्तिप्रतिक्षेपक
- कलवल्लय २१८ १३ रोल noise
- कल्ल १०१ २४ one who speaks indistinctly (Gujarati कल्ल)
- कवुड्डी १८ १४ कपर्दिका
- कबोलवाम ९६ २९ कपोलवाद empty talk
- कलंतराजीवअ २० ८ कलन्तराजीवक One who lives by moncy-lending
- कलि ५ २९ विभीतक
- कल्लाविअ १०५ २७ mixed with a liquid (Marathi कालवणे Guj 'कालववु')
- कसर २१३ १४ अधमवलीवर्द a bull of the lowest quality or low breed who shuns work (D 2 4, DMP 861)
- कसव्व १२ ८ स्तोकम् a little (D 2 53)
- कहिया ९७ २९ कया
- काइया १८४ २६ कायिका, शौचक्रिया
- कागुवयण ११८ ५ काकूवचन
- कारिम १४ २९ कृत्रिम artificial (D 2 27, DMP 471)
- कालिया ७७ १८ कालिका, मेघपङ्क्ति
- कालियावाअ ४६ १ कालिकागत hurricane
- कावंचुय ११८ २, २२१ १६ पक्षिविशेष, काक (D 2 29) कार्मिजुली
- किकिय २९ १०, ३८ १३, १४१ १५, १४२ १३, १५९ २, १७३ ३, शुक्र, घवल (D 2 31)
- किलिकिलित ९३ १ squabbling (monkeys)
- कीला ४६ १६ ज्वाला
- कोला २११ २५ स्त्री, नववधू
- कुक्कु २०३ ३२ अग्नि (?)
- कुचल १५७ १२ कुड्मल
- कुडिच्छ ७६ १, १३६ २३, १८६ ९, २०० ७ कुडीर, कुटी a hut, a cottage (D 2 61)
- कुडि लग्ग १८३ ९ one who is on the trail (D. 2 62, DMP 871)
- कुंड १०१ २४ cripple, maimed (DMP 872)
- कुंड १२० २ (Perhaps for कुट) हस्तहीन, वामन
- \*कुंधर १८४ २२ (v 1 कुडुर) मत्स्य, लघुमत्स्य
- कुप्पाअ ९० १९ चोलाक a blouse
- कुलीर ८६ १९ कर्क
- कुल्लूरिय १६५ ६ कान्दविक baker, confectioner, (D 2 41, DMP 875)
- कुवल्लय १८७ १४ चदर
- कुसुमाल १६० १४ चोर (D, 2 10, DMP 879)
- कुसूल १४२ १२ कुशल, धान्यकोष्ठ
- कुहणी २०४ १ रथ्या a street, road (D 2 62, DMP 880 and 881)
- कुहाडय १९४, २९ कुठार
- केवइय ९६ २२ कियत्
- ✓कोक्क ५६ १ ✓आहे
- कोट्टा १२५ ५, २१० १० ग्रीवा, प्राकार
- कोड्ड १७ १५, १०९ १४ कौतुक, longing, yearning (D 2 33, DMP 888)
- कोड्डिअ ८ २१ कौतुकयुक्त, कुतूहलिन yearning, longing (D 2 33, DMP 888)
- कोड्डी २२२ ३, कौतुकयुक्त
- कोहाल १८६ १३ a pickaxe
- कोसकरिय १०४ २५ कोशक्रिया, कोशपान committing suicide with a sword-thrust
- कोसल्लिय १०७ २६ प्राप्त a gift, a present (D 2 12)
- खइय ९६ १६ खादित
- खग ८७ १६ वाण
- ✓खकार ११४ १९ to make coughing sound
- खड १२० २४ तृण (D 2 67, DMP 1326 - खडमासी = 'grass-eater')
- खडडडरव ९ ६ thundering sound (of clouds)
- खड्डा १२० ३, १८१ १६ गर्त a pit, ditch
- खणी ८१ १९ आकर a mine

- खत्त १११ २९ खात्र digging an opening for robbing (Gujarati खातर)
- खन्नघाइ ११९ २४ one who believes getting rich by digging out precious stones from mines
- खमा ८८ १३ पृथ्वी
- खलियारिय ५५ २७ कदर्थित
- खल्ल ४१ १३, १३१ ११ रिक्त hollow (Gujarati खाल)
- खल्लय ९२ १९-२०, ९२ २० गुच्छक pocket
- खल्लाड २१७ २८ खल्लाट bald headed
- खल्लु १८६ १० ringworn
- खाइ ७४ १९, ९१ ११ आगमिकभाषाया त्त खल्ल इत्यर्थ a particle in the sense of then (H 4 424)
- खिल ४५ १४ ऊपर, अकृष्ट
- √खिल १३६ १७ २११ ३ निन्द to censure to blame
- खुडिय १२१ १७ वृष्टित
- √खुडक २० २१, ४८ १८ to rankle (H 4 395)
- खुत्त ४८ १८ निमग्न stuck (in the mud etc) (H 4 10', DMP 697)
- खेडंन १४३ १७ hunting
- खेडय १२६ २१ अग्रहार (')
- √खेल्ल ५६ २, १२० २९ क्रीड
- खेल्लणय ८ २२ क्रीडनक a toy
- \*खोट्टिदा ९२ २४ कुट्टिनी
- खोडय ११४ ७ wooden fetters (DMP 13 93 खोटक = fetters)
- खोल ३५ १४ लघु, तुच्छ (Gujarati खोलकुं young one of a donkey)
- \*गोज ३० ७, ९२ १२ (v 1 गुज) यव barley (D 2 81)
- √गंज १९४ ३० to overpower
- गड्डा २२ १८ गर्त a pit, a ditch (H 1 35)
- गंडीव ८७ ४ धनुष् (D 2 84)
- गद्गम्भ ५ १६, १२२ १७ कर्णकट्ट ध्वनि (D. 2 82)
- गद्दहिला १६४ १९ (?) yoking pin? (cf PSM गत्त)
- गंतिया १४ ६-७ गत्रिका a cart
- गधिल्ली ९० २७ छाया shade
- गधेल्ली १७७ १९, २११ १९ छाया shade (D 2 100)
- गरुड ८९ १६ ब्रह्मिमेद a kind of rice
- गलत्थ ४७ ३१ प्रस्त caught
- गल्ल ८६ १९, १३१ ११ कपोल
- गन्धिय १४६ १५ कथित
- गहकल्लोल ४७ ३१ राहु (D 2 86)
- गहनाह ३८ ८ प्रहनाथ, चन्द्र
- \*गहर ७० २७ गृध्र a vulture (D 2 86)
- गहिल्ल १४८ १२ possessed by unreasonably strong predilection (DMP. 4 73) (cf Guj घेलो)
- गामउड १२४ १६ ग्रामप्रधान the headman of a village (D 2 86) (Kannada गाउड, गौडा)
- गामगोह २० २० ग्रामप्रधान the headman of a village (D 2 89)
- गामेल्ल २० २२ ग्रामीण a village boor
- गिट्टि ४५ १०, १३३ २० गृष्टि, सकृत् प्रसूता गौ a cow which has calved once only
- गुंज १५७ ११ गुजन
- गुडिय १४६ ११ armoured
- गुणलयणीअ १७६ २८ a tent
- गुंदि १०४ २१ लुम्बी, मजरी a cluster, a bunch (cf DMP 752 गौद v 1 गौदि='a cluster or bunch of blossoms' cf D 2 95 गौडी=मजरी)
- गुमुगुमत ६३ ८ sounding of tabors (महल)
- गुम्म १९२ ४ २१५ १७ (v 1 गुव) गुल्म, गहन thicket, wildness
- गुलिया ११२ २० गुटिका
- गुलुगुलंत ९१ २७ grunting (of elephants)
- गोज ८० २ a musician
- गोदहिल्ल १४३ ४ (v 1 गोदहिल्ल) नागरिक
- गोस २३ २७, ५१ १८, ८४ २५, २१३ १ प्रभात, प्रातःकाल D. 2 69, DMP 914)
- गोसग २६ ४ प्रभात (D 2 96)
- घग्घर २४ २९ choked hoarse (voice)
- घंघल १२८ १६ संकट adversity, trouble (H 4 422, DMP 918)
- घण ५८ ८ बहु
- घणघणारव ८ १७, १४० २८ rattling sound (of chariot-wheels)
- घयपुन्न १२ ७ मिष्टान्नविशेष Guj घेवर a kind of sweetmeat (DMP 62)
- घरट्ट १०५ १४, २०८ १६ ४ grinding stone
- घरुल्लय १८७ १३ a small toy-house

घाडेह्य ४४ १३ बन्धनच्युत  
 घारिअ ४९ २८, ५४ १ sleepy due  
 to the effect of poison  
 or intoxicants  
 घुरुक १९२ १८ roar (of a tiger)  
 घुरुघुरुघुरंत ५ २७ growling (w  
 r to tiger)  
 घुसिण १९१ ७ घुसण, चन्दन  
 घोळंत १३३ ८ घूणमान  
 घोलिय ११६ २२ mingled or mixed  
 in the form of salve  
 (Gujarati घोळ्यु)  
 चउहट्ट २०७ ७ [चतुहट्ट] a city-  
 square  
 चक्यर २०९ ३१ मिथुक beggar  
 चक्युरकखणा ६९ १० लज्जा  
 चंगत्तण ८५ १३ चारुव  
 चगिमा ५ ६, ५ १२ चारुव  
 (D 3 1, DMP 929)  
 चच्चिक ८१ १९ मण्डित adorned  
 (D 3 4)  
 चच्चिकिय ७ १३, २०१ २६, २२१  
 २३ भूषित adorned (D 3  
 4 H 2 174)  
 घट्ट १३९ ९ छात्र  
 चट्टो ३२ १२ चाट इति लोकभाषायाम् (?)  
 चडका १६३, २१६ ८ विद्युत् lightning  
 चडण्डंत १४ १९, ५० २५, ९४  
 ३२, १४५ २९ wriggling,  
 writhing  
 चडयर १२१ ७ आडम्बर pomp,  
 parapharnelia  
 चडयर २०८ १३ समूह  
 चन्ता १२९ १३ तर्कु spindle (D 3 1)  
 चंद ४ २२ [चन्द्र] सुवर्ण  
 चंदुजय ३१ ४ कुमुद (D 3 4  
 चदोजय=कुमुद)  
 चदोयय ९ २५ a canopy  
 (DMP 330 चदोव)

चफ्ल १०७ ४ मिथ्याभाषो a liar  
 (D. 3 20, H 3 38)  
 चफ्लिय १६ १३ a liar (D 3  
 20 चफ्लय=मिथ्याभाषो)  
 ✓चमढ ८८ २५ भक्ष to eat  
 चमढणा ६३ १९, ७६ ४ भोजन ।  
 भुक्तिधात्वादशोऽप्ययमत्र लक्षणया  
 कदर्शनया वर्तते ।  
 चम्मचिडय १३४ २० a bat (bird)  
 cf (Gujarati चामाचिड्युं)  
 चरड १९३ १६ [चरट] चोर  
 चहुट्ट ४९ १७, ६२ २३ ८५, २१,  
 १०५ ८ निमग्न, लीन immersed  
 (D 3 2) (cf DMP 960  
 ✓चहुट्ट=to stick to)  
 चाउजायम ११ ८ [चतुर्जातक] 'त्वगेला  
 पत्रकैस्तुल्यैस्त्रिसुगन्धं त्रिजातकम् ।  
 नागकेसरसयुक्तं चतुर्जातकमुच्यते ।'  
 चाउल १८१ २८ तन्दुल rice (D 3  
 8) cf Hindi चावल  
 चिकण ८६ ९ greasy, sticky  
 चिकखल ८६ ९ कर्दम पक mud,  
 mire (D 3 11, DMP  
 948, 949 and 950)  
 चिच्चि १८ ३, ११९ ९, १६१ २९,  
 १७९ १४ वहि (D 3 10,  
 DMP 754)  
 चिचइय १५२ ८, १७३ ३ मण्डित  
 adorned  
 चिचिवर ३६ ९ flat-nosed cf  
 (D 3 9 चिच्चो=चिपिटनास)  
 चिरण्ह ७३ २८ late in the day  
 [यथा 'मज्झण्ह']  
 चुडिय १३१ १६ rotten (cf PSM  
 चुडण=rotting)  
 चूडय १३८ १२ bracelet (D 3  
 18 चूड=बाहुभूषण, षलयावली)  
 चोक्ख ५२ २५ शुद्ध, पवित्र

चोज ४ २७, २० १८, ४१ ११  
 आश्चय, अद्भुत a wonder,  
 a miracle (D 3 11,  
 DMP. 952)  
 चोड ७ १३ चोल, कसुक  
 चोडय १९० २५ चोलय robe ?  
 (PSM चोलय=कवच, चोल=वल्ल)  
 चोरका ११५ ४ चौय  
 छहरल २२२ ७ विदग्ध (D 3 24  
 DMP 479),  
 छड्डण १२३ १८ छर्दन giving up,  
 abandoning  
 छणिज्जत ११५ १८ constantly  
 subjected to nagging  
 छप्पन्न २०० ६ विदग्ध  
 छप्पन्नय ८९ ६ विदग्ध "षट्शर्थेषु  
 प्रज्ञा-प्रकृष्टविज्ञानयेषां ते षट्प्रज्ञा-  
 विदग्धा, तथा चोक्खम्- 'घम्मे १  
 अर्ये २ कामे ३ मोक्खे ४ लोए ५  
 य लोयजत्तासु ६ । छासु इमेसु  
 जेषि पक्षा ते हुति छप्पन्ना ॥' इति"  
 छप्पन्नय ११७ ३० शृङ्गागयाकोश-  
 विशेष ।  
 छाहल ६० ९ प्रवीर (cf छाया=छान्ति,  
 D 3 49 जोहल=प्रवीर)  
 छाभोयर ५ २१ बुभुक्षितोदर with  
 empty belly (of D. 3  
 33-छाओ-बुभुक्षित, कृश,  
 DMP 568)  
 छाय ७५ १४ बुभुक्षित hungry  
 (D 3 33)  
 छिक २०० १६ स्पृष्ट D 3 36)  
 छिछई १८ ७ स्त्रीणि (D 3 36,  
 H 2 174, DMP 970)  
 छित्त ११२ २३ स्पृष्ट (H 4 182,  
 DMP 973)  
 छिप्प ९८ २०, १६० ३ पुच्छ  
 (D 3 36)  
 छिप्पह १४७ २९ स्पृश्यते (D. 3 37,  
 DMP 973)

छिन्नमाण १०६ २९ स्पृशत्  
 छुञ्जत ४० २२ being pounded  
 √ छुद् ५० १४ to be free  
 छुद् १२१ २६ मुक्त  
 छुत् २१ १९ स्पृष्ट  
 छुत्ति २३ ४ अस्पृश्यस्य स्पर्शनम्  
 छुद्दीर ७ २ चन्द्र (D 3 38,  
 DMP 337)  
 छुद्दीर १३१ २८ बालक, शिशु  
 (D 3 38)  
 छूढ ३८ २३ क्षिप्त  
 छेभ १७ २७ [छेद] हानि  
 छोइया २१ ३० kind of sugarcane  
 छोहिअ ६७ १३ defeated in  
 gambling  
 जगडण १९७ २ harassment  
 जणगम २१ १७, १०१ २३ मातंग,  
 चाण्डाल  
 जन्नावास ९ २० (जानीवास G resi-  
 dential quarters given to  
 bridegroom's party  
 \*जपेच्छय ४८ २८ १०६ २८ यत्प्रेक्षक।  
 ज चिय पिच्छइ त चिय इच्छइ  
 जपेच्छओ हु सो भणिओ (D 3 44)  
 जवाल २१२ १ कर्म  
 जल २१४ ६ a rope dancer  
 जाउडं ९६ २९, ९६ ३० मन्त्रादिक्रम  
 कार्यम्, jugglery  
 जुडिय ४० १९ joined together  
 जुयगेहकरण १९ २१ establishing  
 a separate household  
 (separating from a joint  
 family)  
 जूरति ११७ २६ (v l झरति)  
 pining for  
 जोइय ५४ ३, ७६ ३ प्रदीप  
 (D 3 49)  
 जोकार १० २८ जयकार greeting

जोड १६९ १९ युगल, a pair  
 जोडिय ९४ २६ folded, joined  
 √ जोय ५१ १० दृश् to see  
 \*जोय ३ १९ चन्द्र (D 3 48, DMP  
 984)  
 √ झड ४८ १३ to drop down,  
 to fall off, to shed  
 (H 4 130)  
 झडप्पा १२८ १४ seizure, capture  
 झपिअ १४५ ११ आच्छादित covered  
 over  
 झलली २८ १ बाढी वृत्ति hedge  
 \*झामरय २१६ ८ वृद्ध aged, old  
 (D 3 57)  
 झामल २५ ८, १९१ १८ a kind  
 of disease of the eyes  
 cf. Gujarati झामरो (cf.  
 PSM झामल)  
 झामिअ ८५ १९ दग्ध burnt  
 (D 3 56)  
 झिखण १०९ ३१ irritable, angry  
 झुडुक्किय १७२ २० (v l झुडुक्किय)  
 दग्ध burnt  
 झूरत १२० २ खिद्यमान (H 4  
 132 जूरइ=खिद्यते)  
 टंक १२१ १७ शिखर peak, summit  
 टंका १३१ १७ जषा ((Hindi टाग)  
 टमालिओ ९६ २० कौतुकैन्द्रजालादिकर्ता  
 टार ४१ ३० अघमाश्व (Gujarati टारडु)  
 टालिति १७९ १ evading (Hindi  
 टालना, Gujarati टालवु)  
 टिविडिकिय १० २, २१ १५, ३०  
 ९ ३३ २, ६० ५, ६४ २५,  
 ७० १२, १०३ ११, १७७ २  
 मण्डित, भूषित, decorated,  
 embellished (H. 4 115)  
 टोल १२३ १२ residential quarters  
 (cf Hindi टोला)  
 डक ५२ २८ दष्ट, bitten (by snake)  
 (H 2 2, DMP 532)

डका ६ ७, ८३ ५ वाद्यविशेष a kind  
 of drum  
 डालय १३९ २२ शाखा a branch  
 डिडीर ८ १८ फेन  
 हुंष ६८ २७ श्वपच (D 4 11, DMP  
 760)  
 डोडु २०८ ३०, २१० १२, डोडुय १०६  
 २७ ब्राह्मण, विप्र (a deroga-  
 tory term) (DMP 759)  
 डका ६ ७, ८३ ५ a kind of large  
 drum, a kettledrum (DMP  
 662)  
 डक १९४ १७ वायस (D 4 13)  
 डंढर १२७ ११ पिशाच (D 4 16)  
 डयर १०७ ८, १२७ २ (fem पिशाच,  
 डयरि (fem) ७८ १२ (D 4 16)  
 डलत ५७ १४ (v l डलत) bending,  
 inclining (DMP 1018)  
 डसर १४० ५, १५१ २४ भ्रान्तवचन ?  
 भ्रान्ति ?  
 डालण १४१ १४ dropping down,  
 spreading  
 √ डुक ५६ १ to approach  
 णासीर १३८ २१ [नासीर] कटक  
 णेसरी १२५ ९ १५० १५ रवि sun  
 (cf D 4 44 and DMP  
 761 णेसर=सूर्य)  
 तकोडिण २११ २९ तार्किक ?  
 तडयडारव १८२ २६ sound of  
 breaking bamboos  
 तडयडतडुडडा २०४ ५ sound of  
 bursting (bamboos due  
 to fire)  
 तत्ति ९ १७, १२० ६ चिन्ता anxious  
 thought, entire devotion  
 to a thing concerned  
 (D 5 20, DMP 1050)  
 तत्तिल ६२ २६ तत्पर e-grossed  
 in, devoted to (D 5 3,  
 DMP 1052)

तमालवृक्ष ६६ ५ तमालपत्र, तिलक  
 \*तंबटंकारि ९२ १२ शेफालिका  
 a kind of flowering shrub  
 (D 5 4 तंबटकारी)  
 तरट्टि ८० ३ १०५ १४, २१४ १७  
 प्रगल्भा स्त्री, प्रौटा नायिका  
 तरवारि ३२ १८, १०७ १० a sword  
 (Gujarati तरवार)  
 तलघर २११ १९ city-guard, town  
 watchman (D 5 3, DMP.  
 764 and 765)  
 तल्लिच्छ २९ ४ तत्पर closely in-  
 tent on, eagerly engaged  
 in (D 5 3)  
 तल्लोवेहि ८ १३ अनवरत पार्श्वपरि-  
 वर्तनम् wriggling, writhing  
 तल्लेळं २११ १ तदा at that time,  
 then cf Konkani ताव्वाळि  
 'then', 'at that time'  
 तसरी ८९ २४ a kind of silk  
 (D. 1 205 टसरो)  
 तारुय ५८ २३ a swimmer  
 तालयं दा १०९ २० [तालक √दा]  
 to lock  
 तालघेंट २१५ ८ (तालघृन्त) व्यजन  
 a fan  
 तिक्ख ८१ ७ [तीक्ष्ण] agile, spirited  
 तिह्वा २१२ २४ सेवा  
 तिलपिज ९७ १६, १३६ २० dry  
 stock of sesamum plant  
 तिलमय ४५ १३ [तिलमय] स्नेहमय  
 तुज्जत १४६ ९ तुद्यमान being  
 pierced  
 तुन्नाग ८१ ९ तुन्नावाय तन्तुवाय  
 a weaver  
 तोखार ८१ ७ अश्व a horse from  
 TokhariStan (PSM तोखार,  
 तुखार, Old Gujarati तोखार)  
 तोडी १४६ ९ त्राटि, चंचु  
 थक ४३ २७ स्थित

थक ५० ३, ६९ ८ अवसर oppor-  
 tunity, the right time  
 (D 5 24)  
 थट्ट ६ ६ ४० २२, ५७ ५ ६९ ११,  
 ८७ ९, १०८ २२ समूह a  
 troop, multitude (DMP  
 766)  
 थड्डिम १८३ ९ arrogance (from  
 थड्ड=स्तब्ध)  
 थेरो ३७ २२, १३० ११ [स्थार] ब्रह्मा  
 थोहरि १०१ २१ a thorny shrub  
 (cf Hindi थहर)  
 थंतुलि २११ २६ a small tooth  
 (diminutive from दत)  
 थय ३८ १५ दक जल water  
 थरिय ३० १२, १०८ २३ दृष्ट  
 थरिय १९० २५ भीत frightened  
 √दलवट्ट १६८ १३ to crush, to  
 pound (DMP 1077)  
 थंसण १०३ ३१ दशन, तनुत्र armour  
 दीहनिहा ७० ३०, १२० ५ दीर्घनिद्रा,  
 मरण death  
 दीहपिह १०७ १४ दीर्घपृष्ठ, सर्प  
 \*दुक्कुह ८२ २४ असहन jealous,  
 envious (D 5 44)  
 दुक्खासिया १५९ १८ दुखासिका  
 discomfort  
 दुगुल ९९ ४ दुकूल (H 1 129)  
 दुच्चवण १३८ २१ दुर्मणित speaking  
 evil (H 4 2 चव=कर)  
 दुत्तडी ९३ २९ दुस्तटी, दुष्टनदी  
 a forceful, dangerous  
 river  
 दुत्ति २४ २, ८४ १३, ९४ ११,  
 १०६ २४ १०८ २४ १२१  
 २७ शीघ्रम् soon (=दवत्ति,  
 दव=द्वव=वेग, ति=इति)  
 दुमिय ९ १५ १०५ ५ धवलित  
 दुरेह १०४ १४ द्विरेफ a bee

दुल्लिय ११८ १९ [दुल्लित] son  
 (Hindi दुलारा)  
 दुव्वाइय १३१ १६ शुष्क? दुर्वातेपहत?  
 देसिय १५९ २१ पथिक, प्रवासिन्  
 देहिणि ५८ ९ (v 1 देहिणि) ददम  
 mud, mire (D 5 48,  
 DMP 371)  
 दोघट्ट ६ ६ ४० २२, ६२ १७ ८३ ४  
 गज (D 5 44, DMP 1085)  
 दोणय १८९ ४ कुटुम्बी, कर्षक farmer,  
 peasant  
 दोत्तडि ५ २७ दुष्टनदी  
 \*दोस ३ १ अर्ध (in दोसदोसेस=अर्ध-  
 चन्द्र (D 5 56)  
 दोसिय ८१ ११ दौर्घ्यक cloth-  
 merchant  
 धणजय ७० १७ धनजय, अग्नि  
 धणि ३७ १ ध्राणि, तृप्ति  
 धणियं ९ २३, ४१ १२, ७६ २९,  
 ७७ १८ अत्यर्थम्, अत्यन्तम्, गाढम्  
 (D 5 58)  
 धणिया १५१ २० पत्नी (D 5 58)  
 धन्नाइसदाण १०८ ४, १५२ १३  
 आशीर्वाददान  
 धम्म १२३ २२ धनुम्  
 घाडी ५० २, ५० ३ घाटी robbery,  
 (Gujarati घाड)  
 घिज्जाइय १४८ २ [घिज्जातिक] ब्राह्मण,  
 विप्र (a derogatory term)  
 घिसि-घिसि ९३ १९ धिक्धिक्  
 घोउल्लिया ८४ २४, ८५ ५ पुत्रिका,  
 a doll  
 धुणी ५९ १ धुनी, नदी a river  
 धुत्तोरय १६५ १६, २१२ १० the  
 Dhattura plant  
 धुत्तोरिअ ४९ २८ (v 1 धुत्तोरिअ),  
 ७९ ११, १०५ २८, २११ २८  
 suffering from the toxic  
 effect of Dhattura  
 consumption



धेज्जाह १८६ ९ ब्रह्मग, विप्र (See धिज्जाह)  
 धोरण ९ २०, ६६ २८ वाहन  
 नक्षत्रसन्नेमि ८१ १३ नक्षत्रनेमि, विष्णु  
 नडिभ ४९ २१, ८७ १०, २ ९ १०  
 harassed, to mented (D  
 4 18, DMP 1024)  
 नत्था २०८ १७ नासारज्जु a nose-  
 string for controlling an  
 ox (D 4 17, Gujarati  
 नाथ  
 \*नल्लम १५६ ३ कार्य, प्रयोजन (D 4 46  
 नागर ३ १६ २०७ २ शुष्ठी dry  
 ginger  
 नाणावट्ट ७ ७ २ shops of money-  
 lenders (cf Gujarati नाणावट्ट)  
 नामण ८३ १७ नस्य nasal drops  
 नामुकसिय १८ १ ९२४ ८, २१३ १२  
 प्रयोजन, कार्य (D 4 25)  
 नाहल १५ ४ भिल्ल  
 नाहियवाभ १८६ ३० नास्तिकवाद  
 निउरुंथ १०७ २९ १०८ ६ निकुरुम्, समूह  
 निग्घट्ट ६ २३ ११७ २४ १९९ २७  
 अधिक, कुशल, निपुण clever  
 (D 4 34)  
 निचोइय १३१ २५ निश्च्योतित squeezed  
 (cf Gujarati निचोव्युं)  
 निद्दाइ १२० १९ नश्यति  
 निद्दाडि १ १०० ४ निष्कासित thrown  
 out  
 निद्दु ११७ १८ निन्दु a woman  
 giving birth to a still-  
 born child  
 निरिक्क ७९ १२ (v I निरक्क) चोर  
 (D 4 49, DMP 1038)  
 निळाड १५५ ५ (v I निळाल) ललाट  
 निलुक ९५ १०, ११४ १८ प्रच्छन्नीभूत  
 (cf H 4 55 √लुक्=नि+ली,  
 DMP √लुक् to hide,  
 conceal)

निवन्न १८० १९ निपण्ण  
 निसा १० २ निशा, हरिद्रा  
 निसायर १० २ निशाकर, कर्पूर  
 निस्सामन्न १९१ ३० नि सामान्य,  
 असाधारण  
 निहेलण १५ २८, ५० ३, ६६ २०,  
 ९६ ५, १०५ १४ गृहम् abode  
 (D 4 51, DMP 1045)  
 नेत्त २०६ १८ नेत्र, वल्लविशेष  
 नेलंछण ११७ १९, ११८ २९ नपुसक  
 (cf D 4 44 गेल्लच्छ=नपुसक)  
 पइगिक्क ६५ १५, १२५ १५ एकात,  
 विविक्त विजन (D 6 71)  
 पप ८४ २६ प्रगे, प्रमाते  
 \*पक्क ९५ १० दर्पयुक्त (D 6 64)  
 पक्कल ८७ १३ (v I पक्कल) समर्थ  
 competent, able, capable  
 (DMP 493, cf D 6 9  
 पक्कल=समर्थ)  
 पक्खरिय १४६ ११ saddled (D 6  
 10 पक्खर=अश्वसन्नाह)  
 पक्खुलिया १२५ १७ पार्श्ववर्तिनी अनु-  
 चरी, चेटी  
 पक्कल ८० ११, ८६ २१, १२७ ३०  
 समर्थ competent, capable  
 (D, 6 69)  
 पक्कालिय २११ २६ This stands  
 for पक्कालिय=प्लावित (H 4 41)  
 पक्कोणि ९ १७ अभिमुखागमन com-  
 ing face to face (D 6 24  
 पक्कोवणी=समुखागमनम्)  
 पडहच्छ २७ १०, ३३ २८ परिपूर्ण full  
 पडहत्थ ४८ ६, ५७ १३, ९८ १३  
 पूर्ण full  
 पडसुभा २०८ २७ प्रतिश्रुत, प्रतिशब्द  
 echo  
 पडिच्छद ६० ६ प्रतिच्छन्द, चित्रपट्टिका  
 पडिज्जय १० १९ बिसर्जक, आनायक  
 पडिहत्थ १२१ ५, १२५ १९ पट्ट

पणामिय १०४ २५ दत्त, अर्पित  
 पत्तट्ट ११७ २४ बहुशिक्षित (D 6 68)  
 पत्तल ११४ १८ पत्रल leafy  
 पत्तलि २०१ २५ a leaf-plate on  
 which meals are served  
 (Guj पातळ)  
 पम्हुट्ट ५६ २३, ५६ ३१ २०४ ४  
 विस्मृत (H 4 258)  
 पम्हुसण १८ १ विस्मरण (H 4 75)  
 परिसक्किर १४१ १ moving (from  
 परिसक्क=परिष्क)  
 परिहत्थ १७२ १३ (v I परिहच्छ) दक्ष  
 पठीवण २०३ ३१ प्रदीपन fire which  
 breaks out in a house etc  
 (Gujarati पठेवणु)  
 पल्लट्ट १९ १८ पर्यस्त changed,  
 transformed, reversed  
 undesirably  
 पल्लुसण ८६ ९ पतन, पल्लुसिभ २२  
 १८ पतित  
 पहयर १०१ १६ समूह a collection  
 (D. 6 15)  
 पहिडिभ १८२ ३२ भ्रान्त  
 पहेणय १५८ २४ लाहणय (=Gujarati  
 लहाणु) sweets etc presented  
 to relatives on a festive  
 occasion  
 पसंडि २०६ १० सुवर्ण gold (D 6  
 10, DMP 768)  
 पख ८ ७ पक्ष wing (Guj पाख,  
 Hindi पख)  
 पखउलिग १८४ १६ पचकुलिक the  
 panchayat  
 पाडम ६० ५ पाटक residential  
 sector of a city (Gujarati  
 पाडा or वाडा)  
 पामर ८९ १७ कृषीवल, कर्षक  
 पायमूल ६३ ८ नर्तकजातिविशेष

- पायाल ४० २३ पदाति समूह  
 पारङ्गि ६५ ३०, १०१ २७ सुगया hunting (H 1 235)  
 पिउच्छा ८४ २ पितृवसा father's sister  
 पिउली १२९ १३ रतलतिका a roll of cotton used for spinning (रुत=रुम cotton D 7 9) (D 678) (पूणी, पूणिया-भाषा, cf Gujarati पूणी)  
 पिच ९ ६, २७ १९, १२७ ३१ जलम् water (D 46, DMP 1352)  
 पियमाहरी ३० १६ कोकिला the female cuckoo (D 6 51, DMP 395 and 396)  
 पिसल्ल १४ ३० पिनाच (H 1 193, DMP 498)  
 \*पीड १२३ २२ तुरग horse (D 6 51)  
 पुयाइ १०८ १७ (v 1 भूयाइ) पिनाच (D 6 80)  
 पुर ७८ १० (for पुर) प्रचुर  
 पुरिल्ल ४ २, २०० १४ प्रवर, यष्ट foremost, excellent (D 6 53)  
 पुट्टि ८७ २९, ११७ १४, १६० ९ व्याघ्र a tiger (D 6 79, DMP 772)  
 पुडगीय १८४ २३ पुडरीक, जलव्याघ्र (DMP 1016)  
 पेडा ९४ २० पेटा, मञ्जुषा a box  
 पेयवइ ४८ २० प्रेवति, यम God of Death  
 पोका ६, ६, १६ ४, ८७ ८ a shout, a scream (Gujarati पोका)  
 पोक्किय ९४ २१ पूकृत screamed  
 पोड्ड २१३ २९ उदर the belly, the stomach (D 6 60, DMP. 773)  
 पोली १०९ २० प्रताली a gate  
 फसलाइजंन १९१ ७ (v 1 फेसलाइ-जत) कर्तुरेत variegated (D 6 87 फसल=सार)  
 फाइ १२९ १२ स्फाति expansion  
 फुका १५० २९ blowing with mouth (Hindi फूक, Marathi फुक्णे)  
 फुल्लय ११२ १३ a kind of disease of the eyes (Gujarati फुल्ल)  
 फुल्लधुभ ८५ ९, २ ३ ४ प्रमर, (D 6 85, DMP 156, 157, 158)  
 फुकुमा ४८ २१, १६३ २० कुकूलानि (D 6 84)  
 फेलिय ४७ ६ उच्छिष्टरत्य (वान्य) (cf PSM फेला=उच्छिष्ट)  
 वद १११ २९. captive for ransom (cf Gujarati वाग)  
 वपीहय ८ १२, ७२ ४ १९३ २३ चातक a kind of bird which is supposed to drink only rain-drops (D 6 90 DMP 1133)  
 वलामोडी ७३ २८, १२० २५ वलात्कार force, violence (D 6 92)  
 वलिपुट्ट ८४ ६ बलिपुष्ट, काक  
 वलिमड्डा ४० ५ १३४ १० force, violence (DMP 161)  
 वलीमुह १५९ २८ १८२ २६ वानर monkey (DMP 1225 वलिमुह)  
 वाइगा ९६ १५ ९६ १७, ९६ २९ कुट्टिनी, वेश्यामाता  
 वालेय १९६ २६ a donkey  
 बुक ८३ ६ वाद्यविशेष (DMP 13-5)  
 बुकार ८८ ३ (v 1. बुकार) cry of monkeys (DMP 698)  
 वेडा ४६ १३ वेडिया ४६ १२, ४६ १४ नौका boat ship  
 वोल २०८ २६ कोलाफल uproar  
 वोह्ल १२१ ५ वचन  
 भगुडिय १५७ ११ उध्वूलित covered over with dust (cf PSM भुरडिय, भुरकुडिअ, भुरहुडिअ)  
 भत्या २१२ १ भत्ता a leather-bag (cf Gujarati भाथो)  
 √भमड १५८ ५ (v 1 for √भड) to wander  
 भलावण ७५ १ entrusting, recommending, भलाविअ १३७ २, १९४ २ entrusted to some one's care (cf Gujarati भलावयु)  
 भसण १९४ २० [भपण] धान a dog  
 भसल १ ४ २०, १८७ १० प्रमर  
 √भड १५८ ५ (v 1 √भमड) to quarrel  
 भंडवकर १८३ २९ भाण्डोपस्कर stock of wares or merchandise  
 भिभल १४० २७-२८ विद्वल  
 भुरुह ८५ २१ a type of thorny shrub  
 भुल्ल १९५ १७ gone astray (DMP 1146)  
 भेखस ९५ २० a superior giant (coined from रक्खम)  
 मक्खण १३५ १५ नवनीत butter (Gujarati माखण)  
 मंखु १२३ १८ मक्षु quickly  
 मडफर ६० २०, ८७ १, १४६ १८, १७२ १६ मिथ्यागर्व false pride, vanity (D 6 120, DMP. 1153)  
 मडह २७ २३, १२५ ११ लघु (D 6 117, DMP 1155)

मह्वा ५० १७, ५३ ७, १८५ १४ बला-  
त्कार force, violence (D 6  
140 DMP 409, 410)

मड्डि १९९ २४ मढी market-place?

मढिगा १५७ १७, मढिया ९४ ८१, ९४  
२४, ९४ २६ मठिका, कुटीर a  
hut (Gujarati मढी)

मत्तवारण ३ १६ a balcony

मथर २०९ १८ वक्र, कुटिल (D 6 145)

मथर ८ ११ बहल (D 6 145)

मद्राग २ २० (१) मन्द-राग  
(२) मन्दर-अग (=अद्रि)

मम्मण ३१ १५, १९१ २० मन्मय

मयण ७६ १, ८१ ८, १९२ १३ सिक्थ,  
bee's wax (Gujarati मीण)

मयहरिगा ९७ ५ वेश्यामाता, कुट्टिनो  
(cf PSM मयहरिगा)

मयार्यती ७१ १ मृतमिवाचरती, मृतावस्था-  
बुल्या

मरट्ट ६० २० १०५ १४, २१४ १७  
दर्ष, गर्व false pride, arrogance  
(D 6 120, DMP 1163)

मलहर ८५ २५, १४५ ९, २१३ १७  
कोलाहल uproar (D 6 120)

मह १० २ उत्सव

महण १३९ १ पूजक

√महमह १०४ २२ to give out  
or waft fragrance (H 4  
78, H 1 146, DMP 1168,  
1169)

मा १८९ ११ लक्ष्मी goddess of  
wealth (DMP 1170)

माउच्छा १९४ ११, १९७ ८, १९७ २५,  
१९८ ८ मातृवशा mother's  
sister (H 2 142)

मामि १५९ ८ अर्घ

मायण्हया ५१ २२ मृगतृष्णिका a  
mirage

माळूर ६ ५ बिल्वफल, कपित्थ wood--  
apple (D 6 30, DMP  
1174)

मिढ ९९ १९ मेण्ठ, हस्तिपक

मित्तल ४९ २३ ९२ १० कन्दर्प, मन्मय  
God of love (D 6 126)

मिहुणिगा ८४ २ मातृवश्लोया भगिनी  
mother's sister's daughter  
(D 6 148)

मीण ९४ ५ सिक्थ, bee's wax (Guj-  
arati मीण)

मीलय ८६ १७ a gathering

मुसुंदि २१६ २७ अस्त्रविशेष an iron  
club, a kind of weapon  
(DMP 1178, 1179 and  
11९0)

मेहणी २०७ १२ मेदिनी, चाण्डालिनी

√मेळ १२० २१ मुच् to give up,  
abandon (H 4 91, DMP.  
554)

मोरकुलाप ८४ १०, १९७ ६ मुधा,  
व्यर्थम् in vain (H 2 214,  
D 6 140 मोरबल्ला=मुधा)

रंरंती ३८ ७ मृश रममाणा

रक्खाकडय १३८ १६ an amulet

रणणंत ४ ३ tinkling (w r to  
bell.) (DMP 709)

रणरणअ ६७ ६, १०१ १४ लटकण्ठा  
longing yearning (D 1 136)

रल ८७ २८ अरण्य a forest, wilder-  
ness (H 1 ६6) (Gujarati  
रान)

रलिया १५६ २० अभिलापा (Old  
Gujarati रली)

रवण ३३ १ वट्ट

रसवह १२० ६ रसवती a kitchen

रसाअ ९८ २६ अमर a bee (D 7 2)

\*रायंयुय १४६ १, १७७ १३ शरभ  
(D 7 14)

रायवाडिय ९८ ९ राजवाटिका official  
royal procession towards  
the royal garden

रारडंत २११ १ screaming

राहा ८ २८, ११ १६ जोभा

√रिज्ज ५६ ३ (√रिज्ज) to be  
pleased (Gujarati रीज्जुं)

रिळोलि १७ ३, ५९ ७ १४७ ३१, १५५  
४ पक्ति, श्रेणि, a row a line  
(D 7 7, DMP 1360)

रिह १५३ २ अरिष्ट काक a crow  
(D 7 6)

रीरिय १८७ १५ made of brass

रीरिय ११ १४, ७९ २७ भूषित, राजित  
(H. 4 100 √रीर=राज)

रुंदंत ८५ १८ humming

रुटिर ९८ २६ humming

रुंद ५ १६, ३९ ३ विपुल, विस्तीर्ण  
(D 7 14, DMP 1196)

रुलंत १२३ १२ rolling

रुविय ५२ २० अर्क a kind of cotton  
tree (PSM रुवि)

\*रेणी ३९ ३ पक्क mud (D. 7 9)

रेहंत २ २२ शोभमान (H 4 100)

रोज्ज १४२ २५ ऋष्य a white-footed  
antelope (Gujarati रोझ)

रोर १२० २९, १२३ १६, १६४ १७  
अर्किचन, दरिद्र poor (D 7 11)

रोरव १०७ ३० दारिद्रय

रोरसणिया ७७ १८ रङ्गप्राप्ति, दरिद्रा  
ग्राम्यलोका

- रोल ६८ ९, १०७ ३०, १७५ २, २०८-  
२८ कोलाहल uproar, loud  
and confused noise (D 7  
15, DMP 1203) (Gujarati  
रोल)
- लककुड १०९ २० wood (D. 7 19)
- लकवणा १५ ७ लक्षणा, सारसी
- ✓लहृ १०० २४ to prosper?
- लहृ ११७ २४ सुन्दर, मनोज्ञ (D 7 26)
- लडहृ १४० १५ रम्य, सुन्दर, मनोज्ञ  
(DMP 1205)
- लत्ता १३४ १४ पार्श्वप्रहार a kick  
(Gujarati लत)
- लंबुसय १५८ १८ लघुपत्र a kind of  
ornament
- लयणी २३ २४, १०४ २० शाखा
- लल्लक ६ ६, १६ ४, ८७ ८, ९४ ३१  
९५ १७, १८२ २८ भीषण, रौद्र  
fierce, dreadful (DMP.  
1208)
- लल्लि १७९ ४ flattery
- लाड ७ १३ वल्लविशेष
- लौव ७० २८, ८८ २, १९४ २९ २०२  
१४ बाल a child, young  
one (D. 7 22)
- लुवी १४८ ११ स्तम्भक cluster (D 7  
28 Gujarati लूम)
- लूहृ ५९ २२ रुक्ष, अस्तिग्ध
- लक्ष्मण ९५ ११ वक्षार, वक्षस्कार a  
godown for storing  
grains etc
- लगुल १३४ १७ वल्लुलि (Gujarati  
वडवागोल)
- लग १०७ १५ त्रपु
- लघहर ११३ १६, २१० १ वर्चगृह  
latne
- वच्छीपुत्त १४९ ४ नापित barber  
(D. 7 47 वच्छीपुत्त=नापित)
- वज्ज ३४ ७ वर्यं श्रेष्ठ
- ✓वज्जर १५ २५ कथ to tell (H 4  
2, D 6 92, DMP 1216)
- वज्जुल ३५ १२ अशोकवृक्ष
- \*वफिज्जहृ १७१, दश्यते (cf D 7 35  
वफिअ=भुक्त)
- वहु १७ १५ ११८ २६, १०३ १८ महत्  
great (D 7 29, DMP  
1218)
- वहुमा १४६ १७ महत्ता greatness
- \*वणसवाहृ ५२ १५ v1 वगसवाय)  
कोकिला female cuckoo  
(D 7 52)
- वणसुणअ १४३ १७ [वनशुनक] उक
- वंठ १८ २२ मृत्यु, वामन (D 7 83)
- वत्तिणी १०१ २८ मागं
- वडणय १५५ २० वर्धनक celebration
- वंदणमाला ९ २०, १३९ २० hanging  
festons on festive occasions
- वंद्र १५२ २५, २१८ २ वृन्द, समूह  
(H 1 53)
- वमाल २०७ २१ आकीर्ण full of
- वम्मीकूड ८६ ८ वल्मीककूट anthill
- वरभ १३ २७, १३४ १८ वराक
- वरला १३० १ हसिका
- घरालय ८१ ५ वाहनविशेष
- वरुय १५९ २६ वृक wolf
- वल्ल ४५ १३ a kind of bean  
(Gujarati बाल)
- वल्लर ३० ७, ४५ १४, ८३ ९ क्षेत्र,  
वालकायुक्त क्षेत्र (D 7 86)
- वहियवड १९ १० वहिकापट an  
account book
- वहिया २० ७ वहिका account book
- वारिज्ज ४५ २५, ६३ ४, ७४ ३०  
विवाह marriage (D 7 55)
- वारेज्ज १०८ १ (v1 वारिज्ज), १७४  
१०, २१८ १५ विवाह marriage  
(D. 7 55)
- वालिया ३ १५ कर्णभरण (Kannada  
वाले, ring, Gujarati वाली)
- वालुजअ ४५ १२ वर्णक (cf PSM  
वाणुजअ)
- वासिया ६० २० (v 1 वामिया) स्त्री  
lady
- वाहस १९२ २४ अजगर
- वाहियालि १३२ १६ a riding gro-  
und or training ground  
for horses
- वि १६ १ काक
- \*विकखणय २५ २६ ४६ २९, ८४ १५,  
९६ १२ काय (D 7 64)
- विगुत्त १०० २४ harassed
- विगुत्त ८६ १६ to be harassed (D  
7 64, DMP 1226)
- ✓विगोव १९१ २२ to censure  
(Gujarati वगोवृ)
- विच्छहृ १६ २७ २९ १, ३९ १५,  
५७ ३०, ८२ ४, ८४ १ ११६  
२९, ११८ २६ विच्छर्द pomp
- विच्छोलिय ८६ ९ धौत drenched,  
washed away by immer-  
sing in water (DMP 2 23)
- विज्जा १८ २०, ३३ २४ to be  
extinguished (H 2 28)
- विट्टालिअ २० २३, १०६ १ polluted,  
defiled (cf H 4 422 विट्टाल=  
अस्पृश्यसंघर्ग) (DMP 1232)
- विट्टप १२८ १४, १४५ ११, १९९ २६  
राहु (D 7:65, DMP 1233)

- विडिचिय १५७ २८, १६६ १० भीषण, भयकर, (D 7 69)
- विड्डय ८४ ३० ?
- विड्डर ८ २५, २११ ९ unexpected calamity, catastrophe
- विदत्त ४६ २७ अर्जित (H. 4 258)
- वित्त १२९ २४ दोष (D 7 33)
- विद्वयण १०७ १८ विदग्ध वचन, कुटिल-वचन (cf Old Gujarati वेध)
- √ विनड ८९ १ to harass, to torment (D 4 18 DMP 1024 and 1236)
- विनडिअ २१ १६, २०९ ९ harassed, tormented (D 4 18, DMP 1024 and 1236)
- वियज्ज ५१ २६ १५२ १९ परत्त्र, परवश
- वियड्ड १३९ १० विजोषण तड्ड, शीतम् (Gujarati ताडुँ cold)
- वियड्डमायड्डा १९९ २०, २०० १ मित्रपण-माकर्षणम् piling and dragging
- वियरअ २१ २९ a pit dug to draw water when the river or pool dries up (Gujarati वीग्ढो)
- वित्राल १२२ ६ सन्ध्या (D 7 90, H 4 377, DMP 221)
- विलीण ९२ १३, विलीणय ४२ ६ अशुचि, जुगुप्सनीय
- विस १ ३ शृष, धर्म
- विसट्ट १६९ १० विक्रमित
- विसय १३६ १२, १६३ २१ विशद, निर्मल, धवल
- विस्साणिज्जंत १३९ २२ (v 1 रोसा णिज्जंत) being polished (cf. H 4 105 √ रोषण=मृज)
- विहलंघल १४ २ विहल, व्याकुल perturbed, agitated (DMP 1250)
- विहव १५६ ७ विवव, विगतस्वामिक
- वुषण ५० ८ उद्विग्न afflicted (D 7 94)
- √ वेल्ब ८९ ३, १६७ १२ वन् to deceive (H 4 93)
- √ वेल्ड ५६ २ to move sportively
- वेल्डहल ६६ ९, ७५ १४, १०५ २०, १२९ १, १४१ १९ २०७ १७ कोप्रल (D 7 96, DMP 1258)
- वेसत १५९ २८ परवल
- वेसवारा २०७ १ spices used for stuffing vegetables
- वोड्डह १५२ २६ तरुण a young man (D 7 80) (cf D.M.P. 1264 व द्रद' = a young lady)
- वोल १२० २२ वोल a kind of medicinal herb (cf Gujarati हीरावाल)
- वोलिअ ८ ६ व्यतिक्रान्त feared (H. 4 162, D.M.P. 1265)
- सगडिया ११९ ३१ शकटिका a small cart
- सच्छह ३ २, १३१ ८ १३६ २३ सहस्र (D 8 9, DMP 1267)
- सजत्ति ८ २२ (v 1. सजुत्ति), ९ १७ preparation
- सट्टि १८४ १५, a bargain (cf Gujarati साट्टुँ)
- सट्टियकूर १०५ १५ पाष्टिक कूर a type of rice (cf Gujarati साठी चोखा)
- सड्डा १९० १८, २०७ २६ दोहद longing of a pregnant woman (cf Gujarati साधर)
- सन्नुमिय २०९ १६ प्रच्छादित (H 4 21 णुम=छादयुँ)
- सप्पडोद्विय २१० १० fruit of a poisonous plant
- सप्पा ७ १०, १०८ २१ काञ्ची (D 8 2 सपा)
- सप्पासंग २ २२, २१७ ९ दीर्घ (D 8 11 सपासग)
- समइच्छिअ १७३ ९ उल्लिखित (cf H 4 162 अइच्छ=गम्)
- समद्धासिय ५६ १७ समध्यासित अधिष्ठित
- समवत्ति १५ २८ [समवर्तिन्] कृतान्त God of Death
- संबुक्क ८३ ५, १४० १० शम्बूक, शय couch
- सय १४० १० गय, हस्त
- सयगहं १५ ११, ५२ ३० ५४ ३१ ६३ ११, ७२ २९, ८५ १०, ८७ ४, ८८ १६ अंजम् (D 8 11)
- सयंगमडय ७० ८, ७० ९ ८२ २४ ८२ २७ स्वयवरमण्डप
- सरय ७२ १६ सरक, मद्यविजोष
- सरी २ २२ माला, हार a string of necklace (Gujarati सर)
- सलोनत्तण १४४ १७ सलावण्यत्व
- सवड्डमुह ४० १७, ५७ ११, १४६ १४ सम्मुख (D-8 21, DMP 1274)
- संवती ९६ २ सवती, नदी
- संवर १४२ २५ a kind of antelope (Gujarati सावर)
- सा १ ३ १३१ ५ श्री, लक्ष्मी Goddess of wealth (DMP 1278)
- साइ ६ ८, ८६ २० सादिन् अश्ववार
- साडलल १४ २ ६९ ९, ९५ ८ प्रेम, अनुगण (D 8 24)

- सामर्थ्य ८६ ६ पर्यालोच्  
सामिसाल ८६ २२ [ स्वामिशाल ] master  
सारणी २८ २, १७९ १७ कुल्या canal  
(Gujarati मारण)  
साल १९ ६, ३७ १९ शाल, शाखिन् a tree  
साला १०३ ३ सा-युक्ता, लक्ष्मीवती  
(सा=लक्ष्मी)  
साहार ३ १३ साधारण  
साहुल ३७ २०, ६९ २१, १३५ ३०  
सद्य (cf D 8 52 साहुली=  
सद्य)  
साहुलि ६ ५ शाखा (D 8 52)  
सिक्किरिअ २२ १८ (v I सिक्किरिअ)  
कृतशृङ्गारकौतुकी  
सिणि २०८ १७ सणि, अकुश an  
elephant-goad  
सिदि ८० १३ खर्जूरी ((D 8 29)  
सिम ३१ १३ सर्व  
सिम्बली ३१ २० शाल्मलि (H I 146)  
सियवड २८ २७ सितपट, सिड (cf  
Gujarati सड) a sail  
सियविहंग २१४ १० सितविहङ्ग, हस  
सिरिन्दण १९५ २७ श्रीनन्दन, मदन,  
god of love  
सिरिहायइ ११९ १६ श्लाघते (Hindi  
सराहना)  
सिलिव १,९ २५ १४१ १९ बालक a  
child (D 8 30, DMP  
1288)  
सिहिण ४१ १२, ८५ १५, १०५ ९  
[शिखिन्] स्तन (D 8 31, DMP  
454)  
सिहकेसरय १२२ १ मोदकविशेष a  
kind of sweetmeat (cf  
Old Gujarati सिहकेसर)
- सीसम ९ २ शिक्षापा (Gujarati सीसम)  
सुप ९० २ स्व, कल्ये  
सुदिय ४६ १९, ६४ २५, ७६ ४, १९०  
२७ श्रान्त tired, exhausted  
(D 8 35, DMP 1291)  
सुरगोवय १९३ १८ [ सुरगोपक ]  
इन्द्रगोप  
सुनावण २०७ ३ [ सुराण ] देवदृष्ट,  
कुत्रिकापण  
सुलड १८ २२ मनोज्ञ beautiful  
सुदातिया ६० २० सुखासिद्धा comfort,  
ease  
सेडिया १५२ २४ सेटिका white clay  
सेयाल १२६ २८ ग्राम्य  
सेहली ९७ ११ गणिका  
सोडीरया ५६ १० शौडीरता, वीरता  
valour  
सोवणय १९१ २४ bed-room  
(D. 8 58)  
सोहलय ८० ५, १९९ २० (v I छोहलय)  
a festival (Old Gujarati  
सोहलो)  
हक ६ ६ a call, a challenge  
हचलं २७ ८ शीघ्रम् (see हत्य)  
हड्ड १९ १५ अस्थि bone (D 8 59,  
DMP 1301)  
हत्य ६ ९, ३५ ७, ४३ ११,  
८२ २२ शीघ्रम् (D 8 59)  
हदि १८० १२ an interjection  
indicating sorrow or  
decision (D 8 72, H 2 180)  
हरियक्ख ३० १२ हयैक्ष, केसरी
- हरियस्स १६१ १६ [ हर्यश्च ] the sun  
हरियदण १० १ [ हरिचन्दन ] कुङ्कुम  
हरियालि ३२ २८ दूर्वा D 8 64)  
हरे ९४ ८ अरे Interjection used  
in addressing (H 2 20)  
हलबोल ३५ ३१, १२२ १७, १६३  
२६ कोलाहल tumult, uproar  
(D 8 64, DMP 1302)  
हलहलाराव ८ २४ कोलाहल tumult,  
uproar (D 8 74, DMP  
1302)  
हल्लोहल ४१ ३१ confusion, diso der  
\*हाविर ७ ४ दीर्घ long (D 8 75)  
\*हिकास १२६ २२ कर्दम mud, mire  
(D 8 69)  
हिज्जो ६ २९, २० १८, ५४ २८, ७२  
२३, ९९ १९, १८१ २, २१०  
२४ ह्यस्, कल्ये, अतिक्रान्तदिने  
yeseterday (D 8 67)  
\*हिला ६ ५ २६ ४, १२५ ६, १५७  
१२, २११ २९ भुजा  
हीर ९३ २२ शिव (DMP 1307)  
हीला ११७ १७ अवहेलना  
हुहक ६ ७, ८३ ५ a sort of drum  
(DMP 781)  
हुलियं १२ १७, ३८ २४ ४५ १८, १४५  
१८ त्वरितम् (D 8 59)  
हेडावइ १३२ १३ a cattle-merchant  
(cf Hindi हेडाऊ)  
हेडावणिय १३२ १५, १८१ १३ a cattle  
merchant (See हेडावइ)  
(cf Hindi, Gujarati हेडी  
a herd of cattle (or sa'le)  
होद १४९ २१ (?)